


॥ श्रीः ॥

अमरकोशः ।

श्रीमदमरसिंहविरचितः ।



मुरादाबादवास्तव्यश्रीयुतगौडवंशावतंसभोलानाथा-
त्मजपण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकया
शब्दानुक्रमणिकया च समेतः ।



सोऽय

खेमराज श्रीकृष्णदासश्रेष्ठिना
मुम्बय्यां

(खेतवाडी ७ वीं गली खम्बाटा छैन)

स्वक्रीये "श्रीवेङ्कटेश्वर" (स्टीम्)-यन्त्रालये

मुद्रयित्वा प्रकाशितः ।



पौष सवत् १९७०, शके १८३९.

पुनर्मुद्रणादि सर्वाधिकार "श्रीवेङ्कटेश्वर" यन्त्रालयाध्यक्षने

स्वाधीन रक्खा है

श्रीः ।

अमरकोशास्य अकारादिक्रमेण शब्दानुक्रमणिका ।



शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
	अ		अक्षरविन्यास	१४६	१६	अग्रायी	१३६	२१
अ	२७७	११	अक्षवती	१९५	४४	अग्नि	१४	५३
अंश	१८३	८९	अक्षाम्रकीलक	१५३	५६	अग्निकण	१४	५७
अशु	२३	३३	अक्षान्ति	४३	२४	अग्निचित्	१३४	१२
अशुक	१२७	११५	अक्षि	{ १२३	९३	अग्निज्वाला	८८	१२४
अशुमती	८७	११५		{ २९०	२२	अग्नित्रय	१३५	२०
अशुमत्फला	७६	११३	अक्षिकूटक	१५०	३८	अग्निभू	१२	३९
अस	१२०	७८	अक्षिगत	२०५	४५	अग्निमन्थ	७९	६६
अंसल	११३	४४	अक्षीव	{ ७३	३१	अग्निमुखी	७५	४२
अहति	१३७	३०		{ १७५	४१	अग्निशिव	१२९	१२४
अहस्	२८	२३	अक्षोट	७२	२९	अग्निशिखा	{ ८१	११८
अकरणि	२२७	३९	अक्षौहिणी	१५८	८१		{ ९०	१३६
अकूपार	४९	१	अखड	२०९	६५	अग्न्युत्पात	{ २५	१०
अकृष्णकर्मन्	२०५	४६	अखात	५४	२७		{ २३७	५८
	{ ७७	५८	अखिल	२०९	६५	अग्र	{ २०७	५८
	{ १७३	४३	अग	२३१	१९		{ २६३	१८३
अक्ष	{ १८२	८६	अगद	११५	५०	अग्रज	११३	४३
	{ १९५	४५	अगदंकार	११६	५७	अग्रजन्मन्	१३२	४
	{ २६८	२२१	अगम	६८	५	अग्रतःसर	१५६	७२
अक्षत	१७४	४७	अगस्त्य	२१	२०	अग्रतस्	{ २७३	२४६
अक्षदर्शक	१४४	५	अगाध	५२	१५		{ २७६	७
अक्षद्रेविन्	१९५	४३	अगार	६२	५	अग्रमांस	११७	६४
अक्षधूर्त्	१९५	४३						
अक्षर	२६०	१८२	अगुरु	{ ७८	६२	अग्रिय	{ ११३	४३
अक्षरचञ्चु	१४५	१५		{ १२९	१२६		{ २०७	५८
अक्षरचण	१४५	१५	अगुरुर्दिशिषा	{ १२२	१२७	अग्रीय	२०७	५८
				{ ७८	६२	अग्नेदिधिपु	१०९	२३

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
अणु	{ १६९	२०	अतिवक्तृ	२०३	३५	अदर्शन	२२३	२२
	{ २०८	६२	अतिवाद	३६	१४	अदितिनन्दन	७	८
अड	१०३	३७	अतिविषा	८४	९९	अदृश	१७	६१
अडकोश	१२०	७६	अतिबेल	१६	६६	अदृष्ट	१४८	३०
अडज	{ ५२	१७	अतिशक्तिता	१६२	१०२	अदृष्टि	४६	३७
	{ १०२	३३	अतिशय	{ १६	६६	अद्धा	२७७	१२
	{ २०६	५१						
अतट	६६	४	अतिशस्त	१३४	४१	अद्भुत	{ ४२	१७
अतर्कित	२७६	७	अतिशोभन	२०७	५८	अद्भर	२००	२०
अतलस्पर्श	५२	१५	अतिसंस्कृत	२४१	८०	अद्भ	२७९	२०
अतसी	१६८	२०	अतिसर्जन	२२५	२८	अद्रि	{ ६५	१
अति	{ २७२	२४१	अतिसारकिन्	११६	५९	{ २५७	६३	१४
	{ २७५	२	अतिसौरभ	७३	३३			
	{ २७६	५	अतीक्षण	२४४	९४			
अतिक्रम	{ २२६	३३	अतीत	२७८	१७	अघम	{ २५३	१४४
	{ २५४	१५०	अतीतनौक	५१	१४			
अतिचरा	९२	१४६	अतीन्द्रिय	२११	७९	अघमर्ण	१६६	५
अतिच्छत्र	९६	१६७	अतीव	२७५	२	अधर	{ १२२	९०
अतिच्छत्रा	९३	१५२	अत्तिका	४१	१५			
अतिजव	१५६	७३	अत्यन्तकोपन	२०२	३२	अधरेद्युस्	२७९	२१
अतिथि	१३८	३४	अत्यन्तीन	१५७	७६	अधस्	४६	१
अतिनिर्हारिन्	३१	१०	अत्यय	{ १६४	११६	अधामार्गव	८२	८८
अतिनु	५१	१४						
अतिपथिन्	६१	१६	अत्यर्थ	{ २५४	१५०	अधिक	१८१	८०
अतिपात	{ १३९	३७						
	{ २२६	३३	अत्यल्प	२०८	६२	अधिकर्द्धि	१९८	११
अतिप्रसिद्ध	२६७	२१८	अत्याहित	२२४	७७	अधिकाग	१५५	६३
अतिमात्र	१६	६७	अत्रि	२२	२७	अधिकार	१४८	३१
अतिमुक्त	८०	७२	अय	२७३	२४७	अधिकृत	१४४	६
अतिमुक्तक	७२	२६	अयो	२७३	२४७	अधिक्षित	२०५	४२
आतेरिक्त	२१०	७५	अदन्न	२०८	६३	अधित्यका	६७	७
						अधिप	१९८	११
						अधिभू	१९८	११

शब्द	पृ.	श्लोक	शब्द	पृ.	श्लोक	शब्द	पृ.	श्लोक	
अपेतर	१५६	७२	अंगुलिमुद्रा	१२६	१०८	अधिकमपवा	१	११	
अप्य	२०७	५८	अंगुली	१२६	८२	अभिन्नबोधि	१८	८	
अव	{	२८	अंगुलीक	१२६	१०७	अभिर	{	४४	१३
		२२२	२७	अंगुल	१२२			८२	२६०
अपसर्पण	१४१	४७	अणि	१२१	७१	अभिरु	२२	७९	
अप्यवा	१७८	६७	अभिलासक	११	१२	अभिरुप	१५९	८६	
अंक	{	१	अभिरुषिका	८२	११	अभिरुषा	४२	११	
		२२८	४	अभेदी	१०९	७	अभिरुष्य	८९	१२७
अङ्क	६८	४	अभयक	६५	१	अङ्क	{	२३	३८
अङ्कुर	१५१	४१	अभयवा	५८	९			२०६	४८
अङ्कित	७२	२९	अभिरुषण	१६९	२२५	अङ्कान	६१	७	
अङ्कय	३१	५	अङ्क	५२	१४	अङ्कित	५१५	०८	
अंश	{	११८	७	अङ्कमल	१७	४	अंजन	१८	१
		१७१	७	अङ्कमल	१७	४	अंजन	१८	१
		२७९	१०	अङ्कमुल	८	१९	अंजनकेपी	८९	११
अंशद	१२६	१०७	अङ्कमुलप्रक	९	२१	अंजनावती	१८	५	
अंशय	६४	१३	अञ्ज	{	१८	७६	अंजलि	१२१	८५
अंश्या	{	१८			५	२११	१	अंजला	२७५
		१५	५	अंजगणिका	९२	११९	अंजली	३५९	८४
अंशुविद्येय	४१	२६	अंजग	४७	५	अंजली	३५९	८४	
अंशुस्कार	१२८	१२१	अंजग	११	१५	अंजली	८५	१३	
अंशुहर	४१	२६	अंजग	११	१५	अंजली	१०	९	
अंशुग	१७१	१	अंजगोपा	१२	१४५	अंजली	११८	१५	
अंशुगक	२१	२५	अंजगुपी	८८	११९	अंज	{	१४	१२
अंशुगबानिका	१७१	२९	अंजग	१६	३६			२५	१११
अंशुगवती	७६	४८	अंजग	८९	८६	अंज	{	२७	५४
अंशुगवती	८३		अंजग	१८	७६			२७	५४
अंशुगवती	१७१	२९	अंजग	१७२	१६	अंजग	३११	७	
अपीकार	३०	५	अंजग	१८१	११	अंजग	१५१	५६	
अपीकृत	२१७	१	अंजग	२३८	६२	अंजग	१३	३६	
अपीकृत	१८३	८५	अंजग	१४०	४६	अंजग	२०८	३३	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
अणु	{ १६९	२०	अतिवक्तृ	२०३	३५	अदर्शन	२२३	२२
	{ २०८	६२	अतिवाद	३६	१४	अदितिनन्दन	७	८
अब्ज	१०३	३७	अतिविषा	८४	९९	अदृश	१७	६१
अडकोश	१२०	७६	अतिवेल	१६	६६	अदृष्ट	१४८	३०
	{ ५२	१७	अतिशक्तिता	१६२	१०२	अदृष्टि	४६	३७
अंबज	{ १०२	३३	अतिशय	{ १६	६६	अद्धा	२७७	१२
	{ २०६	५१						
अतट	६६	४	अतिशस्त	१३४	४१	अद्भुत	{ ४२	१७
अतर्कित	२७६	७	अतिशोभन	२०७	५८	अद्भर	{ ४२	१९
अतलस्पर्श	५२	१५	अतिसस्कृत	२४१	८०	अद्य	२७९	२०
अतसी	१६८	२०	अतिसर्जन	२२५	२८	आद्रि	{ ६५	१
	{ २७२	२४१	अतिसारकिन्	११६	५९		{ २५७	६३
अति	{ २७५	२	अतिसौरभ	७३	३३	अद्वयवादिन्	८	१४
	{ २७६	५	अतीक्षण	२४४	९४	अघम	{ २५३	१४४
अतिक्रम	{ २२६	३३	अतीत	२७८	१७		{ २०७	५४
	{ २५४	१५०	अतीतनौक	५१	१४	अघमर्ण	१६६	५
अतिचरा	९२	१४६	अतीन्द्रिय	२११	७९	अघर	{ १२२	९०
अतिच्छत्र	९६	१६७	अतीव	२७५	२		{ २६२	१८९
अतिच्छत्रा	९३	१५२	अत्तिका	४१	१५	अघरेद्युस्	२७९	२१
अतिजव	१५६	७३	अत्यन्तकोपन	२०२	३२	अघस्	४६	१
अतिथि	१३८	३४	अत्यन्तीन	१५७	७६	अघामार्गव	८२	८८
अतिनिर्हारिन्	३१	१०	अत्यय	{ १६४	११६	अधिक	१८१	८०
अतिनु	५१	१४				{ २५४	१५०	अधिकर्द्धि
अतिपथिन्	६१	१६	अत्यर्थ	१६	६६	अधिकारा	१५५	६३
अतिपात	{ १३९	३७	अत्यल्प	२०८	६२	अधिकार	१४८	३१
	{ २२६	३३	अत्याहित	२२४	७७	अधिकृत	१४४	६
अतिप्रसिद्ध	२६७	२१८	अत्रि	२२	२७	अधीक्षत	२०५	४२
अतिमात्र	१६	६७	अथ	२७३	२४७	अधित्यका	६७	७
अतिमुक्त	८०	७२	अथो	२७३	२४७	अधिप	१९८	११
अतिमुक्तक	७२	२६	अदञ्ज	२०८	६३	अधिभू	१९८	११
अतिरिक्त	२१०	७५						

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक
आधिरीहिमी	६५	१८	अनप्य	५२	१४	प्रनिष्ठ	{ ७	१०
आधिवासन	१३१	१३४	अनप्यह	१७७	६०		{ १५	६२
आधिविष्ठा	१ ५	७		{ १७	१	प्रनिष्ठ	१६	६५
आधिभवणी	१७१	२९	अनन्त	{ ४७	४	प्रनीक	{ १५७	७८
आधिष्ठान	२४९	१३६		{ १४२	८१		{ १६२	१ ४
आधीन	१९९	१६		{ ४८	२	अनीकस्य	१४४	६
आधीर	२ १	२६		{ ८३	९२	अनीकिनी	{ १५७	७८
आधीभर	१४३	२	अनन्ता	{ ८६	११२		{ १५८	८१
आधुना	२८	२३		{ ९	११६	अनु	२७३	४८
आधृष्ट	२ १	२६	अनन्यत्र	९	३६	अनुक	९	२३
आधौष्ठक	१२७	११७	अनन्यवृष्टि	२११	७९	अनुकम्पा	४२	१८
आधौष्ठम	८	२१	अनय	२५४	१४९	अनुकर्ष	१५४	५७
आधौमुपम	४६	१	अनर्षक	३७	२	अनुकस्य	१३९	४
आधौमुल	२ १	३३	अनठ	१४	५४	अनुकामीम	१५७	७६
आप्यस	{ १४४	६	अनवधानता	४४	३	अनुकार	२२२	१७
	{ २६९	२२५	अनवसरत	१६	६६	अनुक्रम	१३८	३६
आप्यवताव	४४	२९	अनवस्कर	२ ७	५६	अनुक्रोध	४२	१८
आप्यारम	२५३	१४४	अनवसर्ष्य	२ ७	५७	अनुग	३११	७८
आप्यारुक्	१३३	७	अनसु	१५३	५९	अनुग्रह	२२१	१३
आप्यारहार	३	३	अनागततय	१ ६	८	अनुधर	२५६	७१
आप्युवा	१ ५	७	अनातर	२७६	१५७	अनुज	११६	४३
आप्येवना	१३८	३२	अनादर	४३	२२	अनुजीविन्	१४४	९
आप्यग	१४६	१७	अनामय	११४	५	अनुवपन	१९५	४३
आप्यन्	६१	१५	अनामिका	१२१	८२	अनुवाप	{ ४३	२५
आप्यनीम	१४६	१७	अनापातकृन्	२१४	९४		{ २५४	१४८
आप्यन्म	१४६	१७	अनारत	१६	६५	अनुत्तम	२ ७	५७
आप्यर	१३८	३३	अनार्यविक्ष	९२	१४३	अनुत्तर	२६२	१९
आप्यर्यु	१३५	२७	अनादित	१२७	११९	अनुनय	२७९	२८
अनघर	३७	२१	अनिमित्त	२१७	२१८	अनुग्रह	३११	७८
अर्भग	९	६५	आतवद्	९	२७	अनुग्रीहीना	१९२	३

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
अनुपमा	१८	४	अन्तःपुर	६३	११	अन्दुक	१५१	४१
अनुप्लव	१५६	७१	अन्तक	१४	५९	अन्ध	११७	६१
अनुबन्ध	२४४	९८	अन्तर	२६१	१८७		२४५	१००
अनुबोध	१२८	१२२	अन्तरा	२७७	१०	अन्धकारपु	१०	३४
अनुभव	२२४	२७	अन्तराभवसत्त्व	२५१	१३३	अन्धकार	४६	३
अनुभाव	४३	२१	अन्तराय	२२३	१९	अन्धतमस्	४६	३
	२६६	२०९	अन्तराल	१८	६	अन्धस्	१७५	४८
अनुमती	२५	८	अन्तरिक्ष	१७	१	अन्धु	५४	२६
अनुयोग	३५	१०	अन्तरीप	५०	८	अन्न	१७५	४८
अनुरोध	१४५	१२	अन्तरीय	१२७	११७		२१८	१११
अनुलाप	३६	१६	अन्तरे	२७७	१०	अन्य	२१२	८२
अनुलेपन	२९१	२३	अन्तरेण	२७५	३	अन्यतर	२१२	८२
अनुवर्त्तन	१४५	१२		२७७	१०	अन्यतरेद्युस्	२७९	२१
अनुवाक	२८८	१७	अन्तर्गत	२१२	८६	अन्येद्युस्	२७९	२१
अनुशय	२५४	१४७	अन्तर्धा	१९	१२	अन्वक्	२११	७८
अनुष्ण	१९०	१८	अन्तर्धि	१९	१२	अन्वक्ष	२११	७८
अनुहार	२२२	१७	अन्तर्द्वार	६४	१४	अन्वय	१३२	१
अनूक	२३०	१३	अन्तर्मनस्	१९७	८	अन्ववाय	१३२	१
अनूचान	१३३	१०	अन्तर्वत्नी	१०९	२२	अन्वाहार्य	१३७	३१
अनूनक	२०९	६५	अन्तर्वाणि	१९७	६	अन्विष्ट	२१७	१०५
अनूप	६०	१०	अन्तर्वेशिक	१४४	८	अन्वेषणा	१३७	३२
अनूरु	२३	३२	अन्तावसायेन्	१८८	१०	अन्वेषित	२१७	१०५
अनृञ्ज	२०५	४६	अन्तिक	२०९	६७	अप् (आप्)	४९	३
अनृत	३७	२१	अन्तिकतम	२०९	६८	अपकारगी	३६	१४
	१६५	२	अन्तिकाश्रय	२२३	१९	अपक्रम	१६४	१११
अनेकप	१४९	३४	अन्तिका	१७१	२९	अपघन	११८	७०
अनेहस्	२४	१	अन्तेवासिन्	१३४	११	अपचय	२२२	१६
अनोकह	६८	५		१९०	२०	अपचायित	२१६	१०१
अन्त	१६४	११६	अन्त्य	२११	८१	अपचित	२१६	१०१
	२११	८१	अत्र	११८	६६			

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
अपथिति	{ १३८	३४	अपथाम्ब	१३	२	अप्यरस्	{ ७	११
	{ २१९	६७	अपथु	११२	८४		{ १३	५२
अपठ	११३	५८	अपथह	१९	१६	अफळ	६८	७
अपत्न	११	२८	अपथर्ष	१९	१३	अवह	३७	२०
अपत्रपा	४३	२३	अपथभ्य	२१२	८४	अवद्यमुञ्च	२०३	३६
अपत्रपिष्णु	२	२८	अपथकर	१८३	५५	अवधम	१०४	९
अपथ	३१	१७	अपथनात्	१९९	१९	अवाध	२१२	८३
अपथित्	३१	१७	अपथार	२२२	१६	अव्य	{ १९	१४
अपथान्तर	२	३	अपोपथि	४९	२		{ २३३	३२
अपथिद्य	१८	५				अव्यवोति	८	१७
अपथेद्य	{ ४५	३३	अपाह	{ १२३	९४		{ २७	२०
	{ २६७	२१६		{ २३१	२१	अव्य	{ २४३	८८
अपथ्वस्त	२	४	अपान	{ १५	६३		{ २१३	१४६
अपथ्वेद्य	३३	२		{ ११९	७३	अथि	{ ४९	१
अपथान	१६४	११	अपामार्ग	८९	८८		{ २४५	११
अपथस्वर	२१८	१	अपाहृद्य	१९९	१५	अथिककण्ठ	१८५	१०५
अपथामिद्या	{ ८५	१	अपाधन	१६४	११३	अथकथ्य	४१	१४
	{ ९३	१४९	अपि	२७३	२४९	अगव	९५	१६४
अपराधपुस्तक	१५६	६८	अपिधान	१९	१३	अभया	७७	५९
अपराध	१४८	३६	अपिन्द्य	१५५	३५	अभाषण	१३८	३६
अपराह	२४	३	अपूप	१७४	४८	अभिक	२०	२४
अपेरपुत्	२७९	२०	अपोर्गह	११३	४६	अभिक्रम	१६१	९६
अपथा	११	३७	अप्यथि	१५	६१	अभिक्रिया	२५५	१५६
अपथप	३६	१७	अपित्त	१४	५६	अभिग्रह	२२१	१३
अपथर्ग	२१	७	अप्रकाण्ड	६८	९	अभिग्रहण	२३२	१७
अपथजन	१३७	३	अप्रगुण	२१	७२	अभिधातिन्	१४५	११
अपथार	{ ३६	१३	अप्रत्यय	२११	७९	अभिचर	१५६	७१
	{ १४३	८९	अप्रधान	२०८	६	अभिचर	२२३	१९
अपथारण	{ १९	१२	अप्रहत	५९	५	अभिजन	{ १३२	१
	{ २४९	१२५	अप्राग्	२०८	६०		{ २४६	१८

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
अभिजात	२४२	८२	अभिशाप	३५	११	अभ्यवकर्षण	२२२	१७
अभिज्ञ	१९६	४	अभिषङ्ग	२३१	२४	अभ्यवस्कन्दन	१६३	११०
अभितसु	{ २०९ २७५	{ ६७ २५५	अभिषव	{ १९४ १४१	{ ४२ ४२	अभ्यवहृत	२१८	१११
अभिधान	३५	८	अभिषेणन	१६१	९५	अभ्याख्यान	३५	१०
अभिध्या	४३	२४	अभिष्टुत	२१७	११०	अभ्यागम	१६२	१०५
अभिनय	४२	१६	अभिसम्पात	१६२	१०५	अभ्यागारिक	२९६	१२
अभिनव	२११	७७	अभिसारिका	१०६	१०	अभ्यादान	२२४	२६
अभिनवोद्भिद	६८	४	अभिहार	{ २२२ २५८	{ १७ १६८	अभ्यान्त	११६	५८
अभिनिर्मुक्त	१४२	५५	अभिहित	२१७	१०७	अभ्यामर्द	१६२	१०५
अभिनिर्माण	१६१	९५	अभीक	२००	२४	अभ्याश	२०९	६७
अभिनीत	{ १४७ २४१	{ २४ ८१	अभीक्ष्णम्	{ २७५ २७७	{ १ ११	अभ्यासादन	१६३	११०
अभिपन्न	२५०	१२८	अभीप्सित	{ २०७ २१८	{ ५३ ११२	अभ्युत्थान	१३८	३४
अभिप्राय	२२३	२०	अभीरु	८४	१००	अभ्युदित	१४२	५४
अभिभूत	२०४	४०	अभीरुपत्री	८४	१०१	अभ्युपगम	३०	५
अभिमर	२६६	२१४	अभीषग	२१९	६	अभ्युपपत्ति	२२१	१३
अभिमान	{ ४३ २४७	{ २२ ११०	अभीषु	२६७	२१९	अभ्यूष	१७४	४७
अभियोग	२२१	१३	अभीष्ट	२०७	५३	अभ्र	{ १७ १८	{ १ ६
अभिरूप	२५१	१३१	अभ्यग्र	२०९	६७	अभ्रक	१८४	१०७
अभिलाव	२२४	२४	अभ्यन्तर	१८	६	अभ्रपुष्प	७२	३०
अभिलाष	४४	२८	अभ्यमित	११६	५८	अभ्रमातंग	१३	४६
अभिलाषुक	२००	२२	अभ्यमित्रीण	१५७	७५	अभ्रसु	१८	४
अभिवादक	२०१	२८	अभ्यमित्रीय	१५७	७५	अभ्रमुवल्लभ	१३	४६
अभिवादन	१३९	४१	अभ्यमित्र्य	१५७	७५	अभ्रि	५१	१३
अभिव्याप्ति	२१९	६	अभ्यमर्ण	२०९	६७	अभ्रिय	१८	८
अभिहास्त	२०४	४३	अभ्यर्हित	२४२	८३	अभ्रेष	१४७	२४
अभिहास्ति	१३८	३२				अमत्र	१७२	३३
						अमर	७	७

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
अमरावती	१२	४५	अम्यद्वा	८	७१	अरपट्ट	२८९	१८
अमरस्य	७	८		८२	८४	अरणि	१३७	१९
अमरि	४३	२६	अम्वा	११	१४	अरप्य	३७	१
अमरपत्र	२०२	३२		४१	१४		२९	२२
अमरु	१८४	१	अम्बिका	११	३७	अरप्यानी	६७	१
अमरु	८९	१२७	अम्बु	४९	४	अरणि	१२२	८६
अमा	२७३	२५	अम्बुकपा	१९	११	अरर	३२	१७
अमास	११३	४४	अम्बुज	७८	६१	अरु	७७	५७
अमास्य	१४३	४	अम्बुभृत्	१८	१७	अरुषि	५७	३९
अमास्यस्या	२५	८	अम्बुवैतस्	७३	३०	अरुपति	१४५	११
अमावास्या	२५	८	अम्बुसरण	७७	११	अरुष	२१	७१
अमिष	१४५	११	अम्बुहृत	२७	२	अरि	१४५	१
अमुत्र	२७६	८	अम्बुसू	४९	४	अरिज	५१	१३
असृणा	१५	१९४	अम्बुसू	५७	४१	अरिमेघ	७६	५०
			अम्बु	४९	५	अरिषु	६३	८
अमृत	११	४८	अम्बु	३१	९		७३	३१
			अम्बुशोणिका	११	४	७८	३२	
			अम्बुवैतस्	११	१४१	९२	१४८	
			अम्बुजान	८	७३	१७५	५३	
			अम्बुशिका	७५	४३	११०	२	
अमृता	७७	५९	अम्बु	२९	२७	२३३	३६	
			अमन	२६	१३	अरिषुशुद्धी	२५	४४
			६१	१५	२२		२९	
अमृतान्वासु	७	८	अमरु	१८४	९८	२३	३२	
			अवाप्रतिमा	१९३	३५	३२	१५	
अमोघा	८५	१	अवाचित	१६६	३	२३६	४८	
अम्बर	१७	१८१	अवा	२७९	१८	अवजा	८४	९९
			अवोष	१७	२५	अकम्पुह	२१२	८३
अम्बरौप	१७१	३	अवोषण	२२४	३७	अवधर	७५	४२
अम्बरु	१८७	३	अवर	१७	६४		२६१	१८९
						अवत्	११५	५४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
अशोक	२१६	१००	अर्थशास्त्र	३४	५	अशोभ	९४	१५७
अर्क	{ २२ २२८	{ २९ ४	अर्थिन्	{ १४४ २०६	{ ० ४९	अशौरोगयुत	११६	५९
अर्कपर्ण	८१	८१	अर्थ्य	{ १८५ २५६	{ १०४ १६०	अर्हण	१३८	३४
अर्कवन्धु	८	१५	अर्दना	२१९	६	अर्हित	२१६	१०१
अर्काह	८१	८०	अर्दित	२१५	९७	अलक	१२३	९३
अर्गल	६५	१७	अर्ध	{ २० २०	{ १६ १६	अलका	१६	७०
अर्ध	२३२	२७	अर्धचन्द्रा	८६	१०९	अलक्त	१२९	१२५
अर्ध्य	१३८	३३	अर्धनाव	५२	१४	अलक्ष्मी	४८	२
अर्चा	{ १३८ १९३	{ ३५ ३६	अर्धरात्र	२५	६	अलगर्द	४७	५
अर्चित	{ २१६ २४२	{ १०१ ८५	अर्धर्च	२९५	३२	अलकरिष्णु	{ १२४ २०१	{ १०० २९
अर्चिस्	{ १४ २७०	{ ५७ २३०	अर्धहार	१२५	१०६	अलकर्तृ	१२४	१००
अर्जक	८१	८०	अर्धोष्क	१२८	११९	अलकर्मिण	१९९	१८
अर्जुन	{ ३२ ७५ ९६	{ १३ ४५ १६७	अर्धुद	{ २८९ २९५	{ १९ ३३	अलकार	१२४	१०१
अर्जुनी	१७८	६७	अर्भीक	१०३	३८	अलकृत	१२४	१००
अर्णव	{ ४९ २३७	{ १ ५७	अर्म	२९५	३४	अलक्रिया	१२४	१०१
अर्णस्	४९	४	अर्य	{ १६५ २५३	{ १ १४६	अल्मू	{ २७४ २७७	{ २५२ ११
अर्तन	२२५	३२	अर्यमन्	२२	२८	अलर्क	{ ८१ १९१	{ ८१ २२
अर्ति	२३९	६८	अर्या	१०७	१४	अल्स	१९०	१८
अर्थ	{ १८३ २४२	{ ९० ८६	अर्याणि	१०७	१४	अल्लात	१७१	३०
अर्थना	{ १३८ २१९	{ ३२ ६	अर्या	१०७	१५	अल्लावू	९४	१५६
अर्थप्रयोग	१६६	४	अर्वन्	{ १५१ २०७	{ ४४ ५४	अलि	{ ९९ १०२	{ १४ २९
			अर्वाक्	२७८	१६	अलिक	१२३	९२
			अर्शस्	११५	५४	अलिजर	१७१	३१
			अर्शस	११६	५९	अलिन्	२०२	२९
						अलिन्द	६४	१२
						अलिका	२२९	१२

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	
अल्प	९	८	६१	भवदात	{ ३२ १३	भवरीज	२१४	९४	
अल्पतनु	११४	४१			{ २४१ ८	भवरोष	६३	१२	
अल्पमारिप		१३६	भवदान	२१	३	भयरामन	६३	११	
अल्पतरु	५४	२२	अवदाह	९५	१६५	अवरीह	६९	११	
अल्पिष्ठ	२	८	अवदारण	१६८	१२	अवप	३६	१३	
अस्वीयत्	२	८	अवदीप	२१३	८९	अवच्छद्य	३२	१३	
अवकर	६५	१८	अवघ	२७	५४	अवकम	१२	७९	
अवकीर्णम्	१४०	५४	अवधारण	२३	१७८	अवर्त्मिष्ठ	२४६	८४	
अवभृङ्ग	२०१	३९	अवधि	२४५	९९	अवस्तुज	८३	९५	
अवकेशिन्	६८	७	अवध्वस्त	२१४	९४	अववाह	१४७	२५	
अवक्रम	१८१	७९	अवन	२१९	४	अवस्यम्	२७८	१६	
अवगाणित	२१७	१	अवनत	२१	७	अवस्थाय	२	१८	
अवगात	२१७	१	अवनाड	११३	४५	अवह्वय	२४६	१४	
अवगति	{	२१४	९३	अवनाथ	२१४	२७	अवतर	२१४	२४
		२४१	७९	अवनि	५८	३	अवधान	२२६	३८
अवगीर्ण	२१७	११	अवन्तिशोभ	१७२	३९	अवधित	{ २१५ ९८	{ २१७ १८	
अवग्रह	{	१९	११	अकम्प्य	६८	६	अवस्कर	{ १११ ६७	{ २५८ १६७
		१५०	३८	अवमथ	१३७	२७			
अवग्राह	१९	११	अवभ्रत	११३	४५	अवत्थ	२९	२९	
अवगूर्मित	२१४	९४	अवम	२७	५४	अवहार	५३	२१	
अवद्या	४३	३२	अवमत	२१७	१०६	अवहित्या	४५	३४	
अवज्ञात	२१७	१	अवमव	१६२	१९	अवहोन्न	४३	२२	
अवष्ट	४६	२	अवमानना	४३	२३	अवाह	{ १९८ १२	{ २ २ २३	
अवटीट	११२	४५	अवमानित	२१७	१३				
अवट्ट	१२२	८८	अवयव	११८	७	अवाक्यपुष्पी	९३	१५२	
अवर्तव	२६९	२२७	अवर	१५	४	अवाप	६१	७	
अवर्तमल	४६	३	अवरज	११३	४३	अवाधी	१७	१	
अवठीका	१७८	६९	अवरति	२२६	३७	अवाप्य	३७	२१	
अवईश	१९४	४	अवरवर्ण	१८७	१	अवार	५	८	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
अवासस्	२०४	३९	अश्मगर्भ	१८३	९२	असतीसुत	११०	२६
अवि	{ १०८	२०	अश्मज	१८५	१०४	असन	७५	४४
			अश्मन्	६६	४	असमीक्ष्यकारिन्	१९९	१७
अविग्र	७९	६७	अश्मन्त	१७१	२९	असार	२०७	५६
अवित	२१७	१०६	अश्मपुष्प	८८	१२२	असि	१६०	८९
अविद्य	३१	७	अश्मरी	११६	५६	असिक्री	१०८	१८
अविनीत	२००	२३	अश्मसार	१८४	९८	असित	३२	१४
अविरत	१६	६५	अश्रान्त	१६	६५	असिधावक	१८८	७
अविलंबित	{ १५	६५	अश्रि	१६०	९३	असिधेनुका	१६०	९२
			अश्रु	१२३	९३	असिपुत्री	१६०	९२
अविस्पष्ट	३७	२१	अश्लील	३६	१९	असु	१६५	११९
अवीचि	४८	१	अश्व	१५१	४३	असुधारण	१६५	११९
अवीरा	१०६	११	अश्वकर्णक	७५	४४	असुर	७	१२
अवेक्षा	२२५	२८	अश्वत्थ	७१	२१	असूर्क्षण	४३	२३
अव्यक्त	२३८	६२	अश्वयुक्	२१	२१	असूया	४३	२४
अव्यक्तराग	३२	१५	अश्ववडव	२८८	१६	असुग्धरा	११७	६२
अव्यण्डा	८२	८६	अश्वि	१५२	४६	असृज्	११७	६४
अव्यथा	{ ७७	५९	अश्वामरण	२३५	४४	असीम्यस्वर	२०३	३७
			अश्वारोह	१५४	६०	अस्त	{ ६६	२
अव्यय	२९५	३४	अश्विन्	१३	५१	{ २१३	८७	
अव्यवाहित	२०९	६८	अश्विनी	२१	२१			
अशनाया	१७६	५४	अश्विचीसुत	१३	५१	अस्तम्	२१८	१७
अशनायिन	२००	२०	अश्वीय	१५२	४८	अस्ति	२१९	१८
अशानि	१३	४७	अपढक्षीण	१४७	२२	अस्तु	२७८	१३
अशि	२१८	१११	अष्टापद	{ १८४	९५	अस्त्र	१५८	८२
अशिन्वी	११६	११	अष्टीवत्	{ १९५	४६	अस्त्रिन्	१५६	६९
अशुभ	२९१	२३				अस्थिर	११८	६८
अशोप	२०९	६५	असकृन्	२७५	१	अस्थिर	२०५	४३
अशोक	७८	६४	असती	१०६	१०	अस्फुटवान्	२०३	३७

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
अस	११७	६४	अहाव	२७५	०	भास्मात्	२१७	१७
						भास्मायिका	१४	५
						भागान्	१३८	१४
असप	१५	५	आ (आः)	२७२	२४	भागम्	१४८	०६
अस्र	१२३	९३	आम्	२७८	१६	भागम्		
अस्वच्छन्द	१९९	१६	आकम्पित	२१२	८७	भागू	३	७
अस्वप्न	७	८	आकर	६६	७	आमीत्र	१३५	१७
अस्त्र	२३	३७	आकथ	२६८	२२१	आमहम्मयिक	२६	१४
अस्वाभ्याय	१४२	५३	आकम्प	१२४	९९	आमहामणी	२१	२३
अहसु	२६	५	आकार	२२२	१५	आह	२७२	२३०
अहंकार	४३	२२	आकार्युति			४५	३४	आहिक
अहंकारवान्	२६	५०	आकारण	३५	८	आहिरथ	०१	२४
अहन्	२४	०	आकाश	१७	२	आचमन	१३८	३६
अहमहमिका	१६२	११	आकीष	२१२	८५	आचाम	१०५	४९
अहम्पूर्विका	१६२	१	आकुञ्ज	२१	७२	आचार्य	१३३	७
अहम्माति	३१	७	आकृति	२५७	१६२	आचापा	१७	१४
अहर्षति	२२	३	आकन्द	२६३	९	आचार्यानी	१७	१
अहर्षुञ्ज	२४	२	आकीड	३७	३	आचित	१८२	८७
अहस्कर	२२	२८	आकीघ	३६	१५	आच्छादन	१९	१३
अहह	२७५	२५७	आकीघन	२१	६		१२७	११७
अहार्य	६५	१	आधारण	३६	१५		२४	१२५
अहि	४७	२३८	आधारणा	३६	१५	आच्छुरितक	४५	३४
			आधारित	०४	४२	आच्छीहन	१९१	२३
अहित	१४२	११	आधेय	३६	१३	आच्छक	१८	७३
अहितुण्डिका	४८	११	आखण्ड	१९	४४	आजानेय	१५१	४४
अहितम	१४८	९	अणु	८	१०	आभि	१६२	१६
अहिमुन	०३२	३	अणुमुह	७	६		२३३	३२
अहेक	८४	११	आणिट	१९१	२३	आभीष	१६५	१
अही	२७७	९	आणसा	३५	८	आणू	४८	३
अशोचन	३६	१२				आण	१४७	३६

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.
आञ्ज	१७५	५२	आत्मभू	{ ८	१६	आनन	१२२	८९
आटि	१०१	२५	आत्मम्भारि	{ ९	२६	आनन्द	२८	२५
आडम्बर	{ १६३	१०८	आत्रेयी	२००	२१	आनन्दशु	२८	२५
	{ १५८	१६८	आथर्वण	१०८	२०	आनन्दन	२१९	७
आडि	१०१	२५	आदर्श	२२७	४३	आनर्त	२३८	६६
आढक	१८२	८८	आदि	१३२	१४०	आनाय	५२	१६
आढकिक	१६७	१०	आदिकारण	२११	८०	आनाय्य	१३६	२१
आढकी	{ ९०	१३०	आदितेय	२९	२८	आनाह	११५	५५
	{ २८३	७	आदित्य	७	८	आनुपूर्वी	१३८	३६
आढ्य	१९८	१०	आदिनव	{ ७	८	आन्धसिक	१७१	२८
आणवीन	१६६	७	आदित्य	{ ७	१०	आन्वीक्षिकी	३४	५
आतङ्क	२२९	१०	आदिनव	२२५	२९	आपक	१५०	४७
आतघन	२४८	११५	आदृत	२४२	८५	आपगा	५५	३०
आततायिन्	२०५	४४	आदेष्टृ (घा)	१३३	७	आपण	६२	२
आतप	{ २३	३४	आद्य	२११	८०	आपणिक	१८०	७८
	{ २८९	२०	आद्यमाशक	१८२	८५	आपत्प्राप्त	२०४	४२
आतपत्र	१४९	३२	आद्युन	२००	२१	आपद	१५८	८२
आतर	५१	११	आद्योत	२२८	३	आपन्न	२०४	४२
आतापि	१००	२१	आधार	५५	२९	आपन्नसत्त्वा	१०९	२२
आतिथेय	१३८	३३	आधि	{ ४४	२८	आपामित्यक	१६६	४
आतिथ्य	१३८	३३	आधूत	{ २४४	९७	आपान	१९४	४२
आतुर	११६	५८	आधोरण	२१२	८७	आपीड	१३१	१३६
आतोद्य	३९	५	आध्यान	१५४	५९	आपीन	१७९	७३
आत्तर्ग्व	२०४	४०	आनक	४४	२९	आपूपिक	{ १७१	२८
आत्मगुप्ता	८२	८६	आनक	{ ४०	६	आत	१४५	१३
आत्मघोष	१००	२०	आनकदुन्दुभि	{ २२८	३	आप्य	४९	५
आत्मज	११०	२७	आनत	९	२२	आप्यायन	२४८	११५
आत्मन्	{ २९	२९	आनन्द	२१०	७०	आप्रच्छन्न	२२०	७
	{ २४७	१०९	आनन्द	३९	४	आप्रपद	१२८	११९

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
आमदीन	१२८	११९	आमातक	७२	२७	आरोहण	६७	१८
आप्य	१२८	१२१	आमदित	१५	१२	आतमस	८	७४
आप्लाव	१२८	१२१	आपत	२	६९	आतव	१८	२१
आबन्ध	१६८	११	मापतन	६२	७	आश	१७	१५
आमरण	१२४	१	आवृत्ति	{ १४८	२०	आशक	१७३	१७
आमापण	३६	१५		{ २४	७२	आर्ष	{ ४१	१६
आमास्वर	७	१०	आमत	१	१६	आर्ष	{ १३२	३
आमीर	१७६	५७	आमाम	१२७	११४	आषा	११	३०
आमीरपक्षी	६५	२	आमुष	१५८	८२	आषावर्ष	८	८
आमीरी	१	७	आमुषिक	१७८	६७	आषिग्न	१०७	६३
आमीक	४	८	आमुषीय	१७८	६७	आस	१८५	१३
आग्नेय	१३१	१३७	आमुष्ण	१	७	आसम्म	१६४	११७
आमगन्धर्व	३२	१२	आमुस	१३८	१०	आस्य	६२	५
आमनस्य	४०	३	आयोषन	१६९	१३	आस्यक	५८	२९
आमथ	११५	५१	आरकूट	१८४	७	आस्यस्य	१९	१८
आमयाध्व	११६	५८	आरत्नम	७१	२३	आस्यम	१७७	११
आमकक	१९५	३३	आरनाक	१०३	३९	आस्यप	३६	१५
आमकली	७७	५७	आरति	२२१	३७	आस्य	{ ६	१४
आमिद्धा	१३६	२३	आरम्म	२२४	२६	आसि	{ ६७	४
आमिष	{ १२७	३३	आरथ	१८	२३	आसिग्न	{ १७	२२
	{ २६८	३२३	आरु	१३	३४	आसिग्न्य	१	७
आमिषपति	१९३	१९	आरुत्	२७९	१४२	आसिग्न	६४	१९
आमुक्त	१५५	६५	आरुचम	२४९	१२५	आसी	२६३	१८
आमोद	{ २८	२४	आरुम	६७	२	आसीद	१८	८५
	{ ३१	१	आरुषिक	१७	२८	आस	१७१	३१
	{ २४२	९१	आरुष	३८	२३	आसीक	२२८	५
आपद्विन्द	३२	११	आरेषत	७१	२४	आस्यकन	२२५	३१
आमाक	{ ३३	३	आरीक	११४	५	आस्यत	१७२	३३
	{ ७२	७	आरीह	{ १७७	११४	आस्यत	८	६
आम	७३	३२		{ २११	२३८	आसति	६७	४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
आवसित	१७०	२३						
आवाप	५५	२९	आशुग	{ १५ १५९ २३१	{ ६२ ८६ १९	आसार	{ १९ १६१	{ ११ ९६
आवापक	१२६	१०७	आशुनीहि	१६८	१५	आसुरी	१६९	१९
आवाल	५५	२९	आशुशुक्षणि	१४	५५	आसेचनक	२०७	५३
आविग्र	७९	६७	आश्रय	४२	१९	आस्कन्दन	१६२	१०४
आविद्ध	{ २१० २१३	{ ७१ ८७	आश्रम	१३२	४	आस्कन्दित	१५२	४८
आविध	१२६	३६	आश्रय	{ १४६ २२१	{ १८ ११	आस्तरण	१५१	४२
आविल	५२	१४	आश्रयाश	१४	५४	आस्था	२४३	८८
आविस्	२७७	१२				आस्थान	१३४	१५
आनुक	४१	१२	आश्रव	{ ३० २०० २००	{ ५ २४ २४	आस्थानी	१३४	१५
आवुत्त	४१	१२	आश्रुत	२१७	१०८	आस्पद	२४४	९४
आवृत्	१३८	३६	आश्व	१५२	४८	आस्फोट	८१	८०
आवृत	२१३	९०	आश्वत्थ	७०	१८	आस्फोटनी	१९३	३३
आवेगी	९१	१३७	आश्वयुज्	२७	१७	आस्फोटा	{ ७९ ८५	{ ७० १०४
आवेशन	६३	७	आश्विन	२७	१७	आस्य	१२२	८९
आवेशिक	१३८	३४	आश्विनेय	१३	५१	आस्या	२२३	२१
आशसितृ	२०१	२७	आश्वीन	१५२	४७	आसव	२२५	२९
आशसु	२०१	२७	आषाढ	{ २७ १४०	{ १६ ४५	आहत	{ ३७ २१३	{ २१ ८८
आशय	२२३	२०	आसक्त	१९७	९	आहितलक्षण	१९७	१०
आशर	१५	५९	आसन	{ १३१ १४६ १५०	{ १३८ १८ ३९	आहव	१६२	१०५
आशा	{ १७ १६७	{ १ २१६	आसना	२२३	२१	आहवनीय	१३५	१९
आशितगर्जन	१७६	५९	आसन्दी	२८४	९	आहार	१७६	५६
आज्ञीविप	४७	७	आसन्न	२०९	६६	आहाव	५४	२६
आशिम	२६९	२२८	आसव	१९४	४१	आहाय	४८	९
आशु	{ १५ १६८	{ ६५ १५	आसादित	२१६	१०४	आहां	२७६	५
						आहोपसषिका	१६२	१०१
						आह्वय	३५	७
						आह्ला	३५	८

शब्द	पृष्ठ	स्थान	शब्द	पृष्ठ	स्थान	शब्द	पृष्ठ	स्थान
आभ्रपरीत	१२८	११	आभ्रातक	७२	२७	आरोहण	६५	१६
आभ्रम	१२८	१२१	आर्षेयित	३५	१२	आर्षेयम्	८	७१
आभ्रान्न	१२८	१२१	आयत	२	९	आयत	१८	२१
आभ्रम्भ	१६८	१३	आयतन	६२	७	आयु	१७	१५
आभरण	१७४	१	आयति	१४८	२	आयुक्त	१७३	१७
आभाषण	३६	१५	आयत		१	१६	आयु	४१
आभास्वर	७	१०	आयत	१	१६	आयु	१२२	३
आभारि	१७६	५७	आयाम	१२७	११४	आयु	११	१७
आभारिपक्षि	६५	७	आयुष	१५८	१२	आयुर्विद	७०	८
आभारी	१	१३	आयुषिक	१५५	६७	आयुर्विद्य	१७७	६२
आभीक	४	४	आयुषीय	१५७	६७	आयु	१८८	१३
आभोग	१३१	१३७	आयुष्पत्	१९७	६	आयुष्मा	१६४	१२५
आभोग्यन्त्र	३२	१२	आयुष	१३५	१२	आयुष	६२	५
आभोग्यत्व	४९	३	आयुषन्	१६२	१	आयुषाञ्ज	५५	२९
आभोग्य	११५	५१	आयुषूठ	१८४	९७	आयुष्य	१९	१८
आभोग्यादिन्	११६	५८	आयुष्यम	७१	२९	आयुषान	१५	४१
आभोग्यक	२९५	३३	आयुष्यक	१७३	१	आयुष्यप	३३	२५
आभोग्यकी	७७	५७	आयुषि	२२६	३७	आयुषि	६	१४
आभोग्या	१३६	२३	आयुष्य	२२४	२६	आयुषि	६७	४
आभोग्य	११७	३३	आयुष	१८	२९	आयुष्य	१०	७
आभोग्यादिन्		२२३	आयुष	१९३	३४	आयुष्य	६४	१२
आभोग्य	१५५	६५	आयुषण	२७२	२४२	आयुष्य	२३३	१९८
आभोग्य	२८	२४	आयुषण	२४९	१२५	आयुष्य	१७	८१
आभोग्य		३१	१	आयुष्य	१७	२	आयुष्य	१७१
आभोग्य	७४३	९१	आयुष्य	३८	२३	आयुष्य	२२८	३
आभोग्य	३२	११	आयुष्य	७१	२४	आयुष्य	२७५	३१
आभोग्य	३३	३	आयुष्य	११४	५	आयुष्य	१७७	३३
आभोग्य		७२	७	आयुष्य	१२७	११४	आयुष्य	६
आभोग्य	७३	३३	आयुष्य	२११	२३१	आयुष्य	३७	४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.			
आवसित	१७०	२३	आशुग	{ १५ ६२ १५९ ८६ २३१ १९	आसार { १९ ११ १६१ ९६	आवाप	५५	२९			
आवापक	१२६	१०७				आसुरी	१६९	१९			
आवाल	५५	२९				आसेचनक	२०७	५३			
आविग्न	७९	६७	आशुग्रीहि	१६८	१५	आस्कन्दन	१६२	१०४			
आविद्ध	{ २१० २१३	७१	आशुशुक्षणि	१४	५५	आस्कन्दित	१५२	४८			
		८७	आश्रय	४२	१९	आस्तरण	१५१	४२			
आविध	१२६	३६	आश्रम	१३२	४	आस्था	२४३	८८			
आविल	५२	१४	आश्रयाश	१४	५४	आस्थान	१३४	१५			
आविस्	२७७	१२	आश्रव	{ ३० ५ २०० २४ २०० २४	आस्थानी { १३४ १५ आस्पद २४४ ९४ आस्फोट ८१ ८०	आवुक	४१	१२			
आवुक्त	४१	१२				आश्रुत	२१७	१०८	आस्फोटनी	१९३	३३
आवृत्	१३८	३६				आश्व	१५२	४८	आस्फोटा	{ ७९ ७० ८५ १०४	
आवृत्त	२१३	९०	आश्वत्थ	७०	१८	आस्य	१२२	८९			
आवेगी	९१	१३७	आश्वयुज्	२७	१७	आस्या	२२३	२१			
आवेशन	६३	७	आश्विन	२७	१७	आसव	२२५	२९			
आवेशिक	१३८	३४	आश्विनेय	१३	५१	आहत { ३७ २१ २१३ ८८	आहितलक्षण	१९७	१०		
आशसितृ	२०१	२७	आश्वीन	१५२	४७			आहव	१६२	१०५	
आशसु	२०१	२७	आषाढ	{ २७ १६ १४० ४५	आहवनीय { १३१ १३८ १४६ १८ १५० ३९	आहार	१७६	५६			
आशय	२२३	२०	आसक्त			१९७	९	आहाव	५४	२६	
आशर	१५	५९	आसन	{ १३१ १३८ १४६ १८ १५० ३९	आह्वय { ४८ ९ आहां २७६ ५ आहोपरुषिका १६२ १०१	आश	{ १५ ६५ १६८ १८	आह्वय { ३५ ७ आह्वा ३५ ८			
आशा	{ १७ १ १६७ २१६	१	आसना			२२३			२१		
आशितगवीन		१७६	५९			आसन्दी	२८४	९			
आशीविप	४७	७	आसन्न	२०९	६६	आह्वय	३५	७			
आशिस्	२२९	२२८	आसव	१९४	४१	आह्वा	३५	८			
आशु	{ १५ ६५ १६८ १८	६५	आसादित	२१६	१०४						

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
आमन्दीन	१२८	११९	आम्रावक	७२	२७	आरोहण	३५	१८
आपम्ब	१२८	१२१	आम्रंशित	३५	१२	आरुगण	८	७४
आप्यव	१२८	१२१	आयत	२९	६९	आसव	१८	२१
आवन्व	१६८	११	आयतन	३२	७	आस्र	१७	१५
आमरण	१२४	११	आयति	{ १४८	२	आस्रक	१७३	३०
आमापण	३३	१५		{ २४	७२	आस्रं	{ ४१	१८
आमास्वर	७	१०	आमत्	१९	१३		{ १३२	३
आमीर	१७६	५७	आमाम	१२७	११४	आवा	११	३०
आमीरपत्नी	३५	७	आमुष	१५८	१२	आवाबिर्त	७९	८
आमीरी	१७	१३	आमुषिक	१५५	६७	आव्यम्ब	१७७	६२
आमीक	४९	४	आमुषीय	१५५	६७	आख	१८७	१३
आभोग	१३१	१३७	आमुष्मात्	१९७	६	आखम्मा	१६८	११५
आमगन्धिन	३२	१२	आमुष	१३५	१२	आख्य	६२	५
आमनस्व	४९	३	आपौष्य	१३२	१३	आख्याक	५८	२९
आमय	११५	५१	आरकूट	१४४	७	आख्यस्य	१	१८
आमयावैन्	११३	५८	आरम्बय	७१	२३	आख्यन	१५	४१
आमम्बक	२९५	३३	आरमाकक	१७१	३९	आखाप	३३	१५
आमम्बकी	७७	५७	आरति	२२६	३७		{ ९	१४
आमिशा	१३३	२३	आरम्म	२२४	२६	आखि	{ ६७	४
			आरव	३८	२३		{ १७	१२
आमिष	{ ११७	३३	आरव	३८	२३	आखिग्य	३०	५
	{ २६८	२२३	आरव	१९६	३४	आखिग्य	३०	५
आमिषासिन्	१९	१९	आरवत्	२७२	२४२	आखिग्य	३४	१२
आमुक्त	१५५	६५	आरवपन	२४	१२५	आखी	२६३	१०८
	{ २८	२४	भागम	६७	२	आखीइ	१७	८५
आमीह	{ ३१	१	भाषकिक	१७	२८	आखु	१७१	३१
	{ २४२	९१	आराव	३८	२३	आखीक	२२८	३
आमाविण	३०	११	आरैवत	७१	२४	आखीकन	२०७	३१
	{ ३३	७	आरैव्य	११४	५	आखनन	१७२	३३
आमाव	{ ७२	७	आरीह	{ १०७	११८	आखत	८	६
	{ ७२	७		{ २११	२३१	आखति	६७	८
आम	७३	३३						

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
आवसित	१७०	२३						
आवाप	५५	२९	आशुग	{ १५ १५९ २३१	{ ६२ ८६ १९	आसार	{ १९ १६१	{ ११ ९६
आवापक	१२६	१०७	आशुग्रीहि	१६८	१५	आसुरी	१६९	१९
आवाल	५५	२९	आशुशुक्षणि	१४	५५	आसेचनक	२०७	५३
आविश	७९	६७	आश्वर्य	४२	१९	आस्कन्दन	१६२	१०४
आविद्ध	{ २१० २१३	{ ७१ ८७	आश्रम	१३२	४	आस्कन्दित	१५२	४८
आविध	१२६	३६	आश्रय	{ १४६ २२१	{ १८ ११	आस्तरण	१५१	४२
आविल	५२	१४	आश्रयाश	१४	५४	आस्थान	१३४	१५
आविस्	२७७	१२	आश्रव	{ ३० २०० २००	{ ५ २४ २४	आस्थानी	१३४	१५
आवुक	४१	१२	आश्रुत	२१७	१०८	आस्पद	२४४	९४
आवुत्त	४१	१२	आश्व	१५२	४८	आस्फोट	८१	८०
आवृत्	१३८	३६	आश्वत्थ	७०	१८	आस्फोटनी	१९३	३३
आवृत्त	२१३	९०	आश्वयुज्	२७	१७	आस्फोटा	{ ७९ ८५	{ ७० १०४
आवेगी	९१	१३७	आश्विन	२७	१७	आस्य	१२२	८९
आवेग्न	६३	७	आश्विनेय	१३	५१	आस्या	२२३	२१
आवेशिक	१३८	३४	आश्वीन	१५२	४७	आस्रव	२२५	२९
आशसितृ	२०१	२७	आषाढ	{ २७ १४०	{ १६ ४५	आहत	{ ३७ २१३	{ २१ ८८
आशसु	२०१	२७	आसक्त	१९७	९	आहितलक्षण	१९७	१०
आशय	२२३	२०	आसन	{ १३१ १४६ १५०	{ १३८ १८ ३९	आहव	१६२	१०५
आशर	१५	५९	आसना	२२३	२१	आहवनीय	१३५	१९
आशा	{ १७ १६७	{ १ २१६	आसन्दी	२८४	९	आहार	१७६	५६
आशितगवीन	१७६	५९	आसन्न	२०९	६६	आहाव	५४	२६
आशीविष	४७	७	आसव	१९४	४१	आह्वय	४८	९
आशिसु	२६९	२२८	आसादित	२१६	१०४	आहो	२७६	५
आश	{ १५ १६८	{ ६५ १५				आहोपरुषिका	१६२	१०१
						आह्वय	३५	७
						आह्वा	३५	८

शब्द	पृष्ठ.	स्थक	शब्द.	पृष्ठ	स्थक	शब्द.	पृष्ठ.	स्थक.
आप्रन्दीन	१२८	११९	आप्रातक	७२	२७	आरोग्य	६५	१८
अप्य	१२८	१२१	आप्रेक्षित	१५	१२	आर्तक	८	७४
आप्यम्ब	१२८	१२१	आप्य	२०९	६९	आवय	१८	२१
आबन्ध	१६८	१३	आवतन	६२	७	आवृ	१०७	१५
आभरण	१०४	१	आवृति	{ १४८	०९	आवृक	१०३	३०
आमापण	३३	१५		{ २४	७२	आर्ष	{ ४१	१४
आमास्वर	७	१०	आवृत्	१०	१६		{ ११२	३
आमीर	१७६	५७	आप्याम्	१२७	११४	आशा	११	३०
आमीरपत्नी	६५	०	आपुष	१८८	८२	आर्षवर्त	५०	८
आमीरी	१७	१३	आपुषिक	१८८	६७	आर्षम्ब	१७७	६१
आमीक	४९	४	आपुषीम	१८८	६७	आरु	१८८	१३
आमोग	१३१	१३७	आपुष्मत्	१७	६	आरुम्ब	१३४	१३५
आमगात्रिन्	३२	१२	आपुष्	१७५	१२	आरुष	६०	७
आमनस्व	४९	२	आराधन	१६२	१३	आरुणाळ	५५	२९
आमय	११५	५१	आरुड	१८४	७	आरुस्व	१	१८
आमबाध्निन्	११६	५८	आरुणध	७१	०३	आरुण	१८०	४१
आमकक	२९५	३३	आरुणाळक	१७३	३९	आरुणप	३३	१५
आमकडी	७७	५७	आरुणिवि	२२३	३७		{ ६	१४
आमिष्टा	१३३	२३	आरुणम्	२२४	२६	आरुणि	{ ६७	४
आमिप	{ ११७	६३	आरुण	३८	२३		{ १७	१२
	{ २६८	२२३	आरुण	१९३	३४	आरुणम्ब	३	८
आमिष्ठातेन्	१९	१९	आरुण्	०७२	२४२	आरुण्द	३६	१२
आमुष	१५५	३५	आरुणन	०४	१२५	आरुणी	२६३	१०८
आमोद	{ २८	२४	आगम	६७	२	आरुणीड	१८	८५
	{ ३१	१	आराधिक	१७९	२८	आरुण	१७१	३१
	{ ५४३	९१	आराध	३८	२३	आरुणक	२०८	३
आमारिन्	३२	११	आरेवत	७१	२४	आरुणजन	२२५	३१
आशाय	{ ३३	३	आरौम्ब	११४	५	आरुणन	१०२	३३
	{ ०९	७	आरौद	{ १०७	११४	आरुणत	८	६
आ	७३	२३		{ ०११	२०८	आरुणिवि	६७	६

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
ईपिका	{ १५०	३८	उज्ज्वल	४२	१७	उत्तरेद्युस्	२७९	२०
	{ १९३	३२	उटज	६२	६	उत्तान	५२	१५
ईहा	४४	२७	उडु	२१	२१	उत्तानशय	११२	४१
इहामृग	१०८	७	उडुप	५१	११	उत्थान	१४८	११८
			उड्डीन	१०३	३७	उत्थित	२४२	८५
उ	२७९	१८		{ २१६	१०१	उत्पत्तितृ	२०१	२९
उक्त	२१७	१०७	उत	{ २७२	२४३	उत्पत्ति	२९	३०
उक्ति	३३	१		{ २७६	५	उत्पतिष्णु	२०१	२९
उक्थ	२९४	३०	उताहो	२७६	५	उत्पन्न	२४२	८५
उक्षन्	१७७	५९	उत्क	१९७	८	उत्पल	{ ५६	३७
उखा	१७१	३१		{ ९०	१३४		{ ८९	१२६
उख्य	१७४	४५	उत्कट	{ २००	२३	उत्पलशारिवा	८६	११२
			उत्कण्ठा	४४	२९	उत्पात	१६३	१०९
उग्र	{ १०	३२	उत्कर	१०४	४२	उत्फुल्ल	६८	७
	{ ४२	२०	उत्कर्ष	२२१	११	उत्स	६६	५
	{ १८७	२	उत्कलिका	४४	२९	उत्सर्जन	१३७	२९
उग्रगन्धा	{ ८५	१०२	उत्कार	२२६	३६	उत्सव	{ ४६	३८
	{ ९२	१४५	उत्क्रोश	१०१	२३		{ २६६	२०९
उच्च	२०९	७०	उत्त	२१७	१०५	उत्सादन	१२८	१२१
उच्चटा	९५	१६०	उत्तस	२६९	२२७	उत्साह	{ ४४	२९
उच्चण्ड	२१२	८३	उत्तप्त	११७	६३		{ १४६	१९
उच्चार	११८	६७	उत्तम	२०७	५७	उत्साहन	२४८	११५
उच्चावच	२१२	८३	उत्तमर्ण	१६६	५	उत्साहवर्धन	४२	१८
उच्चैश्रवस्	१२	४५	उत्तमा	१०५	४	उत्सुक	१९७	९
उच्चैर्घृष्ट	३५	१२	उत्तमाग	१२३	९५	उत्सृष्ट	२१७	१०७
उच्चैस्	२७८	१७	उत्तर	{ ३५	१०	उत्पेध	{ ६९	१०
उच्छ्रय	६९	१०		{ २६२	१९०		{ २४४	९६
उच्छ्राय	६९	१०	उत्तरा	१७	२	उदक्	२८०	२३
उच्छ्रित	{ २०९	७०	उत्तरासग	१२८	११७	उदक	४९	४
	{ २४२	८५	उत्तरीय	१२८	११८	उदक्या	१०८	२१
उच्चासन	१६४	११५						

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
आद्यन्त	२५	८	इन्दीवरी	८४	२०	इष्टकापय	११	२१५
			इन्दु	१९	२३	इष्टगन्ध	३२	११
इक्षु	१५	२३३	इन्द्र	१२	४१	इक्षामोक्षुक	१९७	९
	८४	९८	इन्द्र	१०	२	इक्षि	२३४	३९
इक्षुगन्धा	८५	१४	इन्द्रकु	७५	४५	इक्ष्वास	१५९	८३
	८६	१	इन्द्रवरा	७०	६७			
	९७	१६३	इन्द्रबाह्वी	९४	१५६	इक्ष्वा	१२३	९३
इक्षुर	८५	१४	इन्द्रतुरस	७९	६		२२५	३१
इक्षुसक्त	९४	१५६	इन्द्राणिका	७९	६८	इक्ष्वाणिका	१	८
इक्षु	२१	७४	इन्द्रात्री	११	२६	इक्षित	२१७	११
	२२२	१५	इन्द्राया	१२	४७	इक्षि	२३९	६८
इक्षुत	२२०	१५	इन्द्रायुष	१९	१	इक्ष्वा	२३०	५७
इक्षुनी	७	४६	इन्द्रात्	७	१६	इक्षित	२१३	८३
इक्ष्वा	४४	२७	इन्द्रापरब	८	२	इक्ष्म	११५	५४
इक्ष्वावती	१	९	इन्द्रिब	३१	८	इक्ष्वा	८	१५५
इक्ष्वाधीठ	३३३	८	इन्द्रिब	११०	६२	इक्ष्वा	८३	७४
इक्ष्वा	१०७	६२	इन्द्रिमाध	३१	८	इक्षि	१६०	१
इक्ष्वा	२३५	४२	इक्ष्वा	६९	१३	इक्ष्वा	२१०	१
इक्ष्वा	१८	१६	इक्ष्वा	१४	३५	इक्ष्वा	१९	३
	२१२	८२	इक्ष्वा	१	८	इक्ष्वा	१	२
	२६७	१	इक्ष्वा	१०	१	इक्ष्वा	१०	३
इक्ष्वा	७७	२१	इक्ष्वा	१४	३	इक्ष्वा	१	२
इक्षि	२०३	२५५	इक्ष्वा	२५९	१०६	इक्ष्वा	११	३६
इक्षि	१३४	१२	इक्ष्वा	२१	२३	इक्ष्वा	१	८
इक्षि	३८	१	इक्ष्वा	२७७	९	इक्ष्वा	१	१
इक्षि	१	१	इक्ष्वा	१०	१०	इक्ष्वा	१	८
इक्ष्वा	३८	२३	इक्ष्वा	१५	१७	इक्ष्वा	११	३६
इक्ष्वा	१	३३	इक्ष्वा	१६	८८	इक्ष्वा	२३६	८
इक्ष्वा	१०३	१११	इक्ष्वा	१३३	२१	इक्ष्वा	२३	१३
इक्ष्वा	५६	३३	इक्ष्वा	१३६	५०	इक्ष्वा	१६८	१४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
उपक्रम	१३४	१३	उपभृत्	१३६	२५	उपसम्पन्न	१३६	२६
	२२४	१३९	उपभोग	२२३	२०		१७४	४५
	२५२	१३९				उपसर	२२४	२५
उपकोश	३६	१३	उपमा	१९३	३६	उपसर्ग	१६३	१०९
				१९४	३७	उपसर्जन	२०८	६०
उपगत	२१७	१०९	उपमातृ	२५९	१७६	उपसर्वा	१७९	७०
उपगूहन	२२५	३०	उपमान	१९३	३६	उपसूर्यक	२३	३२
उपग्रह	१६५	११९	उपयम	१४२	५६	उपस्कर	१७२	३५
उपग्राह्य	१४८	२८	उपयाम	१४२	५६	उपस्थ	१२०	७५
उपग्न	२२३	१९				उपस्पर्श	१३८	३६
उपचारित	२१६	१०२	उपरक्त	२५	१०	उपहार	१४९	२८
				२०५	४३	उपहर	२६१	१८३
उपचाय्य	१३५	२०	उपरक्षण	१४९	३३	उपाशु	१४७	२३
उपचित	२१३	८९	उपराग	२५	९	उपाकरण	१३९	४०
उपचित्रा	८७	८७	उपराम	१२६	३७	उपाकृत	१३६	२५
उपजाप	१४७	२१	उपरि	२६१	१८३	उपात्यय	१३९	३७
उपज्ञा	१३४	१३	उपल	६६	४		२२६	३३
उपतप्तृ	२२२	१४	उपलब्धार्या	३४	५	उपादान	२२२	१६
उपताप	११५	५१	उपलब्धि	२९	१	उपाधि	४४	२८
उपत्यका	६७	७	उपलम्भ	२२४	२७		१९८	१२
उपदा	१४८	२८	उपला	२६४	१९९	उपाध्याय	१३३	७
उपधा	१४७	२१	उपवन	६७	२	उपाध्याया	१०७	१४
उपधान	१३१	१३७	उपवर्त्तन	५९	८	उपाध्यायानी	१०७	१५
उपधि	४८	३०	उपवास	१३९	३८	उपाध्यायी	१०७	१४
उपनाह	४०	७	उपविपा	८४	९९		१०७	१५
उपनिधि	१८१	८१	उपवीत	१४१	४९	उपानह	१९२	३०
उपनिषद्	२४३	९३	उपशाल्य	६५	२०	उपाय(चतुष्टय)	१४६	२०
उपनिष्कर	६१	१८	उपशाय	२२५	३२	उपायन	१४८	२८
उपन्यास	३५	९	उपश्रुत	२१७	१०९	उपालम्भ	३६	१४
उपपति	१११	३५	उपस	१२७	११७	उपावृत्त	१५२	५०
उपवर्ह	१३१	१३७						

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक
उदम	२९	७	उद्वार	२२६	६७	उद्वान्त	{ २४९ १६ २५७ ९७	
उदम	२६७	२९	उद्वीच	२८९	१९	उद्वारण	१६४	११५
उदधि	४९	१	उद्वृण	२१३	८१	उद्वार	१४०	७६
उदमस्त	६५	७	उद्व्याह	२२६	३७	उद्वार	१४०	७६
उदम्या	१७६	५५	उद्वृ	२८	२७	उद्वेग	{ ९९ १६९ २२१ १९	
उदम्यत्	४९	१	उद्वृण	२२६	३७	उद्वेग	{ ९९ १६९ २२१ १९	
उदपान	५४	२६	उद्व्याम्न	१९२	२७	उद्वेग	९८	१२
उदप	६६	२	उद्व्यात्	२२४	२६	उद्वेग	२९	७
उदर	१२	७७	उद्व्यान्	१४८	२६	उद्वेगान्त	२९	६९
उदरकं	१४८	२९	उद्व्यात्	७३	३४	उद्वेग	२४२	८५
उदरपित्त	६२	४	उद्व्यात्	२१४	९७	उद्वेग	२२१	१९
उदरपित्त	१७७	७३	उद्व्यात्	१६४	१११	उद्वेग	२२१	१२
उदराप	३४	४	उद्व्यात्	४६	३८	उद्वेग	२२१	१२
उदरान	१७	६३	उद्व्यात्	४६	३८	उद्वेग	{ ८१ ७७ ११७ ६	
उदरार	{ १९७ २६२	{ ८ १९२	उद्व्यात्	२२४	२६	उद्वेग	१६४	११५
उदरौघ	१४५	१	उद्व्यान्	१७१	२९	उद्वेग	१६४	११५
उदराहार	३७	९	उद्व्यात्	१६६	४	उद्वेग	१९७	८
उदरित	२१७	१	उद्व्यात्	२१३	९	उद्वेग	१९७	८
उदरीषी	१७	२	उद्व्यात्	२९	३	उद्वेग	{ १६४ ११७ १९१ २६	
उदरीष्य	{ ७९ ८८	{ ७ १०२	उद्व्यात्	२९	७१	उद्वेग	{ ४४ २६ २ २३	
उदुम्बर	{ ७१ १८४	{ ७ ७२	उद्व्यात्	२२१	१२	उद्वेग	१९७	६
उदुम्बरपर्णी	७	१४८	उद्व्यात्	७१३	८९	उद्वेग	२९	६७
उदुम्बरक	१७	२५	उद्व्यात्	२२१	११	उद्वेग	६३	१
उदुम्बरीय	२१७	७	उद्व्यात्	२४८	११७	उद्वेग	६३	१
उदुम्बरीय	१२७	११२	उद्व्यात्	२९७	३३	उद्वेग	{ ८ ११७ १७२ ३७	
उदुम्बरीय	१६	६६	उद्व्यात्	५३	२	उद्वेग	८	११७
उदुम्बरीय	१६	१७	उद्व्यात्	१२८	१२१	उद्वेग	८	११७

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
जर्मिमत्	२१०	७१	ऋभुक्षिन्	१२	४४	एकाग्र्य	२११	८०
जप	५८	४	ऋष्य	९८	१०	एकान्त	१६	६७
जपण	१७२	३६	ऋष्यकेतु	९	२७	एकाब्दा	१७८	६८
जपर	५८	५	ऋषभ	३९	१	एकायन	२११	७९
जपवत्	५८	५		८७	११६	एकायनगत	२११	८०
जप्यागम	२७	१९		१७७	५९	एकावली	१२५	१०६
जह	३०	३		२०८	५९	एकाशील	८१	८१
ऋ	१८३	९०	ऋषि	१४०	४३	एकाशीला	८२	८५
			ऋष्यप्रोक्ता	८२	८७	एड	११४	४८
ऋक्ष	२१	२१	ए	८४	१०१	एडक	१८०	७६
						एडगज	९२	१४७
						एडमूक	२०३	३८
ऋक्षगन्धा	९१	१३७	एक	२११	८२	एडक	६२	४
ऋक्षगन्धिका	८६	११०	एकक	२१२	८२	एत	९८	१०
ऋच्	३४	३	एकक	२११	८२	एत	३३	१७
ऋजीष	१७२	३२	एकगुरु	१३४	१२	एतर्हि	२८०	२३
ऋजु	२१०	७२	एकतान	२११	७९	एव	६९	१३
ऋजुरोहित	१९	१०	एकताल	३९	३	एधस्	६९	१३
ऋण	१६६	३	एकदन्त	११	३८	एधा	२२०	१०
ऋत	३७	२२	एकदा	२८०	२२	एधित	२११	७६
			एकधु	१७८	६५	एनस्	२८	२३
ऋतीया	२२५	३२	एकधुरावह	१७८	६५	एरण्ड	७६	५१
ऋतु	२६	१३	एकधुरीण	१७८	६५	एला	८८	१२५
			एकपदी	६१	१५	एलापर्णी	९१	१४०
ऋतुमती	१०८	२१	एकपिङ्ग	१६	६९	एलावालुक	८८	१२१
ऋते	२७५	३	एकयष्टिका	१२५	१०६	एवम्	२७४	२५०
ऋत्विज्	१३५	१७	एकसर्ग	२११	८०		२७६	९
ऋद्ध	१७०	२३	एकहायनी	१७८	६८		२७७	१२
ऋद्धि	८६	११२	एकाकिन्	२११	८२		२७८	१५
ऋमु	७	८	एकाग्र	२११	७९	२७८	१६	
				२६२	१९०			

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
उपास्य	१६०	८८	उषधी	१३	५२	उष्णप	२६८	२२
उपासन	१९	८६	उषी	५८	३	उष्णोष्णम	२७	१९
उपासना	१३८	३७	उषाक	९४	१५७	उष्णक	७७	१८
उपासित	२१६	१२	उष्य	१९	९	उष	२३	११
उपाहित	{ २५ २१४	{ १ ९२	उसुक	{ ९० २२८	{ १५ ६	उषा	१७८	६६
उपेन्द्र	८	२	उसूतस	१७	२	उत	२११	१०१
उपोदिका	९४	१७७	उसूतसक	७१	१४	उपह	१७	७१
उपोद्वार	१९	९	उसूपित्	५२	१८	ऊन	२५	१९८
उपद्वार	१५७	८	उसूमा	२८४	१	ऊम्	२७९	१८
उपययुत्	२७	७१	उसुक	१७१	१	ऊरपी	२७४	२५४
उमा	{ ११ १६	{ ३६ २	उसू	११२	३१	ऊरव्य	१६५	१
उमापाति	१	३४	उसूज	२११	८१	ऊरी	२७४	२५४
उम्य	१६१	७	उसूज्य	११६	७७	ऊरीकृत	२१७	१८
उर-द्विजा	१२	१४	उसूमेध	१७८	१२	ऊर	११	७१
उरग	४७	१	उसूमेस	७	६	ऊरम	१६७	१
उरगुण	१५७	६४	उसूमान्	१२	२७	ऊरान्वित्	११९	७१
उरग	११	७१	उसूमी	७	११४	ऊर	२७	१८
उरगात्म्य	७	१४७	उसूमा	८१	७	ऊरस्वस	१७१	७७
उरग्न	११	७१	उसूभ्य	११	५४	ऊरमिन्	१७७	७
उररी	२७८	२५४	उसूम्	२४	९	ऊरमाम	११	११
उररीकृत	२१७	१८	उषा	२७	१८	ऊमा	७११	५७
उरम्	१	७८	उषागति		९७	ऊमानु	{ १८ १८६	{ ७६ १७७
उरमिग	१७	७१	उषाग	७१७		ऊर्याक	७	७
उररर	११	७८	उष	१८	७७	ऊर्यामानु	१११	४७
उररन्	१७७	७१	उष्य	{ ७७ १	{ १ १	ऊर्यानु	११४	१७
उररु	७१	७१	उष्यापित्त	२७	१९	ऊरि	७	७
उर्राग	७८	४	उष्यिका	१७	७	ऊरिका	१११	१७

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
कर्मिन्	२१०	७१	कमुक्षिन्	१२	४४	एकाग्र्य	२११	८०
कप	५८	८	कन्या	१८	१०	एकान्त	१६	६७
कषण	१७२	३६	कण्यकेतु	९	२७	एकाब्दा	१७८	६८
कपर	५८	५	कपभ	३९	१	एकायन	२११	७९
कपवत्	५८	५		८७	११६	एकायनगत	२११	८०
कप्मागम	२७	१९		१७७	५९	एकावली	१२५	१०६
कह	३०	३	कपि	१४०	४३	एकाशील	८१	८१
कक्ष	१८३	९०	कक्ष्यप्रोक्ता	८२	८७	एकाशीला	८२	८५
						एड	११४	४८
कक्षगन्धा	२१	२१	एक	२११	८२	एडक	१८०	७६
						एडगज	९२	१४७
						एडमूक	२०३	३८
कक्षगन्धिका	७७	५७	एक	२३०	१६	एडक	६२	४
						एकक	२११	८२
कक्ष	३४	३	एकगुरु	१३४	१२	एत	३३	१७
कक्षीप	१७२	३२	एकतान	२११	७९	एतर्हि	२८०	२३
कक्षु	२१०	७२	एकताल	३९	३	एव	६९	१३
कक्षुरोहित	१९	१०	एकदन्त	११	३८	एधस्	६९	१३
कक्षण	१६६	३	एकदा	२८०	२२	एधा	२२०	१०
कक्षत	३७	२२	एकधु	१७८	६५	एधित	२११	७६
			एकधुरावह	१७८	६५	एनस्	२८	२३
कक्षतीया	१६६	२	एकधुरीण	१७८	६५	एण्ड	७६	५१
			एकपदी	६१	१५	एला	८८	१२५
कक्षतु	२३८	६१	एकपिङ्ग	१६	६९	एलापर्णी	९१	१४०
			एकयष्टिका	१२५	१०६	एलावालुक	८८	१२१
कक्षतुमती	१०८	२१	एकसर्ग	२११	८०	एवम्	२७४	२५०
कक्षते	२७५	३	एकहायनी	१७८	६८		२७६	९
कक्षत्विज्	१३५	१७	एकाकिन्	२११	८२		२७७	१२
कक्षद	१७०	२३	एकाम्र	२११	७९		२७८	१५
कक्षदि	८६	११२		२६२	१९०	२७८	१६	
कक्षमु	७	८						

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक
दयधिक	१९३	३२	भौपथी	{ ६८	१	ककुपती	११९	७४
धे				{ ९	१३५	ककुन्दर	११९	७५
दिकागारिक	१९१	२४	भौपथीघ	२	१४	ककुम	{ १७	१
दियुद्ध	७	१८	भोष्ट	१२२	९०		{ ४	७
देष	९८	८	भौसक	१७७	६		{ ७५	४७
देषेम	९८	८	भौषिटी	२९७	३९	कक्ष	{ १२०	७९
देषिष्	१३४	१२	भौषित्य	२९७	३९	कक्ष	{ २६७	२१९
देषिष्ठक	२११	७९	भौषानपादि	२१	२		कक्ष्या	{ १७१
देषवण	१३	४६	भौस्तुम्ब	२६९	२२९	कक	{ २५३	१०८
देषवत्	{ १३	४६	भौस्तिक	१७१	२८	ककठक	९९	१३
	{ १८	३	भौस्तिक	२	२१	ककठक	१५७	६४
	{ ७४	३८	भौपगवक	२२७	३९	ककच	१२६	१३८
देषवटी	१९	९	भौपविक	१४७	२४	ककठिका	१३२	११९
देषविष्ठ	१६	६	भौपवत्	११	३१	ककस	११८	६९
देष्वेम	८८	१२१	भौमीन	१६३	७	ककोकक	१३	१३
देष्वर्ष	११	३६	भौरप्रक	१८	७७	ककु	१६९	२०
देष्वमस्	२७	२	भौरस	११	२८	ककुच	१२३	९५
भौकस्	२७	२३३	भौष्पदेशिक	१३०	३	ककुचर	२७	५५
	{ ४	९	भौष्प	१४	५३	ककुचि	२७८	१४
भौष	{ १३	३९	भौष्पीर	२६१	१८५	ककुच	{ ६	१
	{ २३२	२०	भौषय	{ ९	१३५		{ ८९	१२८
भौषकार	३४	४	भौष्क	१८	७७	ककुचन	७३	२१
भौषम्	२७	२३३	क			ककुचपी	२७१	१३२
भौषपुण	/	७६	क	{ २२८	५	ककुचम्	११५	७३
भौषु	७	६		{ २२८	७	ककुचपुर	११६	५८
भौषन	१०५	४८	क	१०२	३२	ककुचपु	८३	७२
भौषम्	२७७	१२	क	८	२१	ककुच	{ ४८	९
भौष	२२		ककुच	१४३	२३		{ १५७	६३
						ककुचिन्	१४४	८

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
कट	११९	७४	कण	२०८	६२	कनक	१८३	९४
	१५०	३७		२३५	४६	कनकाध्यक्ष	१४४	७
	१७१	२६	कणा	८४	९६	कनकालुका	१४९	३२
	१५०	३७		१७२	३६	कनकाह्वय	८१	७७
	२३३	३४	कणिका	७९	६६	कनिष्ठ	११३	४३
कटक	६६	५	कणिश	१६९	२१	कनिष्ठा	२३४	४१
	१०६	१०७	कटक	२९५	३२		१२१	८२
कटभी	९३	१५०	कटकारिका	८३	९३	कनीनिका	१२३	९२
कटम्भरा	८२	८५	कण्टकिफल	७८	६१	कनीयसू	२०८	६२
	९३	१५३	कण्ठ	१२२	८८		२७१	२३५
कटाक्ष	१२३	९४	कण्ठभूषा	१२५	१०४	कन्या	२८४	३
कटाह	२९०	२१	कण्डूरा	८२	८६	कन्द	९४	१५७
कटि	११९	७४	कङ्क	११५	५३	कन्दर	६६	६
कटिप्रोथ	११९	७५	कङ्कया	११५	५३	कन्दराल	७२	२९
कटी	१२०	७५	कण्डोल	१७०	२६			
	२९७	३८	कण्डोलवीणा	१९२	३१	कन्दर्प	९	२५
कटु	३१	९	कत्तूण	९६	१६६	कन्दलिन्	९८	९
	८२	८५	कथा	३४	६	कन्दु	१७१	३०
	२३३	३५	कदध्वन्	६१	१६	कन्दुक	१३१	१३८
कटुतुम्बी	९४	१५६	कदम्य	७५	४२	कन्धरा	१२२	८८
कटुरोहिणी	८२	८५	कदवक	१०३	४०	कन्यकाजात	१०९	२४
कट्फल	७४	४०						
कट्वग	७७	५६	कदर	७६	५०	कपट	४४	३०
कठिखर	८१	७९	कदर्य	२०६	४८	कपर्द	११	३५
कठिन	२१०	७६	कदलिन्	८६	११३	कपर्दिन्	१०	३२
कठिण्डक	०३	१५४				९८	९	कपाट
कठोर	२१०	७६	कदाचित्	२७५	४	कपाल	११८	६८
कडगर	१६९	२२	कदुष्ण	२३	३५	कपालभृत	१०	३२
कड्य	१७२	३५	कट्टु	३३	१६	कपि	९७	३
कटार	३३	१६	कट्टद	२०३	३७	कपिकच्छु	८२	८७

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक		
कवित्व	७१	२१	कमला	९	२७	करम	१२१	८१		
कविक	१३	१६	कमलासन	८	१७		११	७		
कविष्ठा	१८	४	कमलोत्तर	१८६	१	करमूषण	१०६	१८		
		७८	६३	कमित्तु	२	२३	करमर्वक	७९	६७	
		८८	१२	कम्प	४६	३८	करम्भ	१७१	७८	
कविशाली	८४	९७	कम्पन	२१	७४	करकह	१०१	८३		
कविश	३३	१६	कम्प	२१	७४	करकाक	१६	८९		
कपीतन	७२	२७	कम्पल	१२७	११६	करवाकिका	१६	९		
		७१		४३	१९४	करपीर	८१	७७		
		७८		६३	१५३	करशास्त्रा	१२१	८२		
कपोठ	९९	१४	कम्पि	१७२	३४	करशीकर	१	३७		
कपोठपाकिका	६४	१	कम्पु	५३	२३	करहाड	५७	४३		
कपोठाभि	८९	१२९				२५१	१३३	करहाटक	७६	५२
कपोक	१२२	९	कम्पुपीवा	१२२	८८	करास	२६१	२५		
कफ	११७	६२	कम्प	२	२४	करगानिउ	१६३	१७		
कफिन्	११७	६	कर	७२	३३	करिष्ण	१४९	३६		
कफोपी	१२	८				१४८	२७	करिन्	१४९	३४
						२७	१६४			
कबन्ध	४९	४	करक	७८	६६	करिपिपिन्सी	८४	९७		
						२२८	६	करिशाषक	१४९	३१
कबरी	१	१३९	करवा	१	१२	करिरे	८१	७७		
		१२६	९७	करज	७२		४७	२५९	१०३	
		१७३	४					८९	१२९	करीव
कम्	२७४	२	करकाक	७६	४७	करकल	४२	१७		
कमठ	५३	२१	करद	१	२	करना	४२	१८		
कमठी	५६	२४				२३३	३४	करदु	१	१९
कमड्डु	१४	४६	करण	१८०	२	करेणु	२३६	५२		
कमन	७	२८				२३७	५४	करपाट	११८	६९
कमण	४९	३	करण्ड	२८	१८	करक	१७२	४६		
			५७	४	करतीपा	५	३३	करकटक	५३	२१
			२६३	१४	करणम	१९३	३४	करकटी	१४	१५५

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.
वर्षम्	७६	३६	कर्मकर	{ १८९	८	कल्पिक	१००	१८
कर्मरी	१७१	३१		{ १९९	१९	कल्पश	१७१	३१
कर्मरेट्टे	१००	१०९	कर्मकार	१९९	१०	कल्पशी	८३	९३
कर्मज	{ ०२	१२६	कर्मक्षम	१०९	१८	कल्पस्त	१०१	२३
			कर्मट	१०९	१८	कल्प	१६०	१०४
			कर्मण्या	१०४	३८			
कर्मि	९१	१५५	कर्मोदन्	१३९	४१	कल्प	{ २०	१५
कर्मचूर	९३	१५४	कर्मवृत्त	२१०	३		{ २५	११
कर्मचूरक	९०	१३५	कर्मशील	१९९	१८	कल्पाद	{ १८८	८
कर्मण	१०३	९८	कर्मशूर	१९९	१८	कल्पानिर्व	१९	१८
कर्मजलौकम्	९९	१३	कर्मसन्निभ	१४३	८	कल्पाप	२५०	१२९
कर्मघार	५१	१२	कर्मार	९५	१६०	कल्पाय	१६८	१६
कर्मपूर	२६९	२०७	कर्मनिद्रय	३१	८	कल्पि	{ १६२	१०५
कर्मवेष्टन	१२५	१०३	कर्मि	१८२	८६		{ २६३	१९८
कर्मिका	{ १०५	१०३	कर्मिक	१६८	६	कल्पिका	७०	१८
			कर्मपाल	७७	५८	कल्पिग	{ ७९	६७
कर्मिकार	७८	६०	कर्मि	२६८	२२२		{ ९९	१६
कर्मिरीय	१५३	५२	कर्म	३९	०	कल्पिद्रुम	७७	५८
कर्मोजप	२०५	४७	कर्मकल	३८	२५	कल्पिमारक	७६	४८
कर्मिरी	१९३	३३		{ २०	१७	कल्पिल	२१२	८५
कर्मिम	५०	९		{ २२८	४	कल्पिप	{ २८	२३
कर्मिट	१२७	११५	कर्मित्र	२६०	१७८		{ ५२	१४
कर्मिर	११८	६८	कर्मिवीत	२४१	७६	कल्पेवर	११९	७०
कर्मिराश	२५९	१७५	कर्मिभ	{ १५९	८७	कल्पक	२३०	१४
कर्मिरी	१८५	१०१		{ १७२	३५		{ २८	२१
कर्मिरी	१३०	१३०	कर्मिभ	१४९	३५	कल्प	{ २८	२२
कर्मिरी	{ १५	६०	कर्मिभ	१७०	२४		{ १३९	३९
			कर्मिभ	१७०	२४		{ १४७	२४
			कर्मिभ	१७०	२४			
कर्मिरी	१८३	९४	कर्मिभ	९४	१५७	कल्पना	१५१	४२
कर्मिरी	२१८	१	कर्मिभ	११२	३८	कल्पवृक्ष	१३	५०
कर्मिरी	२१८	१	कर्मिभ	११२	३८	कल्पान्त	२८	२२

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	
कस्मात्	२८	३३	कस्तूरी	१३	१२९	काञ्चनाक्षय	७८	६५	
कस्मात्	३३	१७	कङ्कार	७६	३६	काञ्चनी	१७३	४१	
कस्य	26	२	कङ्क	१	२२	काञ्ची	१२६	१०८	
		११६	७७	काञ्चिष्य	३	४	काञ्चिक	१७३	२९
		२७६	१५९	काङ्क	१	२	काङ्क	२३७	४३
कस्या	३७	१८	काङ्कचिषा	८४	९८	काण्डपृष्ठ	१५५	६७	
कस्याग	२८	२५	काङ्कविन्दुक	७४	३९	काण्डवत्	१५६	६	
कहोम	७	६	काङ्कनाटिका	१७	११८	काण्डीर	१५६	६९	
कवच	१७०	६४	काङ्कपत्र	१०३	९६	काण्डेक्षु	१५	१४	
कवस	१५१	५४	काङ्कपत्रक	७४	३९	कातर	०	१	
कवि	22	२५	काङ्कमाषी	३	१५३	कात्यायनी	११	२६	
		१३३	७	काङ्कमुद्रा	१६				११३
कविका	१	४९	काङ्कषी	७९	२	कादम्ब	१	२३	
कविम	०	३७	काङ्कगी	८७	११८	कादम्बरी	१	३	
कनोष्ण	२३	३५	काङ्कणा	२८४	९	कादम्बिनी	१८	८	
कस्य	१३६	२८	कानु	३६	१२	कादम्बेय	४७	४	
कशा	१९०	३१	काकुद	१२०	१	कामन	६७	१	
कशाह	०	४४	काकुन्द	७४	३९	कान्ति	१	२४	
कशिपु	२	१३	काकोडुम्बरिका	७१	३१	कान्त	२	७२	
कशोद	२१६	१३	काकोदर	६७	७	काम्नाखण्ड	८	१२८	
कशोदना	११८	६९	काकोठ	६८	१	काम्ना	१	७	
कसम	१३३	१९				काकोठ	२१	काम्नातर	६९
कस्य	१०	४७	कांछा	४४	२७	काम्नातर	२७९		
		१६	६	काशी	२३३			१	काम्नातरक
कस्य	०	८४	काश	११४	९	काम्नातरिणी	१	१	
						१	२	३	कान्ति
कस्य	११	०	५	२३०	०१	कान्ति	०२	८	
									१
कस्य	४	१	कान्ति	२१३	१९	कादिरिक	०	४२	
			२७६	३	काशम	१८३	७	कापय	६१

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
कापोत	{ १०४	४३	कारम्भा	७७	५६	कालक	११४	४९
	{ १८६	१०९		{ ८६	१११	कालकठक	१००	२१
कापोताजन	१८४	१००	कारवी	९३	१५२	कालकूट	४८	१०
	{ ९	२५		{ १७२	३७	कालखड	११८	६६
काम	{ ४४	२८		{ १७३	४०	कालधर्म	१६४	११६
	{ १७६	५७	कारवेह्य	९३	१५४	कालपृष्ट	१५९	८३
	{ २५२	१३८	कारा	१६५	११९	कालमेधी	८३	९६
कामगामिन्	१५७	७६	कारिका	२३०	१५	कालमेपिका	{ ८३	९०
कामन्	२००	२४	कारीप	२२७	४३		{ ८६	१०९
कामपाल	१	२३	कार	१८७	५	कालमेपी	८३	९६
कामम्	२७७	१३	कारुणिक	१९८	१५	कालशेय	१७५	५३
कामयितृ	२००	२४	कारण्य	४२	१८	कालसूत्र	४८	२
कामिनी	{ १०५	३	कारोत्तर	१९४	४२	कालस्कन्ध	{ ७४	३८
	{ २४७	११२	कार्तस्वर	१८३	९५		{ ६९	६८
कामुक	२००	२३	कार्तातिक	१४५	१४		{ ८३	९४
कामुका	१०६	९	कार्तिक	२७	१७	काला	{ ८६	१०९
कामुकी	१०६	९	कार्तिकिक	२७	१८		{ १७२	३७
कापिल्य	९२	१४६	कार्तिकेय	१२	३९	कालागुरु	१२९	१२७
काम्वल	१५३	५४	कात्स्न्य	२६०	१७८	कालानुसार्य	{ ८८	१२२
काम्बविक	१८८	८	कार्पास	{ १२६	१११		{ १२९	१२६
काम्बोज	१५१	४५	कार्पासी	८७	११६	कालाय	१६८	१६
काम्बोजी	९१	१३८	कार्पासी	८७	११६	कालायस	१८४	९८
काम्यदान	२१९	३	कार्म	१९९	१८	कालिका	२३०	१५
	{ ११९	७१	कार्मण	२१९	४	कालिन्दी	५५	३२
	{ १४१	५०	कार्मुक	१५९	८३	कालिन्दीभेदन	९	२४
काय			कार्प्य	७५	४४	काली	११	३६
			कार्षापण	१८२	८८	कालीयक	१२९	१२६
कायस्था	७७	५६	कार्षिक	१८२	८८	कालियक	८४	१०१
कारण	२९	२८		{ १४	५९	काल्पक	९०	१३५
कारणा	४९	३		{ २४	१	काल्या	१७९	७०
कारणिक	१९७	७	काल	{ ३२	१४			
कारण्डव	१०२	३४		{ २६३	१९४			

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
कावाचिक	१५५	६६	किञ्चित्	२७१	८	किञ्चिन्	२८	२३
कायरी	७१	३७	किञ्चुलक	५३	२२	किञ्चोर	२३८	२२३
काव्य	२२	२१	किञ्चुलक	५७	४३	किञ्चु	१५२	४९
काय	९५	१६२	किटि	९७	२	किञ्चु	२२९	७
कादमरी	७४	२१	किट्ट	११८	६५	किञ्चुल्य	७	१४
कादमय	७४	६६	किण	२८९	१८	किञ्चु	११८	६८
काश्मीर	९२	१४	किणिही	८२	८	किञ्चु	९५	१३१
काश्मीरजन्मद	१२	१२४	किण्व	१९४	४२	किनाय	२३७	२१५
काश्चापि	२३	३२	किण्व	८१	७७	किर	१	२१
काश्चरी	५८	२	किण्व	१५	४३	किरि	३५	२१
काठ	३९	१३	किण्व	७	११	किरि	१३	७७
काठकुशाक	७१	१३	किण्व	१७	७१	किरि	२६३	१७
काष्ठवष्	१८८	९	किण्व	१६	६९	किरि	१९७	७३
काश	{ १७ २७ २३४	{ १ ११ ४१	किण्व	२७४	२५१	किञ्चु	४९	३
			किण्व	२७६	५	किञ्चु	२६४	२
			किण्व	२७१	५	किञ्चु	२४	४२
काशाम्बुवाहिनी	५१	११	किण्व	२७	२	किञ्चु	९७	३
काशीका	८६	११३	किण्व	२७६	५	किञ्चु	५८	३
काश	११५	२	किण्व	२३	४८	किञ्चु	२७२	२४
काशमद	२८१	१	किण्व	१७	७१	किञ्चु	११४	४८
कासर	७	४	किण्व	२३	३३	किञ्चु	११९	७
कासार	५४	२८	किण्व	१९	२	किञ्चु	२१४	७७
काव	२३९	६७	किण्व	२	१४३	किञ्चु	९	१७
किण्वन्ती	३४	७	किण्व	७	२	किञ्चु	१३	३७
किण्वरु	{ १६ २७	{ २१ १६३	किण्वरु	१२१	१२	किञ्चु	९	१३२
			किण्वरु	३३	१७	किञ्चु	१९१	२१
किण्वरु	७२	७	किण्वरु	२७४	२५४	किञ्चु	१२	७७
किण्वरु	११	१०	किण्वरु	५३	५३	किञ्चु	२	२१
किण्वरु	१	१०	किण्वरु	११७	६१	किञ्चु	१२९	१२३
किण्वरु	१२६	११	किण्वरु	१७१	२६	किञ्चु	१२	७७

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
कुचन्दन	१३०	१३२	कुड्य	६२	४	कुपूय	२०७	५४
कुचर	२०३	३७	कुणप	१६५	११८	कुप्य	१८३	९१
कुचाम्रं	१२०	७७						
कुज	२२	२५	कुणि	८९	१२८	कुवेर	१६	६८
कुञ्चित	२१०	७१						
कुञ्ज	६७	८	कुठ	१९९	१७	कुवेराधी	७७	५५
		२३३	३१	कुण्ड	१११	३६	कुब्ज	११४
कुञ्जर	१४९	३४	कुण्डल					
		२०८	५९	कुण्डलिन्	१२५	१०३	४१	१२
कुञ्जराशन	७१	२०	कुण्डली	४७	७	कुमारक	७२	२५
कुञ्जल	१७३	३९	कुण्डी	१४०	४६	कुमारी	८०	७३
कुट	६८	५	कुतप	१३७	३१			
		१७२	३२	कुतुक	४४	३१	कुमुदप्राय	५९
कुटक	१६८	१३	कुतुप	१७२	३३	कुमुदवान्धव		
कुटज	७९	६६	कुतू	१७२	३३	कुमुदिका	७४	४०
कुटन्नट	७७	५७	कुतूहल	४४	३१	कुमुदिनी	५६	३९
		९०	१३१	कुत्सा	३६	१३	कुमुद्वत्	५९
कुटिल	२१०	७१	कुत्सित	२०७	५४	कुमुद्वती	५६	३८
कुटो	६२	६	कुथ	९६	१६६	कुम्वा	१३५	१८
		२९७						
कुटुम्बव्यापृत	१९८	११	कुदाल	७१	२२	कुम्भकार	१८८	६
कुटुम्बिनी	१०५	६	कुनटी	१८६	१०८			
कुट्टनी	१०८	१९	कुनाशक	८३	९१	कुम्भिका	५६	३८
कुट्टिम	२९५	३४	कुन्त	१६०	९३	कुम्भी	७४	४०
कुठर	१८०	७४	कुन्तल	१२३	९५			
कुठार	१६०	९२	कुन्द	८०	७३	कुम्भार	१८८	६
कुठेरक	८१	७९				कुन्द	८८	१२१
कुडगक	२८८	१७	कुन्दुरु	२८९	१९	कुम्भिका	५६	३८
कुडघ	१८२	८९				कुन्दुरु	८८	१२१
कुड्मल	७०	१६	कुन्दुरकी	८८	१२४	कुम्भीर	५३	२१
						कुम्भार	९८	८

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक
कुंराक	१९१	२४	कुस्मा	८	३४	कुक्षर	१९८	१४
कुण्डक	{ ८ ८०	{ ७४ ७५	कुनक	{ ७४ २९८	{ ३६ ४२	कुड	{ २४ २४४	{ १० ३०
कुवक	८	७४	कुवकव	५६	३०			
कुरर	१ १	२३	कुवाद	२ ३	३७	कुटकन	१९१	२३
कुरवक	८	७५	कुविन्द	१८८	३	कुट्यास्मिधि	७३	४०
कुवविन्द	९५	१५९	कुवेणी	७२	१६	कुट्यस	२१	७३
कुववित्त	१८२	८६	कुष	{ ९६ २६७	{ १६३ २१६	कुप	७४	२३
कुठ	{ १ ४ ११२	{ ४१ १	कुष	{ २८ १ ७	{ ७६ ४	कुपक	{ ५ ५१	{ १ १२
कुडक	{ ७४ ९६ १८८	{ ३९ १५ ५	कुषाण	{ १ ७ २३	{ ४ २ ४	कुषर	१५४	७०
कुड्य	१ ३	१	कुषी	१८४	९	कुषधीर्षि	९१	१४२
कुमारिका	१८५	१ २	कुषीक्य	१८९	१२	कुषिका	१७४	४४
कुम्पाविका	१ ६	७	कुषीयम	७७	४	कुर्वन	४५	३३
कुम्भेष्टिन	१८८	५	कुष्ट	{ ११७ २ ५	{ १२६ ३४	कुर्वर	१२	८
कुम्भमम	१३२	२	कुष्ट			कुर्वतक	१२८	११८
कुम्भरी	१ ६	७	कुष्टीर	१६६	४	कुर्म	७३	२१
कुम्भ	१ ३	३०	कुष्टीरि	१६६	५	कुम्भ	७०	४
कुम्भल	१८८	३	कुष्टीरि	१६६	५	कुम्भाण्डक	४	१७७
कुम्भली	१८५	१ २	कुष्टुम	७	१७	कुम्भण	१०	१९
कुम्भिश	१३	४०	कुष्टुमोन्न	१८५	१ ३	कुम्भलाठ	९८	१२
कुम्भी	८३	४	कुष्टुमेयु	२६	२६	कुम्भलाफु	९	१७
कुम्भीन	१६२	३	कुष्टुमम	{ १८६ २ १	{ १ ६ १३६	कुम्भलाफा	१२२	८८
कुम्भीर	३	२१	कुष्टुमि	४४	३	कुम्भ	{ ४ १४७	{ ४ ७७
कुम्भार	{ १३ २	{ १८ ७१	कुम्भुद	१७३	३८	कुम्भ	२४१	७७
कुम्भारामिपुत्र	१०३	३	कुम्भना	१४२	७३	कुम्भुग	१७७	६८
कुम्भ	११८	६८	कुम्भर	६१	१	कुम्भमास	७१	२४
			कुम्भ	११	१	कुम्भुग	१९६	४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	
कृतलक्षण	१९७	१०	कृषिक	{ १६६	६	कैलि	४५	३२	
कृतसापत्निका	१०५	७		{ १६८	१३	कैवल	२६४	२०३	
कृतहस्त	१५५	६८	कृषीवल	१६६	६	केश	१२३	९५	
कृतान्त	{ १४	५८	कृष्ट	१६७	८	केशपर्णी	८२	८९	
			कृष्टि	१३३	६	केशपाशी	१२४	९७	
कृताभिपेका	१०५	५	कृष्ण	{ ८	१८	केशव	{ ८	१८	
कृतिन्	{ ११३	६				२६		१२	११३
						४	३२	१४	केशवेश
	१९६		१७२	३६	केशाम्बुनाम	८८	१२२		
कृत्	२१६	१०३	कृष्णपाकफल	७९	६७	केशिक	११३	४५	
कृत्ति	१४०	४६	कृष्णफला	८३	९६	केशिन्	११३	४५	
कृत्तिवासस्	१०	३१	कृष्णभेदि	८२	८६	केशिनी	८९	१२६	
कृत्या	२५६	१५८	कृष्णला	८४	९८	केशर	{ ५७	४३	
कृत्रिमधूपक	१२९	१२८	कृष्णलोहित	३३	१६			७२	२५
कृत्सन	२०९	६५	कृष्णवर्त्मन्	१४	५४			७८	६४
कृष्ण	२०६	४८	कृष्णवृन्ता	७७	५५			७८	६५
कृषा	४२	१८	कृष्णसार	९८	१०	केशरिन्	९७	१	
कृषाण	१६०	८९	कृष्णा	८४	९६	कैटभजित्	८	२२	
कृषाणी	१९३	३३	कृष्णिका	१६९	१९	कैड्य	७४	४०	
कृषालु	१९८	१५	ककर	११४	४९	कैतव	{ ४४	३०	
कृषीट्योनि	१४	५३	केका	१०२	३१	१९५		४४	
कृमि	९९	१३	केकिन्	१०२	३०	कैदारक	१६७	११	
कृमिकोशोत्थ	१२६	१११	केतकी	९६	१७०	कैदारिक	१६७	११	
कृमिघ्न	८५	१०६	केतन	{ १६२	९९	कैदार्य	१६७	११	
कृमिज	१२९	१२६				२४७	११४	कैरव	५६
कृश	२०८	६१	केट्ट	२३८	६०	कैलास	१६	७०	
कृशानु	१४	५४	कैदर	२८९	२०	कैवर्ता	५२	१५	
कृशानुरेतस्	१०	३३	कैदार	१६७	११	कैवर्तीमुस्तक	९०	१३२	
कृशाश्विन्	१८९	१२	केनिपातक	५१	१३	कैवल्य	३१	६	
कृषि	१६५	२	केयूर	१२६	११७	कैशिक	१२३	९६	

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
भैरव	१२३	९६	कोसक	{ १३ १२९	कोमोदकी	१	२८	
कोक	{ ८८	७	{ १०२	६६	कोसटिनेय	११	२०	
कोकनद	५७	४२	कोकन्दक	८०	१९	कोसट्टम	{ १९	२६
कोकनदशक्ति	३२	१५	कोकम्बली	८४	९७	कीसटेर	१९	२६
कोकिस	१	१९	कोका	८४	९७	कोकीन	२४८	११६
कोकिलश	८५	१४	कोकाहस	३८	२५	कोलेयक	१९१	२१
कोर	६९	१३	कोली	७४	३६	कोधिक	{ ७२	३४
कोटवी	१८	१७	कोविद	१३३	५	{ २२	१	
काटि	{ १५९	८४	कोविदार	७१	२२	कोशेय	१२६	१११
	{ १६	३	कोष	{ १३	३७	कोस्तुम	१	२८
	{ २३४	३८	कोषफल	२३	२३	ककप	१९३	३४
काटिवपा	९	१३३	काम्यातकी	२२	८	ककर	{ ८१	७७
कोटिमा	१६७	१२	कोप	१८३	११	{ १	१९	
कोट्टार	२८	१८	कोप	२३४	४	कटु	१३४	१६
कोठ	११७	७४	काष्ण	२३	३७	कतुष्पिन्	१	३४
काण	{ ४	६	कोकनुटिक	२३	१७	कतुमुन्	७	९
	{ १६	३	कोक्षेयक	१६	८०	कयम	१६४	११५
कांदक	१९	९३	कोटस्य	१८८	१	कर्दम	{ १६३	१७
काद्रप	१६८	१६	कोटिक	१८	१४	{ २४	१२३	
काप	८३	२६	कोषय	१७	७	कभित	१४७	३५
कोपना	१५	४	कभुक्	४६	३१	कम	१३	३९
कोविन्	२२	३२	कोतुहल	४६	३१	{ ७८	४१	
कोमल	२०१	७८	काद्रवीष	१६७	८	{ ७	४१	
कोर्वाष्टक	१३	३७	कोन्ती	८८	१२	{ १	१६	
कोरक	७	३७	कोन्तीक	१५६	७	कमसक	१८	७६
कोरगी	८	१२७	कीर्पान	२४	१२२	कपयिमापिक	१८०	७८
कारक्य	१६८	१६	कीमारी	११	३५	कपिक	१८१	७९
कांत	{ ५१	११	कीमुदी	२०	१६	कप्य	१८१	८१
	{ ७४	३६				कप्य	११७	६३
	{ ९७	२						

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
क्रव्यात्	१५	५९	क्लिशित	१२५	९८	क्षपाकर	२०	१५
क्रव्याद	१५	५९	क्लिष्ट	३७	१९	क्षम	२५३	१४२
क्राधिक	१८१	७				२१५	९८	क्षमा
क्रिया	२१८	१	क्लीतक	८६	१०९	क्षमितृ	२०२	३१
		२५५	१५७	क्लीतकिका	८३	९४	क्षमिन्	२०२
क्रियाषत्	१९९	१८	क्लीव (व)	११२	३९	क्षतृ	२०२	३१
क्रीडा	४५	३२				२६६	२१३	क्षय
		४५	३३	क्लेश	२२५	२९	११५	
कुच्	१००	२२	क्लोमन्	११८	६५	२२०	७	
कुधू	४३	२६	क्लण	३८	२४	२५३	१४५	
कुष्ट	४५	३५				२२०	८	११५
कूर	२०६	४७	क्लणन	३८	२४	१६९	१९	
		२१०	७६	क्लथित	२१४	९५	११५	५२
		२६२	१९१	क्लाण	३८	२४	२१५	९७
क्रेतव्य	१८१	८१	क्लण	२६	११	क्षान्त	४३	२४
क्रेय	१८१	८१				४६	३८	क्षान्ति
क्रौड	९७	२	क्षणदा	२४	४	क्षारक	७०	१६
		१२०				७७	१६४	११४
क्रोध	४३	२६	क्षणन	१६४	११४	क्षारित	२०४	४३
क्रोधन	२०२	३२	क्षणप्रभा	१९	९	क्षिति	५८	२
क्रोशयुग	६१	१८	क्षतज	११७	६४		२३९	७०
क्रोष्टु	९७	५	क्षतव्रत	१४२	५४	क्षिपा	२२१	११
क्रोष्टुविना	८३	९३	क्षत्	१५४	५९		क्षिप्त	२१३
क्रोष्ट्री	८६	११०				१८७	३	क्षिप्नु
क्रौंच	१००	२२	२३८	६३	क्षिप्र	१५	६४	
क्रौंचदारण	१२	४०	क्षत्रिय	१४३	१	२१८	११२	
क्लम	२२१	१०	क्षत्रिया	१०७	१४	२२०	७	
क्लमथ	२२१	१०	क्षत्रियी	१०७	१५	४९	४	
क्लिन्न	२१७	१०५	क्षत्रियाणी	१०७	१४			१७५
क्लिन्नाक्ष	११६	६०	क्षपा	२४	४	२६०	१८२	

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
धीरबिह्वलि	१७४	४४	धेन	{ १६७	११	सगेभर	१	७९
धीरविदारी	८६	११		{ ७६	१८	सजाका	१७२	१४
धीरशुद्धा	८६	११	धीप्रह	{ २०	२९	संभ	११४	४०
धीराभी	८४	१		{ २३३	३३	संजन	०९	१५
धीरिका	७५	४५	धेप्राचीन	१६६	३	संजरीट	९०	१५
धीरोद	४९	२	धपम	२२१	११	सट	२८८	१०
धीव	२	२३	धेपनी	७१	१६	सटबा	१३१	१६८
धुत्	११५	५२	धविष्ठ	२१८	१११	सन्न	{ ९७	४
धुव	११५	५२		{ २८	२६		{ १६	८९
धुवामिबन्धन	१६९	१९	धेम	{ ८९	१२८	सन्निन्	९७	४
				{ २९७	३४			
धुव	{ २ ६	४८	धीणी	५८	२	सण्ड	{ २	१६
	{ १५९	१७७	धोद	१६१	९०	संभपरशु	१	३१
धुवपटिका	१२६	११	धोविष्ठ	२१८	१११	संभविचार	१७३	४३
धुवशोष	५३	२३	धीद्र	१८६	१७	संभिक	१६८	१६
धुव्रा	{ ८९	४	धीम	{ ६४	१२	संभिर	७६	४९
	{ २७९	१७७		{ १२७	११३	संभिरिय	९१	१४१
धुव्राप्यमस्त्रसंघात	२	१९	धुव	२१४	९१	संघोष	१	२
धुव	१७६	७४	धमा	५८	३	सनि	६६	७
धुवित	२	२	धमाम्भ	{ ६१	१	सनिभ	१६८	१२
धुव	६८	८		{ १४३	१	सपुर	९६	१६९
धुमा	१६९	२	धेह	४८	९			
धुव	{ ८७	१ ४	धेडा	{ १६६	१ ७	सर	{ २३	३७
	{ १७२	४९		{ २३५	४३	सरपण	११३	४३
धुवक	७४	४	धेडित	२ ७	३४	सरपण	११३	४३
धुवम	७८९	२		४		सरपुष्पा	९१	१६९
धुवित्	१८८	१	ध	{ १७	१	सरमञ्जी	८२	८
				{ ७३१	१८			
धुवड	{ १	१६		{ १ २	३२	सय	७९	६९
	{ २२	१	धगा	{ १५०	८६	सरपुष्पा	८६	१११
	{ २४८	६१		{ ७३१	१०	सय	११५	७६

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
खजूर	{ ९६	१७०	ग	१		गण्डकारी	९१	१४१
	{ १८४	९६	गगन	१७	१	गण्डशैल	६६	६
खजूरी	९६	१७०	गङ्गा	५५	३१	गंडाली	९४	१५९
खर्व	{ ११३	४६	गङ्गाधर	१०	३४	गडीर	९४	१५७
	{ २०९	७०	गज	३४९	३४	गहूपद	५३	२२
खल	२०५	४७	गजता	१४९	३६	गहूपदी	५४	२४
खलपू	१९९	१७	गजवन्धनी	१५१	४३	गहूषा	२८४	१०
खलिनी	२२७	४२	गजभक्ष्या	८८	१२३	गतनासिक	११४	४६
खलीन	१५२	४९	गजानन	११	३८	गद	११५	५१
खलु	२७४	२५५	गजा	६३	८	गद्य	२९४	३१
खलेदार	१६८	१५	गडक	५२	१७	गत्री	१५३	५२
खल्या	२२७	४२	गड्ड	२८९	१८	गघ	३१	७
खात	५४	२७	गड्डुल	११४	४८	गंघकुटी	८८	१२३
खादित	२१८	११०	गण	{ १०३	४०	गघन	२४७	११५
खारी	१८२	८८		{ १५८	८१	गघनाकुली	८७	११४
खारीक	१६७	१०	गणक	२४५	१४	गंघफली	{ ७७	५६
खारीवाप	१६७	१०	गणदेवता	६	१०		{ ७८	६४
खिल	५९	५	गणनीय	२०८	६४	गन्धमादन	६६	३
	{ ८९	१३०	गणरात्र	२४	६	गन्धमूली	९३	१५४
	{ १५२	४९	गणरूप	८१	८०	गन्धरस	१८५	१०४
खुरणस्	११४	४७	गणहासक	८९	१२८		{ ७	११
खुरणस	११४	४७	गणाधिप	११	३८	गन्धर्व	{ १४	५२
खेट	२०७	५४	गणिका	{ ८०	७१		{ ९८	११
खेय	५५	२९	गणकारिका	{ २०८	१९		{ १५१	४४
खेला	४५	३३	गणित	{ ७९	६६		{ २५१	१३३
खोड	११४	४९	गणय	२०८	६४	गन्धर्वहस्तक	७६	५०
ख्यात	२९७	९	गण्ड	{ १२२	९०	गन्धवह	१५	६२
ख्यातगहिर्ण	२१४	९३		{ १५०	३७	गन्धवहा	१२२	८९
ख्याति	२२०	९	गण्डक	९७	४	गन्धवाह	१५	६२
						गन्धसार	१३०	१३१

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक			
धीरविद्वति	१७४	४४	धो	{	१६७	११	उगोभर	१	२९		
धीरविदायी	८६	११					{	२६	१८	नवाका	१०२
धीरशुभा	८६	११	धोत्रस	{	२	२९	संज्ञ	११६	४९		
धीरपी	८४	१					{	२३३	३३	संज्ञन	०
धीरिका	७	४७	धोनाभीप		१६६	६	संज्ञपीठ	९०	१५		
धीरोद	४९	२	धोपम		२२१	११	उद	२८८	१		
धीष	२	२३	धोपनी		७१	१३	उदका	१३१	११		
धुग्	११७	७२	धुग्नि		२१८	१११	उदक	{	९७		
धुव	११७	५२	धुग्	{	२८	२६				उदक	{
धुतामिजनन	१६९	१					धुग्	{	८		
धुग्	{	२ ३ ४८	धुग्	{	५८	२				उदक	{
							१५९	१७७	१६१		
धुग्घटिका	१२६	११	धुग्घट		२१८	१११	संज्ञकिकार	१०३	४१		
धुग्घोष	५३	२३	धुग्घोष		१८६	१७	संज्ञिक	१६८	१६		
धुग्घा	{	८३ १४ १७७	धुग्घोष	{	६४ १२ १२७	११३	संज्ञिर	७६	४९		
							१२७	११३	संज्ञिर	९१	१४१
धुग्घाखमस्वर्षपात	२	१९	धुग्घोष		२१४	९१	संज्ञोत्	१	२८		
धुग्घ	१७६	७४	धुग्घोष		५८	३	संज्ञि	६६	७		
धुग्घित	२	२	धुग्घोष	{	६७	१	संज्ञि	१६८	१२		
धुग्घ	६८	८	धुग्घोष	{	१४३	१	संज्ञि	९६	१६९		
धुग्घा	१६९	२	धुग्घोष		४८	९	संज्ञि	२३	३५		
धुग्घ	{	८५ १ ४	धुग्घोष	{	१६३ १ ७	४३	संज्ञि	{	१८		
							१७२	४९	उदक	११३	४६
धुग्घक	७४	४	धुग्घोष		२ ५	३४	उदक	११३	४६		
धुग्घम	२८९	२	धुग्घोष		१७	१	उदक	९१	१३९		
धुग्घिन्	१८८	१	धुग्घोष	{	२३१	१८	उदक	८२	८९		
धुग्घ	{	१ १६ २२ २७८	धुग्घोष	{	१ २ १६९ ७३	१२	उदक	७९	६९		
							१६९	८६	उदक	८६	१११
							७३	१	उदक	११५	५३

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	
खजूर	{	९६ १७०	गगन	ग	१	गण्डकारी	९१	१४१	
		१८४ ९६		१७	१	गण्डशैल	६६	६	
खजूरी		९६ १७०	गङ्गा	५५	३१	गंडाली	९४	१५९	
खर्व	{	११३ ४६	गङ्गाधर	१०	३४	गडीर	९४	१५७	
		२०९ ७०	गज	१४९	३४	गडूपद	५३	२२	
खल		२०५ ४७	गजता	१४९	३६	गडूपदी	५४	२४	
खलपू		१९९ १७	गजबन्धनी	१५१	४३	गडूषा	२८४	१०	
खलिनी		२२७ ४२	गजभक्ष्या	८८	१२३	गतनासिक	११४	४६	
खलीन		१५२ ४९	गजानन	११	३८	गद	११५	५१	
खलु		२७४ २५५	गजा	६३	८	गद्य	२९४	३१	
खलेदारु		१६८ १५	गडक	५२	१७	गत्री	१५३	५२	
खल्या		२२७ ४२	गड्डु	२८९	१८	गघ	३१	७	
खात		५४ २७	गड्डुल	११४	४८	गंघकुटी	८८	१२३	
खादित		२१८ ११०	गण	{	१०३ ४०	गघन	२४७	११५	
खारी		१८२ ८८				१५८ ८१	गंघनाकुली	८७	११४
खारीक		१६७ १०				२३५ ४६	गंघफली	{	७७ ५६
खारीवाप		१६७ १०	१४५ १४	२० १०	७८ ६४				
खिल		५९ ५	गणक	१४५	१४	गन्धमादन	६६	३	
खुरणसु	{	८९ १३०	गणदेवता	६	२०	गन्धमूली	९३	१५४	
		१५२ ४९	गणनीय	२०८	६४	गन्धरस	१८५	१०४	
खुरणस		११४ ४७	गणरात्र	२४	६	गन्धर्व	७ ११		
खेट		११४ ४७	गणरूप	८१	८०		१४ ५२		
खेय		५५ २९	गणहासक	८९	१२८	गन्धर्व	९८ ११		
खेला		४५ ३३	गणाधिप	११	३८		१५१ ४४		
खोड		११४ ४९	गणिका	{	८० ७१	गन्धर्व	२५१ १३३		
ख्यात		२९७ ९	गणकारिका				१०८ १९	६६	
ख्यातगर्हिण		२१४ ९३	गणित	२०८	६४	गन्धर्वहस्तक	७६	५०	
ख्याति		२२० ९	गण्य	२०८	६४	गन्धवह	१५	६२	
			गण्ड	{	१२२ ९०	गन्धवहा	१२२	८९	
			गण्डक			१५० ३७	६२	गन्धवाह	१५
				९७	४	गन्धसार	१३०	१३१	

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.
गन्धारमन्	१८७	१०२	गदमांड	७७	४३	गम्भ	१७	५
गन्धिफ	१८५	१२	गद्वन	२	२२	गम्मा	१७७	६०
गन्धिपत्री	८८	१२३	गर्भ	{ ११२	५९	गम्भूत	६१	१८
गन्धोत्तमा	१९४	३९	गर्भ	{ २५१	१३५	गहन	{ ६७	१
गंधोत्थी	११	२७	गमक	१३१	१३५	गहर	{ २१२	८
गमास्ति	२३	३३	गमागार	६३	८	गहर	{ ३६	६
गमीर	७२	१५	गम्याद्य	११२	१८	गहिर	{ २३१	१८१
गम	१६१	९५	गभिणी	१०९	२२	गगिय	{ १८३	९४
गमन	१६१	०५	गभोत्प्रादिनी	१७९	६९	गगिबकी	{ २५८	१५५
गोमारी	७४	३५	गभुव	९६	१६८	गगिबकी	८७	११०
गम्भीर	५२	१५	गर्भ	४३	२२	गघट	१६	३७
गम्भ	२१४	०२	गर्भित	२४६	१३	गाभिन्य	१०	२२
गरण	१२३	३७	गह्व	३६	१३	गाभिक	१७	८४
गरुड	४८	०	गर्भ	२७	५४	गोडीप	१७	८४
गण	७१	६९	गह्वरादिन्	२०३	३७	गात्र	{ १११	७०
गरिमन्	११	३६	गह्व	१२७	८८	गात्र	{ १७०	४
गरिष्ठ	२१८	११२	गह्वरगत	१७७	६३	गाभानुष्ठपनी	१३	१३३
गरी	७	६०	गह्वन्तिका	१७१	३१	गान	३८	२६
गह्व	१०	२०	गह्वित	२१६	१४	गाभवार	३८	१
गह्वम्भ्र	८	१९	गह्वोदय	१७२	४८	गापथी	७६	४९
गह्वाम्भ्र	२३	३२	गम्भा	२२७	४२	गादामत	१८३	१
गह्व	१३	३६	गहन	१८	११	गाभिज	१०	२३
गहामत्	{ १०	२९	गहन	१८४	१००	गाह्वर	१२५	१९
	{ १०७	३४	गहाय	६३	९	गाह्व	७३	३३
	{ २३०	५८	गहाधी	९४	१७६	गिर	३३	१
गर्भो	१८	७४	गपीधर	१७६	५८	गिर	{ ६७	१
गर्भित	{ १०	८	गरोड	१७	२५	गिर	{ १२१	१३
	{ १४०	३६	गरोडुका	१७०	२५	गिरिकर्णी	८५	१०४
गह	४६	२	गहनगत	१३७	३२	गिरिका	८	१२
गह	१८०	७०	गहोत्प	२१७	१०५	गिरिक	१८५	१०४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
गिरिजा	११	३७	गुन्द्र	९५	१६२	गृञ्जन	९२	१४८		
गिरिजामल	१८४	१००	गुन्द्रा	{	७७ ५५	गृधु	२००	२२		
गिरिमल्लिका	७९	६६				९५	१६०	गृध्र	१००	२१
गिरिश	१०	३१	गुप्त	{	२१३ ८९	गृध्रसी	२८४	१०		
गिरीन्ना	१०	३१				२१७	१०६	गृष्टि	९३	१५०
गिलित	२१८	११०	गुप्तवाद	२५८	१६७	गृह	{	६२ ४ ६२ ५ २७१ २३८		
गीत	३८	२६	गुप्त	२४०	७४					
गीर्णि	२२१	११	गुरण	२२१	११					
गीर्वाण	७	९	गुरु	{	२१ २४	गृहगोधिका	९८	१२		
गीष्पाति	२१	२४				१३३	७	गृहपति	१४५	१५
गुगुलु	७३	३४	२५७	१६२	गृह्यालु	२०१	२७			
गुच्छ	{	१२५ १०५	गुर्विणी	१०९	२२	गृहस्थूण	२९४	३०		
			गुल्फ	११९	७२	गृहगत	१३८	३४		
गुच्छक	७०	१६	गुल्म	{	६८ ९	गृहाराम	६७	१		
गुच्छार्द्ध	१२५	१०५				११८	६६	गृहावग्रहणी	६४	१३
गुप्ता	८४	९८				१५८	८१	गृहिन	१३२	३
गुड	२३४	४२	२५३	१४२	१६२	गृहीतृ	२०१	२७		
गुडपुष्प	७२	२७	गुल्मिनी	६९	९	गृह्यक	{	१०४ ४३ १९९ १६		
गुडफल	७२	२८	गुवाक	९६	१६९					
गुहा	८५	१०५	गुह	१२	३९	गेन्दुक	१३१	१३८		
गुह्य	{	८२ ८२	गुहा	{	६६ ६	गेह	६२	४		
			२९			२९	८३	९३		
गुह्य	{	१५९ १७१ १९१ १३५	गुह्य	२५५	१५४	गैरिक	{	६७ ८ २२९ १२		
			गुह्यक	७	११	गैरेय	१८५	१०४		
			गुह्यकेसर	१६	६८	गो (गौ)	{	१७७ ६० १७८ ६६ २३२ २५		
			गूढ	४७	२१३				८९	
गुणवृक्षक	५१	५२	गूढपाद	४७	७	गोकण्टक	८४	९३		
गुणत	२१३	८८	गूढपुरुष	१४५	१३	गोकर्ण	{	९८ १० १२१ ८३		
गुणित	२१३	८९	गूय	११८	६८					
गुद	३१९	७३	गूय	२१५	९६					

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
गोकर्णी	८२	८४	गोपाक	१०६	५७	गोस्तनी	८५	१७
गोकुण्ड	१०६	५८	गोपि	१९	११२	गोस्थानक	६	१३
गोक्षुरक	१४	९९		६४	१६	गौतम	८	१८
गोष्वर	३३	८	गोपुर	९	१३२	गौघार	९७	६
गोशिखा	८८	११९		२६	१८२	गौषय	९७	६
गोडुग्धा	९४	१८६	गोप्यक	१९	१७	गाधर	९७	६
गोड	२८९	१८	गोमूत्र	१७६	५८		३२	१३
	६९	१	गामत्र	१७९	५	गौर	३२	१६
गोन	१३७	१	गौमाषु	७	७		२६२	१८९
	२६	१८	गोमिन्	१७६	५८	गौरो	११	२६
गोत्रमिड्	१२	४२	गौरव	१७५	५६		१६	८
गोत्रा	७१	३	गोर्द	११८	६५	गौधीन	६	१३
	१७७	६	गाह	२८९	२	गम्य	२६	१७९
गोदारण्य	१६८	१४	गोहक	१११	३६	गम्यि	७७	१६२
गोशुह	१७६	७	गोहा	१८६	१८	गम्यिक	१८६	११
गाधन	१७६	५८	गोबीट	७४	३९	गम्यित	२१२	८६
गोधा	१५७	८६		८४	१२	गम्यिष्य	९	१३२
गोधापदी	८७	११९	गोष्ठीमी	४	१५९	गम्यिष्य	७४	३७
गोधि	१२३	२		१८६	१११		८१	७७
गोषिका	५३	२२	गोकम्पनी	७७	५५	गम्य	३७	२
गोधूम	१६९	१८	गोमूत्र	१७	५		२१८	१११
गोमर्द	९	१३२	गोमिन्	८	१९		२५	६
गोमूत्र	४७	४		२४३	९१	गम	२१	८
	१४४	७	गोष्ठीर्य	१३	१३१		२७१	२६६
गोष	१७६	५७	गोड	६	१३	गहणीकम्	११६	५५
	२५	१३	गोष्ठापति	७	१३	गहपाति	२२	६
गोपति	१७७	६३	गोष्ठी	१३८	१५	गहति	२१	२७
गोपस	१८५	१४	गोष्पह	२४४	९४		६५	१९
गोपानदी	६४	१५	गोष्ठाप्य	१७६	५७	गाम	२५२	१४१
गोपाय	२१७	१३	गोस्त्वन्	१२५	१७५	गामपी	२३३	१४५

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.			
ग्रामतक्ष	१८८	९	घण्टारवा	८५	१०७	घोणिन्	९७	२			
ग्रामता	२२७	४०	घन	१८	७	घोंटा	७४	३७			
ग्रामार्धान	१८८	९		३९	४				९६	१६९	
ग्रामान्त	६५	२०		४०	९	धोर	४२	२०			
ग्रामीणा	८३	९४		१६०	९१	घोष	६५	२०			
ग्राम्य	३७	१९		२०९	६६	घोषक	८७	११७			
ग्राम्यधर्म	१४२	५७	२४७	१११	घोषणा	३५	१२				
श्रावन्	६५	१०६	घनरस	४९	५	घ्राण	१२२	८९			
			घनसार	१३०	१३०				२१३	९०	
			घनाघन	१४७	११०	घ्राणतर्पण	३२	११			
श्रास	१७६	५४	धर्म	४५	३३	घ्रात	०१३	९०			
श्राह	५३	२१	धस्मर	२००	२०	घ	२७२	२४१			
			ध्रल	२४	२				२७६	५	
श्राहिन्	७१	२१	घाटा	१२२	८८	च	१०३	३५			
श्रीवा	१२२	८८	घाटिक	१६१	९७	चकोरक	१०	२८			
श्रीष्म	२७	१८	घात	१६४	११५				५०	७	
श्रैवेयक	१२५	१०४	घातुक	२०१	२८	चक्र	१००	२२			
गल्स्त	२१८	१११	घास	२०६	४७				१५३	५६	
गल्ह	१९५	४५	घुटिका	९६	१६७				१५७	७८	
गलान	११६	५८	घुण	११९	७२	चक्रकारक	२६०	१८२			
गलास्तु	११६	५८	घूर्णित	२८९	१८				८९	१२९	
ग्लौ	१९	१४	घृणा	४२	१८	चक्रपाणि	८	२०			
घट	१७२	३२				घृणा	२२५	३२	चक्रमर्दक	९२	१४७
						घटना	१६३	१०७	२३६	५१	चक्रयान
घटा	१६३	१०७	घृणि	२३	३३	चक्रला	९५	१६०			
घटीयन्त्र	१९२	२७	घृत	१७५	५२	चक्रवर्तिन्	१४३	२			
घट्ट	२८९	१८	घृष्टि	२४०	७६	चक्रवर्तिनी	९३	१५३			
घण्टापथ	६१	१८	घोटक	९७	२	चक्रवाक	१००	२२			
घण्टापाटलि	७४	३९	घोणा	१५१	४३	चक्रवाल	१८	६			
				१२२	८९				६५	२	

शब्द	पृष्ठ	स्तम्भ	शब्द	पृष्ठ	स्तम्भ	शब्द	पृष्ठ	स्तम्भ
पकाइ	११	२३	चतुस्र	८	२	चमडी	२८४	१०
पकाडी	८९	८६	चतुस्र	१४३	५७	चमू	{ १५७ ७८	
पकिन्	४७	७	चतुस्र	३३	१७		{ १५८ ८१	
पकीवत्	१८	७७	चतुस्र	१७८	३८	चमू	१८	३
पसु भवत्	४७	७	चतुस्र	१७८	३८	चमू	७८	६३
पसु	१२३	९३	चतुस्र	{ ६४ १३	{ १३ १८	चमू	{ ६२ १	
पसुवा	१८५	१२	चतुस्र	{ १३१ १८			{ १०३ ४०	
पसुव	७१०	७५	चतुस्र	२७५	३	चतुस्र	{ १४५ १३	
पसुवा	९९	१	चतुस्र	{ १२३ १२४		चतुस्र	{ २१ ७४	
पसु	{ ७३ ५३		चतुस्र	{ १३ १३१		चतुस्र	२	३३
पसु	{ १३ ३३		चतुस्र	{ १३ १३		चतुस्र	११९	७१
पसु	१	१८	चतुस्र	{ १२ १४३		चतुस्र	९९	१७
पसु	१	१८	चतुस्र	{ २३ १८२		चतुस्र	२११	८१
पसुव	१८६	११	चतुस्र	१३	३३	चतुस्र	६६	७
पसुव	१३९	१८	चतुस्र	५३	३४	चतुस्र	२१	७४
पसुव	१२	३२	चतुस्र	१९	१३	चतुस्र	२१	७४
पसुव	८९	१२८	चतुस्र	८८	१२५	चतुस्र	१३३	२७
पसुव	७३	२१	चतुस्र	१	३	चतुस्र	७८८	१०
पसुव	८१	७३	चतुस्र	१३	१३	चतुस्र	{ ३ ७	
पसुव	१२८	११९	चतुस्र	१३०	८९	चतुस्र	{ १२८ १२९	
पसुव	{ १८७ १८७		चतुस्र	७	१३	चतुस्र	{ १४ ४६	
पसुव	१	१९	चतुस्र	{ १५ ६५		चतुस्र	{ १३ १	
पसुव	१२	३१	चतुस्र	{ १७ ४५		चतुस्र	९२ १४३	
पसुव	११	३७	चतुस्र	{ १ ४५		चतुस्र	१८८ ७	
पसुव	६२	३	चतुस्र	{ ८४ ४		चतुस्र	१३ ३३	
पसुव	१०	१	चतुस्र	१२१	८४	चतुस्र	{ ७५ ४६	
पसुव	७१	७३	चतुस्र	८	१	चतुस्र	{ १७३ ७१	
पसुव	१	१३	चतुस्र	७१	२२	चतुस्र	१३८ ३७	
पसुव	१४३	५८	चतुस्र	२०६	३५	चतुस्र	२१८ ११	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
चल	२१०	७४	चाप	९९	१६	चित्रशिखण्डिन्	२२	२७
चलदल	७१	२०	चिकित्सक	११६	५७	चित्रशिखण्डिज	२१	२४
चलन	२१०	७४	चिकित्सा	११४	५०	चित्रा	{ ८२	८७
चलाचल	२१०	७४	चिकुर	{ १२३	९५		{ ९४	१५६
चलित	{ १६१	९६	चिकुर	{ २०५	४६	चिन्ता	४४	२९
						चिक्रण	१७४	४६
चषिका	८४	९८	चिक्रस	२९६	३५	चिवुक	१२२	९०
चव्य	८४	९८	चिचा	७५	४३	चिवरक्रिय	१९९	१७
चषक	१९५	४३	चित्	{ २९	१	चिवरतन	२११	७७
चषाल	१३५	१८				{ २७५	३	चिवरप्रसुता
चाक्रिक	१६१	९७	चिता	४४	२९	चिवरवित्त्व	७६	४७
चाङ्गेरी	९१	१४०	चिता	१६५	११७	चिवररात्राय	२७५	१
चाटकैर	१००	१८	चिति	१६५	११७	चिवरस्य	२७५	१
चाण्डाल	१९०	२०	चित्त	२९	३१	चिवराय	२७५	१
चाण्डालिका	१९२	३१	चित्तविभ्रम	४४	२६	चिवरिटी	१०६	९
चातक	९९	१७	चित्तसमुन्नति	४३	२२	चिालचिम	५२	१८
चातुर्वर्ण्य	१३२	२	चित्ताभोग	३०	२	चिह्न	{ १००	२१
चाप	१५९	८३	चित्या	१६५	११७			
चाम्भ	१४८	३१	चित्र	{ ३३	१७	चिह्न	२०	१७
चामीकर	१८३	९५				{ ४२	१९	चीन
चामुण्डा	११	३५	{ २६०	१७८	चीर	२९४	३१	
चाम्पेय	{ ७८	६३	चित्रक	{ ७६	५१	चीरी	१०२	२८
						{ ७८	६५	{ ८१
चार	{ १४५	१३	चित्रकर	१८८	७	चुक	{ ९१	१४१
			{ २२२	१४	चित्रकृत्			
चारटी	९२	१४६	चित्रतड्डुला	८५	१०६		{ २८९	२०
चारण	१८९	११२	चित्रपर्णी	८३	९२	चुक्रिका	९१	१४०
चारु	२०६	५२	चित्रभानु	{ १४	५६	चुल्ल	११६	६०
चारिचिक्प	१२८	१२२				{ २२	३०	चुलि
चालनी	१७०	२६	{ २४६	१०५	चूचुक	१२०	७७	

शब्द,	पृष्ठ	रथोक	शब्द,	पृष्ठ	रथोक	शब्द	पृष्ठ	रथोक
भूषा	{ १२ ३१ १२४ ९७		भूषा	१८०	७९	भूषित	२१६	१ ३
भूषामणि	११५ १ २	भूषाकांठी	११	१३७	भूषित	४६	२	
भूषाम्	९५ १६	भूषण	१४०	३२	भूषित	२१६	९९	
भूष	७३ ३३	भूषण	१४०	३२	भूषित	२१६	१ ३	
भूषं	{ १३ १३४ १६१ ९९	भूषण	{ ८५ १ ५ ११६ १६७ १७३ ३७		भूषित	२१६	९९	
भूषकुण्डल	१२३ ९६	भूषण	८०	११५	भूषित	८२	८२	
भूषि	२८४	भूषण	{ ६९ १४ १ ३ ३६		भूषित	१६०	९२	
भूषिका	१८ ३८	भूषण	६	१४	भूषित	१०४	४३	
भूषक	१९ १७	भूषण	६	१४	भूषित	२१९	७	
भूष	२७७ १२	भूषण	६४	१४	भूषित	७९	६	
भूषकी	७७ ५९	भूषण	८४	३	भूषित	{ १ १ २४ ७१		
भूषतन	२९ ३	भूषण	{ २०३ २ २४३ ८८		भूषित	१५	३२	
भूषतना	२० १७	भूषण	{ १३६ २९ २० २३२		भूषित	१५५	६४	
भूषत	३९ ३१	भूषण	{ १४० २२ ११५ १८		भूषित	१९७	४१	
भूषत	६० ७	भूषण	१६३	१०८	भूषित	२१८	१११	
भूषत	७६ १५	भूषण	{ ० १० ०३ ३४		भूषित	१७६	५५	
भूषत	१६ ७	भूषण	१८	७६	भूषित	११	७४	
भूषिक	३६ १५	भूषण	{ ० १० ०३ ३४		भूषित	७८	६१	
भूष	{ ११० ११५ १६४ २ २	भूषण	१८	७६	भूषित	{ २११ ८१ २५६ १०९		
भूष	{ १ ४ ३ १३४ १३	भूषण	१८	७६	भूषित	{ १११ ४३ १८७ १		
भूषपुरी	८९ १२३	भूषण	{ ११३ ४४ ११६ १०३		भूषित	२१	७४	
भूष	१३८ ११८	भूषण	११४	११	भूषित	२१	७३	
भूष	१९१ २४	भूषण	११५	११	भूषित	११०	७२	
भूषिका	१ १ २५	भूषण	११६	११	भूषित	१५६	७३	
भूष	१ १ २५	भूषण	११६	११	भूषित	१५६	७३	
भूष	११६ १ ४	भूषण	११६	११	भूषित	१५६	७३	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
जटा	{	६९ ११	जनि	२९	३०	जयन्त	१३	४६
		१२४ ९७	जनी	{	९३ १५३	जयन्ती	७९	६५
		२३४ ३८			१०६ ९	जया	७९	६५
जटाजूट	११	३५	जनुस्	२९	३०	जय्य	१५७	७४
जटामांसी	९०	९३४	जन्तु	२९	३०	जरण	१७२	३६
जटिन्	७३	३२	जन्तुफल	७१	२२	जरत्	११३	४२
जटिला	९०	१३४	जन्मन्	२९	३०	जरद्रव	१७७	६१
जठर	{	२२० ७७	जन्मिन	२९	३०	जरा	११२	४१
		२१० ७६	जन्य	{	१४३ ५८	जरायु	११२	३८
		२६२ १८९			१६२ १०३	जरायुज	२०६	५०
जड	{	२० १९	जन्यु	{	२५६ १५९	जल	{	४९ ३
		२०३ ३८			२९ ३०			२९१ २३
जङ्गल	११४	४९	जप	१४१	४७	जलजन्तु	५३	२०
जतु	१२९	१२५	जपापुष्प	८०	७६	जलघर	१८	७
जतुक	१७३	४०	जम्पती	११२	३८	जलनिधि	४९	२
जतुका	१०१	२६	जम्बाल	५०	९	जलनिर्गम	५०	७
जतुकृत्	९३	१५३	जम्बीर	{	७२ २४	जलनीली	५६	३८
जतूका	९३	१३५						
जत्रु	१२०	७८	जम्बु	७१	१९	जलप्राय	६०	१०
जनक	११०	२८	जम्बुक	{	९७ ३	जलमुक्	१८	७
जनगम	१९०	१९						
जनता	२२७	४२	जम्बू	७१	१९	जलशुक्ति	५३	२३
जनन	{	२९ ३०	जम्म	७२	२४	जलाधार	५४	२५
		१३२ १	जम्भभेदिन	१२	४३	जलाशय	{	५४ २५
जननी	११०	२९	जम्भल	७२	२४			९५ १६४
जनपद	५९	८	जम्भीर	७२	२४	जलोच्छ्वास	५० १०	
जनयित्री	११०	२९	जय	{	७९ ६०			
जनश्रुति	३४	७			१६३ ११२	जलौकस्	५३	२२
जनार्दन	८	१९	२३१ १६	जलौका	५३	२२		
जनाश्रय	६३	९	जयन	२३१	१२	जल्पाक	२०३	३६

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक			
अस्मिन्	२१७	१०७	आमि	२५३	१४२	वीरक	१७२	३३			
अव	{	१५	६४	आम्बव	७३	१९	वीर्ष	११३	४२		
		१५६	७३	आम्बूनद	१८४	९७	वीर्षवक्र	१२७	११७		
अवन	{	१५१	४५	आयक	१२९	१२५	वीर्षि	२२	९		
		१५३	७३	आया	१०५	६	वीव	{	२१	२४	
		२२६	३८	आयावीष	१८९	१२	१६५		११९		
अवनिका	१२८	१२	आयापती	११२	३८	वीवक	{	७९	४४		
अङ्गुतनवा	५५	३१	आयु	११५	५	९१		१४२			
आमरा	२२३	१९	आर	१११	३५	वीर्षवीष	१	३	३५		
आगरितु	२	२	आख	{	५२	१६	जीवन	{	४९	१	
आमरुक	२	२			२३४	२			१६७	३	
आगामा	२२३	१९	आकक	७	१३	जीवनी	९१	१४२			
आंगलिङ्ग	४८	११	आलिक	१८९	१४	जीवनीया	१	१४२			
आधिक	१५६	७३	आली	८७	११८	जीवनीपत्र	१६५	१७			
आय	{	२९	३१	आस्म	{	१९	१९	जीवितिका	{	८२	८२
		२४२	८५			१९९	१७			८२	८३
आयकम	१८३	९५	आफसु	२	२	जीवनी	९१	१४२			
आयनेदद	१४	५३	आङ्गी	८३	९	जीवा	९१	१४२			
आतामस्या	१	८	आखर	१५७	७७	जीवातु	१६५	१२			
आति	{	२९	३१	आिन	८	१३	जीवातक	१८९	१४		
		८	७२	आिणु	{	१२	४२	जीविका	३५	१	
२३९	३८	१५७	७७			जीवितकाक	१६५	१२			
आती	७१	१९	आिप्त	{	२१	७१	जगुन्वा	३६	१३		
आतीकोष्ठ	१३	१३२	२५२		१४१	जुग	१	१३७			
आतीकम	१३	१३२	आिप्रय	४७	८	जुहु	१३३	२५			
आदु	२७७	४	आिद्धा	१२३	९१	जुष्य	२२३	३८			
आतोष्ठ	१७७	३१	आिन	११३	४२	जुषि	२२३	३८			
आनु	११९	७२	आिमूत	{	१८	७	जम्भ	४५	३५		
आवास	१८९	११			७९	६९	जम्भव	४५	३५		
आमातु	१११	३२	२३७	५८	जेतु	{	१५७	७४			
							१५७	७७			

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
जेमन	१७६	५६	ज्योतिस्	२७०	२३०	टयन	१५३	५२		
जेय	१५७	७४	ज्योत्स्ना	२७	१६	ढहु	७८	६०		
जैत्र	१५७	७४	ज्योत्स्नी	८७	११८	डिडिम	४०	८		
जैवातृक	{	१९	१४	ज्यौत्स्नी	२४	५	टिडोर	१८५	१०५	
		१९७	६	ज्वर	{	११६	५६	डिम्य	२२२	१४
		२२९	११			२२६	३८	डिम्म	{	१०३
जौंगक	१२९	१२६	ज्वलन	१४	५३	डिम्भा	२५१	१३४		
जोत्स्नी	८७	११८	ज्वाल	१४	५७	डिम्भा	११२	४१		
जोपम्	२७४	२५१	झ	झ	झ	डुडुभ	४७	५		
ज	१३३	५				झटा	८९	१२७	डुलि	५४
जपित	२१५	९८	झटिति	२७५	२	ढ	ढ	ढ		
जप्त	२१५	९८	झर	६६	५				ढका	३९
जप्ति	२९	१	झर्झर	४०	८	त	त	त		
ज्ञातसिद्धान्त	१४५	१५	झल्लरी	२८४	१०				तक्र	१७५
ज्ञाति	१११	३४	झप	५२	१७	तक्षक	२२८	४		
ज्ञातृ	२०२	३०	झपा	८७	११७	तक्षन्	१८८	९		
ज्ञातेय	१११	३५	झाटल	७४	३९	तट	५०	७		
ज्ञान	३०	६	झाटलि	२९७	३८	तटिनी	५५	३०		
ज्ञानिन्	१४५	१४	झावुक	७४	४०	तडाग	५४	२८		
ज्या	{	५८	२	झिटी	{	८०	७४	तडित्	१९	९
		१५९	८५	८०		७५	तडित्वन्	१८	७	
ज्याघातवारण	१५९	८४	झिल्लिका	१०२	२८	तण्डक	२९५	३३		
ज्यानि	२२०	९	झीरुका	१०२	२८	तण्डुल	८५	१०६		
ज्यायस्	{	११३	४३	टक	१९३	३४	तण्डुलीय	९०	१३६	
		२७१	२३५	टिटिमक	१०३	३५	तत	{	३९	४
ज्येष्ठ	{	२६	१६	टीका	२८३	७			ततस्	२७५
		२३४	४१	टुटुक	७७	५६	तत्काल	१४८		
ज्योतिरिगण	१०२	२८	ड	ड	ड	तत्त्व	४०	९		
ज्योतिषिक	१४५	१४				डमर	२२२	१४	तत्त्व	४०
ज्योतिष्मती	९३	१५०	डमरु	४०	८					

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक		
तस्मिन्	११७	१	तस्मिन्	१४	४२	तस्मिन्	१२१	१२		
तथा	२७६	१	तस्मिन्	{	२२	३१	तस्मिन्	{	२१	७५
तथागत	८	१३	तस्मिन्	{	४८	१	तस्मिन्	१७५	५	
तथ्य	३७	२२	तस्मिन्	१८३	९४	तस्मिन्	{	१५	६४	
तद्	२७	३	तस्मिन्	{	२६	१७	तस्मिन्	{	१६२	१२
तदर्पण	१८१	८१	तस्मिन्	{	२७	२३२	तस्मिन्	११७	६३	
तदा	२८	२२	तस्मिन्	२६	१५	तस्मिन्	{	१५६	७३	
तदात्त	१४८	२९	तस्मिन्	१३९	४२	तस्मिन्	{	२७	१२८	
तदानीम्	२८	२२	तस्मिन्	०	१३४	तस्मिन्	७१	१		
तदव	११	२७	तस्मिन्	२२	२६	तस्मिन्	६८	७		
तदु	{	११	७१	तदु	{	२२	२६	तदु	११३	४२
		२८	६१			४६	३	तदु	१६	८
		२०	६६			२७	१३१	तदु	३	३
		२४७	११३			तदु	२४	४	तदु	३४
तदुन	१५७	६४	तदु	२४	४	तदु	७	६७		
तदु	११९	७१	तदु	{	७९	६८	तदु	१२१	८१	
तदुह	२१५	९९	तदु	{	२९५	३३	तदु	१७७	६१	
तदुनपाद्	१४	७३	तदु	१२९	१२३	तदु	१७७	६१		
तदुह	{	१३	३६	तदु	४६	३	तदु	१७२	३४	
		१२४	३६	तदु	२४	५	तदु	{	१३४	१४
तदु	१९२	२८	तदु	२४	४	तदु	{	१७३	७३	
तदुम	१६९	१७	तदु	२४	४	तदु	२१	४		
तदुपाय	{	९९	१३	तदु	२४३	८९	तदु	१३५	१९	
		१८८	६	तदु	२७१	२३८	तदु	{	४४	२८
तदु	७६१	१८५	तदु	९७	१	तदु	{	१७६	७७	
तदु	१२७	११२	तदु	७	७	तदु	{	१५	८४	
तदु	१२७	११२	तदु	७५	३	तदु	{	२६४	२७	
तदु	८२	८७	तदु	{	७३	३	तदु	२५०	१७७	
तदु	{	४६	३७	तदु	{	७१	१	तदु	२५	१३१
		२७	१७६			८	७३	तदु	२८	२७
तदु	१७	१	तदु	५१	११	तदु	२१७	९९		

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
तस्कर	१९१	२४	तालपत्र	१२५	१०३	तिरन्	{ २७५	२५६
तांडव	{ ४०	१०	तालपर्णी	८८	१२३		{ २७६	६
	{ २९५	३४	तालमूलका	८७	११९	तिरस्करिणी	१२८	१२०
तात	११०	२८	तालवृन्तक	१३२	१४०	तिरस्क्रिया	४३	२२
तात्रिक	१४५	१५	ताला	९	२४	तिरीट	{ ७३	३३
तापस	१३९	४२	ताली	{ ८९	१२७		{ २९४	३०
तापसतरु	७५	४६		{ ९६	१७०	तिरोधान	१९	१३
तापिच्छ	७९	६८	तालु	१२२	९१	तिरोदित	१६४	११२
तामरस	५७	४०	तावत्	२७३	२४६	तिर्यच्	२०३	३४
तामलकी	८९	१२७	तिक्त	३१	९			
तामसी	२४	५	तिक्तक	{ ३१	९		{ ७४	४०
ताम्बूलवल्ली	८८	१२०		{ ९४	१५५	तिलक	{ ११४	४९
ताम्बूली	८८	१२०	तिक्तशाख	७२	२५		{ ११८	६५
ताम्रक	१८४	९७	तिग्म	२३	३५		{ १२९	१२३
ताम्रकर्णी	१८	५	तिट् सुवन्तचय	३३	२	तिलकालक	११४	४९
ताम्रकुट्टक	१८८	८	तितउ	१७०	२६	तिलपर्णी	१३०	१३२
ताम्रचूड	९९	१७	तितिधा	४३	२४	तिलपिज	१६९	१९
तीर	{ ३९	२	तितिधु	००२	३१	तिलपेज	१६९	१९
	{ २५७	१६६	तित्तिरि	१०२	३५	तिलित्स	४७	५
ताकरजित्	१२	४०	तिथि	२८	१	तिल्य	१६६	७
तारका	{ २१	२१	तिनिग	७२	२६	तिल्व	७३	३३
	{ १२३	९२	तित्तिडी	७५	४३			
तारा	२१	२१	तित्तिडीक	१७२	३५	तिष्य	{ २१	२२
तारुण्य	११२	४०	तिन्दुक	७४	३८		{ २५४	१४७
ताक्ष्य	{ १०	२९	तिदुकी	२८४	८	तिप्यफला	७७	५७
	{ २५३	१४५	तिमि	५३	१९			
ताक्ष्यशैल	१८५	१९२	तिमिगिल	५३	२०	तीक्ष्ण	{ २३	३५
	{ ४०	९	तिमित	२१७	१०५		{ १८४	९८
ताल	{ ९६	१६८	तिमिर	४६	३	तीक्ष्णगन्धक	७३	३१
	{ १२१	८३						
	{ १८५	१०३				तीर	५०	७

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
तीर्थ	{ १११	५०	तुरक	१५१	४३	तुष्णीकाम्	२००	९
	{ २४२	८६	तुरगाम	१ १	४३	तुष	{ ९६	१६५
तीव्र	१६	६०	तुरगवदन	१०	७१		{ ९६	१६७
तीव्रवेदना	४९	३	तुरगघाह	१२	४४	तुषमुम	१६	१७
तु	{ २७२	२४२	तुरकक	१२९	१२८	तुषवान्य	१७०	२७
	{ २७८	१५	तुष	१८२	८७	तुषम्ब	९५	१६
	{ २७६	५	तुषाकीटि	१२६	१०९	तुषयज	९३	१६८
तुष	{ ७२	२५	तुषामान	१८२	८१	तुषय्य	७९	६०
	{ २ ९	७०	तुम्	१९१	३६	तुष्पा	९२	१६७
तुष्ठी	९१	१३९	तुम्पान	१७६	५५	तुष्ठीवाक्य	१९७	९
तुष्क	२ ७	५६	तुषर	२१	१	तुष्ठीप्रकृति	११०	३
तुष	१२२	८०	तुषरिका	९	१३१	तुत्	२१६	१ ३
तुषिकेरी	{ ८०	११६	तुष	{ ७७	५८	तुति	१७१	५६
	{ ९१	१०९	तुष	{ १६९	९२		{ ४४	७७
तुष्य	१८५	१०१	तुषार	{ २०	१८	तुष्य	{ १०१	५२
	{ ८३	९५		{ २	१०	तुष्यक्	२	२२
	{ ८९	१२५				तुष्पा	२३६	७१
तुष्योजन	१८५	१ १	तुषित	७	१	तुष्यन	९५	१६१
तुष्य	११	७७	तुषिन	२	१८	तुष्यनक	९५	१६२
तुष्यपरिगुञ्ज	१९०	१८	तुषी	१६	८९	तुष्यनी	८२	८३
तुष्यन्	११३	४४	तुषीर	१६	८८		{ ११७	६२
तुष्यिम	{ ११३	४४	तुष	७५	४१	तुष्यम्	{ ७७	२३४
	{ ११७	३१	तुषी	१	६५			
तुष्यिक	{ ११३	४४	तुष	{ ७५	४२	तुषित	२१४	९१
	{ ११७	३१		{ १८७	१ ६	तुषिम	२२५	९
तुष्य	८९	१२७	तुषिका	१९१	३०	तुष्यम	१७४	४४
तुष्यम	१८८	६	तुषर	२५७	१६५	तुष्यत्	१८४	९९
तुष (व) रिका	९	१३१	तुष्यीम	२७७	९	तुष्यता	१९३	३३
तुष्य	१६१	१ ६	तुष्यीषिष्ठ	२ ४	३९	तुष्यित	१ ४	४६
तुष्यी	९४	११६	तुष्यीक	१ ४	३९	तुष्यणिक	११	१६१
तुष्य	१५१	४३						

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
तैलपायिक	१०१	२६	त्रास	४२	२१	त्रिसव्य	२४	३
तैलपाता	२८३	६	त्रिक	{ ४०	१०	त्रिसीत्य	१६७	९
तैलोन	१६६	७		{ १२०	७६	त्रिस्रोतस्	५५	३१
तैष	२६	१५	त्रिककुद्	६८	२	त्रिहल्य	१६७	९
तोफ	११०	२८	त्रिकट्ट	१८६	१११	त्रिहायणी	१७८	६८
तोकक	९९	१७	त्रिका	५४	२७		{ ८९	१२५
तोकम	१६८	१६	त्रिक्ट	६६	२	त्रुटि	{ २०८	६२
तोटक	२९४	३०	त्रिखट्ट	२९८	४१		{ २३४	३७
तोत्र	{ १५०	४१	त्रिखट्टवी	२९८	४१	त्रेता	{ १३५	२०
	{ १६७	१२	त्रिगुणाकृत	१६७	९		{ २३९	६९
तोदन	१६७	१२	त्रितक्ष	२९८	४१	त्रोटि	१०३	३६
तोमर	१६०	९३	त्रितक्षी	२९८	४१	त्र्यन्दा	१७८	६८
तोय	४९	४	त्रिदश		७	त्र्यवक	१०	३३
तोयपिप्पली	८६	१११	त्रिदशालय	६	६	त्र्यम्बकसख	१६	६८
तोरण	६४	१६	त्रिदिव	६	६	त्र्यूपण	१८६	१११
तौर्यत्रिक	४०	१०	त्रिदिवेश		७	त्व	२१२	८२
त्यक्त	२१७	१०७	त्रिपथगा	५५	३१	त्वक्षीरी	१८६	१०९
त्वाग	१३७	२९	त्रिपुटा	{ ८५	१०८	त्वकूपत्र	९०	१३४
त्रषा	४३	२३		{ ८९	१२५	त्वक्सार	९५	१६०
त्रमु	१८५	१०५	त्रिपुरान्तक	१०	३३	त्वच्	{ ६९	१२
त्रयी	{ ३३	३	त्रिफला	१८७	१११		{ ११७	६२
	{ ३४	३	त्रिभण्डी	८५	१०८	त्वच	९०	१३४
त्रस	२१०	७४	त्रियामा	२४	४	त्वचिसार	९५	१६०
त्रसर	२२४	२४	त्रिलोचन	१०	३२	त्वरा	२२४	२६
त्रस्त	२०१	२६	त्रिवर्ग	{ १४३	५७	त्ररित	{ १५	६४
त्राण	{ २१७	१०६		{ १४८	१९		{ १५६	७३
	{ २२०	८	त्रिविक्रम	८	२०	त्ररितोदित	३७	२०
त्रात	२१७	१०६	त्रिविष्टप	६	६	त्वष्ट	२१५	९९
त्रायन्ती	९३	१५०	त्रिवृत्	८५	१०८	त्वष्टृ	{ १८८	९
त्रायमाणा	९३	१५०	त्रिवृता	८५	१०८		{ २३३	३५

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	
खिड् (पृ)	{ २३	३४	दबाहव	१७५	५३	दपित	२	७	६३
खिड् (पृ)	{ २६८	२२५	ददुम	१२	१४७	दर	{ ४२	२१	
खिड् (पृ)	{ २२	३	ददुप	११६	५०	दर	{ २६१	१८४	
खिड् (पृ)	{ १६	९	ददुरोमिन्	११६	५९	दरज्	२८४	९	
खिड् (पृ)	{ ५		ददित्य	७१	२१	दरिद्र	२	६	४९
खिड् (पृ)	{ १	१	ददिक्रम	७१	२१	दरी	३६	६	
खिड् (पृ)	{ १७५	६४	ददितकद्रु	१७५	७८	ददुर	७४	२४	
खिड् (पृ)	{ १७५	६	ददुज	७	१२	दर्पक	९	२७	
खिड् (पृ)	{ १	१	ददुन्त	१२२	९१	दर्पण	१३२	१४	
खिड् (पृ)	{ १०	२	ददुन्तपावन	७६	६०	दर्म	६	१६६	
खिड् (पृ)	{ १९	१	ददुन्तभाग	७	४	दर्शि	१७२	३४	
खिड् (पृ)	{ १९७		ददुन्तघाठ	{ ७१	२१	दर्शिकर	४७	८	
खिड् (पृ)	{ १५४	६	ददुन्तघाठ	{ ७२	२६	ददु	{ २५	८	
खिड् (पृ)	{ १७	१	ददुन्तघाठा	११	१४	ददु	{ १६१	४८	
खिड् (पृ)	{ १३७	१	ददुन्तवक	१४०	३४	ददु	१४४	६	
खिड् (पृ)	{ १	१	ददुन्तिका	९२	१४४	ददु	२२७	३१	
खिड् (पृ)	{ १	७	ददुन्तिन्	१६९	३४	ददु	६९	१४	
खिड् (पृ)	{ १९७	५	ददुन्तक	४७	८	ददु	२६५	२	६
खिड् (पृ)	{ १	१	ददु	२	८	ददु	७	९	६९
खिड् (पृ)	{ १	७	ददु	{ १४६	२१	ददु	२	६९	
खिड् (पृ)	{ २१७	९	ददु	{ २१	३	ददु	१२२	१	
खिड् (पृ)	{ १७	४९	ददु	२१	३	ददु	१२२	१	
खिड् (पृ)	{ २३	३१	ददु	२१५	९७	ददु	८	१४	
खिड् (पृ)	{ १४६	२	ददु	१४	५६	ददु	१११	४३	
खिड् (पृ)	{ १६६	२१	ददु	११२	३८	ददु	२४३	८७	
खिड् (पृ)	{ १८८	७९	ददु	४४	३	ददु	{ १२७	११४	
खिड् (पृ)	{ ७३४	४३	ददु	१३	८७	ददु	{ २६७	७१६	
खिड् (पृ)	{ १४	५	ददु	१७७	३७	ददु	१	८१	
खिड् (पृ)	{ ३४	५	ददु	४२	१८	ददु	{ १८७	११	
खिड् (पृ)	{ १८	७४	ददु	१	७७	ददु	{ १९	७४	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
दक्ष	१३	५१	दारु	{ ६९	१३	दिवस	२४	२
दहन	१४	५५	{ ७७	५३	दिवस्पति	१२	४२	
दाक्षायणी	{ ११	३७	दारुण	४२	२०	दिवा	२७६	६
	{ २१	२१	दारुहरिद्रा	८४	१०२	दिवाकर	२२	२८
दाक्षाय्य	१००	२१	दारुहस्तक	१७२	३४	दिवाकीर्ति	{ १८८	१०
दाडिम	७८	६४	दारुघाट	९९	१७	{ १९०	१९	
दाडिमपुष्पक	७६	४९	दारुविका	{ ८८	११९	दिविषद्	७	८
दाडपाता	२८३	६	{ १८५	१०१	दिवौकस्	{ ७	७	
दात	२१६	१०३	दारुि	८४	१०२	{ २६९	२२६	
दात्यूह	१००	२१	दाव	२६५	२०६	दिव्यगायन	२५१	१३३
दात्र	१६८	१३	दाविक	५६	३६	दिव्योपपादुक	२०६	५०
	{ १३७	२९	दाग	५२	१५	दिश्	१७	१
दान	{ १४६	२०	दाशपुर	९०	३३१	दिश्य	१७	२
	{ १५०	३७	दास	१९०	१७		{ २४	१
दानव	७	१२	दासी	८०	७४	दिष्ट	{ २९	२८
दानवारि	७	९	दासीसभ	२९२	२७	{ २३३	३५	
दानशौड	१९७	६	दासेय	१९०	१७	दिष्टान्त	१६४	११६
	{ १४०	४२	दासेर	१९०	१७	दिष्टया	२७७	१०
दांत	{ २१५	९७	दिगम्बर	२०४	३९	दीक्षान्त	१३७	२७
दाति	२१९	३	दिग्गज	१८	४	दीक्षित	१३३	८
दापित	२०४	४०	दिग्ध	{ १६०	८८	दीदिवि	१७५	४८
दामन्	१७९	७३	{ २१३	९०	दीधिति	२३	३३	
दामनी	१७९	७३	दित	२१६	२०३	दीन	२०६	४९
दामोदर	८	१८	दितिमुत्त	७	१२	दीप	१३१	१३८
दाम्भिक	२३०	१७	दिधिपु.	१०९	२३	दीपक	२२९	११
दायाद	२४३	८९	दिधिपू	१०९	२३	दीप्ति	२३	३४
दारद	४८	११	दिन	२४	२	दीप्य	८६	१११
दारा	१०५	६	दिनान्त	२४	३	दीर्घ	२०९	६९
दारित	२१६	१००	दिव	{ ६	६	दीर्घकोशिका	५४	२५
				{ १७	१	दीर्घदर्शिनू	१३३	६

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
त्वित् (२)	{ २३ २६	२४ २२५	दडाइव	१७१	७३	दपित	२७	६३
त्वियाम्पति	२७	३	दहुम	१२	१४७	दर	{ ४२ २६१	{ २१ १८४
त्वव	२६	९	दहुम	११६	५९	दरत्	२१४	९
	५		ददुयोगिम्	११६	५९	दरत्	२१४	९
			दधित्य	७१	२१	दरत्	२६	४०
दंघ	११	२७	दधिकञ्	७१	२१	दरी	६६	६
दंघन	१७५	६४	दधिसक्तु	१७५	७८	दरुंर	७४	२४
दधित	१७५	६५	दद्युब	७	१२	दरुपक	९	२५
दधी	११	२७	दद्य	१२२	०१	दरुपय	१३२	१४
दधिन्	१७	२	दन्तपावन	७६	४०	दरुम	१६	१६६
दध	१९	१०	दन्तमाग	५	४	दरुमि	१७२	३४
दधिम	१९७		दन्तघठ	{ ७१ ७२	{ २१ २४	दरुमिकर	४७	८
दधिमस्य	१५४	६				दरुम	{ २५ १४१	{ ८ ४८
दधिम्या	१७	१	दन्तघठा	११	१४	दरुमक	१४४	६
दधिम्यामि	१२७	१९	दन्ताबळ	१४०	३४	दरुमन	२२७	३१
दधिम्याव	११	२४	दन्तिबळ	१२	१४४	दरुम	६०	१४
दधिम्याई	१९७	५	दन्तिकु	१४९	३४	दरुम	२६५	२६
दधिम्याव	१९७	५	दन्तबळ	४७	८	दरुम	७०	६९
दधिम्यावैर्यम्	१९१	२४	दन्त	२८	६१	दरुमिन्	२९	६९
दधिम्य	१७	५	दन्त	{ १४६ २१	{ २१ ३	दरुमन	१२२	१
दन्व	२१५	९	दन्तय	२१९	३	दरुमनपावस	१२२	
दन्विका	१७५	४९	दन्तित	२१५	९७	दरुमवळ	८	१४
	{ २३ १४६ १४६ १५८ २३४	{ ३३ २ २१ ७९ ४२	दन्तुमा	१८	५६	दरुमिन्	११३	४३
दन्व			दन्तुमी	११२	३८	दरुमिस्त्रि	२४३	८७
			दन्तुम	४४	३	दरुमा	{ १२७ २६७	{ ११४ २१६
दन्व	१८	७९	दन्तुमीळि	१३	४७	दरुमानीकिनी	१७८	८१
दन्वगीठि	३४	५	दन्तुम्य	१७७	६२	दरुम	{ १४७ १९१	{ ११ २४
दन्वविक्रम	१८०	७४	दन्तुपाठ	१९८	१७			

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
दक्ष	१३	५१	दारु	{ ६९	१३	दिवस	२४	२
दहन	१४	५५	{ ७७	५३	दिवस्पति	१२	४२	
दाक्षायणी	{ ११	३७	दारुण	४२	२०	दिवा	२७६	६
	{ २१	२१	दारुहरिद्रा	८४	१०२	दिवाकर	२२	२८
दाक्षाय्य	१००	२१	दारुहस्तक	१७२	३४	दिवामीर्ति	{ १८८	१०
दाडिम	७८	६४	दावीघाट	९९	१७	{ १९०	१९	
दाडिमपुष्पक	७६	४९	दाविका	{ ८८	११९	दिविषद्	७	८
दाडपाता	२८३	६	{ १८५	१०१	दिवौकस्	{ ७	७	
दात	२१६	१०३	दावी	८४	१०२	{ २६९	२२६	
दात्यूह	१००	२१	दाव	२६५	२०६	दिव्यगायन	२५१	१३३
दात्र	१६८	१३	दाविक	५६	३६	दिव्योपपादुक	२०६	५०
दान	{ १३७	२९	दाश	५२	१५	दिश्	१७	१
	{ १४६	२०	दाज्ञपुर	९०	३३१	दिश्य	१७	२
	{ १५०	३७	दास	१९०	१७	{ २४	१	
दानव	७	१२	दासी	८०	७४	दिष्ट	{ २९	२८
दानवारि	७	९	दासीसभ	२९२	२७	{ २३३	३५	
दानशौड	१९७	६	दासेय	१९०	१७	दिष्टान्त	१६४	११६
दांत	{ १४०	४२	दासेर	१९०	१७	दिष्टया	२७७	१०
	{ २१५	९७	दिग्म्वर	२०४	३९	दीक्षान्त	१३७	२७
दाति	२१९	३	दिग्गज	१८	४	दीक्षित	१३३	८
दापित	२०४	४०	दिग्ध	{ १६०	८८	दीदिवि	१७५	४८
दामन्	१७९	७३	{ २१३	९०	दीधिति	२३	३३	
दामनी	१७९	७३	दित	२१६	२०३	दीन	२०६	४९
दामोदर	८	१८	दितिमुत्त	७	१२	दीप	१३१	१३८
दामिभक	२३०	१७	दिधिपु.	१०९	२३	दीपक	२२९	११
दायाद	२४३	८९	दिधिपू	१०९	२३	दीप्ति	२३	३४
दारद	४८	११	दिन	२४	२	दीप्य	८६	१११
दारा	१०५	६	दिनान्त	२४	३	दीर्घ	२०९	६९
दारित	२१६	१००	दिव	{ ६	६	दीर्घकोशिका	५४	२५
				{ १७	१	दीर्घदक्षिन्	१३३	६

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	
शोकपृष्ठ	४७	८	शबल	११३	४४	शभरकम्	१	६	
शीर्षवृन्द	७७	५७	शुभनस्	१९७	८	शशाम्ब	२३८	६२	
शीर्षवृत्त	१९९	१७	शुभुम्ब	२	३६	शशि	{ १२३	३	
शीर्षिका	५५	२८	शुर्वर्ष	१८४	९६		{ २३४	३८	
शुभ	{	४९	शुर्विष	२	६	४९	शशैन्दु	२१	९
		२१	शुभद्	१४५	१	१	शैव	{ ७	७
शुभपरिधि	८६	११४	शुभचक्रन	१२	४४	शैवकौन्तलन	४१	१३	
शुभपमम्	२७८	१४	शुभकृत्	२८	२३	शैवकौन्तलन	८	२१	
शुभस्पर्ध	८३	९१	शुभ	२७९	१९	शैवकुसुम	१२	१२५	
शुभस्पर्धा	८३	९४	शुभत्र	८९	१२८	शैवसातक	५४	२७	
शुभुम्ब	१२७	११३	शुभित	११	२८	शैवसातकवि	६६	६	
शुभ	१७५	५१	शुभ	१४६	१६	शैवशम्भु	१२१	१७	
शुभिका	८४	१	शुली	१८	१७	शैवशम्भु	११	१६६	
शुभुम	२	१४८	शुत्य	१४६	१६	शैवतय	११	५	
शुभुमि	{	४	शुन	२१६	१	२	शैवता	७	९
		२५१	१२६	शुन	२०९	३८	शैवताड	७९	६९
शुभय	६१	१६	शुवार्धिन	१२३	३	शैवतय	१४१	५२	
शुभकमा	८३	९२	शुषा	९४	१८८	शैवदाद	७७	५४	
शुभित	२८	२३	शुषिका	११८	६७	शैवद्वय	२	३४	
शुभैवर	२५८	१७१	शुष्य	१२८	१२	शैवद्वय	{ १९५	४५	
शुभ	१४६	१७	शुष्या	१५१	४२		{ २४८	११७	
शुभित	१	४९	शुष्य	{	१६	६७	शैवद्वय	७२	२५
शुभिति	४८	१			२१	७६	शैवभूम	१४१	५२
शुभित	३२	१३			२३५	४५	शैवमातृक	६	१२
शुभित्तर	१२४	२५	शुष्यवि	२१	७५	शैवमौलि	७	११	
शुभित	११	३७	शुष्य	२८९	१९	शैवत	१११	३२	
शुभन	२	४७	शुष्य	२१२	८६	शैवत	१८०	११	
शुभिम	१०	१२	शुष्य	१२३	९३	शैवद्वय	२३३	३५	
शुभाम्ब	११५	५४	शुष्य	६६	४	शैवतमा	१३	४८	
शुभाम्ब	५४	२५	शुष्य	१४८	२०	शैवतमा	१४१	५२	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.			
देवाजीव	१८९	११	दोहदवती	१०९	२१	द्रुणी	२८४	९			
देवी	{ ४१ ८२ ९०	१३	द्रुः (स्)	१७	२	द्रुत	{ १५ २१३ २१६	{ ६४ ८९ १००			
		८३	द्रुति	२०	१७						
		१३३	द्रुति	२३	३४						
देवृ	१११	३२	द्रुमणि	१२	३०		२७५	२			
देश	५९	८	द्रुम्न	१८३	९०	द्रुम	६८	५			
देशरूप	१४७	२४	द्रुत	१९५	४४	द्रुमामय	१२९	१२५			
देह	११९	७१	द्रुतकारक	१९५	४४	द्रुमोत्पल	७८	६०			
देहली	६४	१३	द्रुतकृत	१९५	४३	द्रुवय	१८२	८५			
दैतेय	७	१२	द्रो (द्रोः)	{ ६ १७	{ ६ १	द्रुहिण	८	१७			
दैत्य	७	१२				द्रोण	{ ९९ १८२ २३६	{ १४ ८८ ४९			
दैत्यगुरु	२२	२५	द्रोत	२३	३४	द्रोणकाक	१००	२१			
दैत्या	८८	१२३	द्रप्स	१७५	५१	द्रोणक्षीरा	१७९	७२			
दैत्यारि	८	१९	द्रव	{ ४५ १६४	{ ३२ १११	द्रोणदुग्धा	१७९	७२			
दन्य	२५५	१५३				द्रवन्ती	८२	८७	द्रोणी	{ ५१ ८३	{ ११ ९५
दैर्घ्य	१२७	११४	द्रविण	{ १६२ १८३ २३६	{ १०२ ९० ५२	द्रोहचिन्तन	३०	४			
दैव	{ २९ १३६	२८				द्रौणिक	२९०	२२	द्रुद्ध	{ १०३ २६६	{ ३८ २१२
		२४				द्रौणिक	२९०	२२	द्रयातिग	१४०	४४
दैवज्ञ	१४५	१४	द्रघ्य	{ १८३ २५५	{ ९० १५४	द्वादशागुल	१२१	८४			
दैवजा	१०८	२०	द्रा	२७५	२	द्वादशात्मन्	२३	२८			
दैवत	{ ७ २७	{ ९ २१	द्राक्षा	८५	१०७	द्रापर	{ ३० २५७	{ ३ १६२			
दोला	{ ८३ १५३	९५	द्राविष्ठ	२१८	११२	द्रार	६४	१६			
		५३	द्राविडक	९०	१३५	द्रार	६४	१६			
दोषज्ञ	१३३	५	द्रु	६८	५	द्रारु	६४	१६			
दोषा	२७६	६	द्रुक्लिम	७७	५३	द्रारपाल	१४४	६			
दोषैकहश्	२०५	४६	द्रुण	१६०	९१	द्राःस्य	१४४	६			
दोस्	१२०	८०									
दोहद	४४	२७									

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
आस्तिपत	१४४	६	इष्य	१८४	९७		२८	२४
आस्तिपतवर्धक	१४४	६	घ			बभ	३३	३
अिगुणकृत	१६७	०	घट	२८८	१७		२५२	१३९
अिज	{ १ ३ २ ३३	{ ४२ ३	घसूर	८१	७७	घर्मन्विता	४४	२८
अिमण	२०	१५	घन	१८३	०	घमप्यभिन्	१४२	५४
अिषा	८८	१२	घनब्रह्म	१४	८३	घर्मपत्न	१७२	३६
अिष्यादि	१३२	४	घनद	१६	६८	घर्मराज	{ ८ २४	{ १३ ५१
अिषिह	२५१	१३३	घनाधिप	१६	६८	घर्मरीहिता	३४	६
अिषीना	१ ७	७	घनिन्	१९८	१	घर्षिणी	१ ६	१
अिषीमाकृत	१६७	०	घनिष्ठा	२१	२२	घव	{ १११ २६७	{ १७ २ ६
अिष	१४९	३४	घनु	७३	३५	घबळ	३२	१३
अिषाप	१४८	२७	घमुःपट	७३	३५	घबसा	१७८	६७
अिरद	१४९	३४	घमुर्धर	१५६	६९	घबिन	१३३	२३
अिरक	१ २	२९	घनुमान्	१५६	६९	घातकी	{ ८८ २८९	{ १२४ ७
अिषर्षा	१७८	६८	घमुन्	१५९	८३	घातु	{ ६७ २३८	{ १ ६७
अिष्यु	१४५	११	घन्य	१९१	३	घाम्पुष्पिका	८८	१२४
अिष्यु	१४	१	घन्य	१५९	८३	घातु	८	१७
अिष्यन्	१६७	९	घन्यन्	५८	५	घानी	१५	१७६
अिष्यन्	१६७	९	घन्यवाच	८३	१	घाना	१७४	४७
अिष्यमी	१७८	६८	घम्बिन्	१५६	६९	घानुक्क	१७६	६९
अीप	५	८	घमन	५	१३२	घान्य	१६	२१
अीपवती	७५	३	घममि	११८	६५	घाम्पुष्प	१६९	२२
अीपिन्	९७	१	घमनी	८९	११	घाम्पाक	१७३	३८
अेक्य	१४५	१	घम्निह	१२४	९७	घाम्पौष	२३१	४६
अेष	२ ५	४५	घर	६१	१	घाम्पुष्प	१७३	३९
अेष	१४६	१८	घरपि	५८	२	घाम्पुष्प	१७३	३९
अेष	१७३	५९	घर	५८	२	घाम्पुष्प	१७३	३९
अैमलुर	११	३८	घरिणी	५८	२	घाम्पुष्प	१७३	३९

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
धामार्गव	{ ८२	८८	धूत	२१७	१०७	ध्रुव	{ २१	२०
	८७	११७	ध्रुपावित	२१६	१०२		{ ६८	८
धाव्या	१३६	२२	ध्रुपत	२१६	१०२	{ २१०	७२	
धारणा	१४७	२६	ध्रमकेतु	२३७	५८	{ २६६	२११	
धारा	१५२	४९	धूमयोनि	१८	७	ध्रुवा	{ ८७	११५
धाराधर	१८	७	धूमल	३३	१६		{ १३६	२५
धारासम्पात	१९	११	धूम्या	२२७	४२	ध्वज	१६२	९९
धातंरा	१०१	२४	धूम्याट	९९	१६	ध्वजिनी	१५७	७८
धावनी	८३	९३	धूम्र	३३	१६	ध्वनि	३८	२२
धिक	२७२	२४०	धूर्जटि	१०	३३	ध्वनित	२१४	९४
धिककृत	{ २०४	३९	धूर्त	{ ८१	७७	ध्वस्त	२१६	१०४
	२१४	९४		{ १९५	४३	ध्वाक्ष	{ १००	२०
धिपण	२१	२४		{ २०६	४७		{ २६७	२१९
धिषणा	२९	१	धूर्दह	१७८	६५	ध्वान	३८	२२
धिष्ण्य	२५५	१५५	धूलि	१६१	९८	ध्वान्त	४६	३
धी	२९	१	धूसर	३२	१३	न		
धीन्द्रिय	३१	८	धृति	२४०	७४	न	२७७	११
धामत्	१३३	६	धृष्ट	२०१	२५	नकुलेष्टा	८७	११५
धामती	१०७	१२	धृष्णञ्ज	२०१	२५	नक्तक	१२७	११५
धीर	{ १२९	१२४	धेनु	१७९	७१	नक्तम्	२७६	६
	१३३	५	धेनुका	{ १४९	३६	नक्तमाल	७६	४७
धीवर	५२	१५	धेनुध्या	{ २३०	१५	नक्र	५३	२१
धीशक्ति	२२४	२५	धेनुक	१७९	७२	नक्षत्र	२१	२१
धीसन्धिव	१४३	४	धैवत	१७७	६०	नक्षत्रमाला	१२५	१०६
धुत	२१२	८७	धोरण	३९	१	नक्षत्रेश	२०	१५
धुनी	५५	३०	धौतकौशेय	१५४	५८	नख	{ ८९	१३०
धुर	१५३	५५	धौरितक	१२७	११३		{ १२१	८३
धुरन्धर	१७८	६५	धौरेय	१५२	४८	नखर	१२१	८३
धुरीण	१७८	६५	ध्याम	१७८	६५	नग	२३१	१९
धुर्य	१७८	६५		९६	१६६	नगरी	६१	१

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द	पृष्ठ	श्लोक.		
नगीकृत्	१	२	३३	नन्धावर्त	६३	१	नधी	८९	१२९	
नम	१	४	३९	नपुंङ्ग	११२	३	नरय	६१	१८	
नमद्	१९४	४१	नाथी	११	२९	नव	२११	७७		
नामिका	{	१	६	८	{	१७	१	नयदस	८७	४३
		१	८	१७		ममत्	२७	१६	नकनीत	१७५
मट	{	७७	८६	{	२७	२३२	नवमाशिका	८	७२	
		१८९	१९		१०२	३४	नववृषिका	१७९	७१	
मडम	४	१	नमस्त्य	२७	१७	नवाम्बर	१२७	१६९		
नधी	८९	१२९	नमस्वत्	१७	६३	नवीन	२११	७७		
नड	{	९५	१६२	नमत्	२७	१८	नवोद्धृत	१७७	७२	
		९६	१६५	नमसित	२१६	१	१	नम्ब	२११	७७
		२९८	३३	नमस्कारि	९१	१४१	नव	१३४	११२	
मडमाय	७९	९	नमस्ता	१३८	३४	नववेद्यता	४५	३३		
मडबर्हसि	९६	१६८	नमस्वित	२१६	१	१	नप्राप्ति	१४२	८३	
मडभा	९६	१६८	नमुक्खित्त	१९	४३	नपुंङ्गुक्खा	२५	९		
मडवृत्	७९	९	नय	१३	९	नस्तित	१७७	६३		
मडुक्क	५९	९	नयम	१२३	९३	नस्थित	१७७	६३		
नय	२१	७१	नर	१	४	१	नाहि	२७७	११	
नयनाधिक	११३	४५	नरक	४८	१	१	ना	२७७	११	
नर	२३७	८७	नरबाहिन	१३	६९					
नरी	५५	२९	नरैक	४१	११	नाक	{	१	६	
नरीमातृक	६०	१२	नरैकी	४	८			२२८	२	
नरीसर्ब	७५	४५	नरैज	४	१	नाकु	६	१४		
नरी	१९२	३१	नमया	५५	३२	नाकुन्धी	८०	११४		
नराधि	११	२९	नर्मत्	४५	३२		{	४७	४	
नरु	{	२७३	२४८	नरुम्बर	१६	७			१४९	१४
		२७८	१४	नरुम्ब	९५	१६४		नाय	१८५	१५
नरुक्क	१	२८	नरुमीमा	५२	१८		२८	५९		
नरुम	१२	४५	नरुम्ब	५७	३९		१६१	११		
नरुम्बुत्त	८९	१२८	नरुम्बी	५६	३९	नारकेण	७८	९५		

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
नागजिह्विका	१८६	१०८	नाम	२७४	२५१	निःषमम्	२७८	१४		
नागबला	८७	११७	नामधेय	३५	८	निःसरण	६५	१९		
नागर	१७३	३८	नामन्	३५	८	निःस्व	२०६	४९		
		१८८	नाय	२२०	९	निकट	२०९	६६		
नागरङ्ग	७४	३८	नायक	१९८	११	निकर	२०३	३९		
नागलोक	४६	१	नारक	४८	१	निकर्षण	६५	१९		
नागवल्ली	८८	१२०				नारक	४८	२	निकष	१९३
नागसम्भव	१८५	१०५	नारद	१३	४८	निकषा	२७६ २७९	७		
नागान्तक	१०	२९	नाराच	१५९	८७	निकषात्मज		१५	६०	
नाटय	४०	१६	नाराची	१९३	३२	निकाम	१७६	५७		
नाडिका	१७२	३४	नारायण	८	१८	निकाय	१०४	४२		
नाडिन्धम	१८८	८	नारायणी	८४	१०१	निकाय्य	६२	५		
नाडी	११८	६५	नारी	१०४	२	निकार	२२२	१५		
		२६९						२२	२२६	३६
		२३५						४३	२२६	३६
नाडीव्रण	११५	५४	नाल	५७	४२	निकारण	१६४	११२		
नाथवत्	१९९	१६	नालिकेर	९६	१६८	निकुञ्चक	१८२	८८		
नाद	३८	३३				निकुञ्ज	६७	८		
नादेयी	७३	३०	नाविक	५१	१२	निकुम्भ	९२	१४४		
		७४	३८	नाव्य	५०	१०	निकुरम्ब	१०३	४०	
		७९	६५	नाश	१६४	११६	निकृत	२०४ २०५	४१	
		८७	११८	नासत्य	१३	५१	निकृति		४४	३०
नाना	२७३	२४७	नाषा	६४	१३	निकृष्ट	२०७	५४		
		३	नासिका	१२२	८९	निकेतन	६२	४		
नानारूप	२१४	९३	नास्तिकता	३०	८	निकोचक	७२	२९		
नान्दीकर	२०३	३८	निःशलाक	१४७	२२	निकण	३८	२४		
नान्दीवादिन्	२०३	३८	निःशेष	२०९	६५	निक्वाण	३८	२४		
नापित	१८८	१०	निःशोष्य	२०७	५६	निखिल	२०९	६५		
नामि	१५३	५६	निःश्रेणि	६५	१८	निगड	१५१	४१		
		२५१	१३७	निःश्रेण	३१	६				
		२८४	२	निःश्रेण	३१	६				
	२८९	२०	निःश्रेण	३१	६					

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
निगाद	२२१	१२	निपन	{ १६४	१७६	नियामक	७१	१२
नियम	{ ६१	१	निधि	{ २४९	१२३	निमुठ	२९१	२४
	{ १८	७८		{ १७	७१	निमुद्य	१६३	१६
	{ २५२	१४		{ १४२	५७	निमोक्ष्य	१९	१७
निगाद	२२१	१३	निध्यान	२२५	३१	निर्	२७४	२५३
निगार	२२६	३७	निनर	३८	२२	निर्दर	२९	३६
निगाह	१५२	४८	निनाद	३८	२२	निरय	४८	१
निग्रह	२२१	१३	निन्दा	३६	१३	निरर्गच्छ	२१२	८३
निष	२२६	३३	निप	१७२	३२	निराक	२११	८१
निषष्ठ	१७६	५६	निपठ	२२५	२९	निरपग्रह	१९	१५
निम	१९९	१६	निपाठ	२२५	२९	निररुध्न	२२५	३१
निपुण	७८	३१	निपाठन	२२४	२७	निरस्त	{ ३७	२
निषोक	१२७	११३	निषाम	५४	२६		{ १६	८८
निब	२३३	३२	निपुण	१९३	४		{ २४	४
निठम्ब	{ ६६	५	निषम्बन	४	७	निष्कारिण्यु	२०२	३
	{ ११९	७४	निषईप	१६४	११२	निराहृत	२४	४
निठम्बनी	१५	९	निम	१९४	३७	निष्कृति	{ १४२	५३
निठाम्त	१३	६७	निमुठ	२०	२५		{ २२५	३१
नित्य	{ १३	६६	निमय	१८१	८	निष्कम्ब	११६	५७
	{ २१	७२	निमित्त	२४१	७६	निरीष	१६८	१३
निशाप	{ २७	१९	निमेष	२५	११	निष्कृति	४८	२
	{ ४५	३३	निम	५२	१५	निर्गोष्ठ	{ ७९	६८
निदान	२९	२८	निम्लया	५५	३		{ ७९	७
निदिग्ध	२१३	८९	निम्ब	७८	३२	निर्गम्यम	१६४	११३
निदिग्धिका	८३	९३	निम्बतरु	७२	२३	निर्दोष	१८	२३
निदेश	{ १४७	२५	निषाति	२९	२८	निर्कर	७	७
	{ २३	१७९	निषन्तु	१५४	५९	निर्दिष्टेन्द्रियग्राम	१४	४१
निद्रा	४६	३३	नियम	{ ३	५	निर्हार	६६	५
निद्राण	२२	३३		{ ११९	३७	निर्वय	३	३
निद्राण्ड	२२	३३		{ १४१	४९	निर्विष्ट	२७	५६

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृ.	श्लोक.		
निर्णेजक	१८९	१०	निलय	६२	५	निष्कुटि	८८	१२५		
निर्देश	१४७	२५	निवह	१०३	३९	निष्कुह	६९	१३		
निर्भर	{	१६	६६	निवात	२४२	८४	निष्कम	२२४	२५	
		२७५	२	निवाप	१३७	३१	निष्ठा	{	४१	१५
निर्मद	१४९	३६	निवीत	{	१२७	११३		{	२३४	४१
निर्मुक्त	४७	६		{	१४१	५०	निष्ठान		{	१७४
निर्मोक	४८	९	निवृत	२१३	८८	निष्ठीवन		{	२४८	११६
निर्याण	१५०	३८	निवेश	१४९	३३		निष्ठुर	{	३७	१९
निर्यातन	२४८	१२०	निगा	२४	४	निष्ठुर		{	२१०	७६
निर्यास	२८६	१३	निशाख्या	१७३	४१		निष्ठयूत	२१३	८७	
निर्वपण	१३७	३०	निशान्त	६२	५	निष्ठयूति				२२६
निर्वर्णन	२२५	३१	निशापति	१९	१४		निष्ठेव	२२६	३७	
निर्वहण	४१	१५	निशित	२१४	९१	निष्ठेवन				२२६
निर्वाण	{	३१	६	निशीय	२५		६	निष्णात	१९६	
		२१५	९६	निशीथिनी	२४	४				
निर्वात	२१५	९६	निश्चय	३०	३	निष्पक्क	२१४	९५		
निर्वाद	{	३६	१३	निश्रोणि	६५	१८	निष्पतिसुता	१०६	११	
		२४३	९०	निषंग	१६०	८८	निष्पन्न	२१६	१००	
निर्वापण	१६४	११४	निषागिन्	१५६	६९	निष्पाव	२२४	२४		
निर्वार्य	१९८	१३	निषद्या	६२	२	निष्प्रभ	२१६	१००		
निर्वासन	१६४	११३	निषद्वर	५०	९	निष्प्रवाणिन्	१२७	११२		
निर्वृत्त	२१६	१००	निषघ	६६	३	निसर्ग	४६	३८		
निर्वेश	{	१९४	३८	निषाद	{	३८	१	निसृष्ट	२१३	८८
		२२३	२०			{	१९०	२०	निस्तल	२०९
निर्व्यथन	{	२६७	२१५	निषादिन्	१५४	५९	निस्तर्हण	१६४	११४	
		४६	२	निषूदन	१६४	११३	निस्त्रिंश	१६०	८९	
निर्व्यूह	२७१	२३६	निष्क	२३०	१४	निस्त्राव	१७५	४९		
निर्हार	२२२	१७	निष्कला	१०९	२१	निस्त्वन	३८	२३		
निर्हारिन्	३२	११	निष्कासित	२०४	३९	निस्त्वान	३८	२३		
निर्हाद	३८	२३	निष्कुट	६७	१	निह्नन	१६४	११८		

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
निहाका	५३	३२	नीहार	२२८	२२८	नियम	{ २८ ७८	
निहिषन	२६४	२२३	नीहार	२	१८		{ २५२ २४०	
निहनि	२९	२३	नु	२७३	२४८	नीचिणी	२७८	६७
निहण	{ ३३	२७	नुति	३५	११	नीराठी	२८६	२०८
	{ २६५	२	नुत	२२३	८७	नीमिम	२८९	८
नीकाद्य	२९४	२७	नुन	२१३	८७	नीयप्रोष	७०	२८
नीष	{ १९	२३	नुहन	२११	७७	नीरीत	{ ० १५	३
	{ ३९	७	नुहन	२११	७८		{ १७	२
नीषेष्	२७८	२७	नुमम्	{ २७४	२७	नीरिक्क	१४४	७
नीड	१	३		{ २७८	२३	नीरिपिक्क	२५६	७
नीडोद्भव	१	२	नुपूर	२२३	१०९	नी	२७७	२१
नीप	३४	२४	नु	१	४	नी	५२	१
नीप	७७	४२	नुस्य	४	१	नीकादंड	७१	१३
नीर	४	४	नुप	२४३	१	नीतार्य	७	१
नीक	३२	१४	नुपखरमन्	२४९	३२	नीच	२३९	२२५
नीककण्ठ	{ १ २	३	नुपवम	२९३	२७	नीयप्रोष	{ ७३	३२
	{ २३४	४	नुपासन	२४८	३१		{ २४४	१३
नीकगु	९९	२३	नुषण	२	३	नीप्रीपी	८९	८७
नीकक्येहित	१	३३	नुकेन	२९७	४०	नीह	२	९
नीक्य	१	१	नैव	१०८	२१	नीकु	९८	१
नीक्यम्बर	९	२४	नैव	{ १२३	९३	नीकृत	२२३	८८
नीक्यमुज्ज्वलम्	५६	३७		{ ३३	२८	नीकार	१७३	५३
नीकिका	७९	७	नीय	१२३	९३	नीयम	१४७	२४
नीकिनी	८३	९५	नीयु	२	९	नीयम्	{ १४७	२५
नीकी	८३	९४	नीयु	१२४	९९	{ २५३	२३१	
नीकाक	२२४	२३	नीमि	{ ५४	२७	नीत	१८९	८९
नाथार	१७	२५	नीमी	{ १५३	५३	नीयु	११७	३१
नीवी	{ १८१	८			७१	२३	नीयु	२८८
	{ २३३	२१३		२१२	८३	नीयु	२५	२२८
नीव	५	८	नीकमेव					

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	श्लोक.
	प		पचता	१६४	११६		
पकण	६५	२०	पचदशी	२५	७		{ १८२ ८८ १९४ ३८ १९५ ४५ २३५ ४६ १९५ ४४
पक	{ २१४ २१५	{ ९१ ९६	पचम	३९	१	पण	
	{ २६ १०३	{ १२ ३६	पचलक्षण	३४	५		
पक्ष	{ १२४ १५९ २६७	{ ९८ ८७ २२०	पचशर	९	२५	पणव	४० ८
			पचशास्त्र	१२१	८१	पणायित	२१७ १०९
			पचागुल	७६	५१	पणित	२१७ ४०९
			पचास्य	९७	१	पणितव्य	१८१ ८२
पक्षक	६४	१४	पजिका	२८३	७	पण्ड	११२ ३९
	{ २४ १०३ २४०	{ १ ३६ ७२	पट	{ ७३ ३५ १२७ ११६		पण्डित	१३३ ५
पक्षति			पटच्चर	१२७	११५	पण्य	१८१ ८२
			पटल	{ ६४ १४ २६४ २०१		पण्यवीथिका	६२ २
पक्षद्वार	६४	१४	पटलप्रान्त	६४	१४	पण्या	९३ १५०
पक्षभाग	१५०	४०	पटवासक	१३२	१३९	पण्याजीव	१८० ७८
पक्षमूल	१०३	३६	पटह	{ ४० ६ १६३ १०८		पतग	१०२ ३३
पक्षान्त	२५	७	पटु	{ ९४ १५५ १९० १९ २०३ ३५ २३४ ३९		पतग	{ १०२ २८ २३१ २०
पक्षिन्	१०२	३२	पटुपर्णी	९१	१३८	पतगिका	१०१ २७
पक्षिणी	२४	५	पटोल	९४	१५५	पतत्	१०२ ३३
पक्षमन्	२४८	१२१	पटोलिका	८७	११८	पतत्र	१०३ ३६
पक्ष	{ २८ ५०	{ २३ ९	पट्ट	२८८	१७	पतत्रि	१०२ ३३
पक्षिल	६०	१०	पट्टपर्णी	९१	१३८	पतत्रिन्	१०२ ३३
पक्षेरुह	५७	४०	पटोल	९४	१५५	पतद्ग्रह	{ १३२ १३९ २९० २१
पक्षि	{ १८२ २४०	{ ८४ ७२	पटोलिका	८७	११८	पतयालु	२०१ २७
पशु	११४	४८	पट्ट	२८८	१७	पताका	१६२ ९९
पचंपचा	८४	१०२	पट्टिका	७४	४१	पताकिन्	१५६ ७१
पचा	२२०	८	पट्टिन्	७४	४१	पति	{ १११ ३५ १९८ १०
पचजन	१०४	१	पट्टिश	२९०	२१		

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक		
पतिवरा	१६	७	पदय	१५५	६६					
पतिवती	१७	१२	पदवी	७१	१५	पयसू	४९	३		
पतिमया	१५	६	पदाभि	१५५	६६		१७५	५१		
पत्न	६१	१	पदादि	१५५	६६	पमस्य	२७	२२१		
पति	१५५	६६	पदिक्	१५५	६७	पमोषर	१७५	५१		
			पद	१५८	८		२५७	१६३		
			पदवि	२४	७२	पर	१४५	११		
पदिमं हति	१५५	६७	पद्य	६१	१५		२६२	१९१		
पत्नी	१७	५	पद्यक	१७	७१	परधात	१९	१८		
पत्र	६९	१४				पद्यन्त्र	५७	३९	परधन्त्र	१९९
			पद्यारिणी	१५	३९	परपिण्डात्	२	२०		
			पद्यनाम	९२	१४६	पग्भूत्	१	२		
पत्रपरशु	१९१	१२	पद्यिनी	८	२	परभूत्	१	१९		
			पद्यपत्र	५६	३९	परमम्	२७७	११		
पत्रपास्या	१२५	१३	पद्यराग	९२	१७५	परम्यद्य	१३६	२४		
पत्ररथ	१२	३१	पद्या	१८३	९२	परमैडित्	८	१६		
पत्रकेला	१२८	१२२				परम्परात्	१	२७	१३६	२६
पत्राह	१३७	१३२	पद्याकर	८३	१९	परभूत्	१९९	१६		
						पद्याकर	९२	१४६	परछ	१६
पत्रागुक्ति	१२८	१२२	पद्याट	५४	२८	परम्यद्य	१६	२		
			पद्याज्जा	९२	१४७	परम्यत्	२८	२१		
पत्रिन्	१	१५	पत्रिन्	१	२७	परक्रम	१६३	१३		
						पत्र	१४९	३५	१५२	१३८
						पत्रा	२४०	३१		
पत्रोर्ष	७७	५६	पत्रा	६१	१५	पत्राग	७	१७		
			पत्रोर्ष	१२७	११३	पत्राङ्कुल	२२	३३		
पत्रिक	१४६	१७	पत्रावित्	७८	६१	पत्रावित्	१९	१८		
पत्रिन्	६१	१५	पत्रित	२१७	१९	पत्रपीन	२२	३३		
पत्र्या	७७	५	पत्र	२१६	१४	पत्राज्ज	१६४	१११		
पदे	११९	७१	पत्राग	४७	८	पत्रावित्	१६४	११२		
पद	२४४	९३	पत्रयाद्यन	१	१९					

शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
परान्न	२००	२०	परित्राण	२१९	५	परित्राज	१३९	४१
पराभूत	१६४	११२	परिदान	१८१	८०	परिषद्	१३४	१५
परायण	२१८	२	परिदेवन	३६	१६	परिष्कार	१२४	१०१
परारि	२७९	२०	परिधान	१२७	१९७	परिष्कृत	१२४	१००
परार्थ	२०७	५८	परिधि	{ २३ २४४	{ ३२ ९७	परिष्वङ्ग	२२५	३०
परासन	१६४	११३	परिधिस्थ	१५४	६२	परिसर	६०	१४
परासु	१६४	११७	परिपण	१८१	८०	परिसर्प	२२३	२०
परास्कंदिन्	१८१	२५	परिपंथिन्	१४५	११	परिसर्वा	२२३	२१
परिकर	२५७	१६५	परिपाटी	१३८	३६	परिसार	२२३	२१
परिकर्मन्	१२८	१२१	परिपूर्णता	१३१	१३७	परिष्कन्द	१९०	१८
परिक्रम	२२२	१६	परिपेलव	९०	१३१	परिस्तोम	१५१	४२
परिक्रिया	२२३	२०	परिप्लव	२१०	७५	परिस्यन्द	१३१	१३७
परिक्षिप्त	२१३	८८	परिवर्ह	२७२	२३९	परिस्तुत	१९४	३९
परिखा	५५	२९	परिभव	४३	२२	परिस्तुता	१९४	३९
परिग्रह	२७१	२३७	परिभाषण	३६	१४	परीक्षक	१९७	७
परिध	{ १६० २३२	{ ९१ २७	परिभूत	२१७	१०६	परीभाव	४३	२२
परिधातिन्	१६०	९१	परिमल	{ ३१ २२१	{ १० १३	परीवर्त	१८१	८०
परिचय	२२३	२३	परिरम्भ	२२५	३०	परीवाद	३६	१३
परिचर	१५४	६२	परिवर्जन	१६४	११४	परीवाप	२५०	१२९
परिचर्या	१३८	३५	परिवाद	३६	१३	परीवार	२५८	१६९
परिचान्य	१३५	२०	परिवादिनी	३९	३	परीवाह	५०	१०
परिचारक	१९०	१७	परिवापित	२१२	८५	परीष्टि	१३७	३२
परिणत	२७५	९६	परिवित्ति	१४२	५६	परीसार	२२३	२१
परिणय	१४२	५६	परिवृढ	१९८	७१	परीहास	४५	३२
परिणाम	२२२	७५	परिवेत्तृ	१४२	५५	परुत्	२७९	२०
परिणाय	१९५	४५	परिवेष	२३	३२	परुप	३७	१९
परिपाद	१२७	११४	परिव्याघ	{ ७३ ७८	{ ३० ६०	परुस्	९५	१६२
परितम्	२७७	७३				पेरत	१६४	११७
						परेतराज	१४	५८

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
परेषादि	२७९	२१	पक	{ १८२	८६	पक्वाद्याप	४३	९५
परेषुका	१७९	७		{ २६४	२०२	पक्षिम	२११	८१
परैषित	१९	१८	पक्षगाण्ड	१८८	६	पक्षिमा	१७	१
परौष्णी	१०१	२६	पक्षकृपा	८४	९८	पक्षमोक्षर	५९	७
पर्कटीन्	७३	१२	पक्षक	११७	३३	पक्ष्य	३९	५
पर्कन्ती	८४	१ २	पक्षप्लु	९२	१४७	गंधुज	१०३	११
पर्कन्य	२५३	१४३	पक्षाक	१७९	२२	गंधु	१६१	९८
पर्व	{ ६९	१४	पस्मिन्	{ ६९	१४	पाक	{ १ ३	३८
	{ ७२	२९		{ ७२	२९		{ २२	८
	{ २९	१२		{ ९३	१५४		पाकक	८९
पर्णशास्त्र	६२	६	पर्णशिव	६८	५	पाकशासन	३२	४१
पर्णात्	८१	७९	पर्णिकनी	१ ७	१२	पाकशास्त्रि	१३	४६
पर्णह	१३१	१३८	पर्णित	११२	४१	पाकस्थान	१७१	२७
पर्णम	१३८	३५	पर्णह	१३१	१३८	पाक्य	{ १७३	४२
पर्णाम्	३	१४	पर्णव	७	१४		{ १८६	१०९
पर्णय	{ १३९	३७	पर्णक	{ ५४	२८	पाक्य	१४	४५
	{ २२६	३३		{ २२४	२४	गंधकन्य	१	२८
पर्णवस्त्रा	२३३	२१	पर्णनाशन	४७	८	गोवाकििका	१९२	२९
पर्णात्	१७६	५७	पर्णन	{ १५	६३	पाठ	२७६	७
पर्णाति	२१९	५		{ २२४	२४	पाठ्यर	१ १	२५
पर्णाव	{ १३८	३७	पर्णमान	{ १५	६३	पाठक	{ ३२	१५
	{ २५४	१४६		{ १३	४७		{ १६८	१५
पर्णावधमन	२२५	३२	पर्णावित्र	{ ९६	१६६	पाठक्य	{ ७१	२
पर्णावधन	१६६	३		{ १४	४५		{ ७७	५४
पर्णावधा	१३७	३२		{ २ ७	५५		पाठकिक	७७
पर्णव	६५	१	पर्णाविक	५२	१६	पाठ	{ १३४	१४
पर्णन्	{ ९५	१६२	पर्णाविति	{ १	३		{ २२५	२९
	{ २४९	१२१		पर्णावैरण	२२७	३९	पाठा	८१
पर्णसीपि	२५	७	पर्णावैरु	१७९	७३	पाठिन्	८१	८
पर्णुका	११८	६९	पर्णाव	२७२	२४३	पाठीन	५२	१८

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
पाणि	१२१	८१	पादाग्र	११९	७१	पारसीक	१५१	४५
पाणिग्रहीती	१०५	५	पादागद	१२६	१०९	पारस्त्र्णेय	१०९	२४
पाणिघ्न	१८९	१३	पादात	१५५	६७	पारायण	२१८	२
पाणिपीडन	१४२	५६	पादातिक	१५५	६६	पारावत	९९	१४
पाणिवाद	१८९	१३	पादुका	१९२	३०	पारावताघ्नि	९३	१५०
पांडर	३२	१२	पादू	१९२	३०	पारावार	{ ४९ १	
पांडु	३२	१३	पादूकृत्	१८८	७		{ २९६ ३५	
पाडुकम्बलिन्	१५३	५४	पानगोष्ठिका	१९४	४२	पाराशरिन्	१३९	४१
पाडुर	३२	१३	पानपात्र	१९५	४३	पारिकाक्षिन्	१३९	४२
पातक	२९५	३३	पानभाजन	१७२	३२	पारिजातक	{ १३ ५०	
पाताल	{ ४६ १		पानीय	४९	४४		{ ७२ २६	
	{ २६४ २०२		पानीयशालिका	६३	७	पारितथ्या	१२५	१०३
पातुक	२०१	२७	पान्य	१४६	१७	पारिप्लव	२१०	७५
पात्र	{ ५० ८		पाप	{ २८ २३		पारिभद्र	७२	२६
	{ १३३ २४		पापचेली	{ २०६ ४७		पारिभद्रक	७७	५३
	{ १७२ ३३		पामन्	८२	८५	पारिभाव्य	८९	१२६
	{ २६० १७९		पामन्	२८	२३	पारियात्रिक	६६	३
पात्री	२९८	४२	पामन्	११५	५३	पारिषद	११	३५
पात्रीव	२९६	३५	पामन	११६	५८	पारिहार्य	१२६	१०७
पाथस्	४९	४	पामर	१९०	१६	पारी	२८८	१०
पाद	{ ६६ ७		पामा	११५	५३	पारुष्य	३६	१४
	{ ११९ ७१		पायस	{ १२९ १२८		पार्थिव	१४३	१
	{ १८३ ८९		पायु	{ १३६ २४		पार्वती	११	३७
	{ २४३ ८९		पाय्य	११९	७३	पार्वतीनदन	१२	३९
पादकटक	१२६	११०	पाय्य	१८२	८५	पार्थ	{ १२० ७९	
पादग्रहण	१३९	४१	पार	५०	८		{ २२७ ४१	
पादप	६८	५	पारद	१८४	९९	पार्श्वभाग	१५०	४०
पादवन्धन	१७६	५८	पारपयोपदेश	१३४	१२	पार्श्वस्थिय	११८	६९
पाद्य	१३८	३३	पारशव	२६६	२१०	पार्थिण	११९	७२
पादस्फोट	११५	५२	पारश्वधिक	१५६	७०	पार्थिणग्राह	१४५	१०

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
पाकम	११	११७	पिच्छ	{ १०२	३१	पितृपित	१११	२३
पाकंकी	८८	१२१		{ २१४	३	पितृप्रसू	२४	३
पालाश	३२	१४	पिच्छम	{ ७५	४७	पितृकन	१६	११८
पाणि	{ १६०	१३	पिच्छक	१७४	४६	पितृमूत्र	११	३३
						पितृसंनिभ	११८	३३
पाणिन्दी	८९	२०८	पिच्छका	{ ७५	४६	पित्त	११७	६२
पयस्क	१४	५४	पिच्छ	१६४	११५	पित्तम्	१४२	५१
						पित्तान्	१	२
पाश	{ १२४	१८	पिच्छर	{ १८५	१	पित्तान	१९	१३
						पित्तान्	१५४	३१
पाशक	११५	४५	पिच्छल	१६२	१९	पित्तानक	{ ११	३५
पाशिन	१५	६१	पिट	१७	२३			
पाशुपत	८२	८१	पिच्छक	{ ११५	५३	पित्तान्	१	३१
पाशुपास	१६५	२		{ ११२	२९	पिपासा	१७६	७७
पाश्यास	३११	८१	पित्तर	{ १७२	२१	पिप्लिका	२८४	८
पाश्या	२१७	४७		{ १६१	१८८	पिप्लक	७१	२
पाश्यास	३३	४	पिच्छ	{ १८४	१८	पिप्लकी	८४	७
पापावहारम	१११	३४		{ १८५	१	पिप्लकीमूत्र	१८६	११
पिच्छ	१०	१९	पिच्छक	१२	१२८	पिच्छ	११४	४९
पिच्छ	३३	३९	पिच्छिका	१५३	५६	पिच्छ	११६	६
पिच्छक	{ २३	३१	पिच्छीकर	७६	५२	पिच्छग	३३	१६
						पिच्छाष	७	११
पिच्छल	१८	४	पिच्छाक	{ २१५	३२	पिच्छान्	११७	६३
पिच्छ	{ १२	७७	पिच्छापी	११२	३७	पिच्छम	{ १९	११४
पिच्छदिस	११३	४४	पिच्छद	{ १११	३३	पिच्छना	९	११३
पिच्छ	१८५	१	पिच्छान	११०	२८			
पिच्छद	७८	६२	पिच्छान	११०	२१	पिच्छक	१७८	४८
पिच्छु	७८	६	पिच्छापी	{ १४	५८	पिच्छान	१७२	३०
पिच्छट	१८५	१		{ १७	११	पिच्छान	११२	११

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
पीठ	१३१	१३८	पुज	१०४	४२	पुर्	६१	१
पीडन	१६३	१०९	पुटभेद	५०	७	पुर	७३	३४
पीडा	४९	३	पुटभेदन	६१	१	पुर	२६१	१८३
पीत	३२	१४	पुटी	२९८	४२		पुरस्	२७६
पातदारु	७७	५३	पुडरीक	१८	३	पुर.सर	१५६	७२
पीतद्रु	७८	६०		५७	४१	पुरतस्	२७६	७
	८४	१०१	२२९	११	पुरद्वार	६४	१६	
पीतन	७२	२७	पुडरीकाक्ष	८	१९	पुरन्दर	१२	४१
	१२९	१२४	पुङ्	९५	१६३	पुरन्धी	१०५	६
	१८५	१०३	पुङ्क	८०	७२	पुगस्कृत	२४२	८४
पीतसारक	७५	४३	पुण्य	२८	२४	पुरस्तात्	२७३	२४६
पीता	१७३	४१	पुण्यक	२५६	१६०	पुरा	२७४	२५३
पीताम्बर	८	१९		१३९	३७	पुराण	३४	५
पीन	२०८	६१	पुण्यजन	१५	६०		पुरातन	२११
पीनस	११५	५१	पुण्यजनेश्वर	१६	६९	पुरावृत्त		३४
पीनोद्गी	१७९	७१	पुण्यभूमि	५९	८	पुरी	६१	१
पीयूष	१३	४८	पुण्यवत्	१९६	३	पुरीतत्	११८	६६
	१७६	५४	पुत्तिका	१०१	२७		पुरीष	११८
पीलु	७२	२८	पुत्र	११०	२७	पुरु	२०८	६३
	२६३	१९३	पुत्रिका	१९२	२९		पुरुषोत्तम	८
पीलुपर्णी	८२	८४	पुत्रौ	११२	३७	पुरुहू		२९
	९१	१३९	पुद्गल	२४५	२०		७२	२५
पीवन	२०८	६१	पुनःपुनर्	२७५	२	१०४	१	
पीवर	२०८	६१	पुनर्	२७४	२५३	२६७	२१८	
पीवरस्तनी	१७९	७१		२७८	१५	पुरुहू	२०८	६३
पुंश्र्वली	११०	१०	पुनर्नवा	९२	१४९		१२	४१
पुक्कस	१९०	२०	पुनर्भव	१२१	८३	पुरोग	१५६	७२
पुल	२८८	१७	पुनर्भू	१०९	२३	पुरोगम	१५६	७२
पुंगव	२०८	५९	पुलाग	७२	२५	पुरोगामिन्	१५६	७२
पुच्छ	१५२	५०	पुमस्	१०४	१			

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक		
पुरोडाश	२०	२१	पुष्पच्छिद्र	१२	२९	पूर्णकुम्भ	१४९	३२		
पुरोधस्	१४४	५	पुष्पकती	१८	२	पूर्णिमा	२५	७		
पुरोमायिन्	२५	४६	पुष्पवन्ती	२५	१	पूर्व	१३७	१८		
पुरोहित	१४४	५	पुष्पसमथ	२७	१८	पूर्व	{ २११	८		
पुराक	२२८	५	पुष्प	{ २१	२२	पूर्व	{ २५१	१३४		
पुराजिन	५	०	पुस्त	{ २५४	१४६	बंज	११३	४३		
पुराजिन्	१९	२	पुस्त	१०२	२८	पूर्ववैष	७	१२		
पुरोमना	१२	४५	पुग	{ ९६	१६९	पूर्वपर्वत	६६	२		
पुरित	२१५	९७	पुजा	{ २३१	२	पूर्व	१७	१		
पुरकार	{ १७	१	पुजा	१३८	३४	पूर्वपुत्र	२७९	२१		
			पुजित	२१५	९८	पुषत्र	२२	२९		
			पुष्प	{ १९६	५	शक्ति	२२	९		
			१२	१४५	२५४	१५	पुष्कल	३५	१	
पुष्कराक्ष	१०	१२	पुत्र	{ १४	४५	पुठना	{ १५७	७८		
									१७	२३
पुष्करिणी	५४	२७		{ २७	५५	पुषक	२७५	३		
पुष्कल	२७	५८	पुठना	७७	५९	पुष्कपत्नी	८३	९२		
पुष्ट	२१५	९७	पुष्टिक	७६	४८	पुष्पगात्मता	{ २९	३१		
पुष्प	{ ७	१७	पुष्टिकरज	७६	४८		{ १३९	३८		
			१८	२१	पुष्पिकाक्ष	{ ७७	५४	पुष्प न	{ १९	१६
			२९१	२३		{ ७८	६		{ २४६	१५
पुष्पक	{ १६	७	पुष्टिगन्धि	३२	१२	पुष्पविष	२१४	९३		
			१८५	१	पुष्टिकली	८३	९६	पुष्पिणी	५८	३
पुष्पकेतु	१८५	१	पुष्प	१७४	४८	पुष्प	{ १७२	३७		
पुष्पकण्ठ	१८	४	पुष्प	२८९	२		{ १७३	४		
पुष्पकण्ठम्		२६	पुष्पिणी	७५	४६	{ २८	३			
पुष्पमिवक	७५	४४	पुष्टित	२१५	९८	पुष्पक	{ १३	३८		
पुष्पकण्ठ	७१	२१	पुष्पय	१४	१		{ १७४	४७		
पुष्पकण्ठ	१५३	७१	पुष्प	{ २९	६५	पुष्परोमन्	{ २२८	३		
पुष्पकण्ठ	७	१७	{ २१५	९८	५२		१७			

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.						
पृथुल	६०	२०८	पैतृष्वस्त्रीय	१०९	२५	प्रकाश	{ २३	३४						
पृथ्वी	{ ५८	६	पोटगल	{ ९५	१६२	प्रकीर्णक	१४८	३१						
									१७२	३७	९५	१६३	७६	४८
									१७३	४०	१०७	१५		
पृथ्वीका	८८	१२५	पोत	{ १०३	३८	प्रकृति	{ २९	२९						
पृदाकु	४७	६	पोतवणिज्	{ २३८	६०				४६	३७				
पृदिन	११४	४८									५१	१२	१४६	१८
पृदिनपर्णी	८३	९२	पोतवाह	५१	१२	प्रकोष्ठ	१२०	८०						
पृषत्	५०	६	पोताघान	५२	१९				२२४	२६				
पृषत	{ ५०	६	पोत्र	२६०	१८०	प्रक्रम	१४८	३१						
									९८	१०	९७	२	३८	२४
पृषत्क	१५९	८६	पोत्रिन्	९७	२	प्रक्रिया	१४८	३१						
पृषदश्व	१५	६२	पौडर्य	८९	१२७	प्रक्षण	३८	२४						
पृषदाज्य	१३६	२४	पौत्री	११०	२९	प्रक्षाण	३८	२४						
पृष्ठ	१२०	७८	पौर	९६	१६६	प्रक्षेडन	१५९	८७						
पृष्ठवशाघर	१२०	७६	पौरस्त्य	२११	८०	प्रगंड	१२०	८०						
पृष्ठास्थि	११८	६९	पौरुष	{ १२२	८७	प्रगतजानुक	११४	४७						
									२६८	२२३	२०१	२५		
पृष्ठय	{ १५१	४६	पौरोगव	१७१	२७	प्रगाढ	२३५	४४						
									२२७	४१	२१०	७२		
पेचक	{ ९९	१५	पौर्णमास	१४१	४८	प्रगो	२७९	१९						
									२२८	६	२५	७	{ १६५	११९
पेटक	१९२	२९	पौलस्त्य	१६	६९	प्रग्रह	{ २७१	२३७						
पेटा	१९२	२९	पौलि	१७४	४७	प्रग्राह	२७१	२३७						
पेटी	२९८	४२	पौष	२६	१५	प्रग्रीव	२९६	३५						
पेलव	२०९	६६	पौष्पक	१८५	१०३	प्रघण	६४	१२						
पेशल	{ १९०	१९	प्याट्	२७६	७	प्रघाण	६४	१२						
									१६५	२०५	{ २८	२७	१६१	९६
पेशी	१०३	३७	प्रकांड	{ ६९	१०	प्रचलायित	२०२	३२						
पैटर	१७४	४५	प्रकाम	१७६	५७	प्रचुर	२०८	६३						
पैतृष्वसेय	१०९	२५	प्रकार	२५७	१६२	प्रचेतस्	१५	६						

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
प्रचीदनी	८३	१४	प्रदाप	१४६	२	प्रतिभू	१९५	४४
प्रच्छन्नपद	१२७	११६	प्रदापत्त	८१	८१	प्रतिमा	१९३	३५
प्रच्छन्न	६४	१४	प्रदि	२७३	२४५	प्रतिमान	{ १५ ३९, १९३ ३५	
प्रच्छर्जिका	११६	५५	प्रतिकर्मन्	१२४	९९	प्रतिमुक्त	१५५	६५
प्रक्षन्	२२४	२५	प्रतिकृत्	२१२	८४	प्रतिरोक्ति	१९१	२५
प्रक्षिन्	१५६	७३	प्रतिकृति	१९३	३६	प्रतिशब्द	२४६	१७
प्रज्ञा	२३३	३२	प्रतिकृत्त	२७	४४	प्रतिशालन	१९३	३६
प्रज्ञाता	१८	१३	प्रतिशिक्ष	२४	४२	प्रतिशाल्य	३५	१
प्रज्ञापति	८	१७	प्रतिस्माति	२९५	२८	प्रतिशोका	८४	९९
प्रज्ञावती	११	३	प्रतिमाह	१५८	७९	प्रतिशोचन	२२६	३४
प्रज्ञा	{ २९ १ १७ १२		प्रतिमाह	१३२	१३९	प्रतिशोच्य	११५	५१
प्रज्ञान	२४९	१२२	प्रतिपातन	१६४	११४	प्रतिश्रय	२५५	१५२
प्रज्ञ	११४	४७	प्रतिच्छाया	१९३	३५	प्रतिश्रव	३	५
प्रज्ञीन	१३	३७	प्रतिबागर	२२५	२८	प्रतिश्रु	३८	२६
प्रणय	{ २२४ २५ २५४ १५१		प्रतिशाल	२१७	१८	प्रतिश्रुत्	२२४	२७
प्रणय	३४	४	प्रतिशान	३	५	प्रतिश्रुत्	२५९	१७४
प्रणात्	३५	११	प्रतिशान्त	१८१	८१	प्रतिश्रुत्	१२८	१२
प्रणाठी	५६	३५	प्रतिशान्त	३८	२६	प्रतिश्रुत्	२४	४१
प्रणिभि	{ १४५ १३ २४५ १		प्रतिनिधि	१९३	३६	प्रतिहारक	१८९	११
प्रणिहित	२१२	८६	प्रतिपत्	{ २४ १ २९ १		प्रतिहारक	८१	७६
प्रपत्ति	{ १३५ २ १७४ ४५		प्रतिपत्त	२१७	१८	प्रतीक	{ ११८ ७ २२९ ७	
प्रपुत्र	२१७	१९	प्रतिपादन	१३७	२	प्रतीकार	१६३	११
प्रपेय	२	२५	प्रतिपद्य	२४	४१	प्रतीकाया	१९४	३७
प्रपण	१११	७७	प्रतिष्कम्प	२९४	२७	प्रतीक्य	१९६	५
प्रपञ्च	{ १२१ ८४ १२१ ८५		प्रतिष्कम्प	१९३	३५	प्रतीची	१७	१
			प्रतिमन्त्र	४२	१	प्रतीच	{ १९७ ९ २४२ ८२	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
प्रतीपदर्शिनी	१०४	२	प्रथम	२११	८०	प्रभव	२६६	२१०
प्रतीर	५०	७				२५३	१४४	प्रभा
प्रतीहार	६४	१६	प्रथा	२२०	९	प्रभाकर	२२	२८
			प्रथित	१९७	९	प्रभात	२४	३
			प्रदर	२५७	१६४	प्रभाव	१४६	१९
प्रदीप	१३१	१३८	१४६	२०				
प्रतौली	६२	३	प्रदीपन	४८	१०	प्रभिन्न	१४९	३६
प्रत्न	२१	७७	प्रदेशन	१४८	२७	प्रभु	१९८	११
प्रत्यक्	२८०	२३	प्रदेशिनी	१२१	८१	प्रभूत	२०८	६३
प्रत्यक्षणी	८२	८९	प्रदोष	२४	५६	प्रभ्रष्टक	१३१	१३५
प्रत्यक्ष्रेणि	८२	८८				प्रद्युम्न	९	२५
			९२	१४४	प्रद्राव	१६४	१११	प्रमथन
प्रत्यक्ष	२११	७९	प्रघन	१६२	१०३	प्रमथाधिप	१०	३१
प्रत्यग्र	२११	७७	प्रधान	२९	२९	प्रमद	२८	२४
प्रत्यन्त	५९	७				१४४	५	प्रमदवन
प्रत्यन्तपर्वत	६६	७	२०७	५७	प्रमदा	१०५	३	
प्रत्यय	२५४	१४७	२४९	१२२	प्रमनस्	१९७	७	
प्रत्ययित	१४५	१३	प्राधि	१५३	५६	प्रमा	२२०	१०
प्रत्यर्थिन्	१४५	११				१५३	५६	प्रमाण
प्रत्यवसित	२१८	११०	प्रपच	२३२	२८	प्रमाद	४४	३०
प्रत्याख्यात	२०४	४०	प्रपद	११९	७१	प्रमापण	१६४	११२
प्रत्याख्यान	२२५	३१	प्रपा	६३	७	प्रमिति	२२०	१०
प्रत्यादिष्ट	२०४	४०	प्रताप	६६	४	प्रमीत	१३६	२६
प्रत्यादे	२२५	३१	प्रापितामह	१११	३३			
प्रत्यालीढ	१५९	८५	प्रपुत्राढ	९२	१४७	प्रमीला	४६	३७
प्रत्यासार	१५८	७९	प्रपौढरीक	९१	१२७			
प्रत्याहार	२२२	१६	प्रफुल्ल	६८	७	प्रमुख	२०७	५७
प्रत्युत्क्रम	२२४	२६	प्रबन्धकल्पना	३५	६	प्रमुदित	२१६	१०३
प्रत्युषस्	२४	२	प्रबोधन	१२८	१२२	प्रमोद	२८	२४
प्रत्यूप	२४	२	प्रभजन	१५	६३	प्रयत	१४०	४५
प्रत्युह	२२३	१९						

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
प्रबोधनी	८३	९४	प्रताप	१४६	२	प्रतिभू	१९५	४४
प्रबुद्धपट	१२७	११६	प्रतापघ	८१	८१	प्रतिभा	१९३	३५
प्रबुद्ध	६४	१४	प्रति	२७३	२४५	प्रतिमान	{ १५	{ २९
प्रबुद्धिका	११६	५५	प्रतिकर्मन्	१२४	९९		{ १९३	{ २५
प्रबन्	२२४	२५	प्रतिकृ	२१२	८४	प्रतिमुक्त	१५५	६५
प्रबन्धिन	१५६	७३	प्रतिक्रुति	१९३	३६	प्रक्रियोभिन्	१९१	२५
प्रबन्ध	२३३	३२	प्रतिक्रुप्र	२ ७	४४	प्रक्रियन्	२४६	१ ७
प्रबन्धता	१ ८	१६	प्रतिक्षित	२ ४	४२	प्रतिमातन्ना	१९३	३६
प्रभाप्रति	८	१७	प्रतिख्याति	२२५	२८	प्रतिवाक्य	३५	१
प्रभावती	११	३	प्रतिग्रह	१५८	७९	प्रतिबिधा	८४	९९
प्रबन्ध	{ २९	१	प्रतिग्रह	१३२	१३९	प्रतिघातन	२२६	३४
			प्रतिषा	४३	२६	प्रतिषया	११५	५१
प्रबन्धन	२४९	१२२	प्रतिपातन	१६४	११४	प्रतिभय	२५५	१५२
प्रबन्ध	११४	४७	प्रतिष्ठाभा	१९३	३५	प्रतिभव	३	५
प्रबन्धिन	१ ३	३७	प्रतिशामर	२२५	२८	प्रतिभ्रू	३८	२६
प्रबन्ध	{ १२४	२५	प्रतिशाय	२१७	१ ८	प्रतिहम्भ	२२४	२७
			प्रतिशान	३	५	प्रतिसर	२५९	१७४
प्रबन्ध	३४	४	प्रतिशान	१८१	८१	प्रतिरीति	१२८	१२
प्रबन्ध	३५	११	प्रतिष्णान	३८	२६	प्रतिरीति	२ ४	४१
प्रबन्ध	५६	३५	प्रतिनिधि	१९३	३६	प्रतिहारक	१८९	११
प्रबन्धि	{ १४५	१३	प्रतिपत्	{ २४	१	प्रति	८१	७६
प्रबन्धित	११२	८६	प्रतीक	{ ११८	७	प्रतीक	{ २२९	७
प्रबन्धित	{ ११५	२						
			१७४	४५	प्रतीकार	१६३	११	
प्रबन्धित	२१०	१ ७	प्रतीक	२ ४	४१	प्रतीकार	१९४	३७
प्रबन्धित	२ ७	२५	प्रतीक	२२४	२७	प्रतीक	१९६	५
प्रबन्धित	२११	७७	प्रतीक	१ ३	३५	प्रतीक	१७	१
प्रबन्धित	{ १२१	८४	प्रतीक	४२	२	प्रतीक	{ १९७	९
			प्रतीक	२ १	२५			

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	
प्रतीपदर्शिनी	१०४	२	प्रथम	{	२११ ८०	प्रभव	२६६	२१०	
प्रतीर	५०	७				२५३ १४४	प्रभा	२३	३४
प्रतीहार	{	६४ १६ १४४ ६ २५८ १७०	प्रथा	२२०	९	प्रभाकर	२२	२८	
			प्रथित	१९७	९	प्रभात	२४	३	
			प्रदर	२५७	१६४	प्रभात्र	{	१४६ १९ १४६ २०	
प्रदीप	१३१	१३८	प्रभित्र	१४९	३६				
प्रतली	६२	३	प्रदीपन	४८	१०	प्रभु	१९८	११	
प्रत्न	२१	७७	प्रदेशन	१४८	२७	प्रभूत	२०८	६३	
प्रत्यक्	२८०	२३	प्रदेशिनी	१२१	८१	प्रभ्रष्टक	१३१	१३५	
प्रत्यक्पर्णी	८२	८९	प्रदोष	२४	५६	प्रमथ	११	३५	
प्रत्यक्श्रेणि	{	८२ ८८ ९२ १४४	प्रद्युम्न		९	२५	प्रमथन	१६४	११५
			प्रद्राव	१६४	१११	प्रमथाधिप	१०	३१	
प्रत्यक्ष	२११	७९	प्रघन	१६२	१०३	प्रमद	२८	२४	
प्रत्यग्र	२११	७७	प्रघान	{	२९ २९ १४४ ५ २०७ ५७	प्रमदवन	६७	३	
प्रत्यन्त	५९	७				२४९ १२२	प्रमदा	१०५	३
प्रत्यन्तपर्वत	६६	७				१५३ ५६	प्रमनस्	१९७	७
प्रत्यय	२५४	१४७	प्रधि	१५३	५६	प्रमा	२२०	१०	
प्रत्ययित	१४५	१३	प्रपञ्च	२३२	२८	प्रमाण	२३७	५३	
प्रत्यर्थिन्	१४५	११	प्रपद	११९	७१	प्रमाद	४४	३०	
प्रत्यवसित	२१८	११०	प्रपा	६३	७	प्रमापण	१६४	११२	
प्रत्याख्यात	२०४	४०	प्रताप	६६	४	प्रमिती	२२०	१०	
प्रत्याख्यान	२२५	३१	प्रपितामह	१११	३३	प्रमीत	{	१३६ २६ १६४ ११७	
प्रत्यादिष्ट	२०४	४०	प्रपुत्राढ	९२	१४७	प्रमीला			{
प्रत्यादे	२२५	३१	प्रपौडरीक	९१	१२७		प्रमुख	२०७	
प्रत्यालीढ	१५९	८५	प्रफुल्ल	६८	७	प्रमुदित	२१६	१०३	
प्रत्यासार	१५८	७९	प्रबन्धकल्पना	३५	६	प्रमोद	२८	२४	
प्रत्याहार	२२२	१६	प्रबोधन	१२८	१२२	प्रयत	१४०	४५	
प्रत्युत्क्रम	२२४	२६	प्रभजन	१५	६३				
प्रत्युषस्	२४	२							
प्रत्यूप	२४	२							
प्रत्युह	२२३	१९							

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	
अवस्य	१७४	४५	प्रवेणी	{ १२४	९८	मासक	२४६	१४	
प्रयाम	२२४	२३		{ १५१	४२	प्रसू	{ ११	२९	
प्रवागार्थ	२२४	२३	प्रयस्य	१२	८		{ २६९	२२९	
प्रसम्भवा	९	२३	प्रस्यक	२११	८१	प्रसूता	१८	१६	
प्रस्य	{ २८	२२	प्रसन	३५	१	प्रसूत	२२१	१	
		४५	३३	प्रसय	२२४	२५	प्रसूतिका	१८	१६
		११४	११३	प्रसिठ	२	२५	प्रसूतिम्ब	५९	३
प्रस्यप	३६	१५	प्रस्य	१५६	७२	प्रसून	{ ७१	१७	
प्रस्यप	२३७	५६	प्रस्यबाह	१७७	६३		{ २४९	१२३	
प्रस्यकृ	११२	४२	प्रस्यही	१९	७	प्रसूकनमितारी	११२	३७	
प्रस्यई	२७	५७	प्रस्य	५२	१४	प्रसूत	२१३	८८	
प्रस्यह	२२२	१८	प्रस्यकठ	२	१३	प्रसूता	११९	७२	
प्रस्यहप	१५३	५२	प्रस्यज्ञा	१९४	२९	प्रसूति	१२१	८५	
प्रस्यहिका	३४	३	प्रस्यम	१६३	१८	प्रस्येव	१७	२३	
प्रस्यारण	२१९	३	प्रस्यर	२२४	२३	प्रस्यव	४	७	
प्रस्यक	{ ४	७	प्रस्यरक	१६१	९६	प्रस्यर	{ ६६	८	
		१८३	९३	{ २९१	१		{ २५७	१३१	
		२६५	२४	प्रस्यव	२६५	२८	प्रस्यारण	२२४	२८
प्रस्यह	२२२	१८	प्रस्यवबन्धन	७	१५	प्रस्य	{ ३३	५	
प्रस्यारण	१६४	११३	प्रस्यव	२१२	८४		{ १८२	८९	
प्रस्यहिका	११६	५५	प्रस्यव	२०७	१	{ २४३	८८		
प्रस्यवहारण	१६२	१३	प्रसाद	{ २	१३	प्रस्यपुष्प	८१	७९	
प्रस्यश्लेष	२२३	२		{ २४३	९१	प्रस्यमान	१८२	८५	
प्रस्यीण	१९६	४	प्रसादन	१२४	९९	प्रस्यपान	१३१	९५	
प्रस्यति	{ ३४	७	प्रसादनी	१३०	१३९	प्रस्योदन	१७	२३	
		२२२	१८	प्रसादव	१२४	१	प्रस्यवण	६६	५
		१११	७३	प्रसारिणी	९३	१५२	प्रसाव	११८	६६
प्रस्यक	{ ११३	८८	प्रसारिन्	२२	३१	प्रसर	२५	६	
		१४९	८५	प्रसित	१९७	९	प्रसरण	१५८	८९
प्रस्येक	२७७	५७	प्रस्येति	२३२	१४	प्रस्यस्त	१२१	८४	

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
प्रदि	५४	२६	प्राजी	१०७	१२	प्रालम्बिका	१२५	१०४		
प्रहेलिका	३४	६	प्राप्य	२०८	६३	प्रालय	२०	१८		
प्रह्व	२१६	१०३	प्राड्विवाक	१४४	५	पावरण	१२८	११८		
प्रांशु	२०९	७०				प्रवार	१२८	११७		
प्राक्	{	२७८	१६	प्राण	{	१५	६३	प्रावृत	१२७	११३
		२८०	२३		{	१६२	१०२	प्रावृप्	२७	१९
					{	१६५	११९	प्रावृषायणी	८२	८६
प्राकाम्य	११	३६	प्राणिन्	२९	३०	प्रास	१६०	९३		
प्राकार	६२	३	प्राणियूत	१५५	४६	प्रासग	१५४	५७		
प्राकृत	१८९	१६	प्रातर	२७९	१९	प्रासग्य	१७७	६४		
प्राग्दक्षिण	५९	७	प्राथमकल्पिक	१३४	११	प्रासाद	६३	९		
प्राग्दश	१३५	१६	प्राडुस्	{	२७४	२५६	प्रासिक	१५६	७०	
प्राग्रहर	२०७	५८		{	२७७	१२	प्राह्व	२४	४	
प्राग्र्य	२०७	५८	प्रादेश	१२१	८३	प्रिय	{	१११	३५	
प्राघार	२२१	१०	प्रादेशान	१३७	३०					
प्राघुणक	१३८	३४	प्राध्यम्	२७५	४	प्रियक	{	७५	४२	
प्राघूर्णिक	१३८	३४	प्रान्तर	६१	१७					
प्राचका	२८४	८	प्राप्त	{	२१२					८६
प्राची	१७	१		{	२१६	१०४	प्रियगु	{	७७	५५
प्राचीन	६२	३	प्राप्तपञ्चत्व	१६४	११७					
प्राचीना	८२	८५	प्राप्तरूप	२५१	१३१	प्रियता	४४	२७		
प्राचीनावीत	१४१	५०	प्राप्ति	{	११	३६	प्रियमद	२०३	३६	
प्राच्य	५९	७		{	२३९	६९	प्रियाळ	७३	३५	
प्राजन	१६७	१२	प्राप्य	२१४	९२	प्रीणन	२१९	४		
प्राजितृ	१५४	५९	प्राभृत	१४८	२७	प्रीत	२१६	१०३		
प्राश	१३३	५	प्राय	{	१४३	५२	प्रीति	२८	२४	
प्राशा	१०७	१२		{	२५५	१५३	प्रुष्ट'	२१५	९९	
			प्रायस्	२७८	१७	प्रेक्षा	{	२९	१	
			प्रार्थित	२१५	९७					
			प्रालम्ब	१३१	१३६					

१—(प्राघूर्णिक प्राघुणक-
श्वाम्युत्यान ङ गौरवम्) ।

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.
प्रेक्षा	१५३	५३	प्रीहयानु	७६	४९	फाणित	१७३	४३
प्रेक्षित	२१२	८७	पुत	१५२	४८	फाट	२१४	९४
प्रेत	{ ३९ १६४ २३८	२ ११७ ६०	प्रष्ट	२७५	९९	फाळ	{ १२६ १६८	१११ १३
			प्रीप	१२२	९			
			प्रासत	२१८	११			
प्रेत	२७६	८	फ			फास्युन	२६	१५
प्रेमन्	{ ४४ ४४	२७ २७	फणा	४८	९	फास्युमिक	२६	१५
			फणिका	८१	७९	फारगुनी	२८३	६
प्रेम	२१८	१११	फणित	४७	७	फर	६८	८
प्रेम	२६७	२१९	फणित्			फेन	{ १८५ १८९	१०५ १९
प्रेम	१९०	१७	फण	{ १६ १६८ १८१	९ १३ ८	फेनि	{ ७३ ७४	२१ ३३
प्रीक्षण	१३३	२६						
प्रीक्षित	१३६	२६						
प्रीक्ष	१५२	४९	{ १६४ १९१	२ २३	{ १९ २३	{ ९७ ९७	५ ५	
प्रीक्षपरा	२१	२२	ककक	१६	९	केष	१७६	५६
प्रीक्षी	५२	१८	कककपापि	१५६	७१	व		
प्रीक्षपर	२७	१७	ककनिक	१८७	१११	के	१	२३
प्रीक्ष	२११	७६	ककपाकान्ता	६८	३	ककुठ	७८	६४
प्रथ	{ ७३ ७५	३२ ४३	ककपूर	८१	७८	कडिवा	५२	१६
			ककपुत्र	६८	७	कठ	२७३	२४
प्रथ	{ ५१ ५४ ९ १२	११ २४ १३२ १४	ककपण्ड	७५	४५	कहर	७४	३७
			ककपिन्	६८	७	कहरा	{ ८७ ९३	११६ १५१
			ककन	६८	७	कहरी	७४	३६
			ककनिनी	{ ७७ ९	५५ १३६	कह	{ २४ २१४	४२ ५
प्रथम	{ ९६ २३१	३ २४	ककनी	७७	५५	कहिर	२१४	४८
			ककनी	७७	५५	कहिर	२१४	४८
प्रथम	९६	३	ककनी	७७	५५	कहिर	२१४	४८
प्रथम	२५२	१३८	ककनी	७७	५५	कहिर	२१४	४८
प्रथ	७	१८	ककनी	{ ७८ २७	६१ ५६	कहिर	१६५	११
प्रीह	११८	६६	ककनी	{ २७ ५६	५६ ५६	कहिर	१६	१०

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
बन्धन	{	१४८	२६	बलवत्	{	११३	४४	बहुकर	१९९	१७
		२२२	१४			२७५	२	बहुगह्यवाक्	२०३	३६
बन्धु	१११	३४	बलविन्यास	१५७	७९	बहुपाद	७३	३२		
बन्धुजीवक	८०	७३	बला	८५	१०७	बहुप्रद	१९७	६		
बन्धुता	१११	३५	बलाका	१०१	२५	बहुमूल्य	१२७	११३		
बन्धुर	२०९	६९	बलात्कार	१६३	१०८	बहुरूप	१२९	१२८		
बन्धुल	१०९	२६	बलाराति	१०२	४३	बहुल	{	२०८	६३	
बन्धुक	८०	७३	बलाहक	१८	१६			२१८	११२	
बन्धूक	८०	७३	बालि	{	१३४			१४	२६३	१९९
बधूक	७५	४४			१४८	२७	बहुला	८८	१२५	
बभ्रु	२५८	१७०			२६३	१९५	बहुलीकृत	१७०	२३	
बर्वर	८३	९०	बलिध्वसिन्	९	२१	बहुवारक	७३	३४		
बर्वरा	९१	१३९	बलिन	११३	४५	बहुविधि	२१४	९३		
बर्ह	{	१०२	३१	बलिपुष्ट	१००	२०	बहुवेतस	४९	९	
		२७१	२३६	बलिभ	११३	४५	बहुसुता	८४	१००	
बर्हपुष्प	९०	१३२	बलिभुज्	१००	२०	बहुस्रति	१७९	७०		
बर्हि	१४	५४	बलिर	११४	४९	बाकुची	८३	९६		
बर्हिण	१०२	३०	बलिसङ्गन्	४६	१	बाढ	{	१६	६७	
बर्हिन्	१०२	३०	बलीवर्द	१७७	५९			२३५	४४	
बर्हिपुष्प	९०	१३२	बल्लव	{	१७१	२७	बाण	{	१५९	८६
बर्हिमुख	७	९			१७६	५७			२३५	४५
बर्हिष्ठ	८८	१२२	बल्लज	९५	१६३	बाणा	८०	७४		
बल	{	९	२४	बल्लजिणी	१७९	७१	बादर	१२६	१११	
		१५७	७८	बस्त	१८०	७६	बाघा	४९	३	
		१६२	१०२	बस्ति	११९	७३	बाघकिनेय	१०९	२६	
		२६३	१९५	बहिर्द्वार	६४	१६	बाघव	१११	३४	
		२९०	२२	बहिष्ठ	२१८	१११	बाहृत	७०	१९	
बलदेव	९	२३	बहिस्	२७८	१७	बाल	{	८८	१२२	
बलभद्र	९	२३	बहु	२०८	६३			११३	४२	
बलमद्रिका	९३	१५०						२६५	२०५	

शब्द.	पृ.	श्लोक.	शब्द.	पृ.	श्लोक.	शब्द.	पृ.	श्लोक.
मैत्रा	१५३	५३	मैत्राण्यु	७३	४९	कापित	१७३	४१
मैत्रित	२१२	८७	मृग	२५२	४८	काटि	२१४	५४
मैत्र	११५	२१७	मृग	२१५	९९	कात्	१२३	१११
		२१८	१०	मृग	२००			
मैत्र्य	२७९	८	मृग	२१८	११	कास्युन	२३	१५
मैत्र्य	४४	२७	मृग	१८	१	कास्युनिक	२३	१५
		२७				कास्युनी	२८३	६
मैत्र्य	२१८	१११	मृग	८१	७९	कास्यु	३८	८
मैत्र्य	२३७	२१९	मृग	४७	७९	कास्यु	१८५	१५
मैत्र्य	१९	१७	मृग	१३	९			
मैत्र्य	१३३	२३				मृग	१६८	१३
मैत्र्य	१३३	२६	मृग	१८९	८०			
मैत्र्य	१५२	६९				मृग	२३४	२
मैत्र्य	२१	२२	मृग	१९९	२१			
मैत्र्य	५२	१८				मृग	१३	०
मैत्र्य	२७	१७	मृग	१५३	७१			
मैत्र्य	२११	७३				मृग	१८७	१११
मैत्र्य	७७	१२	मृग	६८	१			
		७१				४३	मृग	८१
मैत्र्य	५१	११	मृग	६८	७	कास्यु		
		५४					२४	मृग
मैत्र्य	१	२१२	मृग	६८	७	कास्यु	८७	
		१						१४
मैत्र्य	१	१९	मृग	७७	५५	कास्यु	७४	३६
		१३						
मैत्र्य	२३१	२४	मृग	७७	५५	कास्यु	११४	५
मैत्र्य	६	३	मृग	६८	३	कास्यु	१११	४८
मैत्र्य	२७२	११८	मृग	७७	५४	कास्यु	१६९	७
मैत्र्य	७	१८	मृग	७१	६१	कास्यु	१३५	११
मैत्र्य	११८	६३						

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
ब्रह्मसायुज्य	१४१	५१	मट	१५४	६१	मर्तु	{ १११	३५		
ब्रह्मसू	९	२७	मटित्र	१७४	४५		{ २३८	५९		
ब्रह्मसूत्र	१४१	४९	मट्टारक	४१	१३	मर्तुदारक	४१	१२		
ब्रह्मांजलि	१३९	३९	मट्टिनी	४१	१३	मर्तुदारिका	४१	१३		
ब्रह्मासन	१३९	३९	मटाकी	८६	११४	मर्त्सन	३६	१४		
ब्राह्म	{ २८	२१	मडिल	७९	६३	मर्मन्	{ १८३	९४		
		५१	मंडी	८३	९१			{ १९४	३८	
ब्राह्मण	१३२	४	भद्र	{ २८	२५	मल्ल	२९०	२१		
ब्राह्मणयष्टिका	८३	८९			{ १७७	५९	मल्लातकी	७५	४२	
ब्राह्मणी	८३	८९	भद्रकुम्भ	१४९	३२	मल्लुक	९७	३		
ब्राह्मण्य	२२७	४१	भद्रदारु	७७	५३	मल्लुक	९७	४		
ब्राह्मी	{ ११	३५	भद्रपर्णी	७४	३६	मव	{ १०	३४		
		३३	१	भद्रबला	९३			१५३	{ २६५	२०६
		९१	१३७	भद्रसुस्तक	९५			१६०		६२
भ						भवानी	११	३७		
भ	२१	२१	भद्रयव	७९	६७	भविक	२८	२६		
भक्त	१७५	४८	भद्रश्री	१३०	१३१	भवितृ	२०१	२९		
भक्षक	२००	२०	भद्रासन	१४८	३१	भविष्णु	२०१	२९		
भक्षित	२१८	११०	भय	४२	२१	भव्य	२५५	१५४		
भक्ष्यकार	१७१	२८	भयंकर	४२	२०	भषक	१९१	२२		
भग	{ १२०	७६	भयद्रुत	२०४	४२	भक्षा	१९३	३३		
		२३२	२६	भयानक	{ ४२	१७	भस्मगधिनी	८८	१२०	
भगंदर	११६	५६		{ ४२	२०	भस्मगर्भा	७८	६३		
भगवत्	८	१३	भर	१६	६६	भा	२३	३४		
भगिनी	११०	२९	भरण	१९४	३८	भाग	१८३	८९		
भङ्ग	५०	५	भरण्य	१९४	३८	भागधेय	{ २९	२८		
भङ्गा	१६९	२०	भरण्यमुञ्ज	१९९	१९		{ १४८	२७		
भङ्गि	२८४	८	भरत	१८९	१२	भागिनेय	१११	३२		
भङ्ग्य	१६६	७	भरद्वाज	९९	१५	भागीरथी	५५	३१		
भजमान	१४७	२४	भर्ग	१०	३३	भाग्य	{ २९	२८		
							{ २५५	१५५		

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक		
बाष्पजनय	७४	४९	बन्धिका	११	११९	बुभुक्षित	२०	२०		
बाष्पगुण	९६	१६७	बिह	४६	२	बुध	१६९	२२		
बाष्पगुणिका	९८	१२	बिसेधम	४७	८	बुद्ध	२९५	३४		
बाष्प	४१	१४	बिस्व	७२	२२	बुद्धि	१६६	१७		
बाष्पिध	{	२६	४८	बस	५७	४२	बुध्नी	१४०	४६	
		२६७	२१८	बिस्वकठिका	११	२५	बुध्नी	२८	६०	
बाष्पेन	१८	७७	बिस्वभान	५७	४१	बुध्नी	१२८	११७		
बाष्पेनघात	८३	९	बिस्वीनी	५६	१९	बुध्नी	{	८६	९३	
बाष्प	३३२	४	बिस्व	१८३	४६	बुध्नी	{	२४०	७५	
बाष्प	२५	३३	बाष्प	{	२९	२८	बुध्नी	११६	४४	
बाष्पिका	१७१	४			११७	६०	बुध्नी	२४	५४	
बाष्प	१२	८	बीजकौश	५७	४३	बुध्नी	२१	२४		
बाष्प	१६६	१	बीजपूर	८१	७८	बुध्नी	१६१	९७		
बाष्प	९५	३३	बीजकौश	१६७	८	बुध्नी	७१	२		
बाष्प	१२	७९	बीज	१३३	२	बुध्नी	१८५	१४		
बाष्प	१६३	१६	बीजस्व	{	४२	१७	बुध्नी	२१	२८	
बाष्प	२७	१८			४२	२९	बुध्नी	{	१३३	३
बाष्प	१२	४	२७	२१४	बुध्नी	{	१४	४२		
बाष्पिक	{	१५१	४५	बुध्नी	८१	८१	बुध्नी	७५	४३	
		२९५	३२	बुध्नी	११७	६४	बुध्नी	१४१	५१	
बाष्पिक	{	१२९	१२४	बुध्नी	{	८	१३	बुध्नी	२	१४५
		१७१	४			२१७	१८	बुध्नी	७५	४१
		२२९	९			१९	१	बुध्नी	{	८
बाष्प	२७८	१७	बुध्नी	२८९	१९	बुध्नी	२७	११४		
बिह	१७१	४२	बुध्नी	{	२२	२६	बुध्नी	४८	१	
बिह	९०	३			१३३	५	बुध्नी	२४६	१४	
बिहोन्न	१२	४१	१४५	१	बुध्नी	१३९	१९			
बिन्दु	५०	३	बुध्नी	२१७	२८	बुध्नी	१४१	५१		
बिन्दुबाष्प	१७	३९	बुध्नी	३९	१२	बुध्नी	११४	१४		
बिन्दु	२	१५	बुध्नी	१७६	५४	बुध्नी	११९			

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
भूनिम्ब	९२	१४३	भृतिमुञ्ज	१८९	१५	भ्रमि	२०	९		
भूप	१४३	१	भृत्या	१९४	३८	भ्रष्ट	२१६	१०४		
भूपदी	७९	७०	भृत्य	१९०	१७	भ्रष्टयव	१७४	४७		
भृश्वत्	२३८	६१	भृशम्	१६	६६	भ्राजिष्णु	१२४	१०१		
भूमन्	२७८	१७	भेक	५४	२४	भ्रातरौ	१११	३६		
भूमि	५८	२	भेकी	५४	२४	भ्रातृज	१११	३६		
भूमिजम्बुका	७४	३८	भेद	१४६	२०	भ्रातृजाया	११०	३०		
						भ्रातृभगिन्या	१११	३६		
भूमिस्पृक्	१६५	१	भेदित	२१६	१००	भ्रातृव्य	२५३	१४६		
भूयस्	२०८	६३	भेरी	४०	६	भ्रात्रीय	१११	३६		
भूयिष्ठ	२०८	६३	भेषज	११५	५०	भ्रान्ति	३०	७		
भूरि	२०८	६३	भिक्ष	१४०	४६	भ्राष्ट्र	१७१	३०		
						भ्रकुंस	४१	११		
भूरिफेना	९२	१४३	भैरव	४२	१९	भ्रुकुटि	४६	३७		
भूरिमाय	९७	५	भैषज्य	११५	५०	भ्रू	१२३	९२		
भूरुडी	७९	६९	भोग	२३	१२३	भ्रुकुस	४१	११		
भूर्ज	७५	४६	भोगवती	२३९	७०	भ्रुकुटि	४६	३७		
भूषण	१२४	१०१	भोगिन्	४७	८	भ्रूण	२३६	४५		
भूषित	१२४	१००	भोगिनी	१०५	५				११२	३९
भूष्णु	२०१	२९	भोजन	१७६	५५				२५१	१३५
भूस्तृण	९६	१६७	भोस्	२७६	७	भ्रेष	१४७	२३		
भृगु	६६	४	भौम	२२	२५	म				
भृङ्ग	९०	१३४	भौरिक	१४४	७	मकर	५३	२०		
						मकरध्वज	९	२६		
						मकरन्द	७०	१७		
भृङ्गराज	९३	१५१	भ्रंश	१४७	२३	मकुष्टक	१६८	१७		
						मकुलक	९२	१४४		
भृङ्गार	१४९	३२	भ्रकुंस	४०	११	मक्षिका	१०१	२६		
भृङ्गारी	१०२	२८	भ्रकुटि	४६	३७	मख	१३४	१३		
भृतक	१८९	१५	भ्रम	३०	४	मगध	१६१	९७		
भृति	१९४	३८	भ्रमर	१०२	२९	मघवन्	१२	४१		
						भ्रमरक	१२३	९६		

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.
मंशु	२७५	२	मण्डहारक	२८९	२	मदस्नान	२९४	१
मंगल	२८	२५	मण्डित	२२४	१	मण्डिर	२९४	४
मंगलवक	२६८	१७	मंजीरी	८३	९१	मण्डिरागार	३३	८
मंगलना	१२०	१२७	मंजूक	५४	२४	मदोत्कट	२४९	२१
मन्त्रिका	२८	२७	मंजूकपर्ण	७७	५६	मंजू	१२	१४
मन्त्र	६९	२२	मंजूकपर्णी	८३	९१	मन्त्र	५३	१९
मन्त्र	१३२	१३८	मन्त्र	२८४	९८	मन्त्र	२९४	४०
मन्त्रि	६९	१३	मन्त्राज	२४९	३४		२६	१५
मन्त्रिणा	८३	९०	मन्त्राजिका	२८	२७		२८६	१०
मन्त्री	१२६	१	मन्त्रि	७९	१	मन्त्र	२९४	४१
मन्त्र	२	५२		१६९	३६		२४५	१३
मन्त्रक	२	५२	मन्त्र	२	२३	मन्त्रक	८६	१९
मन्त्रना	१०९	२९		२३६	१	मन्त्रकर	१२	२९
मन्त्र	६३	८	मन्त्रकाशिनी	१	५	मन्त्रकम	१९४	४
मन्त्र	४०	८	मन्त्रर	२५९	१७२	मन्त्रकम	७२	२७
मन्त्र	१	२८	मन्त्रर	५२	१७	मन्त्रर	१२	२९
मन्त्र	१८३	९३	मन्त्रर	२७३	४३			
मन्त्रिक	१७२	२९	मन्त्ररपिपा	८२	८६	मन्त्ररपिपा	७४	३५
मन्त्रिक	१९२	८९	मन्त्ररवेचन	५२	१६		८२	९४
मन्त्र	७६	५१	मन्त्ररवाधी	९१	१३७	मन्त्ररवाधी	८२	८३
मन्त्र	१७५	४९	मन्त्ररवात्सग	२६७	२१९	मन्त्ररवाधिक	११	२६
मन्त्र	१९४	१०३	मन्त्ररवाधानी	५२	१६	मन्त्ररवाधिक	८६	९
मन्त्र	१०२	२९	मन्त्रर	१७५	५३	मन्त्रर	३२	९
मन्त्र	११	९	मन्त्रर	१८	७४		२६२	१
मन्त्र	११	९		१५	३७	मन्त्ररक	९१	१४२
मन्त्र	११	९	मन्त्रर	२२१	१९	मन्त्रर	८२	८३
मन्त्र	१०	१९		२४२	९१		८५	१७
मन्त्र	११	१९		११	२५	मन्त्रर	३	१५२
मन्त्र	११	१९		१	२५	मन्त्ररिका	८५	१५
मन्त्र	११	१९		७१	५३	मन्त्ररिप	८	७०

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.							
मधुवार	१९४	४०	मनुष्य	१०४	१	मन्दोष्ण	२३	३५							
मधुव्रत	१०२	२९	मनुष्यधर्मन्	१६	६८	मन्द्र	३९	२							
मधुशिग्रु	७३	३१	मनोगुप्ता	१८६	१०८	मन्मथ	९	२५							
मधुश्रेणी	८२	८४	मनोजवस्	१९८	१३				७१	२१					
मधुष्ठील	७२	२८	मनोज्ञ	२०६	५२	मन्वा	११८	६५							
मधुस्रवा	९१	१४२	मनोरथ	४४	२७	मन्यु	४३	२५							
मधुक	७२	२७	मनोरम	२०६	५२				२५५	१५३					
मधुच्छिष्ट	१८६	१०७	मनोहत	२०४	४१	मन्वन्तर	२८	२२							
मधूलक	७२	२८	मनोहा	१८६	१०८	मय	१८०	७५							
मधूलिका	८२	८४	मन्तु	१४८	२६	मयु	१७	७१							
मध्य	१२०	७९	मत्र	२५८	१६७	मयुष्टक	१६८	१७							
									२५६	१६१					
मध्यदेश	५९	७	मत्रिन्	१४३	४	मयूख	२३	३३							
									२६५	२०६	२३०	१८			
मध्यम	३८	७	मन्य	१८०	७४	मयूर	८६	१११							
									५९	७	मन्यदडक	१८०	७४	१०२	३०
									१२०	७९	मन्यन्	१८०	७४	८२	८८
मध्यमा	१०६	८	मन्यनी	१८०	७४	मयूरक	११८५	१०१							
									१२१	८२	मन्यर	१५६	७२	१८३	९२
मध्याह्न	२४	३	मन्यान	१८०	७४	मरकत	१६४	११६							
मध्वासव	१९४	४१	मन्द	१९०	१८	मरीच	१७२	३६							
मनशिला	१८६	१०८							२४४	९५					
मनस्	२९	३१	मन्दगामिन्	१५६	७२	मरीचि	२२	२७							
मनसिज	९	२६	मन्दाकिनी	१३	४९				२३	३३					
मनस्कार	३०	२	मन्दाक्ष	४३	२३	मरीचिका	२३	३५							
मनाक्	२७६	८	मन्दार	१३	५०				मरु	५८	५				
मनित	२१७	१०८				७२	२६	२५७				१६३			
मनीषा	२९	१	मन्दिर	८१	८१	मरुत्	१५	६२							
									१३३	५	१७	२			
मनु	२५१	३८	मन्दुरा	६२	७	मरुत्त्वत्	२३७	५९							
मनुष	१०४	१							२६१	१८४	१२	४१			
						मरुन्माला	९०	१३३							

शब्द	पृ. सं.	श्लोक.	शब्द.	पृ. सं.	शब्द.	पृ. सं.	श्लोक.
मंजु	२७५	२	मन्मथहारक	१८९	१	मन्मथ	१९४ ४
मंगल	२८	२५	मन्मथ	१२४	१	मन्मथ	१९४ ४
मंगलवक्र	११८	१७	मन्मथी	८३	९१	मन्मथगह	६३ ८
मंगलवा	१२९	१२७	मन्मथक	५४	२४	मन्मथक	१४९ ३९
मन्मथिका	२८	२७	मन्मथकर्ण	७७	७३	मन्मथ	१ २ ३४
मन्मथ	१९	१२	मन्मथकर्णी	८३	९१	मन्मथ	५३ १९
मन्मथ	१३१	१३८	मन्मथ	१८४	९८	मन्मथ	१९४ ४
मन्मथि	६९	१३	मन्मथग	१४९	३४		२६ १५
मन्मथि	८३	९	मन्मथिका	२८	२७	मन्मथ	१८६ १ ७।
मन्मथी	१२६	१ ९	मन्मथि	२०	२		१९६ ४१
मन्मथ	२ ६	५२		१४९	३३		२४५ १ ३
मन्मथक	२ ६	५२	मन्मथ	२	२३	मन्मथक	८६ १ ९
मन्मथी	१०२	२९		२१३	१ ३	मन्मथक	१ २ २९
मन्मथ	६३	८	मन्मथकादिनी	१ ७	४	मन्मथकम	१९४ ४
मन्मथ	४	८	मन्मथ	२७९	१७२	मन्मथकम	७२ २७
मन्मथ	१	१८	मन्मथ	५२	१७	मन्मथ	१ २ २९
मन्मथ	१८३	९३	मन्मथि	१७३	४३		
मन्मथ	१७१	३१	मन्मथविष्णु	८२	८६	मन्मथविष्णु	७४ ३५
मन्मथ	१२१	८१	मन्मथविष्णु	५२	१६	मन्मथविष्णु	८३ ९४
मन्मथ	७३	७१	मन्मथविष्णु	९१	१३७	मन्मथविष्णु	८२ ८३
मन्मथ	१७५	४९	मन्मथविष्णु	२३७	२१९	मन्मथविष्णु	१ १ २६
मन्मथ	१२४	२	मन्मथविष्णु	५२	१६	मन्मथविष्णु	८६ १
मन्मथ	१ १	२९	मन्मथविष्णु	१७७	५३	मन्मथ	३१
मन्मथ	६३	९	मन्मथविष्णु	१८	७४	मन्मथ	२६२ १ १
मन्मथ	१९	९	मन्मथ	१५	३७	मन्मथ	९१ १४२
मन्मथ	२	१५	मन्मथ	७ १	१९	मन्मथ	८२ ८३
मन्मथ	२३	३२	मन्मथ	७४३	११	मन्मथ	८५ १ ७
मन्मथ	११५	५४	मन्मथ	१४	३९	मन्मथ	९३ १५२
मन्मथ	१३	८९	मन्मथ		२५	मन्मथ	८५ १ ५
मन्मथ	१४३	१	मन्मथ	७३	५३	मन्मथ	८ ३
			मन्मथ	६१	७८	मन्मथ	१ २ ३

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.
मागधी	{ ८०	७१	मातृष्वसेय	१०९	२५	माग	{ २६	१४
	{ ८४	९६	मातृष्वस्त्रीय	१०९	२५		{ ६१	१५
माघ	२६	१५	मात्र	२६०	१७८		{ १५९	८७
माघ्य	८०	७३		{ २०८	६२	मार्गण	{ २०६	४९
माठर	२३	३१	मात्रा	{ २६०	१७७		{ २२५	३०
माढि	२८४	८	माद	२२१	१२	मार्गशीर्ष	२६	१४
माणवक	{ ११३	४२				मार्गीत	२१७	१०५
	{ १२५	१०६	माधव	{ ७८	१८	मार्जन	७३	३३
माणव्य	२२७	४०		{ २६	१६	मार्जना	१२८	१२१
माणिक्य	२९४	३१	माधवक	१९४	४१	मार्जार	९७	६
माणिमन्थ	१७३	४२	माघवी	८०	७२	मार्जिता	१७४	४४
मातग	{ १९०	१९	माव्वीक	१९४	४१	मार्तण्ड	२२	२९
	{ २३१	२१	मान	४३	२२	मार्दङ्गिक	१८९	१३
मातरपितरौ	११२	३७	मानष	१०४	१	मार्ष्टि	१२८	१२१
मातरि-श्वन्	१५	६१	मानस	२९	३१	मालक	७८	६२
मातालि	१२	४५	मानसोकस्	९७	२३	मालती	८०	७२
मातापितरौ	११२	३७	मानिनी	१०५	३	माला	१३१	१३५
मातामह	१११	३३	मानुष	१०४	१	मालाकार	१८८	५
मातुल	{ ८१	७८	मानुष्यक	२२७	४२	मालातृणक	९६	१६७
	{ ११०	३१	माया	१८९	११	मालिक	१८	५
मातुलपुत्रक	८१	७८	मायाकार	१८९	११	मालुघान	४७	६
मातुलानी	{ ११०	३०	मायादेवीसुत	८	१५	मालूर	७३	३२
	{ १४२	२०	मायु	११७	६२	माल्य	१३१	१३५
मातुलाहि	४७	६	मायूर	१०४	४३	माल्यवत्	६६	३
मातुली	११०	३०	मार	९	२५	माषपणी	९१	१३८
मातुलाङ्गिक	८१	७८	मारजित	८	१३	माषीण	१६६	७
मातृ	{ ११	३५	मारण	१६४	११४	माष्य	१६६	७
	{ ४१	१४	मारिष	४१	१४	मास	२६	१२
	{ ११०	२९	मारुत	१५	६२	मासर	१७५	४९
	{ १७८	६६	मार्कव	९३	१५१	मासिक	१३७	३१

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
मास्म	२७७	११	मुक्ता	१८१	१३	मुष्टिवन्ध	२२३	१४
माहिष्य	१८७	१	मुक्तावली	१२५	१५	मुस्त	१७०	२५
माहैयी	१७८	६६	मुक्तास्त्रोट	५२	२३	मुस्तस्त्रिन्	९	२४
माहधरी	११	३५	मुक्ति	३१	६	मुस्तली	{ ८७	११३
मिर्तपत्र	२ ३	४८	मुस्त	{ ६५	१९	मुस्तली	{ ९८	१२
मित्र	२२	३	मुस्त	{ १२२	८९	मुस्तल	२ ५	४५
	१४४	०	मुस्तल	२ ३	३६	मुस्तक	९५	१५३
	१४५	१२	मुस्तबासन	३२	११	मुस्ता	९७	१५०
	२७८	१६७						
मिषत्	२७४	२७६	मुस्त्य	{ ११९	४	मुस्तु	२७५	१
मिपुन	१०३	३८		{ २ ७	५७	मुस्तुर्भाषा	३३	१
मिष्या	२७८	१७		{ २	२२	मुस्तुर्त	२३	११
मिष्याद्वि	३	४	मुष्ण	{ ११४	४८	मुष्ण	१९८	१३
मिष्याभिषीग	३५	१	मिषित	{ २ ५	३४	मुष्ण	२ ६	४८
मिष्याभिषासन	३५	१		{ ११४	४८	मुष्ण	२१४	९७
मिष्यामाते	३	४	मुष्णिन्	{ २१२	८५	मुष्ण	११८	६७
मिन्दी	९०	११४	मुष्ण	१८८	१	मुष्णकण्ठ	११९	५६
मिषेया	८५	१ ५	मुष्णित	२१४	५	मुष्णपट	२१५	६
मिषि	{ ८५	१ ५	मुष्णित	१८	७	मुष्ण	२ ६	४८
	{ ३	१५०	मुष्णपर्षी	८६	११३	मुष्णर्षेण	१६३	१ ९
मिदिका	२	१८	मुष्ण	१६	९१	मुष्णज	{ ११७	६१
मिदिर	२२	२०	मुष्णा	२७५	४		{ २४२	८२
मीढ	२१७	१	मुष्ण	{ ८	१४	मुष्ण	{ ११७	६१
मीन	७३	१७	मुष्ण	{ १४	४२	मुष्ण	{ २१	७६
मीनकेसन		७५	मुष्णैः	८	१४	मुष्ण	{ ११९	७१
मुषट	१२७	१ ७	मुष्ण	३		मुष्ण	{ २२	६९
मुष्ण		१०१	मुष्ण	८८	१०३	मुष्ण	२१	७६
मुष्ण	१०	१८	मुष्ण	११	८८	मुष्ण	१२३	७
मुष्ण			मुष्ण			मुष्ण	{ ११३	७
मुष्ण			मुष्ण			मुष्ण	{ ११८	६१

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.
मूर्वा	८२	८३	मृगाक	१९ १४	मेकलकन्यका	५५	३२
मूल	{ ६९ २६४	१२ ३००	मृगादन	९७ १	मेखला	{ १२६ १६०	१०८ ९०
			मृगित	२१७ १०५			
मूलक	९४	१५७	मृगेन्द्र	९७ १	मेघ	१८	६
मूलकर्मन्	२१९	४	मृजा	१२८ १२१	मेघज्योतिस्	१९	१०
मूलधन	१८१	८०	मृड	१० ३१	मेघनादानुलासिन्	१०२	३०
मूल्य	{ १८१ १९४	७९ ३८	मृडानी	११ ३७	मेघनामन्	९५	१५९
			मृणाल	५७ ४२	मेघनिर्घोष	१९	८
मूपक	९८	१२	मृणाली	२८३ ७	मेघपुष्प	४९	५
मूषा	{ १९३ २९७	३३ ३८	मृत्	५८ ४	मेघमाला	१८	८
			मृत्	{ १६४ ११७ १६६ ३	मेघवाहन	१२	४४
मूषिकपर्णी	८२	८८	मृत्	{ १९९ १९ १९९ १९	मेचक	{ ३२ १४ १०२ ३१	
मूषित	२१३	८८	मृत्स्नात	१९९ १९	मेढू	{ १२० ७६ १८० ७६	
मृग	{ ९८ २२५ २३१	८ ३० २०	मृत्तालक	९० १३१			मेदक
			मृत्तिका	५८ ४	मेदस्	११७ ६४	
मृगणा	२२५	३०	मृत्यु	१६४ ११६	मेदिनी	५८ ३	
			मृत्युजय	१० ३१	मेदुर	२०२ ३०	
मृगतृष्णा	२३	३५	मृत्सा	५८ ४	मेघा	३० २	
मृगदशक	१९१	२१	मृत्स्ना	{ ५८ ४ ९० १३१	मेघि	१६८ १५	
मृगवूर्तक	९७	५			मेध्य	२०७ ५५	
मृगानाभि	१३०	१२९	मृदङ्ग	३९ ५	मेनकात्मजा	११ ३७	
मृगवघाजीव	१९०	२१	मृदु	{ २११ ७८ २४४ ९४	मेरु	१३ ४९	
मृगबन्धनी	१९१	२६	मृदुत्वच्	७५ ४६	मेलक	२२५ २९	
मृगमद	१३०	१२९	मृदुल	२११ ७८	मेष	{ २२ २७ १८० ७६	
मृगया	१९१	२३	मृद्वीका	८५ १०७			
मृगयु	१९०	२१	मृध	१६२ १०४	मेषकम्बल	१८६ १०७	
मृगरोमज	१२७	१११	मृषा	२७८ १५	मेह	११६ ५६	
मृगव्य	१९१	२३	मृषार्थक	३७ २१	मेहन	१२० ७६	
मृगाशिरस्	२१	२३	मृष्ट	२०७ ५६			
मृगशीर्ष	२१	२३					

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
मास्म	२७७	११	मुष्का	१८३	१३	मुश्विन्व	२२३	१४
माहृष्य	१८७	३	मुष्काबली	१२५	१५	मुसळ	१७	२५
माहृषी	१७८	३६	मुष्कात्प्रीट	५३	२३	मुसळिन्	९	२४
माहृषी	११	३५	मुष्कि	३१	६	मुसळी	८७	११९
मितपच	२३	४८	मुस	६५	१९	मुसळी		९८
मिन	२२	३	मुसर		१२२	८९	मुसळ	२५
	१४४		मुसलबासन	३२	११	मुस्ता	९७	१५९
	१४५	१२						
	२५८	१३७						
मिषत्	१७४	२५३	मुस्य	११९	४	मुसुत्	२७५	१
मिषुन	१०३	३८		२७	५७	मुसुर्माशा	२६	१
मिष्या	२७८	१७		२९	२२	मुसुर्त	२६	११
मिष्याद्यि	३	४	मुस्य	११४	४८	मुसु	१९८	१३
मिष्यामिबीग	३७	१	मुस्य		२५५	३४	मुसु	२६
मिष्यामिषलन	३५	१	मुस्य	११४	४८	मुसु	२१४	९
मिष्यामिषी	३०	४	मुस्य		२१२	८५	मुसु	११८
मिषी	९	१३४	मुस्य	१८८	१	मुसु	११६	५६
मिषेय	८५	१५	मुस्य	२८	२४	मुसु	२१५	९६
मिषि	८७	१५	मुस्य	२१४	९५	मुसु	२०९	४८
		३	१५२	मुस्य	१८	७	मुसु	१६३
मिषिका	२	१८	मुस्य	८६	११३	मुसु	११७	६१
मिषिर	२२	२९	मुस्य	१६	९१	मुसु	११७	६१
मीड	२१५	९६	मुस्य	२७५	४	मुसु		२४२
मीन	५३	१७	मुस्य	१४	१४	मुसु	११७	६१
मीनकेतन		२	मुस्य		४२	४२		मुसु
मुषट	१२७	१०	मुस्य	८	१४	मुसु	११७	७१
मुषट	११	१०१	मुस्य	१	८	मुसु		२७९
मुषट	१३२	१८	मुस्य	११३	११	मुसु	२१	७६
मुषट	७	१६	मुस्य	१०	७	मुसु	१२३	७
मुषट	४३	१	मुस्य	७४	२	मुसु	११३	१
						मुसु	२३८	६६

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.
मूर्वा	८२	८३	मृगाक	१९ १४	मेकलकन्यका	५५	३२
मूल	{ ६९ २६४	१२ ३००	मृगादन	९७ १	सखला	{ १२६ १६०	१०८ ९०
			मृगित	२१७ १०५			
मूलक	९४	१५७	मृगेन्द्र	९७ १	मेघ	१८	६
मूलकर्मन्	२१९	४	मृजा	१२८ १२१	मेघज्योतिस्	१९	१०
मूलघन	१८१	८०	मृड	१० ३१	मेघनादानुलासिन्	१०२	३०
मूल्य	{ १८१ १९४	७९ ३८	मृडानी	११ ३७	मेघनामन्	९५	१५९
			मृणाल	५७ ४२	मेघनिर्घोष	१९	८
मूपक	९८	१२	मृणाली	२८३ ७	मेघपुष्प	४९	५
मूषा	{ १९३ २९७	३३ ३८	मृत्	५८ ४	मेघमाला	१८	८
			मृत्	{ १६४ ११७ १६६ ३	मेघवाहन	१२	४४
मूषिकपर्णी	८२	८८	मृत्	{ १६४ ११७ १६६ ३	मेचक	{ ३२ १४ १०२ ३१	
मूषित	२१३	८८	मृत्स्नात	१९९ १९	मेढ्र	{ १२० ७६ १८० ७६	
मृग	{ ९८ २२५ २३१	८ ३० २०	मृत्तालक	९० १३१			मेदक
			मृत्तिका	५८ ४	मेदस्	११७ ६४	
			मृत्यु	१६४ ११६	मेदिनी	५८ ३	
मृगणा	२२५	३०	मृत्युजय	१० ३१	मेदुर	२०२ ३०	
मृगतृष्णा	२३	३५	मृत्वा	५८ ४	मेघा	३० २	
मृगदशक	१९१	२१	मृत्क्ला	{ ५८ ४ ९० १३१	मेघि	१६८ १५	
मृगधूर्तक	९७	५			मेध्य	२०७ ५५	
मृगनाभि	१३०	१२९	मृदङ्ग	३९ ५	मेनकात्मजा	११ ३७	
मृगवधाजीव	१९०	२१	मृदु	{ २११ ७८ २४४ ९४	मेरु	१३ ४९	
मृगवन्धनी	१९१	२६			मेरुक	१३ ४९	
मृगमद	१३०	१२९	मृदुत्वच्	७५ ४६	मेलक	२२५ २९	
मृगया	१९१	२३	मृदुल	२११ ७८	मेष	{ २२ २७ १८० ७६	
मृगयु	१९०	२१	मृद्वीका	८५ १०७			
मृगरोमज	१२७	१११	मृष	१६२ १०४	मेषकम्बल	१८६ १०७	
मृगव्य	१९१	२३	मृषा	२७८ १५	मेह	११६ ५६	
मृगशिरस्	२१	२३	मृषार्यक	३७ २१	मेहन	१२० ७६	
मृगशीर्ष	२१	२३	मृष्ट	२०७ ५६			

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
मास्य	२७७	२२	मुक्ता	२८३	१३	मुनिवन्द्य	२२३	१५
माहिष्य	२८७	३	मुक्तावली	२२५	१५	मुसळ	२७०	२५
माहीयी	२७७	६३	मुक्कमस्त्रोट	५३	२३	मुसळिन्	९	२५
माहकरी	२१	३५	मुक्ति	३१	६	मुसळी	{ ८७ २१९	
मिर्तपत्र	२६	४८	मुस	{ ६५ १			{ ९८ १९	
	{ २२ ३		मुसळ	{ १२२ ८९			{ ३५ ४५	
मिष	{ १४४ १		मुसर	२३	३६	मुसळ	९५	१५०
	{ १४७ १२		मुसबासन	३२	११	मुला	९५	१५०
	{ २५८ २५७							
मिषु	२७४	२५६	मुस्य	{ ११९ ४		मुसु	२७५	३
मिषुम	१०३	९८		{ २ ७		मुसुमौश	३३	३
मिष्या	२७८	१७		{ २ २२		मुसुर्व	२३	११
मिष्याद्यदि	३	४	मुसु	{ ११४ ४८		मुसु	१९८	१३
मिष्यामिषीग	६५	३	मुसु	{ २ ५		मुसु	२३	४८
मिष्यामिषुक्त	३५	३	मुसु	{ ११४ ४८		मुसु	२१४	९५
मिष्यामसि	३	४	मुसु	{ ११२ ८५		मुसु	११८	६७
मिषी	९०	२३४	मुसु	१८८	१	मुसु	२१६	५६
मिषेवा	८५	१५	मुसु	२८	२४	मुसु	२१५	९६
मिषि	{ ८५ १ ५		मुसु	२१४	९५	मुसु	२०६	४८
	{ ३ १५२		मुसु	१८	७	मुसु	१६३	१९
मिषिवा	९	१८	मुसु	८६	११३	मुसु	११७	६१
मिषिर	२७	२९	मुसु	१६	११	मुसु	{ ११७ ६१	
मीढ	२१५	९३	मुसु	२७५	४	मुसु	{ २४२ ८२	
मीन	५९	१७	मुसु	{ ८ १४			{ ११७ ६१	
मीनकेवम		२५	मुसु	{ १४ ४२			{ २१ ७६	
मुसु	१२७	१२	मुसु	८	१४	मुसु	{ ११ ७१	
मुसु	१८	१७१	मुसु	३	५	मुसु	{ २१९ ६६	
मुसु	११२	१४	मुसु	८८	१०३	मुसु	२१	७६
मुसु	७	१६	मुसु	२१३	८८	मुसु	१२३	५
मुसु	४७	६	मुसु	७४	२	मुसु	{ १४३ १	
							{ ११८ ६१	

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.				
मूर्वा	८२	८३	मृगाक	१९ १४	मेकलकन्यका	५५	३२				
मूल	{ ६९	१२	मृगादन	९७ १	मेलला	{ १२६	१०८				
			२६४	३००				मृगित	२१७ १०५	१६०	९०
मूलक	९४	१५७	मृगेन्द्र	९७ १	मेघ	१८	६				
मूलकर्मन्	२१९	४	मृजा	१२८ १२१	मेघज्योतिस्	१९	१०				
मूलघन	१८१	८०	मृड	१० ३१	मेघनादानुलासिन्	१०२	३०				
मूल्य	{ १८१	७९	मृडानी	११ ३७	मेघनामन्	९५	१५९				
			१९४	३८	मृणाल	५७ ४२	मेघनिर्घोष	१९	८		
मूपक	९८	१२	मृणाली	२८३	मेघपुष्प	४९	५				
मूषा	{ १९३	३३	मृत	५८ ४	मेघमाला	१८	८				
			२९७	३८	मृत	{ १६४ ११७	मेघवाहन	१२	४४		
मूपिकपर्णी	८२	८८	मृत	{ १६६ ३	मेचक	{ ३२	१४				
मूषित	२१३	८८	मृतस्नात	१९९ १९		{ १०२	३१				
मृग	{ ९८	८	मृत्तालक	९० १३१	मंलू	{ १२०	७६				
			२२५	३०				मृत्तिका	५८ ४	१८०	७६
			२३१	२०				मृत्यु	१६४ ११६	मेदक	१९४
मृगणा	२२५	३०	मृत्युजय	१० ३१	मेदस्	११७	६४				
मृगतृष्णा	२३	३५	मृत्वा	५८ ४	मेदिनी	५८	३				
मृगदशक	१९१	२१	मृत्वा	{ ५८ ४	मेदुर	२०२	३०				
मृगधूर्तक	९७	५			९० १३१	मेघा	३०	२			
मृगनाभि	१३०	१२९	मृदङ्ग	३९ ५	मेघि	१६८	१५				
मृगववाजीव	१९०	२१	मृडु	{ २११ ७८	मेध्य	२०७	५५				
मृगबन्धनी	१९१	२६			२४४ ९४	मेनकात्मजा	११	३७			
मृगमद	१३०	१२९	मृदुत्वन्	७५ ४६	मेरु	१३	४९				
मृगया	१९१	२३	मृदुल	२११ ७८	मेलक	२२५	२९				
मृगयु	१९०	२१	मृद्रीका	८५ १०७	मेघ	{ २२	२७				
मृगरौमज	१२७	१११	मृघ	१६२ १०४				१८०	७६		
मृगव्य	१९१	२३	मृषा	२७८ १५	मेघकम्बल	१८६	१०७				
मृगशिरस्	२१	२३	मृषार्थक	३७ २१	मेह	११६	५६				
मृगशीर्ष	२१	२३	मृष्ट	२०७ ५६	मेहन	१२०	७६				

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
भैत्रावरुणि	२१	२		५			१४	५८
भिक्षी	२९७	३९	यकृत्	११८	६६	यम	१४१	४८
भिक्ष्य	२९७	३९		७	११		२२२	१८
भैद्युन	{ १४२	५७	यस्य	{ १३	६९	यमराज्	१४	५८
	{ २४९	१२२	यस्यकदम	१३	१३३	यमुना	५५	३२
भैरव	१९४	४१	यस्यधूप	१२९	१२७	यमुनाभ्रातृ	१४	५८
भौल	{ ३१	७	यस्यराज्	१६	६८	यमु	१५१	४५
	{ ७४	३९	यस्मान्	११५	५१	यव	१६८	१५
भौष	२११	८१	यस्मान्	१३३	८	यवकस्य	१६६	७
भौषा	७७	५४	यजुस्	१४	३	यवघार	१८९	१८
भौषक	७३	३१	यज्ञ	१३४	१३	यवफल	९५	१६१
भौचा	{ ७५	४६	यज्ञांग	७१	२२	यवस्य	९६	१६७
	{ ८६	११३	यज्ञिय	१३७	२७	यवागू	१७५	५
भौक	-२९५	३३	यज्ञम्	१३३	८	यवाम्र	१८६	१८
भौरठ	१८६	११	यत्	२७५	३	यवानिका	९२	१८५
भौरय	८२	८३	यतत्	२७५	३	यवास	८३	९१
भौपक	१९१	२४	यति	१४	४३	यवीयत्	११३	४३
भौर	१६३	१	यतिन्	१४	४३	यव्य	१६६	७
भौष्टिक	१८३	९२	यथा	२७६	९	यथापठत्	३९	३
भौष्टिन	१६७	८	यथाव्यत	२	४८	यथाष्ट	३५	११
भौन	१३८	३२	यथातपम्	२७८	१५	यथि	२९७	३८
भौरभिक	१८	१३	यथायपम्	२७८	१४	यथिमयुक्	८६	१९
भौर्षा	१५९	८५	यथायम्	२७८	१५	यथु	१३३	८
भौर्ष	२६२	१९३	यथाहर्षणी	१४५	१३	याग	१३४	१३
भौषा	२८३	५	यथास्वम्	२७८	१४	यापक	२	४९
भाहृत	१४५	१४	यथे षत	१७६	५७	यापनक	२	४९
भौहृष्टक	१४५	१४	यदि	२७७	१२	याचना	१३८	३२
भिक्ष	३७	२१	यदृष्टा	२१८	२	याचिन	१६६	३
भैष्टदेव	५	७				याचिषतक	१६६	४
भैष्टदुग	१८४	९७	यन्	{ १५४	५९	याचना	{ १३८	३२
				{ २६७	५९		{ १३९	६

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
याजक	१३५	१७	युगकालिक	१६८	१४	योग्य	८६	११२
यातना	४९	३	युगान्धर	१५४	५७	योजन	२९४	३०
यातयाम	२५३	१४५		२९६	३५	योजनवल्ली	८३	९१
यातु	१५	६०	युगपत्	२८०	२२	योत्र	१६८	१३
यातुधान	१५	६०	युगपत्रक	७१	२२	योद्धृ	१५४	६१
यातृ	११०	३०	युगपाश्वर्ग	१७७	६३	याघ	१५४	६१
यात्रा	१६१	९५	युगुल	१०३	३८	योघसराव	१६३	१०७
	२५९	१७५	युगाद्युग	१५४	५७	योनि	१२०	७६
यादःपति	४९	२	युग्म	१०३	३८	योषा	१०४	२
यादस्	५३	२०	युग्य	१५४	५८	योषित्	१०४	२
यादसाम्प्रति	१५	६१				१७७	६४	यौतक
यान	१४६	१८	युद्ध	१६२	१०३	यौतव	१८२	८५
	१५४	५८	युध्	१६२	१०६	यौवत	२०९	२२
यानमुख	१५३	५५	युवाति	१०६	८	यौवन	११२	४०
याप्य	२०७	५४	युवन्	११३	४२			
याप्ययान	१५३	५३	यवराज	४१	१२	रहस्	१५	६४
याम	२५	६	युय	१०४	४१	रक्त	३२	१५
	२२२	१८	यूयनाथ	१४९	३५			
यामिनी	२४	४	यूथप	१४९	३५	१२९	१२४	
यामुन	१८४	१००	यूथिका	८०	७१	२४१	८०	
यायजूरु	१३३	८	यूप	७५	४१	रक्तक	८०	७३
याव	१२९	१२५	यूपक			२९६	३५	रक्तचन्दन
यावक	१६९	१८	यूपकटक	२८९	१९	१८६	१११	
यावत्	२७३	२४६	यूपखड्ग	१३५	१८	रक्तपा	५३	२२
यावन	१२९	१२८	यूमात्र	२५८	१६७	रक्तफला	९१	१३९
याष्टीक	१५६	७०	यूष	१३५	१९	रक्तसध्यक	५६	३६
यास	८३	९१	यूष	२९६	३५	रक्तसरोरुह	५७	४१
युक्त	१४७	२४	योत्क	१६८	१३	रक्ताङ्ग	९२	१४६
युक्तरसा	९१	१४०	योग	२३१	२२	रक्तोत्पल	५७	४२
युग	१०३	३८	योगेष्ट	१८५	१०५	रक्षसभ	२९३	२७
	२३१	२४						

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	
रघुम्	{	७	रत्नछानु	११	४९	रव	३८	२२	
		१५	रत्नाकर		४९	रबम	२३	३८	
रघिष्ठ	२१७	१	रत्नि	१२२	८६	रवि	२२	३१	
रघिबर्ग	१४४	६	रथ	{	७२	रथान्य	१२३	१८	
रसा	२२	८				१५२	५१	रथिम	२३
रंजु	९८	१	रथकन्या	१५३	५५	{	२५२		२३८
रंग	१८५	१	रथकार	{	१८७	४	३१	७	
रंगात्रीष	१८८	७						१८८	९
रचना	१११	१२७	रथगुप्ति	१५३	५७	रथ	४२	१७	
रजक	१८९	१	रथदु	७२	२३	{	१८४	९९	
रजत	{	१८४	रथोर्ग	{	१७३	७५	२६९	२२७	
		२४१						७९	१७३
रजनी	{	२४	रथोर्गाङ्गयमामकर	१५७	७६	रथका	१२१	९१	
		९३	१५३			रथिक	१५७	७६	१२३
रजनीमुख	२४	६	रथिन्	{	१५४	६	रथकती	१७१	२७
रजसु	{	२९					२९	१५७	७६
		१८	२१	१५७	७६	८१	८४		
		१६१	९८	१५७	७६	८८	१२१		
		२७	२३१	१५२	४६				
रजस्वला	१८	९	रथ्या	{	६२	३	रथोर्जन	१८५	११
रज्जु	१९१	२७	रद	१२२	९१	रथावक	४६	१	
रजन	१११	११२				१२२	९१	७१	३१
रजनी	८१	९५	रदम	१२२	९१	९५	१६३		
रथ	{	११२	रदनच्छद	१२२	९	रथित	१९	८	
		२२	८	रथ	४६				२
		२३६	४९	रथस	२९				२१
रथका	८१	८८	रथशी	१५	४	रथ	१४७	२३	
रथ	१४२	५७	रथम	८६	११३	रथठ	१४७	२२	
रथिपति	९	२६	रथ	१५	६४	रथस्व	१४७	२३	
रथ	{	१८३	रथक	{	१२७	११६	रथका	२५	८
		२४९					१२६	२८८	१७

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	
राक्षसी	८९	१२८	राजीव	{ ५३	१९	रिष्टि	१६०	८९	
राक्षा	१२९	१२५		{ ५७	४१	रीढा	४३	२३	
रांकव	१२७	१११	राज्याङ्ग	१४६	१८	रीण	२१४	९२	
राज्	१४३	१	रात्रि	२४	४	रीति	{ १८४	९७	
राजक	१४३	३	रात्रिचर	१५	६०		{ २३९	६८	
राजकक्षेत्र	२६१	१८८	रात्रिचर	१५	६०	रीतिपुष्प	१८५	१०३	
राजन्	{	४१	१३	राद्रान्त	३०	४	रुक्प्रतिक्रिया	११४	५०
		१४३	१	राघ	२६	१६	रुक्म	१८३	९५
		२४७	१११	राधा	२१	२२	रुक्मकारक	१८८	८
राजन्य	१४३	१	राम	{ ९	२३	रुक्ष	२३९	२२५	
राजन्यक	१४३	४		{ ९८	११	रुग्ण	२१४	९१	
राजन्वत्	६०	१३		{ २५२	१४०	रुच्	२३	३४	
राजवला	९३	१५३	रामठ	१७३	४०	रुचक	{	७६	५१
राजवीजिन्	१३२	२	रामा	१०५	४			८१	७८
राजरा	१६	६८	राम्भ	१४१	४५			१७३	४३
राजालङ्ग	२४३	९२	राल	१२९	१२७	१८६	१०९		
राजवंश्य	१३२	२	राशि	{ १०४	४२	रुचि	{	२३	३४
राजवत्	६०	१३		{ २६६	२१४			२३२	२९
राजवृक्ष	७१	२३	राष्ट्र	२६१	१८४	रुचिर	२०६	५२	
राजसदन	६३	१०	राष्ट्रिका	८३	९४	रुच्य	२०६	५२	
राजसभा	२८४	९	राष्ट्रीय	४१	१४	रुजू	११५	५१	
राजस्य	२९४	३१	रासभ	१८०	७७	रुजा	११५	५१	
राजहंस	१०१	२४	राक्षा	{ ८७	११४	रुत	३८	२५	
राजादन	{	७३	३५		{ ९१	१४०	रुदित	४५	३५
		७५	४५	राहु	२२	२६	रुद्ध	२१३	९०
राजाई	१२९	१२६	रिक्तक	२०७	५६	रुद्र	{	७	१०
राजि	६७	४	रिक्थ	१८३	९०			१०	३४
राजिका	१६९	१९	रिगण	४५	३६	रुद्राणी	११	३७	
राजिल	४७	५	रिपु	१४५	१०	रुधिर	{	११७	६४
			रिष्ट	२३३	३६			२९०	२२

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
रुद्र	१८	१	रीडनी	८३	१२	रुद्रमणा	१	१ २५
रुद्राती	३७	१८	रीदसी	२६९	२२९	रुद्रमन्	{ २ १७	
रुद्र	४३	२६	रीदस्वी	२६९	१२९		{ २४९ १२४	
रुद्रा	९४	१५८	रीपसू	५	७		{ ० २७	
रुद्र	३१	७	रीप	१५९	८७	रुद्रमी	{ ८६ ११२	
रुद्राभीषा	१ ८	१९	रीमन	१२४	९९		{ १५८ ८२	
			रीमव	२८९	१९	रुद्रमीपत्	१९८	१४
रुद्र	{ १८३	९१	रीमव	२८९	१९	रुद्र	{ ४५ ३३	
	{ १८४	९६	रीमवप	४५	३५		{ १५० ८१	
	{ २५६	१६	रीमाव	४५	३५	सगुह	२८९	१८
रुद्राप्यध	१४४	७	रीप	४३	२६	रुद्र	२२	२७
रुद्रित	२१३	८९	रीदिनी	१७८	६७	रुद्रक	१९५	४४
रुद्रित	१५२	४८		{ ३२ १६		रुद्रिमन्	११	३६
रुद्रेण	१६१	९८	रीदित	{ ५३ १९			{ १५ १४	
रुद्रेण	८८	१२		{ ९८ १		रुद्र	{ ९ २३३	
रुद्रम	१२७	६२	रीदिवक	७६	४९		{ २३२ २८	
			रीदिवाध	१४	८८	रुद्रुस्य	९५	१६७
रुद्र	{ २ ७	५४	रीदिन	७६	४९	रुद्रका	२८३	७
	{ २५३	१३२		{ ४२ १७		रुद्रोपिका	०	१३३
रुद्रनारमन			रीद्र	{ ४३ २		रुद्रा	४३	२३
रुद्रा	५५	२२	रीमक	१७२	४२	रुद्राभि	२ १ ९८	
			रीरप	४८	१	रुद्रित	२१४	९१
रुद्र (रा)	{ १८३		रीरनय	{ २२ २६		रुद्र	२८४	१
	{ २५७	१६५		{ ७६ १६६			{ ६८ ९	
रुद्र	१६	२	रीर	{ ७७ १			{ ६९ ११	
रुद्र	११५	८१		{ ७७ १			{ ७७ ५५	
रुद्राहारिन्	११६	५७		{ ७७ १			{ ८ ७२	
रुद्रान	७६	४७		{ ७७ १			{ ९ १३३	
	{ ८५	१ ८		{ ७७ १			{ १३ १५०	
रुद्रानी	{ ९२	१४६	रुद्र	७८	६		{ २ १४८	
रुद्रिण	१२४	१ १	रुद्र	१५	८६		{ १३ १५०	
रुद्रम	६३	३४	रुद्र	१	११		{ २ १४८	
रुद्र	१२३	३३	रुद्र	१९८	१४		{ १३२ ८९	

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
लपित	{ ३३	१	लागलदण्ड	१६८	१४	लीला	{ ४५	३२
	{ २१७	१०७	लागलपद्धति	१६८	१४		{ २६४	११९
लब्ध	२१६	१०४	लागलिकी	८७	११८	लुठित	१५२	५०
लब्धवर्ण	१३३	६	लागली	{ ९६	१६८	लुब्ध	२००	२२
लब्धानुज्ञ	१३४	१०		{ ८६	१११	लुब्धक	१९०	२१
लभ्य	१४७	२४	लागूल	१५२	५०	लुलाय	९७	४
लम्बन	१२५	१०४	लाज	१७४	४७	लूता	९९	१३
लम्बोदर	११	३८	लाञ्छन	२०	१७	लून	२१६	१०३
लय	४०	९	लाम	१८१	८०	लूम	३५२	५०
ललना	१०५	३	लामजक	९५	१६५	लेख	७	८
ललतिका	१२५	१०४	लालसा	{ ४४	२८	लेखक	१४५	१५
ललाट	१२३	९२		{ २६९	२२९	लेखपत्र	१२	४२
ललाटिका	१२५	१०३	लाला	११८	६७	लेखा	६७	४
ललाम	२५३	१४३	लालाटिक	२३०	१७	लेपक	१८८	६
ललामक	१३१	१३५	लाव	१०३	३५	लेश	२०८	६२
ललित	४५	३१	लासिका	४०	८	लेष्टु	१६७	१२
लव	{ २०८	६२	लास्य	४०	१०	लेह	१७६	५६
	{ २२४	२४	लकुच	७८	६०	लोक	{ ५९	६
लवङ्ग	१२९	१२५	लिक्षा	२८४	१०		{ २२८	२
लवण	{ ३१५	९	लिखि	१४६	१६	लोकजित्	८	१३
	{ २९१	२३	लिङ्ग	२३२	२५	लोकायत	२९५	३२
लवणोद	४९	२	लिङ्गवृत्ति	१४२	५४	लोकालोक	६५	२
लवन	२२४	२४	लिपि	१४६	१६	लोकेश	८	१६
लवित्र	१६८	१३	लिपिकर	१४५	१५	लोचन	१२३	९३
लशुन	९२	१४८	लित	२१३	९०	लोचमस्तक	८६	१११
लस्तक	१५९	८५	लितक	१६०	८८	लोघ्न	७३	३३
लाक्षा	{ १२९	१२५	लिप्ता	४४	२७	लोपांमुद्रा	२१	२०
	{ २८४	१०	लिवि	१४६	१६	लोप्य	१९१	२५
लाक्षाप्रसादन	७४	४१	लीढ	२१८	११०	लोमन्	१२४	९९
लागल	१६८	१३				लोमशा	९०	१३४

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक
छोल	{ २१०	७४	बंध्य	२१९	७३	बत्तक	१	६६
	{ २६५	२ ५	बंग	१८५	१ ६	बत्तक	१००	६२
छोछप	२	२२	बपन	२३	१		४८	११
छत्रम	२	२२	बचनोत्पिठ	२०	२४		{ २६	१३
छेद्य	१६७	१२	बचस	३३	१	बत्तर	{ २७	२
छेद्यमेवन	१६७	१२	ब	८४	१ २	बत्तक	१९८	१४
	{ १२९	१२६		{ १३	४७	बत्तक	८२	८२
छोह	{ १८४	९८	बज्र	{ ८५	१ ५	बत्तक	२ ३	३५
	{ १८४	९९		{ २६१	१८४	बत्तक	१२२	८९
	{ २९१	२३	बज्रनिर्घोष	१९	१			
छोहकारक	१८८	७	बज्रपुष्प	८	७६	बत्तक	{ १३७	६
छोहपुत्र	९९	१३	बभिन्	१२	४२	बत्तक	{ २५३	१३
छोहस	२ ३	३७	ब	{ ९७	५	बत्तक	२ ३	३५
छोहामिठार	१६१	९४	ब	{ २ ६	४७	बत्तक	१६४	११५
छोहित	{ ३२	१५	ब	{ २ ४	४१	बत्तक	२ ५	४५
	{ ११७	६४		{ ७२	२७	बत्तक	६८	७
छोहितक	१८३	९२	बहुष	{ ७२	३	बत्तक	१०८	६९
छोहितभन्वन	१२९	१२४		{ ७८	६४	बत्तक	१ २	३१
छोहितान्न	२२	२५	बट	७३	३२			
	५		बटक	२८८	१७	बत्तक	{ ९	११२
ब	२७३	९	बडी	१९१	२७	बत्तक	{ १ ४	२
	{ ९५	१६	ब ।	१५२	४६	बत्तक	{ १ ६	९
बंश	{ १३२		बनक	१४	५३	बत्तक	{ २४५	१ २
	{ २६६	२१४	ब	२ ८	६१	बत्तक	{ ४९	३
बभारोचना	१८६	१ ९	बणिन्	१८	७८	बत्तक	{ ६७	१
बंशक	१२९	१२६	बणिक्यप	२३६	५२	बत्तक	{ २५	१२६
बत्तक	२५३	१५९	बणिन्ना	१८१	७९	बत्तक	८५	८५
बत्त	२ ३	३५	बटक	१८३	८९	बत्तक	१ १	१९
बत्त	१२२	८९		{ १२	७८	बत्तक	१ १	२७
बत्त	२१	७१	बत्त	{ १७७	६२	बत्तक	८	२१
बत्त	१२	७८		{ २६९	२२६	बत्तक	१६८	१७
						बत्तक	८४	९

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
वनसमूह	६७	४	वरण	{ ६२	३	वर्ण	१०४	४१
वनस्पति	६८	६		{ ७२	२५	वर्णम्	२७०	२३१
वनायुज	१५१	४५	वरण्ड	२८९	१८	वर्णस्क	११८	६८
वनिता	{ १०४	२	वरना	{ १५१	४२		{ १३२	१
	{ २४०	७४		{ १९२	३१	वर्ण	{ १५१	४२
वनीयक	२०६	४९	वरद	१९७	७		{ २३६	४८
वनौकस्	९७	३	वरवर्णिनी	{ १०५	४	वर्णक	{ १३०	१३३
वन्दा	८२	८२		{ १७३	४१		{ २९७	३८
वन्दारु	२०१	२८	वराग	२३२	२६	वर्णित	२१७	११०
वन्धा	६७	४	वरागक	९०	१३४	वर्णिन्	१४०	४२
वपा	{ ४६	२		{ ५७	४३	वर्तक	{ १०३	३५
	{ ११७	६४	वराटक	{ १९१	२७		{ २२९	११
वपुस्	११९	७०		{ २९७	३८	वर्त्तन	{ १६५	१
	{ ६२	३	वरारोहा	१०५	४		{ १०२	२९
वप्र	{ १६७	११	वराशि	१२७	११६	वर्त्तनी	{ ६१	१५
	{ १८९	१०५	वराह	९७	२		{ १९३	३३
	{ ११६	५५	वरिवसित	२१६	१०२	वर्त्ति	१३०	१३३
वमथु	{ १५०	३७	वरिवस्या	१३८	३५	वर्त्तिका	१०३	३५
वमि	११६	५५	वरिवस्थित	२१६	१०२	वर्त्तिष्णु	२०२	२९
वयस्	२७०	२३०	वरिष्ठ	१८४	९७	वर्तुल	२०९	६९
	{ ७७	५८	वरिष्ठ	२१८	१११	वर्त्मन्	{ ६१	१५
वयस्या	{ ९१	१३७	वरी	८४	१००		{ २४९	१२१
	{ ९२	१४४	वरीयस्	२७१	२३५	वर्धक	८३	९०
	{ ११३	४२		{ १५	६१	वर्धकि	१८८	९
वयस्य	{ १४५	१२	वरुण	{ १७	२	वर्धन	{ २०१	२८
वयस्या	१०७	१२		{ ७२	२५		{ २१९	७
	{ १२९	१२४	वरणात्मजा	१९४	३९	वर्धमान	७६	५१
वर	{ २२०	८	वरुथ	१५३	५७	वर्धमानक	१७२	३२
	{ २५९	१७३	वरुथिनी	१५७	७८	वर्धिष्णु	२०१	२८
वरटा	{ १०१	२५	वरेण्य	२०७	५७	वर्मन्	१५५	६४
	{ १०१	२७	वर्कर	१९१	२३	वर्मित	१५५	६५

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक			
वय	२७	५७	वस्त्रि	१९	१३	वास्त	१२७	११४			
वमा	१६	७	वस्त्रि	१८	९	वस्त्र	१२७	११५			
वर्षणा	११	२६	वस्त्रु	११७	६३	वस्त्रयोनि	१२६	११			
वर्ष	२९	११	वसा	२२	८	वस्त्रवदमन्	१२८	१२			
			वसाक्रिया	२१९	४	वस्त्र	१८१	७०			
			वसा	१४९	३६	वस्त्रता	११८	३६			
वपवर	१४४	९	वसा	१७८	६९	वह	१७७	३३			
वर्षा	२७	१९	वशिक	२७	७३	वह्नि	१४	५३			
वर्षामू	५४	२४							वशित्व	११	३६
वर्षाम्बी	५४	२४	वशिर	८४	९७	वह्निश्ल	१८६	१६			
वर्षोपसु	११३	४३							वश	१७३	४१
वर्षोपस	१९	१२	वशम्	२	२५	वा	२७६	७			
वशम्	११९	७							वशम्	२७६	८
			वशम्	१२३	वशम्	२७८	१५				
वसथ	३२	१३	वशम्पुत्र	१३७	२७	वाक्य	३२	९			
वसत्र	२३३	३१	वसति	२३	६७	वाक्य	३२	९			
वसत्रा	२३३	३१	वसन्	१२७	११५	वाक्य	३३	३५			
वसन्भी	३४	१५	वसन्त	२७	१८	वसुत	११	२६			
वसप	१२६	१७	वसा	११७	६४	वासुरेक	१८९	१४			
वसपिग	२१३		वसु	७	१	वास्यन्	२३	३५			
वस्यिक	६४	१४				वास्यन्	८१	८१	वाटमुग	३५	
वस्यमुग	७	३				वास्य	१८३		वास्य	३३	१
वस्य	६	१०	वस्यिक	८१	८	वास्यवम	१४०	४२			
वस्य	६	१०				वास्य	१७९	२२८	वास्य	३३	२
वस्यव	१२	१८	वस्यिक	१७३	४३	वास्यति	३३	३४			
वस्यु	१५३	१४४	वस्यु		२२	वास्यट	२३	३६			
वस्यिक	६	१४	वस्यु	५८	३	वास्यन्	२३	३६			
वस्यी	३	३	वस्युपता	८	३	वास्यिक	३६	१७			
वस्य	७	७	वस्युन्नी	५८	३	वास्युन्नी	३३	३५			
			वस्य	२८६	१३	वस्य	१५	८७			

शब्द,	पृष्ठ,	श्लोक,	शब्द	पृष्ठ,	श्लोक	शब्द,	पृष्ठ	श्लोक
वाजपेय	२९४	३१	वात्सक	१७७	६०	वारण	१४९	३४
वाजिदन्तक	८५	१०३	वादित्र	३९	५	वारणवुसा	८६	११३
वाजिन्	{ १०२ १५१ २४६	३३	वाद्य	३९	५	वारनाण	१५५	६३
		४४	वान	७०	१५	वारमुख्या	१०८	१९
		१०७	वानप्रस्थ	{ ७२ १३२	२८	वारस्त्री	१०८	१९
वाजिशाला	६२	७	वानर	९७	३	वाराही	{ ११ ९३	{ ३५ १५१
वाछा	४४	२७	वानस्पत्य	६८	६	वा	४९	३
वाटी	२९८	४२	वानीर	७२	३०	वारद	१८	७
वाट्यालका	८५	१०७	वानेय	९०	१३१	वारिपर्णी	५६	३८
वाडव	{ १४ १३२ १५२	५६	वापी	५५	२८	वारिप्रवाह	६६	५
		४	वाम	२५३	१४४	वारिवाह	१८	६
		४६	वामदेव	१०	३२	वारी	१५१	४३
वाडवानल	१४	५६	वामन	{ १८ ११३ २०९	३	वारुणी	२३६	५२
वाडव्य	२२७	४१			४६	वार्त	{ ११६ २४०	{ ५७ ७६
वाणि	१९२	२८			७०	वार्ता	{ ३४ १६५ २४०	{ ७ १ ७५
वाणिज	१८०	७८	वामलूर	६०	१४	वार्ताकी	८६	११४
वाणिज्य	{ १६५ १८१	{ २ ७९	वामलोचना	१०५	३	वार्ताविह	१९०	१५
वाणिनी	२४७	११२	वामा	१०४	२	वार्धक	११२	४०
वाणी	३३	१	वामी	१५२	४६	वार्धुषि	१६६	५
वात	१५	६३	वायदण्ड	१९२	२८	वार्धुषिक	१६६	५
वातक	९३	१४९	वायस	१००	२०	वार्मण	२२७	४३
वातकिन्	११६	५९	वायसाराति	९९	१५	वार्षिक	९३	१५०
वातपोथ	७२	२९	वायसी	९३	१५१	वाल	१२३	९५
वातप्रमी	९८	७	वायसोली	९२	१४४	वालधि	१५२	५०
वातमृग	९८	७	वायु	१५	६१	वालपाश्या	१२५	१०३
वातरोगिन्	११६	५९	वायुसप्त	१४	५५	वालहस्त	१५२	५०
वातायन	६३	९	वार	४९	३			
वातायु	९८	८	वार	{ १०३ २५६	३९			
वातूल	२६३	१९६			१६१			
वात्या	२६३	१९६						

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
वाञ्छक	८८	१२१	वाहिनी	१५७	७८	विह्वल	२५	४४
वाञ्छिका	१४	७३		१५८	२८	विह्वल	२२३	३७
वाञ्छक	१२३	१११		२४७	१११	विगत	२१३	१०
वाञ्छुक	२	३५	वाहिनीपति	१५५	६२	विगतार्थवा	१०९	२१
वाञ्छिका	८५	१	वि	१	३३	विम	११४	४३
वाञ्छित	३८	२५	विद्यति	१८१	८३	विपद	११०	७०
वाञ्छ	६२	६	विह्वल	७४	३७		१४६	१८
वाञ्छक	८५	१	विह्वल	६८	७		१६२	१४
वाञ्छगृह	३३	८	विह्वल	२२	२९	२२३	२२	
वाञ्छन्ती	८	७२	विह्वल	११३	४६	विपठ	१३७	२८
वाञ्छनीग	१३	१३४	विह्वल	२	३	विम	२२३	१९
वाञ्छ	२४	२	विकार	८	९	विमन्त्र	११	३८
वाञ्छ	१२	४२	विकार	६८	८	विमन्त्र	११३	६
वाञ्छ	१२७	११५	विकार	२	२	विमन्त्र	२२५	५
वाञ्छित	१३	१३४	विकार	२२२	१५	विमन्त्रिका	११५	५३
			विकार	२	३	विमन्त्रिका	११५	५३
वाञ्छिता	२४	७५	विकार	१	२	विमन्त्रिका	२१६	९९
वाञ्छिक	४७	४	विकार	८१	८	विमन्त्रिका	३	२
वाञ्छिदेव	८	२	विकार	१९७	७	विमन्त्रिका	६३	११
वाञ्छ	४१	१४	विकार	४२	१९	विमन्त्रिका	२९२	२३
वाञ्छ	६५	१९	विकार	११६	५८	विमन्त्र	१४७	७७
वाञ्छक	९४	१५८	विकार	२२२	१५	विमन्त्र	२४२	८९
वाञ्छोष्मति	१२	३	विकार	१६२	१०२	विमन्त्र	१६३	११
वाञ्छ	१५३	५४	विकार	२५२	१४१	विमन्त्र	१७४	४३
वाञ्छ	१५१	४४	विकार	१८१	८३	विमन्त्र	१९३	४
			विकार	१८	७९	विमन्त्र	१९७	९
वाञ्छिपत्	९७	४	विकार	१५७	७७	विमन्त्र	३	६
वाञ्छ	१५४	६८	विकार	२२	१५	विमन्त्र	११८	६८
वाञ्छ	४७	५	विकार	१८	७९	विमन्त्र	१६५	३
वाञ्छ	१५	३९	विकार	१८१	८३	विमन्त्र	२८८	१७
						विमन्त्र	६४	१५

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
विटप	{ ७०	१४	विदु	१५०	३७	विधुर	२२३	२०
	{ २५०	१३१	विदुर	{ ७३	३०	विधुवन	२१९	४
विटपिन्	६८	५		{ २०२	३०	विधूनन	२१९	४
विट्खदिर	७६	५०	विदुल	७३	३०	विधेय	२००	२४
विट्चर	१९१	२३	विदुल	७३	३०	विनयग्राहिन्	२००	२४
विड	१७३	४२	विद्वकर्णी	८२	८४	विना	२७५	३
विडङ्ग	८५	१०६	विद्याधर	७	१५		{ ८	१४
वितहा	२८४	९	विद्युत	१९	९	विनायक	{ ११	३८
वितथ	३७	२१	विद्रधि	११६	५६		{ २२८	६
वितरण	१३७	२९	विद्रव	१६४	१११	विनाश	२	२२
वितर्दि	६४	१६	विद्रुत	२१६	१००	विनाशोन्मुख	२१४	९१
वितस्ति	१२१	८४	विद्रुम	१८३	९३	वि	{ १५१	४४
	{ १२८	१२०	विद्रुमलता	८९	१२९		{ २००	२५
वितान	{ २४७	११३	विद्रुस्	{ १३३	५	विन्दु	२०२	३०
वितुन्न	९३	१४९		{ २७०	२३४	विन्ध्य	६६	३
	{ ८९	१२६	विद्वप	४३	२५	वन्न	{ २१६	९९
वितुन्नक	{ १७३	३७	विघवा	१०६	११		{ २१६	१०४
	{ १८५	१०१	विघा	{ १९४	३८	विपक्ष	१४५	११
	{ १८३	९०	विघा	{ २४५	१०१	विपची	३९	३
वित्त	{ १९७	९	वित्	८	१७	विपण	१८१	८३
	{ २१६	९९		८	१७	विपणि	{ ६२	२
विदर	२१९	५	विधि	{ २९	२८		{ २३६	५२
विदल	२९५	३२		{ १३९	३९	विपत्ति	१५८	८२
विदारक	५०	१०	विधि	{ २४५	१००	विपथ	६१	१६
	{ ७१	१२०	विधिदर्शिन्	१३५	१६	वपद	१५८	८२
विदारी	{ ८६	११०		{ ८	२२	विपर्यय	२२६	३३
विदारिगन्धा	८७	११५	विधु	{ १९	१४	विपर्यास	२२६	३३
	{ २१७	१०८		{ २४५	९९	विपश्चित्	१३३	५
विदित	{ २१७	१०९	विधुत्	२१७	१०७	विपाद्	५५	३३
विदिश	१८	५	विधुत्तद्	२२	२६	विपादिकां	११५	५२

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
विषाद्या	५५	३३	विमनस्	१९०	८	विडीन	२१६	१
विपिन	६०	१	विमर्दन	२२१	१३	विडम्पन	{ १३ १३३ २२५ २०	
विपुत्र	२ ८	६१	विमला	९२	१४३	विडम्पी	१०५	५
विप्र	{ १३२ १३२	२ ४	विमलार्थक	२ ७	५५	विदम्ब	२४४	९६
विप्रकार	२२२	१५	विमान	१३	४८	विदर	४६	१
विप्रकृत	२ ४	४१	विपत	१७	२	विदर्भ	१०	१६
विप्रकृष्टक	२०९	६८	विमर्द्रग	१३	४९	विदग्ध	२ ५	४४
विप्रतीकार	४३	२५	विपम	२२२	१८	विदम्ब्य	{ २२ २९ २३७ ५०	
विप्रयोग	२२५	२८	विवात्	२०१	२५	विवाद	३५	९
विप्रकम्प	२ ४	४१	विषाम	२२२	३८	विवाह	१४२	५६
विप्रकम्भ	{ ४५ २२५	३६ २८	विरञ्जितमसू	१४	४४	विबिक्त	{ १४० २२ २४२ ८२	
विप्रकाप	३६	१६	विरति	२२६	३७	विबिध	२१४	९१
विप्रभिक्षा	१ ८	२०	विरक्त	२ ९	६६	विबेक	१३९	३८
विमुष्	५	६	विराज	१४९	१	विब्योक्त	४५	३१
विम्लय	२३२	१४	विराज	६८	२३	विष्	१६५	१
विर्वच	११५	५५	विरिधि	८	१७	विद्योक्त	२ ८	६
विशुष	७	७	विरुपाद्य	१	३२	विद्यार	३२	१२
विम्व	१८३	९	विरोध	{ २२ ३ २४ १ ८		विद्यार	१६४	११५
विभाकर	२२	२८	विरोध	४३	२५	विद्यस्मा	{ ८२ ८९ ९ १३६ २५५ १५५	
विमवरी	२४	४	विरोधन	२२३	२१	विद्यधन	१६४	११४
विमावसु	{ १४ २२ २६९	५६ ३ २२६	विरोधोक्ति	३६	१६	विद्यासन	१२ ४	
विमीतक	७७	५८	विषय	२१८	२	विद्यास्त	१२ ४	
विमूति	११	३६	विषयित	४०	९	विद्यास्ता	२१ २२	
विमूचन	११४	१ १	विषयम्	२२५	२८	विद्यान्	२२५	३२
विभ्रम	४५	३१	विषाप	३६	१६	विद्यारण	१६४	११२
विभ्रान्	१२४	१ १	विषयस	४५	३१	विद्यारण	२४४	९५

शब्द	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.
विशाल	२०८	६०		३१	७	वसनाढ	४५	३६
विशालता	१२७	११४	विषय	५९	८	विमर	१०३	३९
विशालत्वञ्	७१	२३		२२१	११	विमर्जन	१३७	२९
विशाला	९४	१५६	विषयिन्	२५४	१५२	विसर्पण	२२४	२३
विशाल	१५९	८६	विषयव्य	३१	८	वसार	५२	१७
विशाला	६२	३	विषा	४८	११	विसारिन्	२०२	३१
विशषक	१२९	१२३	विपा	८४	९९	विसृत	२१२	८६
विश्राणन	१३७	२९	विपाक्त	१६०	८८	विसृत्वर	२०२	३१
विश्राव	२२५	२८	विपाण	२३७	५६	विसृमर	२०२	३१
विश्रुत	१९७	९	विपाणी	८८	१३९	विस्तर	२२३	२२
			विपुत्र	२६	१४			
विश्व	७	१०	विपुत्र	२६	१४	विस्तार	७०	१४
	१७३	३८	विष्किर	१०२	३३		२२३	२२
	२०९	६५	विष्कम्भ	६५	१७	विस्तृत	११२	८६
विश्वकट्ट	१९१	२२	विष्टप	५९	६	विस्फार	१६३	१०८
विश्वकर्मन्	२४६	१०९	विष्टर	२५८	१६९	विस्फोट	११५	५३
विश्वद्यञ्	२०३	३४	विश्वश्रवञ्	८	१८	विस्मय	४२	१९
विश्वमेधज	१७३	३८	विष्टि	४८	३	विस्मयान्वित	२०१	२६
विश्वभर	८	२२	विष्टा	११८	६८	विस्मृत	२१२	८६
विश्वम्भरा	५८	२	विष्णु	८	१८	विस्त्र	३२	१२
विश्वसृज	८	१७	विष्णुकान्ता	८५	१०४	विस्त्रम्भ	१४७	२३
विश्वस्ता	१०६	११	विष्णुगद	१७	२		२५१	१३५
विश्वा	८४	९९	विष्णुपदी	५५	३१	विह्वला	११२	४१
विश्वास	१४७	२३	विष्णुरथ	१०	२९	विह्वग	१०३	३२
विष्	११८	६८	विष्य	२०५	४५	विह्वग	१०३	३२
			विषक	२७७	१३	विह्वगम	१०३	३२
विष	४८	९	विष्वद्यञ्	२०३	३४	विह्वगिका	१९२	२९
	२६६	२१४	विष्वक्सेन	८	१९	विह्वसित	४५	३५
	२६८	२२३	विष्वक्सेना	७७	५६	विह्वस्त	२०५	४३
विषधर	४७	७	विष्वक्सेनाप्रिया	९३	१५१	विह्वपित	१३७	२९
विषमच्छद	७१	२३						

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
विपाद्या	५५	३३	विमनस्	१९७	८	विखीन	२१६	१
विपिन	६७	१	विमर्शन	२२१	१३	विख्यपन	{ १३ १३३	
विपुष्प	२८	६१	विमळा	९२	१४३		{ २२५ २७	
विप्र	{ १३२	२	विमलायक	२७	५५	विसेपी	१७५	५
	{ १३२	४	विमातुज	१९	२५	विषम	२४४	९६
विप्रकार	२२२	१५	विमान	१९	४८	विषर	४६	१
विप्रकृत	२०४	४१	विमत्	१७	२	विषण	१०	१६
विप्रकृत्यक	२९	६८	विमर्त्रंगा	१३	४९	विषा	२५	४४
विप्रतीकार	४३	२५	विषम	२२२	१८	विषास्वत्	{ २२ २९	
विप्रयोग	२२५	२८	विषात	२०१	२५		{ २३७ ५७	
विप्रकम्प	२०४	४१	विषाम	२२२	१८	विषाद	३५	९
विप्रकम्प	{ ४५	३६	निरवस्तमस्	१४०	४४	विषाह	१४२	५६
	{ २२५	२८	विगति	२२६	३७	विषिक्त	{ १४७ २७	
विप्रकाप	३६	१६	विरक्त	२९	६३		{ २४२ ८२	
विप्रामका	१८	२०	विराज	१४३	१	विषिष	२१४	९३
विभुम्	५	६	विराज	१४३	१	विषेक	१३९	३८
विभ्रव	२२२	१४	विराज	३८	२३	विष्णोक्त	४५	३१
विषेप	११८	५५	विशेषि	८	१७	विष्णु	१६८	१
विभुष	७	७	विरूपाक्ष	१	२९	विष्णोक्त	२८	६
विमप	१८३	९	विरोधन	{ २२ २४	{ ३ ८	विद्यह	३२	१२
विमाकर	२२	२८	विरोध	४३	२५	विद्यर	१६४	११७
विम बरी	२४	४	विरोधन	२९३	२१	विद्यन्त्या	{ ८९ १३	
विमानु	{ १४	५६	विरोधोक्ति	३६	३६		{ ९ १३६	
	{ २२	३	विलस	२९	२६	विद्यसन	{ २५५ १५७	
	{ २६९	२२६	विद्यन्त	२९८	२	विद्यान	१६४	११४
विभीषक	७७	५८	विद्यन्त	२९८	२	विद्यागा	१२	४
विभ्रा	१९	३६	विद्यन्त	४७		विद्यागा	२१	२९
विभ्रव	१७४	१९	विद्याप	३६	१६	विद्याप	२२५	२२
विभ्रम	४५	३१	विद्याप	४५	२१	विद्याप	१६४	११२
विभ्रानु	१२४	१०१	विद्याप	४५	२१	विद्याप	२४४	९५

अमरकोशशब्दानुक्रमणिका । (१०३)

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द	पृष्ठ	श्लोक.
विशाल	२०८	६०	विषय	३१	७	वसत्राद	४५	३६
विशालता	१२७	११४		५९	८	विमर	१०३	३९
विशालत्वच्	७१	२३		२२१	११	विमर्जन	१३७	२९
विशाला	९४	१५६		२५४	१५२	विसर्पण	२२४	२३
विशिख	१५९	८६	विषयिन्	३१	८	वसार	५२	१७
विशिखा	६२	३	विषवैद्य	४८	११	विसारिन्	२०२	३१
विशषक	१२९	१२३	विषा	८४	९९	विसृत	२१२	८६
विश्राणन	१३७	२९	विषाक्त	१६०	८८	विसृत्वर	२०२	३१
विश्राव	२२५	२८	विषाण	२३७	५६	विसृमर	२०२	३१
विश्रुत	१९७	९	विषाणी	८८	११९	विस्तर	२२३	२२
विश्व	७ १७३ २०९	१० ३८ ६५	विषुव	२६	१४	विस्तार	७० २२३	१४ २२
			विषुवत्	२६	१४	विस्तृत	२१२	८६
			विष्किर	१०२	३३	विस्फार	१६३	१०८
विश्वकद्रु	१९१	२२	विष्कम्म	६५	१७	विस्फोट	११५	५३
विश्वकर्मन्	२४६	१०९	विष्टप	५९	६	विस्मय	४२	१९
विश्वद्यच्	२०३	३४	विष्टर	२५८	१६९	विस्मयान्वित	२०१	२६
विश्वमेपज	१७३	३८	विष्टरश्रवस्	८	१८	विस्मृत	२१२	८६
विश्वभर	८	२२	विष्टि	४८	३	विस्त्र	३२	१२
विश्वम्भरा	५८	२	विष्टा	११८	६८	विस्त्रम्भ	१४७ २५१	२३ १३५
विश्वसृज्	८	१७	विष्णु	८	१८	विस्त्रमा	११२	४१
विश्वस्ता	१०६	११	विष्णुकान्ता	८५	१०४	विस्त्रग	१०३	३२
विश्वा	८४	९९	विष्णुगद	१७	२	विस्त्रग	१०३	३२
विश्वास	१४७	२३	विष्णुपदी	५५	३१	विस्त्रग	१०३	३२
विष्	११८	६८	विष्णुरथ	१०	२९	विस्त्रग	१०३	३२
विप	४८ २६६ २६८	९ २१४ २२३	विष्णु	२७७	१३	विस्त्रगम	१०३	३२
			विष्णुक्	२७७	१३	विस्त्रगिका	१९२	२९
			विष्णुश्च	२०३	३४	विस्त्रसित	४५	३५
विपधर	४७	७	विष्णुवक्त्रेण	८	१९	विस्त्रस्त	२०५	४३
विपमच्छद	७१	२३	विष्णुवक्त्रेणप्रिया	९३	१५१	विस्त्रापित	१३७	२९

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक
मिहायम्	{ १०	२	वीरहन्	१४२	५२	इत	२५०	१६४
	{ १३	३२	नीकम्	६९	०	इयहन्	१२	४२
मिहायस	१०	२		{ ४४	२९	इषा	{ २०३	२४०
मिहार	२१२	१६	नीम	{ ११०	६२		{ २०५	४
मिहक	२७	४४		{ २७७	१५४			
मीकाय	२६०	२२५	नीम	२४४	०६	इद	{ ८८	१२२
मि	५	७	रुक्	९८	७		{ ११३	४९
मीना	३९	३		{ १२९	१२८	इजान	११२	४०
मीनाडा	१८	१३	रुद्राणु	{ १२	१२०	इदशाक	०१	१३०
मीन	१५१	४३	रुद्र	२१६	१३	इदनाभि	११०	६१
मीनक	१०१	२६	इण	६८	५	इदभक्त	१२	४१
मीन	१४	४३	इधोहन्	१०३	३४	इदधन	११२	४
मीविहाय	१४	५३	इधरा	८२	८९	इदध	१०७	१२
मीधी	{ ६०	४	इधराठिषा	६०	२	इद	{ ११६	११
	{ १६३	८३	इधानी	{ ८९	८२		{ २२०	
मी	२७	७	इधान	१०२	२५	इदनीमि	१९०	४
मीनाह	७४	१३	इध	{ १८	२३	इदमा	२४२	८५
	{ ४२	१०	इधिन	{ २१	७१	इदमी	१६६	५
	{ १०	३३	इध	२१८	२	इदप	१०३	६१
मील	१६८	१६	इध	{ ६२	३	इध	७	१५
मी	१५४	१५	इध	{ २०	८	इध	१३	४०
मी	३	१५		{ २	३	इध	३१	८१
मी	१३३	१	इध	{ २१६	७	इध	३१	८१
मी	१६२	१	इध	{ २११	७८	इध	{ ३	९
मी	३	१		{ ३८	७	इध	{ २३	१६
मी	१३३	१५	इध	{ ३३१	६३	इध	०१८	११३
मी	३	१		{ १६७	१			१६
मी	१६३	१		{ १६५	१	इध		१४
मी	१८	१३		{ २४	३		{ २३	७

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
वृष	२२	२७	वैत्रवती	५६	३४	वैकुण्ठ	८	१८
	२८	२४	वेद	३३	३	वैजनन	११२	३९
	८५	१०३	वेदना	२१९	६	वैजयन्त	१३	४६
	८७	११६	वेदि	१३५	१८	वैजयन्तिक	१५६	७१
	१७७	५९	वेदिका	६४	१६	वैजयन्तिका	७९	६५
	२६८	२२०	वैध	२२०	८	वैजयन्ती	१६२	९९
वृषण	१२०	७६	वैवनिा	१९३	३३	वैज्ञानिक	१९६	४
वृषदशक	९७	६	वैधमुख्यक	९०	१४५	वैणव	७०	१८
वृषध्वज	१०	३४	वैधस्	८	१७	वैणविक	१८९	१३
वृषम	१७७	५९	वैधित	२१६	९९	वैणिक	१८९	१३
वृषल	१८७	१	वैपथु	४६	३८	वैणुक	१५०	४१
वृषस्यन्ती	१०६	९	वैमन्	१९२	२८	वैतसिक	१८९	१४
वृषा	१२	४२	वैला	२६३	१९८	वैतनिक	१८९	१५
	८२	८७	वैल्ल	८५	१०६	वैतरणी	४८	२
वृषाकपायी	२५५	१५६	वैल्लज	१७२	३५	वैतालिक	१६१	९७
वृषाकपि	२५०	१३०	वैल्लित	२१०	७१	वैदेहक	१८७	३
वृष्टि	१९	११	वैश	२१२	८७	वैदेही	१८०	७८
वृष्णि	१८०	७६	वैशन्त	६१	२	वैद्य	८४	९६
वेग	२३१	२०	वैशन्त	५४	२८	वैद्यमातृ	११६	५७
वेगिन्	१५६	७३	वैशमन्	६२	४	वैधात्र	८५	१०३
वेणि	१२४	९८	वैश्या	१०८	१९	वैधाय	१३	५१
वेणी	७९	६९	वैश्याजनसमाश्रय	६१	२	वैतये	२०६	४८
वेणु	९५	१६१	वैष	१२४	९९	वैतलिक	१०	२९
वेणुक	१५०	४१	वैषवार	१७२	३५	वैमात्रेय	१५४	५८
वेणुधम	१८९	१३	वैष्टित	२१३	९०	वैयाघ्र	१०९	२५
वैतन	१९४	३८	वैहत्	१७९	६९	वैर	१५३	५३
वैतस	७२	२९	वै	२७६	५	वैरनिर्यातन	४३	२५
वैतस्वत्	५९	९	वैकक्षिक	२७८	२५	वैरशुद्धि	१६३	११०
वैताल	२९०	२१		१३१	१३६	वैरिन्	१६३	११०
							१४५	३०

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
बैतथिक	१९	१५	व्यसन	२४८	१२	व्याहार	३३	१
वैवस्वत	१४	५९	व्यसनात्	२५	४३	व्युरग्यान	२४८	११८
वैशाख	28	१६	व्यस्त	२१	७२	व्युष्टि	२३४	३८
		७४	व्याकुल	२५	४३	व्युद्ध	२३५	४५
वैश्व	१६५	१	व्याक्रीडा	६८	७	व्युद्धकटक	१५५	६७
वैभ्रनण	१६	६९	व्याम	28	५९	व्युष्टि	१९२	२८
वैभ्रानर	१४	५३				व्युह	28	७
वैष्णवी	११	३५	व्यामनक	८९	१२९	व्युह		
वैशारिण	५२	१७	व्यामपाद्	७४	३७	व्युहपार्ष्णि	१५८	७९
वौषट्	२७६	८	व्यामपुष्क	७६	५			
व्यष्ट	२३८	३२	व्यामाट	९९	१५	व्योकार	१८८	७
व्यक्तिक	२	३१	व्यामी	८३	९३	व्योमकथ	१	३४
व्यम	२६२	१९	व्याम	28	३	व्योमन्	१७	१
व्यमा	२५९	१७७				व्योमयान	१३	४८
व्यसन	१३२	१४	व्याम	२३५	४२	व्योप	१८६	१११
व्यञ्जक	४२	१६	व्याबाहुष	८९	१२९	मञ्ज	28	३
व्यञ्जन	28	११६	व्याष	१९	२१			
		२९१	२३	व्याषि	28	५१	१६१	९५
व्यङ्ग्यक	७६	५१	व्याभिषात				७१	२४
व्यत्यय	२२६	३३	व्याभित	११६	७८	मञ्जकाय	२६२	१८
व्यत्यय	२२६	३३	व्याभित	११६	७८	मञ्ज	११५	५४
व्यथा	४९	३	व्याभित	११६	७८	मञ्ज	११५	५४
व्यथ	२२	८	व्यापाह	३	४	मञ्ज	११५	५४
व्यथ	६४	१६	व्याप्य	८९	१२९	मञ्ज	११५	५४
व्यथ	२२	१७	व्याम	१२९	८७	मञ्ज	११५	५४
यसीक	२२	१२	व्याल	28	३	मञ्ज	११५	५४
यनपा	१	१२				४७	७	मञ्ज
व्यवहाप	२६६	२१३	व्यवहादिन्	४८	११	मञ्ज	११५	५४
व्यवहार	३४		व्यावृत्त	२१४	२	मञ्ज	११५	५४
यवाम	१४२	५७	व्यावृत्त	२१४	२	मञ्ज	११५	५४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
शाखिक	१८८	८	शाल	५३	१९	शिखर	६६	४
शाटक	२९५	३३				६८	५	६९
शाटी	२९७	३८	६९	११	शिखरिन्	६५	१	
शाटथ	४४	३०	शालपर्णी	८७		११५	२४६	१०६
शाण	१९३	३२	शाला	६२	६	शिखा	१४	५७
शाणी	२८४	९					६९	११
शांडिल्य	७३	३२	शालावृक	२३९	१२	१२४	९७	
शात	२८	२५	शालि	१७०	२४	२३१	१९	
	२१४	९१	शालीन	२०१	२६	शिखावत्	२४	५५
शातकुम्भ	१८३	९४	शालूक	५६	३८	शिखावल	१०२	३०
शानव	१४५	११	शालर्	५४	२४	शिखिग्रीव	१८५	१०१
शाद	५०	९	शालेय	८५	१०५	शिखिन्	१०२	३०
	२४३	९०				१६६	६	२४६
शादहरित	६०	१०	शात्मलि	७५	४६	शिखिवाहन	१२	४०
शाद्वल	६०	१०	शात्मलीवेष्ट	७५	४७	शिग्रु	७३	३१
शान्त	२१५	९७	शावक	१०३	३८		१७२	३४
	२१९	३	शावर	७३	३३	शिग्रुज	१८६	११०
	७३	३३	शाश्वत	२१०	७२	शिजित	३८	२४
	१८९	११	शाष्कुलिक	२४७	४०	शिंजिनी	१५९	८५
	२५८	१६६	शासन	१४७	२५	शितशूक	१६८	१९
ल	७१	२३	शासृ	८	१४	शिति	२४२	८३
		२४४	९५	शाल	२६०	१७९	शितिकण्ठ	१०
	८६	१११	शालविद्	१९७	६	शितिसारक	७४	३८
	१९५	४६	शिक्य	१९२	३०	शिविविष्ट	२३३	३४
	८६	११२	शिक्यित	२१३	८९	शिफा	६९	११
	६०	११	शिक्षा	३४	४	शिफाकन्द	५७	४३
रू	८	१९	शिक्षित	१९६	४	शिविका	१५३	५३
	९७	१	शिखण्ड	१०२	३१	शिविर	१४९	३३
	२०८	५९	शिखण्डक	१२३	९६	शिव्वा	१७०	२३
	२६२	१८८				शिरस्	१२३	९५

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक
शमी	{ ७६	५२		{ २७	१९	शय	१६५	११८
	{ १७	२३	शरद्	{ २७	२०	शय	९८	११
शमीशाम्य	१७०	२४		{ २४४	९३	शयभर	२०	१५
शमीर	७६	५२	शरम	९८	११	शयस्रोमन्	१८६	१०७
शम्या	१९	९	शरष्य	१५९	८६	शयारदन	९९	१४
शम्याक	७१	२३	शराम्बाध	१५९	८६	शयोरि	१८६	१७
शम्भ	१३	४७	शरारि	११	२५			
			शरार	२१	२८	शम्भत्	{ २७२	२४३
शम्भर	{ ४९	४	शरार	१७२	३२		{ २७५	१
	{ ९८	१	शरार	५६	३४		{ २७७	११
शम्भरारि	९	२६	शरारवती	१५९	८६	शभ्य	१३	१६७
शम्भरी	८२	८७	शरारसम	११९	७		{ २८	२६
शम्भक	२९५	३४	शरीर	२९	३		{ २१७	१९
शम्भाकृत	१६७		शरीरिन्	१	११	शभ	{ १५८	८२
शम्भूक	५२	२३		{ १	४३	शम्भक	{ २६	२७९
शम्भुषी	१८	१९	शर्करा	{ १७४	१७५	शम्भुमारु	१८४	९८
			शर्करावत्	३	११	शम्भुमात्र	१८८	७
शम्भु	{ १	३	शर्करिक	३	११	शम्भुशक्ति	१५५	६७
	{ २५१	१३५	शर्मन्	२८	२५	शभी	१६	९२
शम्भा	१६८	१४	शर्क	१	३	शक	{ ९	१३६
शय	१२१	८१	शर्करी	२४	३		{ १७२	३४
			शर्कशी	११	१७	शाकट	१७७	६४
शयन	{ ४६	३६	शक	९८	७	शाकुनिक	१८	१४
	{ १३१	१३८	शकम	१२	२८	शाकीक	१५६	६९
शयनीय	१३१	१३७	शकक	९८	७	शाक्यशुनि	८	१४
शयाह	२२	३३	शकशी	९८	७	शास्ता	६९	११
शयित	२२	३३	शक	२३०	१३	शासानगर	६१	२
शयु	४७	५	शक	७६	५३	शालामय	९७	३
शय्या	१३१	१३७	शक	९७	७	शास्ताशिक्षा	६९	११
	{ ९५	१३२	शक	{ १७	७	शास्त्रिन्	६८	५
	{ १५९	८७	शक	१७	७			
शरक्यमन्	१२	३९	शक	१७	७			
शरक	२३३	५३		१७	७			

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
शांखिक	१८८	८		५३	१९	शिखर	६६	४
शाटक	२९५	३३	शाल	६८	५		६९	१२
शाटी	२९७	३८		६९	११		६५	१
शाट्य	४४	३०	शालपर्णी	८७	११५	शिखरिन्	२४६	१०६
शाण	१९३	३२		६२	६		१४	५७
शाणी	२८४	९	शाला	६९	११	शिखा	१०२	३१
शाङ्खिल्य	७३	३२	शालावृक	२३९	१२		१२४	९७
							२३१	१९
शात	{ २८	२५	शालि	१७०	२४	शिखावत्	२४	५५
	{ २१४	९१	शालीन	२०१	२६	शिखावल	१०२	३०
शातकुम्भ	१८३	९४	शालूक	५६	३८	शिखिग्रीव	१८५	१०१
शात्रव	१४५	११	शालूर	५४	२४			
शाद	{ ५०	९		८५	१०५	शिखिन्	{ १०२	३०
	{ २४३	९०	शालेय	{ १६६	६		{ २४६	१०६
शादहरित	६०	१०	शात्मलि	७५	४६	शिखिवाहन	१२	४०
शाद्वल	६०	१०	शात्मलीवेष्ट	७५	४७	शिशु	{ ७३	३१
शान्त	२१५	९७	शावक	१०३	३८		{ १७२	३४
शान्ति	२१९	३	शावर	७३	३३	शिश्रुज	१८६	११०
शावर	७३	३३	शाश्वत	२१०	७२	शिश्रित	३८	२४
शावरी	१८९	११	शाष्कुलिक	२४७	४०	शिश्रिणी	१५९	८५
शार	२५८	१६६	शासन	१४७	२५	शितशूक	१६८	१९
शारद	{ ७१	२३	शास्तृ	८	१४	शिति	२४२	८३
	{ २४४	९५	शास्त्र	२६०	१७९	शितिकण्ठ	१०	३२
शारदी	८६	१११	शास्त्रविद्	१९७	६	शितिसारक	७४	३८
शारिफल	१९५	४६	शिक्य	१९२	३०	शिपिविष्ट	२३३	३४
शारिवा	८६	११२	शिक्यत	२१३	८९	शिफा	६९	११
शार्कर	६०	११	शिक्षा	३४	४	शिफाकन्द	५७	४३
शार्ङ्गिन्	८	१९	शिक्षित	१९६	४	शिविका	१५३	५३
शार्दूल	{ ९७	१	शिखण्ड	१०२	३१	शिविर	१४९	३३
	{ २०८	५९	शिखण्डक	१२३	९६	शिव्वा	१७०	२३
शार्वर	२६२	१८८				शिरस्	१२३	९५

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
धिरस्व	१५५	६४	धिशु	१३	३८	शुक्र	९	११२
धिरस्व	१२४	९८	धिशुक	५२	१८			
धिरा	११८	६५	धिशुत्व	११२	४	शुक्रनाश	७७	५७
धिराप	७८	६३	धिशुमार	५३	२	शुक्र	२४२	८१
धिरोग्र	६९	१२	धिसम	१२	७६	शुक्रि	५३	२३
धिरोष	१२२	८८	धिशम्भदान	२५	४६			
धिरोरस	१२५	१२	धिशि	१४७	२६	शुक्र	१४	५६
धिरोबह	१२३	९५	धिशम्भ	१३४	११			
धिर	१३६	२	धीकर	१९	११	शुक्र	२३	१६
धिसा	६४	१३	धीम	१७	६४			
			६६	४	शुक्र	२६८	२२	
धिसम्भट्ट	१८५	१४	धीत	२				१९
धिसी	५४	२४		२	१९			
धिसीमुख	२३०	१८	धीतक	७२	३	शुक्र	२६	१२
धिसीभव	६५	१		७३	३४			
धिस्य	१९३	३५	धीतमीक	२९१	२२	शुक्र	४३	२५
धिसिन्	१८७	५		१९	१८			
धिसिन्शाब्द	६३	७	धीतक	७९	७	शुक्रि	१४	५६
धिस	१	३						
			२८	२५	९३	१४९	शुक्रि	४३
धिसक	१७९	७३	धीतशिव	८५	१५	शुक्रि		
धिसमहरी	८१	८१		८८	१२२			
धिसा	११	३७	धीषु	१७३	४२	शुक्रि	५५	३३
				२९५	३४			
				१०३	९५			
				१५५	६३			
				२२५	९८			
धिसा	१७	२२७	धीषण्योष	२५	४५	शुक्राक्षर	१२	४१
				१२४	६४			
धिसि	१	१९	धी	१२४	९८	शुक्रि	१९१	२२
				१५५	६४			
धिसि	१	१९	धी	४४	२६	शुक्र	२८	२५
				२७	१८			

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
शुभयु	२०६	५०	शृङ्खल	{	१२६ १०९	शैवल	५६	३८		
शुभान्वित	२०६	५०				१५१	४१	शैवलिनी	५५	३०
शुभ्र	{	३२ १२	शृङ्खलक	१८०	७५	शैशव	११२	४०		
						२६२ १९२	{	६६	४	शोक
शुभ्रदन्ती	१८	५	शङ्ग	{	९१ १४२	शोचिष्केश	१४	५४		
शुभ्राशु	१९	१४	शृङ्गावर	१७३	३७	शाचिसू	२३	३४		
शुल्क	१४८	२७				२३२	२६	शोण	{	३२ १५
शुल्ब	{	१८४ ९७	शृङ्गाटक	६१	१७	५५	३४			
			१९१	२७	शृङ्गार	४२	१७	शोणक	७७	५७
			२९१	२३	शृङ्गिणी	१७८	६६	शोणरत्न	१८३	९२
शुश्रूषा	१३८	३५	शृङ्गीकनक	१८४	९६	शोणित	११७	६४		
शुषि	४६	२				शृङ्गी	{	५४ २५	शोणित	११७
शुष्कमांस	११७	६३	शृङ्गीकनक	१८४	९६	शोय	११५	५२		
शुष्म	१६२	१०२				शृङ्गी	{	८४ १००	शोयत्री	९२
शुष्मन्	१४	५४	शृत	२१४	९५	शोधनी	६५	१८		
शूक	१७०	२३	शेखर	१३१	१३६	शोधित	{	१७४ ४६		
शूककीट	९९	१४	शेफसू	१२०	७६	शोफ	११५	५२		
शूकधान्य	१७०	२४	शेफालिका	{	७९ ७०	शोभन	२०६	५२		
शूकर	९७	२				२८३	७	शोभा	२०	१७
शूकाशिम्बि	८२	८७	शैमुषी	२९	१	शोभांजन	७३	३१		
शूद्र	१८७	१	शेलु	७२	३४	शाष	११५	५१		
शूद्रा	१०७	१३	शेवधि	१७	७१	शोक	१०४	४३		
शूद्री	१०७	१३	शेवाल	५६	३८	शौकिकेय	४८	१०		
शून्य	२०७	५६	शष	४७	४	शौक्य	११२	४१		
शूर	१५७	७७	शैश्व	१३४	११	शौड	२००	२३		
शूर्प	१७०	२६	शैखारिक	८२	८८	शौडिक	१८९	१०		
शूल	२६३	१९७	शैल	६५	१	शौडी	८४	९७		
शूलाकृत	१७४	४५	शैलालिन्	१८९	१२	शौद्धोदनि	८	१५		
शूलिन्	१०	३०	शैलष	{	७३ ३२	शौरि	८	२१		
शूल्य	१७४	४५				१८९	१२	शौर्य	१६२	१०२
शृगाल	९७	५	शैल्य	८९	१२३	शौचिक	१८८	८		

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	
श्रीकण्ठ	१९९	१९	श्रीकण्ठ	१	३२	श्रीकण्ठ	२७	५८	
श्रीकण्ठ	२२१	१	श्रीकण्ठ	८	२४	श्रीकण्ठ	११४	४८१	
श्रीकण्ठ	१६५	११८	श्रीकण्ठ	१६	६९	श्रीकण्ठ	११९	७४	
श्रीकण्ठ	१२४	९९	श्रीकण्ठ	८	२१	श्रीकण्ठ	११९	७४	
श्रीकण्ठ	३२	१४	श्रीकण्ठ	७९	६६	श्रीकण्ठ	१२९	९४	
श्रीकण्ठ		१४३							
श्रीकण्ठ	३२	१४	श्रीकण्ठ	७४	४	श्रीकण्ठ	२७६	८	
श्रीकण्ठ	७७	७७	श्रीकण्ठ	७४	३६	श्रीकण्ठ	२०८	६१	
		८६	१	८	श्रीकण्ठ	७३	३९	२२१	११
		८६	११२	श्रीकण्ठ	८३	९५	श्रीकण्ठ	११७	६०
		२५३	१४३	श्रीकण्ठ	११९	१४	श्रीकण्ठ	११७	६२
श्रीकण्ठ	११२	३२	श्रीकण्ठ	७४	४	श्रीकण्ठ	११७	६	
श्रीकण्ठ	३३	१६	श्रीकण्ठ	१९८	१४	श्रीकण्ठ	७३	३४	
श्रीकण्ठ	३२	१२	श्रीकण्ठ	८	२२	श्रीकण्ठ	२२८	२	
श्रीकण्ठ	९	१५	श्रीकण्ठ	१२९	१२९	श्रीकण्ठ	२८	२०	
श्रीकण्ठ	२८३	६	श्रीकण्ठ	१२९	१२९	श्रीकण्ठ	८४	०८	
श्रीकण्ठ	२४५	२	श्रीकण्ठ	१२९	१२९	श्रीकण्ठ	१९१	३२	
श्रीकण्ठ	१	२१	श्रीकण्ठ	७०	६९	श्रीकण्ठ	२९७	४	
		२७							
श्रीकण्ठ	२२१	३२	श्रीकण्ठ	२४१	७७	श्रीकण्ठ	४६	२	
श्रीकण्ठ	१२३	९४	श्रीकण्ठ	१२३	९४	श्रीकण्ठ	२९०	२२	
श्रीकण्ठ	१२३	९४							
श्रीकण्ठ	२१	२२	श्रीकण्ठ	१४०	७३	श्रीकण्ठ	११५	५२	
श्रीकण्ठ	१७	७	श्रीकण्ठ	६७	४	श्रीकण्ठ	१६५	२	
श्रीकण्ठ	१३७	३१	श्रीकण्ठ	१८८	५	श्रीकण्ठ	११२	३७	
श्रीकण्ठ	१४	५							
श्रीकण्ठ	२२१	२२	श्रीकण्ठ	३१	६	श्रीकण्ठ	२५३	१४६	
श्रीकण्ठ	१७	१६							
श्रीकण्ठ	७७	१६	श्रीकण्ठ	७७	५	श्रीकण्ठ	११२	३७	
श्रीकण्ठ	७७	१६							
श्रीकण्ठ	१५८	२७	श्रीकण्ठ	८२	८४	श्रीकण्ठ	१५	६१	
		८९							

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
श्वविध्	९७	७ सराव		३८	२३	सस्ताव	२२६	३४
श्वित्र	११५	५४ संलाप		३६	१६	सस्त्याय	२५४	१५१
श्वेत	}	३२	१२ सवत्	२७८	१६	सस्था	१४७	२६
		१८४	९६ संव	२७	२०	सस्थान	२४९	१२४
		२४१	७९ संवनन	२१९	४	सस्थित	१६४	११७
श्वेतगरुत्	१०१	२३ सवर्त	२८	२२	संस्पर्शा	९३	१५४	
श्वेतमरिच	१८६	११० सवर्त्तिका	५७	४३	सस्फोट	१६२	१०५	
श्वेतरक्त	३२	१५ संवसथ	६५	१९	सहृत्	२१०	७५	
श्वेतसुरसा	७९	७१ संवाहन	२२३	२२	सहृत्तजानुक	११४	४७	
	ष			२९	१	संहृतल	१२१	८५
षट्कर्मन्	१३२	४ सौवद्	}	३०	५	सहृति	१०३	४०
षट्पद	१०२	२९		२४३	१२	सहनन	११९	७०
षडभिन्न	८	१४ सवीक्षण	२२५	३०	सहार	४८	२	
षडानन	१२	३९ संवीत	२१३	९०	सहृति	३५	८	
षडग्रन्थ	७६	४८ सवेग	४५	३४	सकल	२०९	६५	
षडग्रन्था	८४	१०२ संवेद	२१९	६	सकृत्	२७२	२४२	
षडग्रन्थिका	९३	१५४ संवेश	४६	३६	सकृत्प्रज	१००	२०	
षड्ज	३८	१ सव्यान	१२८	११८	सकुफला	७६	५२	
षण्ड	१७७	६२ संशतक	१६१	९८	सकिय	११९	७३	
षण्ड	}	११२	३९ सशय	३०	३	सखि	१४५	१२
		१४४	९ सशयापन्नमानस	१९७	५	सखी	१०७	१२
			९ सश्रव	३०	५	सख्य	१४५	१२
षष्टिक	१७०	२४ सश्रुत	२१७	१०९	सगर्भ्य	१११	३४	
षष्टिक्य	१६६	७ सश्लेष	२२५	३०	सगोत्र	१११	३४	
षाण्मातुर	१२	४० संसक्त	२०९	६८	सग्धि	१७६	५५	
	स	ससद्	१३४	१५	सकट	२१२	८५	
सयत्	१६२	१०६ ससरण	}	६१	१८	सकर	६५	१८
सयत	२०४	४२ ससिद्धि		२३७	५५	सकर्षण	९	२४
सयम	२२२	१८ सस्कृत	४६	३७	सकलित	२२४	९३	
सयाम	२२२	१८ सस्तर	२४१	८१	सकल्प	३०	२	
संयुग	१६२	१०५ सस्तव	२५७	१६१	सकसुक	२०५	४३	
संयोजित	२१४	९२	२२३	२३				

शब्द	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक
संकाश	१९४	३७	सञ्जना	१५१	४२	सहन	६२	५
संकीर्ण	{ १९१ २१२ २३७	{ १ ८५ ५७	संज्ञक	१ ३	१९	सहस्र	१३४	१५
			संज्ञारिका	१ ८	१७	सहस्र	१३५	१६
			संज्ञकन	६२	३	सहा	२८	२२
संकुञ्ज	{ ३७ २१२	{ १९ ८५	सञ्चार	१४	५७	सदागति	१५	६१
			सञ्चयन	१६४	११३	सथायन	२१	७२
संकोच	१२९	१२४	सञ्चय	२३३	३१	सदानीय	५५	३३
संक्रन्दन	१२	४४	सञ्चय	११४	४७	सदकृ	१९३	३६
संक्रम	२२४	२५	सञ्चय	१२४	५७	सदृश	१९१	३६
संक्षेपण	२२३	२१	सञ्चीन	१ ३	३७	सदृश	१९३	३६
संख्य	१६२	१ ४	सञ्चय	१३१	५	सदेश	२ ९	६७
संख्या	३	२	सञ्चय	२४२	८३	सञ्चयन्	६२	४
संख्यात	२ ८	६४	सञ्चय	१६	६५	सञ्चयस्	२७७	९
संख्यायत्	१३३	५	सञ्ची	१ ५	३	सञ्चयिणी	२१	२
संय	२२५	२९	सञ्चीनक	१६८	१६	सञ्चयच	२ ३	३४
संयत	३७	१८	सञ्चीर्ष	१३४	१२	सन्तकुमार	१३	५१
संयम	{ २२५ २९५	{ २९ ३४	सञ्चय	२ ७	५८	सना	२७८	१७
			सञ्चय	२९	२९	सनातन	२१	७२
संयत्	२५८	१६६	सञ्चय	२३६	२१३	सनामि	१११	३३
संयोज	२१७	१ ९	सञ्चय	६१	१६	सनि	१३८	३२
संयुक्त	२१४	९३	सञ्चय	३७	२२	सन्धीय	३७	२
संयुक्त	३४	३	सञ्चय	२ ५	१५४	सन्धीय	२ ९	६६
संयम	{ १६२ १६	{ १ ५ ९	सञ्चयकार	१८१	८२	सन्धमत्	४७	४
			सञ्चयकार	१४	४३	सन्धति	१३२	१
संयम	{ २२२ १४	{ १४ १४	सञ्चयकारि	१८१	८२	सन्धत	२१६	१ २
			सञ्चयकारि	१६६	३	सन्ध	१३	५
संयत्	१ ४	४१	सञ्चयानुत्	१८१	८२	सन्ध	१३२	१
संयत्	१ ३	३९	सञ्चयानुत्	१८१	८२	सन्ध	१३२	१
सञ्चय	२६५	२ ३	सञ्चय	२३	१८१	सन्धा-	१४	५७
सञ्चय	१५५	६५	सञ्चय	२७५	४	सन्धापित	२१६	१ २
सञ्चय	{ १३२ १४९	{ ३ ३३	सञ्चयन्	१४५	१५	सन्धान	१७९	७३
			सञ्चयन्	१५	६५	सन्धापित	२१४	९५

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
सन्दाव	१६४	१११	सप्तला	{	८० ७२	समया	{	२७४ २५२
सन्दिता	{ २१२	८६				९२ १४३		२७६ ७
	{ २१४	९५	सप्तार्चिसु	१४ ५६	समर	१६२ १०४		
सन्देशवाचु	३६	१७	सप्तश्व	२२ २९	समर्थ	२४२ ८७		
सन्दशहर	१४६	१६	सप्ति	१५१ ४४	समर्थन	१४७ २५		
सन्देह	३०	३	सन्नखचारिन्	१३४ ११	समर्थक	१९७ ७		
सन्दोह	१०३	३९	सभर्तुका	१०७ १२	समर्थाद	२०९ ६७		
सन्द्राव	१६४	१११	सभा	{	६२ १३४	समवर्तिन्	१४ ५८	
सन्धा	२४५	१०२				२५२ १३७	समवाय	१०३ ४०
सन्धान	१९४	४२	सभाजन	२१९ ७	समष्टिला	९४ १५७		
सन्धि	{ १४६	१८	सभासद्	१३५ १६	समसन	२२३ २१		
	{ २०१	११	सभास्तार	१३५ १६	समस्त	२०९ ६५		
सन्धिनी	१७९	६९	सभिक	१९५ ४४	समस्या	३४ ७		
सन्ध्या	२४	३	सभ्य	{	१३२ १३५	समाः	२७ २०	
सन्नकटु	७३	३५				१३२ ३	समानमिनी	१७९ ७२
सन्नद्ध	१५५	३५	सम	{	१९३ २०९	समाकर्षिन्	३२ ११	
सन्नय	२५४	१५१				३६ ६४	समाघात	१६२ १०५
सन्निधि	२२४	२३	समग्र	२०९ ६५	समाज	१०४ ४२		
सन्निकर्षण	२२४	२३	समङ्गा	{	८३ ९१	समाधि	{ ३० ५	
सानकृष्ट	२०९	६६				९१ १४१	२४४ ९८	
सानवश	६५	१९	समज	१०४ ४२	समान	{ १५ ६३		
सपत्न	१४५	१०	समज्ञा	३५ ११	१९७ ३७			
सपदि	{ २७५	२	समज्या	१३४ १५	२५० १२७			
	{ २७७	९	समञ्जस	१४७ २४	समानोदय	१११ ३४		
सपर्या	१३८	३४	समाधिक	२१० ७५	समालम्भ	२२५ २७		
सपिण्ड	१११	३२	समतनसु	२७७ १३	समावृत्त	१३४ १०		
↑ सपीति	१७६	५५	समतदुग्धा	८५ १०६	समासाद्य	२१४ ९२		
सप्तकी	१२६	१०८	समन्तभद्र	८ १३	समासार्था	३४ ७		
समतन्तु	१३४	१३	समम्	२७५ ४	समाहार	२२२ १६		
सप्तपर्ण	७१	२३	समय	{	२४ २५४	समाहित	२१७ १०९	
सप्तिधि	२२	२७				१ १४८	समाह्वय	३४ ६

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक			
समिति	{	१३४	१५	समूह	१३५	२	सरक	{	७८	६०	
		१३२	१	समूह	१९८	११			१९७	८	
		२३९	७	समूह	२२	१			१२९	१२९	
समित्		१६२	१	समद	१०४	४६	सरक		८५	१०८	
समिष		६९	१३	सम्पत्ति	१५८	८२	सरसु		५४	२८	
समीक		१३२	१	सम्पद्	१५८	८१	सरसी		५४	२८	
समीप		२	९	सम्पराज	२५४	१५०	सरसीवह		५७	४	
समीर		१५	३२	सम्पिधान	२४९	१२५	सरस्वत्	{	४९	१	
समीरण	{	१५	३२	सम्पुटक	१३१	१३९			२३७	५७	
		८१	७९	सम्प्राप्ति	२८८	२३			३३	१	
समुच्चय		२२२	१६	सम्प्रदान	२२	७	सरस्वती		५६	३४	
समुच्छ्रय		२५४	१५२	सम्प्रधारण	२५५	१५३	सरित्		५५	२९	
समुक्षित		२१७	१	सम्प्रधारणा	१४७	२५	सरित्पति		४९	१	
समुक्षिण		१३२	९९	सम्प्रहार	१६२	१	सरित्पथ		४७	७	
समुक्षक		२१३	९	सम्फुल्ल	६८	७	सर्ग		२३१	३२	
समुद्यम		१	४	सम्बाध	२१२	८५	सर्ग		७५	४४	
समुदाय	{	१	४	सम्बाधन	२०३	३	सर्गक		७५	४४	
		१३२	१	सम्भेद	५६	३५	सर्गस		१२९	१२७	
सगुह		२८८	१७	सम्भ्रम	{	४५	३४	सर्गिकाधार		१८३	१
सगुहक		१३१	१३९					२२४	२३	सर्प	
सगुहिरण		२३७	५५	सम्भ्रद	२८	२४	सर्पराज		४७	४	
सगुहव		२	२३	सम्भ्राजनी	३५	१८	सर्पित्		१७५	५२	
सगुह		४९	१	सम्भ्रुज	२१९	३	सर्प		२	९	
सगुहाम्ना	{	८१	९२	सम्भ्रु	३०	२२	सर्पतथा		५८	३	
		८७	११३	सग्राह	१४३	३	सर्पक		८	१३	
		९	१३३	सरक	१९५	४३	सर्पतत्		२७७	१३	
सगुह्यन		२२५	२९	सरथा	१	२३	सर्पतीमद्र	{	३३	१	
सगुह्य		२१७	१	सरट	९८	१२			७८	३२	
सगुह्यद		२४३	१०३	सरथा	९३	१५२	सर्पतीमद्रा		७४	३५	
सगुह्यौपम्		२७	१	सरथि	६१	१५	सर्पतीमुत्		४९	४	
सगुह्य		८	९	सरथि	१२२	८३	सर्पता		२८	२२	
सगुह्य		१	३	सरथा	१९१	२२	सगुह्यद		१०८	६६	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
सर्वधुरीण	१७८	६६	सहभोजन	१७६	५५	सात्त्विक	४२	१६
सर्वभगला	११	३७	सहस्र	१६२	१०२	सादिन्	१५४	६०
सर्वरस	१२९	१२७				साधन		
सर्वला	१६०	९३				साधरण	२४८	११९
सर्वालिंगिन्	१४०	४५	सहसा	२७६	७	साधारण	१९३	३७
सर्ववेदस्	१३३	९	सहस्य	२६	१५			
सर्वसन्नहन	१६१	९४	सहस्र	१८२	८४	साधित	२०४	४०
सर्वानुभूति	८५	१०८	सहस्रदंष्ट्र	५२	१८	साधिष्ठ	२१८	११२
सर्वाज्ञमोजिन्	२००	२२	सहस्रपत्र	५७	४०	साधीयम्	२७१	२३५
सर्वाज्ञीन	२००	२२	सहस्रवीर्या	९४	१५८	स	१३२	३
सर्वाभिसार	१६१	९४	सहस्रवेधिन्	९१	१४१			
सर्वार्थविद्	८	१५						
सर्वौष	१६१	९४	सहस्रांशु	२२	३१	साधुवाहिन्	१५१	४४
सर्वप	१६९	१७	सहस्राक्ष	१२	४४	साध्य	७	१०
सलिल	४९	३	सहासन्	१५४	६२	साध्वस	४२	२१
सल्लकी	८८	१२४	सहा	८६	११३	साध्वी	१०५	६
						सानु	६६	५
सवन	१४१	४७	सहाय	१५६	७१	सान्तपन	१४२	५२
सवयस्	१४५	१२	सहायता	२२७	४०	सान्त्व	३७	१८
सवितृ	२२	३१	साहिष्णु	२०२	३१			
सविष	२०९	६७	सायात्रिक	५१	१२	सान्दाष्टक	१४८	२९
सवेश	२०९	६७	सायुगीन	१५७	७७	सान्द्र	२०९	६६
सव्य	२१२	८४	सावत्सर	१४५	१४	सान्द्रस्निग्ध	२०२	३०
सञ्च्येष्ट	१५४	६०	सांशयिक	१९७	५	सान्नाय्य	१३६	२७
सस्य	७०	१५	साकम्	२७५	२	साप्तपदीन	१४५	१२
सस्यमजरी	१६९	२१	साकल्य	२१८	२	सामन्	१४६	२०
सस्यशूक	१६९	२१	साक्षात्	२७३	२४३	सामन्	३४	३
सस्यसम्बर	७५	४४	सागर	४९	१			
सह	२७५	४	सान्धि	२७६	६	सामाजिक	१३५	१६
			सातला	९२	१४३			
सहकार	७३	३३	साति	२२६	३८	सामान्य	२११	८२
सहचरी	८०	७५						
सहज	१११	३४						
सहधर्मिणी	१०५	५	सातिवार	११६	५९	सामि	२७३	२४९
सहन	२०२	३१				सामिधेनी	१३६	२२
						सामुद्र	१७३	४१

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
साम्प्रदायक	१६२	१०४	निहपुच्छी	८३	९३	सिन्धूर	१८५	१५
साम्प्रदायक	२००	११	निहसंजनन	१९८	१२	सिन्धूर	१९४	११
साम्प्रदायक	२८०	२३	निहाय	१८४	९८	सिन्धु	४८	१
साम्प्रदायक	२२८	२	निहासन	१४९	३३	सिन्धु	४९	२
साम्प्रदायक	२४	३	निहास्य	८५	११३	सिन्धुज	२४५	११
साम्प्रदायक	२०९	१९	निही	८५	१०३	सिन्धुज	१०३	४२
साम्प्रदायक	६९	१२	निकता	८६	११४	सिन्धुज	५६	३५
साम्प्रदायक	६५८	२०१	निकता	२४०	७३	सिन्धुज	१२९	१२८
साम्प्रदायक	९९	१०	निकतामय	५०	९	सिन्धुज	१६८	१४
साम्प्रदायक	२३१	२३	निकतावत्	६	११	सिन्धुज	१६०	८
साम्प्रदायक	१५४	५९	निकतावत्	१८३	१०	सिन्धुज	१९४	४१
साम्प्रदायक	१९१	२१	निकतावत्	३२	१३	सिन्धुज	६५	२
साम्प्रदायक	५३	३६	निकतावत्	२१४	९५	सिन्धुज	२८९	१९
साम्प्रदायक	५०	४०	निकतावत्	११५	९८	सिन्धुज	१०४	२
साम्प्रदायक	१	२२	निकतावत्	२४१	८	सिन्धुज	६५	२
साम्प्रदायक	१२३	१	निकतावत्	९३	१५२	सिन्धुज	१६८	१४
साम्प्रदायक	१५५	६३	निकतावत्	७९	७१	सिन्धुज	९	२४
साम्प्रदायक	२८४	८	निकतावत्	१०४	४३	सिन्धुज	२१९	५
साम्प्रदायक	१४	४१	निकतावत्	१३	१३	सिन्धुज	१८५	१०५
साम्प्रदायक	१८	७८	निकतावत्	५०	४१	सिन्धुज	८५	१५
साम्प्रदायक	२१०	१५	निकतावत्	७	११	सिन्धुज	२०१	२
साम्प्रदायक	२०५	४	निकतावत्	२१६	१०	सिन्धुज	२०६	५
साम्प्रदायक	१८	४	निकतावत्	३	४	सिन्धुज	२	१४०
साम्प्रदायक	१४३	२	निकतावत्	१६९	१८	सिन्धुज	१०९	७
साम्प्रदायक	६३	३	निकतावत्	८६	११३	सिन्धुज	१९७	८
साम्प्रदायक	७५	४४	निकतावत्	११५	५३	सिन्धुज	२११	७८
साम्प्रदायक	८०	२१५	निकतावत्	११७	६३	सिन्धुज	९८	२६
साम्प्रदायक	२००	६३	निकतावत्	२८४	१	सिन्धुज	१९६	२
साम्प्रदायक	१४६	२१	निकतावत्	२१	२२	सिन्धुज	२८	२५
साम्प्रदायक	१५४	६	निकतावत्	२८४	८	सिन्धुज	२११	२३
साम्प्रदायक	२२०	४३	निकतावत्	२५	९	सिन्धुज	१८६	१९
साम्प्रदायक	०	१	निकतावत्	७९	६८	सिन्धुज	१०९	७१
साम्प्रदायक	१८	५९	निकतावत्	७९	६८	सिन्धुज	८	१३
साम्प्रदायक	१६१	१०	निकतावत्	७९	६८	सिन्धुज	८०	११४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
सुगन्धि	{ ३२	११	सुमनस्	७	७	सुवासिनी	१०६	९
	{ ८८	१२१	सुमनसू	७०	१७	सुव्रता	१७९	७१
सुचरित्रा	१०५	६	सुमना	८०	७२	सुषम	२०६	५२
सुचेलक	१२७	११६	सुमनोरजस्	७०	१७	सुषमा	२०	१७
सुत	{ ११०	२७	सुमेरु	१३	४९	सुषवी	{ ९३	१५५
	{ २३८	६०	सुर	७	७		{ १७२	३७
सुतश्रेणि	८२	८८	सुरगा	२८४	८	सुषि	४६	२
सुतात्मजा	११०	२९	सुरज्येष्ठ	८	१६		{ ३९	४
सुत्या	१४१	४७	सुरदार्ढिका	१३	४९	सुषिर	{ ४६	१
सुधामन्	१२	४२	सुरद्विप्	७	१२		{ ४६	२
सुत्वन्	१३४	१०	सुरनिम्नगा	५५	३१	सुषिरा	८९	१२९
सुदर्शन	१०	२८	सुरपति	१२	४३	सुषीम	२०	१९
सुदाय	१४८	२८		{ २७	१८	सुषेण	७९	६७
सुदूर	२०९	६९	सुरभि	{ ३२	११	सुषणिका	८६	१०८
सुधर्मा	१३	४८		{ २५२	१३७			
सुधा	{ १३	४८	सुरभी	८८	१२३	सुष्टु	{ २७५	२
	{ २४५	१०२	सुरधि	१३	४८		{ २७९	१९
सुधांशु	१९	१४	सुरलोक	६	६	सुसस्कृत	१७४	४५
सुधी	१३३	५	सुरवर्त्मन्	१७	१	सुहृद	१४५	१२
सुनासीर	१२	४१	सुरसा	८७	११४	सुहृदय	१९६	३
सुनिषण्णक	९३	१४९	सुरा	१९४	३९	सुकर	९७	२
सुन्दर	२०६	५२	सुराचार्य	२१	२४		{ २०८	६१
सुन्दरी	१०५	४	सुरामण्ड	१९४	४२	सूक्ष्म	{ २५३	१४४
सुपायिन्	६१	१६	सुरालय	१३	४९	सूचक	२०५	४७
सुपर्ण	१०	२९	सुराष्ट्रज	९०	१३१	चि	२८४	८
सुपर्वन्	७	७	सुवचन	३६	१७			
सुगर्भक	७५	४३	सुवर्ण	{ १८२	८६		{ १५४	५९
सुप्रतीक	१८	४	सुवर्णक	{ १८३	९४	सूत	{ १८४	९९
सुप्रयागविशिख	१५५	६८	सुवाल्लि	७१	२४		{ १८७	३
सुप्रलाप	३६	१७		{ ८३	९५		{ २३८	६२
सुभगासुत	१०९	२४		{ ७९	७०	सूतिकागृह	६३	८
सुभिक्षा	८८	१२४	सु	{ ८७	११५	सूतिमास	११२	३९
सुम	७०	१७		{ ८७	११९	सूत्यान	१९०	१९
सुमन	१६९	१८		{ ८८	१२३	सूत्र	१९२	२८
				{ ९१	१४०	सूत्रवेधन	२२४	२४

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
सूद	{ १७१	२८	सिक्क	१४४	९	सौगन्धिक	{ ५१	१६
			सिंघन	२१९	५			
सुना	२४७	११३	सिंघा	१६५	२		१८५	१२
सुपु	११	२७	सिंघ्य	९५	२६४	सौषिक	१८८	६
सुपुव	३७	१९	सिंहिकेय	२२	२६	सौदाभिनी	१९	९
सुपकार	१७१	२७	सिंघत	५	९	सौष	६३	१
सुप	२२	२८	सिंघवाहिनी	५५	३३	सौमागिनैय	१९	२४
सुपज	९४	१५७	सैनिक	१५४	६१	सौम्य	{ २२	२६
सुपुव	१९८	१५	सौम्यव	{ १५१	४४	सौरमेय	१७७	६
सुपि	१३३	६						
सुमी	१९३	३५	सौम्य	{ १५४	६१	सौरपिक	४८	१
सुर्म	२२	२८						
सुर्मतनवा	५५	३२	सन्मपुत्र	१५८	७९	सौवचक	{ १७३	४३
सुर्मप्रिया	२५६	१५७	सैरन्त्री	१८	१८			
सुर्मनुसगम	२५	८	सैरिक	१७८	६४	सौषिद	१४४	८
सुर्मिणी	१२३	९१	सैरिम	९७	४			
सुग्	१६	९१	सैरियक	८	७५	सौबीर	{ ७४	६७
सुषि	१५१	४१	सौठ	२१५	९७			
सुषिका	११८	६७	सादय	१११	३४	१८४	१	
सुषि	६१	१५	सान्माव	२	२३			सौहृत्
सुपाटी	२९७	३८	सोपपञ्च	२५	१	लक्ष्य	१२	
सुमर	९८	११	सोपान	६५	१८			स्कन्ध
सुध	२३४	३८	सामाञ्जन	७३	३१	१२	७८	
सुकपान	५१	१३	साम	१९	१४			२४५
सुबन	५१	१३	सोमपा	१३३	९	स्कन्धघाट्य	६९	
सुबनक	२७	५३	सोमपीधिन	१३३	९	स्कन्ध	२१६	१४
सुदु	{ १	७२	सोमराजी	८३	९५	स्तरञ्जन	४५	३६
			२५	सोमवस्क	{ ७६	५	स्तरञ्जित	१६३
सुना	१५७	७८	२१९	७६	स्तरन	१२	७७	
सुनांग	१४९	३३			११	१३७	स्तरनधयी	११२
सुमान्दी	{ १२	३९	सोमवस्त्री	८३	९५	स्तरनरा	११२	४१
			१५५	६२	सोमवस्त्री	८२	८३	स्तरनपित्तु
सुनामुण	१५८	८१	सोमोद्गवा	५५	२२	स्तरनिय	१९	८
मारु	१५४	६१						

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
स्तवक	७०	१६	स्थविष्ठ	२१८	१११	स्थौरिन्	१५१	४६		
स्तव्वरोमन्	९७	२		१०	३४	स्थौल्य	२६३	१९५		
स्तम्भ	{	६८	९	स्थाणु	६८	८	स्तव	२२०	९	
		१६९	२१		२३६	४९	स्तातक	१४०	४३	
स्तम्भकारि	१६९	२१	स्थांडिल	१४०	४४	स्तान	१२८	१२२		
स्तम्भघ्न	२२६	३५		१४६	१९	स्तायु	११८	६६		
स्तम्भघ्न	२२६	३५	स्थान	{	२४८	११७		{	१४५	१२
स्तम्भेरम	१४९	३५	स्थानीय	६१	१	स्निग्ध	{	१७४	४६	
स्तम्भ	२५१	१३५	स्थाने	२७७	११		{	१९८	१४	
स्तव	३५	११	स्थापत्य	१४४	८	स्तु	६६	५		
स्तिमित	२१७	१०५	स्थापनी	८२	८४	स्तुक	८५	१०५		
स्तुत	२१७	११०	स्थामन्	१६२	१०२	स्तुत	२१४	९२		
स्तुति	३५	११	स्थायुक	१४४	७	स्तुषा	१०६	९		
स्तुतिपाठक	१६१	९७	स्थाल	२९५	३२	स्तुही	८५	१०५		
स्वप्	२८९	१९	स्थाली	१७१	३१	स्नेह	४४	२७		
स्तेन	१९१	२४	स्थावर	२१०	७३	स्पर्श	{	३१	७	
स्तेम	२२५	२९	स्थाविर	११२	४०		{	२२२	१४	
स्तेय	१९१	२५	स्थासक	१२८	१२२	स्पर्शन	{	१५	६१	
स्तैन्य	१९१	२५	स्थास्र	२१०	७३		{	१३७	२९	
स्तोक	२०८	६१	स्थित	{	१४७	२६	स्पश	{	१४५	१३
स्तोत्र	३५	११		{	२२३	२१		{	२६६	२१४
स्तोम	{	१०३	३९	स्थिरतर	२१०	७३	स्पष्ट	२११	८१	
		२५२	१४१							
स्त्री	१०४	२	स्थिरा	{	५९	२	स्पृका	९०	१३३	
स्त्रीधर्मिणी	१०८	२०	स्थिरायु	{	८७	११५	स्पृशी	८३	९३	
स्त्रीपुंस	१०३	३८		{	७५	४६	स्पृष्टि	२२०	९	
स्युगार	६३	११	स्थूणा	{	१९३	३५	स्पृष्टा	४४	२७	
स्युडिल	१३५	१८		{	२३६	५१	स्पृष्ट	२२२	१४	
स्युडिलशायिन्	१४०	४४	स्थूल	{	२०८	६१	स्फटा	४८	९	
				{	२६५	२०४	स्फाति	२२०	९	
स्यपति	{	१३३	९	स्थूललक्ष्य	१९७	६	स्फार	२०८	६३	
		२३८	६१	स्थूलशाटक	१२७	११६	स्फिच्च	११९	७५	
स्यल	५८	५	स्थूलोच्चय	२५४	१४८	स्फुट	{	६८	७	
स्यलो	५८	५	स्थैयम्	२१०	७३		{	२११	८१	
स्यविर	११३	४२	स्थौण्य	९०	१३२	स्फुटन	२१९	५		

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
स्फुरत्	२२	१	सुषावृष	७४	३७	स्वर्मानु	२२	२६
स्फुरण	२२	१	सीतवृ	५१	११	स्वर्भस्पा	१९	५२
स्फुरक	१४	५७				स्वर्भय	१३	५१
स्फुरक	७४	३८	सीतस्वटी	५५	३	स्वस	११	२९
स्फुरकमु	१९	१	सातौजन	१८४	१	स्वस्ति	२७२	२४१
स्नेह	२१८	११२	स्व	१११	३४	स्वस्ति	३३	१
स्म	२७६	५				२६६	२११	स्वस्त य
	२७८	१७	स्वच्छन्द	१९९	१५	स्वाति	२९७	३८
स्मर	९	३५	स्वजन	१११	३४	स्वादु	२४४	९४
स्मरहर	१	३३	स्वतंत्र	१९९	१५	स्वायुर्बद्धक	७४	३७
स्मित	४७	३४	स्वभा	२७६	८		८४	९८
स्मृति	३४	३	स्वभिति	१३	९२	स्वायुरसा	९२	१४४
		४४	२९	स्वन	३८	२२	स्वादी	८५
स्वद	१५	३४	स्वनित	२१४	९४	स्वाध्याय	१४१	४७
स्वान्दन	७२	२६	स्वप्न	४६	३६	स्वान	३८	२३
		१५२	५१	स्वप्न	७	३३	स्वाम्ठ	२९
स्वन्दनारीह	१७४	६	स्वप्नय	४६	३८	स्वाप	४६	३६
स्वन्दिनी	१९८	३७	स्वमू	८	१८	स्वापठेय	१८३	९
स्वन्न	२१४	९२	स्वमेकर	१	३	स्वामिन्	१९८	१
स्पृ	१७	२६	स्वपमू	२७८	२६	स्वाराज (इ)	१२	४३
		२१६	१	स्वर्भामू	८	१६	स्वाहा	१३६
स्पृति	२१९	५	स्वर्	२७४	२५४	२७६		८
		७७				५७	३	स्विकृ
स्पोनाक	७७	५७	स्वर	३४	४	स्वै	४५	३३
स्पोनिन्	७२	२८				३९	१	स्वैदज
सञ्	१३१	१३५	स्वक	१३	४७	स्वैदनी	१७१	३
सञ्	२२	९				२५८	१३७	स्वैर
सञ्जमा	१७८	३९	स्वरूप	४६	३८	स्वैरिणी	१	११
सञ्जम्बी	५५	३				२५१	१३१	स्वैरिया
सञ्जा	८२	८३	स्वर्गा	३	३	स्वैरिन्	१९९	१५
सञ्ज	८	१७				३	३	३
सञ्ज	२१६	१	स्वर्ग	१८३	९४	३	३	३
सञ्ज	२७५	२	स्वर्गकार	१८८	८	इध	२१	३१
सञ्ज	२१४	९२	स्वर्गशीरी	९१	१३८		११	२३
सञ्ज	१३६	२५	स्वर्गशी	१३	४९	२६९	२३६	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
हसक	१२६	११०	हरिताल	२९५	३२	हव्य	१३६	२४
हंजिका	८६	८९	हरिदश्व	२२	२९	हव्यपाक	१३६	२२
हजे	४१	१५	हरिद्राम	३२	१४	हव्यवाहन	१४	५५
हट्ट	२८९	१८	हगिन्द्रा	१७३	४१	हस	४२	१८
हट्टविलासिनी	८९	१३०	हरिद्र	८४	१०१	मनी	१७१	३०
हठ	१६३	१०८	हरिन्माण	१८३	९२	मती	१७१	२९
हड	४१	१५	हरिप्रथ	७५	४२	स्त	१२२	८६
हत	२०५	४१	हरिप्रिया	९	२७		१२४	९८
हनु	८९	१३०	हरिमन्थक	१६९	१८		२३७	५९
			हरिवालुक	८८	१२१	हस्तधारण	२१९	५
हन्त	२७३	२४४	हरिहय	१२	४३	इस्तिन्	१४९	३४
हन्न	२१५	९६	हरीतकी	७७	५९	इस्तिनख	६४	१७
हय	१५१	४४	हरेणु	८८	१२०	इस्तिपक	१५४	५९
हयपुच्छी	९१	१३८				१६८	१६	इस्त्यारोह
हयमारक	८१	७६	हर्म्य	६३	९	हा	२७५	२५६
हर	१०	३३	हर्षक्ष	९७	१	हाटक	१८३	९४
हरण	१४८	२८	हर्ष	२८	२४	हायन	२७	२०
हारी	९७	१	हर्षमाण	१९७	७		२४६	१०८
			२५९	१७५	हल	१६८	१३	हार
हरिचन्दन	१३	५०	हला	४१	१५	हारीत	१०२	३४
			१३०	२३१	हलायुध	९	२३	हार्द
हरिण	३२	१३	हलाहल	४८	१०	हाला	१९४	३९
			९८	८	हलिन	९	२४	हालिक
हारीणी	२३६	५१	हलिप्रिया	१९४	३९	हाव	४५	३२
			२३६	५०	हल्य	१६७	८	हास
हरित	१७	१	हल्या	२२७	४१	हास्तिक	१४९	३६
			३२	१४	हल्लक	५६	३६	हास्य
हरित	३२	१४	हव	२२०	८	४२	१९	
						२८९	१९	२६५
हरितक	१७२	३४	हाविस	१३६	२७	हि	२७५	२५७
हरितालक	१८५	१०३					१७५	५२

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
हिंसा	२६९	२२९	ह्रस्वमुक्त्वा	१४	५५	हिरण्य	११	३८
हिंसाकर्मणः	२२९	१९	ह्रस्व	{ २७४	२५२	होष्य	४५	३२
हिंस	२ १	२८	ह्रस्व	{ २७९	१८	होष्या	१५२	४७
हिंस्य	२८४	८	ह्रस्व	{ ३५	८	होष्ये	२७६	७
हिंस्यु	१७९	४०	ह्रस्व	{ २२	८	होष्ये	१४९	२२
हिंस्युषी	८९	११४	ह्रस्व	१४	५२			
हिंस्युनिर्वाच	७८	६२	ह्रस्वीया	२२५	३२	होष्यती	{ ११	३६
हिंस्युः	७८	६१					{ ७७	७९
हिंस्युः	९९	१६९	ह्रस्व	{ २९	३१	होष्यती	{ ८५	१३
			ह्रस्व	{ ११७	६४		{ ९१	१३८
हिंस	{ २	१८	ह्रस्व	{ २९	३१	होष्यती	१७५	५२
	{ २	३९	ह्रस्व	{ ११७	६४	होष्यु	१३५	१७
	{ २९	२२	ह्रस्व	३७	१८	होम	१३४	१४
हिंस्युः	६९	२	ह्रस्व	१९६	३	होरा	२८४	१०
हिंस्युः	१३	११	ह्रस्व	२ ७	५३	होष्य	२७९	२९
हिंस्युः	२	१८	ह्रस्वीक	३१	८	होष्य	५४	२५
हिंस्युः	१९	१६	ह्रस्वीकेश	८	१८	होष्यि	२१८	११२
हिंस्युः	२	१८	ह्रस्व	२१९	१०३	होष्यि	{ ११३	४६
हिंस्युः	९१	१३८	ह्रस्वमानस	१९७	७	होष्यि	{ २ ९	७
	{ १८१	९०	ह्रस्व	२७६	७	होष्यि	८७	११७
	{ १८१	९१	ह्रस्व	{ १४	५७	होष्यि	९१	१४२
	{ १८१	९४	ह्रस्व	{ २४	७१	होष्यि	{ १३	४७
हिंस्युः	८	१६	ह्रस्व	२९	२८	होष्यि	{ १९	९
हिंस्युः	५५	३४	ह्रस्व	६६	३	होष्यि	{ ५५	३
हिंस्युः	१४	५५	ह्रस्व	७१	२२	होष्यि	{ २४७	११२
हिंस्युः	{ २७५	३	ह्रस्व	{ १८१	९४	होष्यि	{ ४३	२३
	{ २७६	७	ह्रस्व	{ २९१	२३	होष्यि	२१४	९१
हिंस्युः	९४	१५७	ह्रस्व	२७	१८	होष्यि	२१४	९१
ही	२७७	९	ह्रस्व	७८	६३	होष्यि	८८	१११
ही	{ २१७	१ ७	ह्रस्व	८	७१	होष्यि	१५२	४७
	{ २५	१२८	ह्रस्व	१३	४९	होष्यि	८८	११४
ह्रस्वमुक्त्वा	१३६	२१	ह्रस्व	१३	४९	होष्यि		

श्रीः ।

अथाऽमरकोशः

भाषाटीका समेतः ।

प्रथम काण्ड १.

अथ स्वर्गवर्गः १.

यस्य ज्ञानदयासिन्धोरगाधस्या-
नवा गुणाः ॥ सेव्यतामक्षयो
धीराः स श्रिये चामृताय च ॥ १ ॥

यस्य भासा जगद्भाति सदैव सच
राचरम् । त नौमि परमात्मान मक्ता-
नाममयङ्करम् ॥ १ ॥ जटाटवीगलद्भङ्ग
चन्द्रचूडामणिं शिवम् । स्मृत्वामरकृतेः
कुर्वे भाषा व्याख्यासुधानुगाम् ॥ २ ॥

अन्वयः—हे अनघाः ! भवद्भिः, स,
अक्षयः, धीराः, श्रिये, च, अमृताय, च,
सेव्यताम् । ज्ञानदयासिन्धोः, आगाधस्य,
अस्य, ई, अस्ति, गुणाः, च, सन्ति ॥ १ ॥

अर्थ—हे सज्जनो ! तुम उस अविनाशी
ज्ञानदाता गुरुकी भोग और मोक्षकी

१ धिय राति ददाति । 'रा दाने'
अस्मात्किप् । धीरा ज्ञानप्रदो गुरुरित्यर्थः ।

भाषा—ज्ञानके देनेवाले गुरुको धीरा
कहते हैं ।

प्राप्ति होनेके अर्थ सेवा करो कि, शास्त्र
करिके सपन्न और दयाकारिके पूर्ण तथा
विषयोसे विरक्त ऐसे इन गुरुके पास
अखण्डलक्ष्मी और सत्य, शौच, दया,
क्षमा आदिक गुण हैं ॥ १ ॥

ग्रन्थमें वक्तव्य विषय दिखलातेहैं—

समाहृत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः
प्रतिसंस्कृतैः ॥ सम्पूर्णमुच्यते
वर्गेनामलिङ्गानुशासनम् ॥ २ ॥

अन्वयः—मया, अन्यतन्त्राणि, समा-
हृत्य, संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः, वर्गेः युक्त,
नामलिङ्गानुशासन, सम्पूर्णम् उच्यते ॥ २ ॥

अर्थ—मैं व्याडि आदिकोंके नामलि-
ङ्गानुशासन अथवा सिद्धांतोंका सग्रह
करके शब्दोंके क्रमानुसार कथन कर-
नेसे सुशोभित ऐसे थोड़े २ शब्दोंके
वर्गोंसे अर्थात् पृथक् २ प्रकरणोंसे युक्त
ऐसा शब्द और उनके लिङ्गोंका स्पष्ट
रीतिसे बोध करनेवाला कोश परिपूर्ण
रीतिसे कहताहूँ ॥ २ ॥

इस ग्रंथमें छिन्नादिभ्यश्चस्या क्ति प्रकारसे कौं है वह कहसहै—

मायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुञ्चित् । स्त्रीपुनपुंसक ज्ञेय तद्वि श्लेषविधेः क्वचित् ॥ ३ ॥

अन्वय—अत्र, प्रायश, रूपभेदेन, स्त्रीपुनपुंसकं, ज्ञेयम्, च, कुञ्चित्, साहचर्याच्च, तद्वि श्लेषविधेः, स्त्रीपुनपुंसकं, ज्ञेयम्, क्वचित्, तद्विशेषविधे, स्त्रीपुनपुंसकं, ज्ञेयम् ॥ ३ ॥

अर्थ—इस ग्रंथमें बहुत करके ३५, आ५, विसर्ग और अनुस्वार इनसे स्त्रीलिंगा पुंलिंग, और नपुंसकलिंग जानना जैसा 'पद्मालया' और 'पद्मा' यहाँ आ५' हानसे 'पद्मालया' और 'पद्मा' यह स्त्रीलिंग है 'पिनाकाञ्जगम् घनुः' यहाँ 'पिनाक' यहाँपर विसर्ग है इससे 'पिनाक' शब्द पुंलिंग है 'अजगम् यहाँपर अनुस्वार हानसे 'अजगम् शब्द नपुंसक है कहींपर विशेषणमें स्थित अथवा सर्वनामवाचक शब्दमें स्थित रूप क भदसे लिंगोंमें भेद होता है जैसा—'तत्परोऽनु' यहाँपर 'तत्पर' इस विशेषणका पुंलिंग रूप हानसे उसका विशय जो 'इनु' शब्द है उमका भी पुंलिंगहीमें रूप च उता है तथा 'कुञ्' छुठ अक्षरसे सेगान्या बुतुर पुमान्' यहाँ सा' यह

जो सर्वनामसे कश्चिद् हे वह 'कुञ्' शब्दका विशेषण है इससे 'सा' इसका स्त्रीलिंग होमेसे उसका विशेष्य जो 'कुञ्' शब्द है उसकामी स्त्रीलिंग है और निश्चित है लिंग जिसका ऐसा शब्द समीप उच्चारण करनेसे उसका जो लिंग है वही लिंग उस समीप पढ़े हुए अनिश्चितलिंगवाले शब्दका जानना जैसे 'अश्वयुगम्बिनी' 'मानु कर' 'विपदिष्णु पदम्' यहाँपर 'अश्वयुग्' 'मानु' और 'विपद' इन अनिश्चित लिंगवाले शब्दोंके समीप निश्चित लिंगवाले 'अश्विनी' 'कर' और 'विष्णुपद' ये शब्द होकर उनके जो लिंग हैं वही लिंग उन अनिश्चित लिंगवाले शब्दोंके जानन अर्थात् 'अश्वयुग्' शब्दका स्त्रीलिंग, 'मानु' शब्दका पुंलिंग, और 'विपद' शब्दका नपुंसकलिंग है इस प्रकारसे जानन और कहीं कहींपर उन स्त्री, पुं, नपुंसक इनके विशेषणोंमें कथन करनेसे स्त्रीलिंग, पुंलिंग, और नपुंसक लिंग जानना जैसे 'मरी स्त्री दुन्दुभि पुमान्' 'रोधि शोचिस्मे स्त्रीमे' यहाँपर 'मरी' शब्दके समीप 'स्त्री' ऐसा विशेषणके कथन किया है इसका लिंग 'मरी' यह शब्द स्त्रीलिंग है और 'दुन्दुभि' शब्दके समीप 'पुमान्' यह

११ ॥ २८ ॥ भास्वत् १२ विवस्वत्
 १३ सप्ताश्व १४ हरिदश्व १५ उष्ण-
 रश्मि १६ विकर्त्तन १७ अर्क १८
 मार्तण्ड १९ मिहिर २० अरुण २१
 पृषन् २२ ॥ २९ ॥ द्युमणि २३
 तरणि २४ मित्र २५ चित्रभानु २६
 विरोचन २७ विभावसु २८ ग्रहपति
 २९ त्विषाम्पति ३० अहर्पति ३१ ॥
 ॥ ३० ॥ भानु ३२ हस ३३ सहस्राशु
 ३४ तपन ३५ सवितृ ३६ रवि ३७

रश्मयः ॥ भानुः करो मरीचिः
 स्त्रीपुंसयोर्दीधितिः स्त्रियाम् ॥ ३३ ॥
 सूर्यकिरणके नाम ११ ॥ किरण १
 उल्ल २ मयूख ३ अशु ४ गभस्ति ५
 घृणि ६ रश्मि ७ भानु ८ कर ९ मरीचि
 १० दीधिति ११ ॥ ३३ ॥

स्युः प्रभारुग्रुचिस्त्विड्भाभाइच्छ-
 विद्युतिदीप्तयः ॥ रोचिः शोचि-
 रुभे कृवि-

दीप्तिके नाम ११ ॥ प्रभा १ रुच्
 २ रुचि ३ त्विप् ४ भा ५ भास् ६
 छवि ७ द्युति ८ दीप्ति ९ रोचिस् १०
 शोचिस् ११ ॥

-प्रकाशो द्योत आतपः ॥ ३४ ॥
 धूपके नाम ३ ॥ प्रकाश १ द्योत
 २ आतप ३ ॥ ३४ ॥

कोष्णं क्वोष्णं मन्दोष्णं
 कदुष्णं त्रिषु तद्वति ॥
 थोडे गरमके नाम ४ ॥ कोष्ण १
 क्वोष्ण २ मन्दोष्ण ३ कदुष्ण ४ ॥

तिग्मं तीक्ष्णं खरं तद्-
 बहुत गरमके नाम ३ ॥ तिग्म १
 तीक्ष्ण २ खर ३ ॥

-मृगतृष्णा मरीचिका ३५ ॥
 मृगतृष्णाके नाम १ ॥ मृगतृष्णा
 १ मरीचिका २ ॥ ३५ ॥
 इति दिग्दर्ग. ॥ ३ ॥

माठरः पिगलो दण्डश्चण्डांशोः
 पारिपार्श्विकाः ॥ ३१ ॥

सूर्यपार्श्ववर्तीतीनोंके एक एक नाम ॥
 माठर १ पिगल २ दण्ड ३ ॥ ३१ ॥
 सूरसूतोऽरुणोऽनूरुः काश्यपि-
 गरुडाग्रजः ॥

सूर्यके सारथिके नाम ५ ॥ सूरसूत
 १ अरुण २ अनूरु ३ काश्यपि ४
 गरुडाग्रज ५ ॥

परिवेषस्तु परिधिरुपसूर्यकम
 ण्डले ॥ ३२ ॥

सूर्यके मण्डलके अर्थात् जो कभी २
 उनके चारोंओर घेरासा वन जाता
 है उसके नाम ४ ॥ परिवेष १ परिधि
 २ उपसूर्यक ३ मण्डल ४ ॥ ३२ ॥

किरणोत्समयूखांशुगभस्तिघृणि-

अथ कालवर्गः ४

कालोदिष्टोप्यनेहापि समयो-
समयके नाम १ ॥ काल १ दिष्ट २

अन्वस् ३ समय ४ ॥

-प्यथ पक्षतिः ॥

प्रतिपद् द्वे इमे खीत्वे-

प्रतिपदाके नाम २ ॥ पक्षति १

प्रतिपत् २ ॥

-तदाद्यास्तिथयो द्वयोः ॥ १ ॥

प्रतिपदादिका नाम १ ॥ तिथि १ ॥ १ ॥

घस्रो दिनाहनी वा तु खीत्वे
दिवसवासरौ ॥

दिनके नाम १ ॥ घस्र १ दिन २

अहन् ३ दिवस ४ वासर १ ॥

प्रत्युपोऽहर्मुख कल्पमुपः प्रत्यु-
पसी अपि ॥ २ ॥

प्रभात च-

प्रातः कालके नाम १ ॥ प्रत्युप १

अहर्मुख २ कल्प ३ उपस् ४ प्रत्युप्स

१ ॥ २ ॥ प्रभात ॥ ६ ॥

-दिनान्ते तु सार्यसम्भा
पितृप्रसूः ॥

सार्यकालके नाम ४ ॥ दिनान्त १

सार्यम् २ सम्भा ३ पितृप्रसू ॥ ४ ॥

माह्यापराह्ममध्याह्नास्त्रिसध्य-

प्रातःकालका नाम १ ॥ प्राह १ ॥

मध्याह्नकालका नाम १ ॥ मध्याह्न १ ॥

मध्याह्नोच्चर कालोका नाम १ ॥ अफ-

राह १ ॥ इन तीनों कालोका इकडा

नाम ॥ त्रिसध्य १ ॥

-मय शर्वरी ॥ ३ ॥

निशा निशीथिनी रात्रिस्त्रि-

यामा क्षणदाक्षपा ॥ विभावरतिम

स्विन्वी रजनी यामिनी तमी ॥ ४ ॥

रात्रिके नाम १ २ ॥ शर्वरी १ ॥

३ ॥ निशा २ निशीथिनी ३ रात्रि ४

त्रियामा ५ क्षणदा ६ क्षपा ७ विभा

वरी ८ तमस्विनी ९ रजनी १०

यामिनी ११ तमी १२ ॥ ४ ॥

तमिस्ता तामसी रात्रि-

अम्बिवारी रात्रिका नाम १ तमिस्ता १ ॥

-उर्योत्स्त्री चन्द्रिकयान्विता ॥

उर्योत्स्त्री रात्रिका नाम १ ॥ उर्योत्स्त्री १ ॥

आगामिचर्वमानाह्युक्तायां

निशि पक्षिणी ॥ ५ ॥

चर्वमान और आगामिचर्वमानोके

मध्यकी रात्रिका नाम १ पक्षिणी १ ॥ ५ ॥

गणरात्र निशा बहध-

बहधरात्रियोका नाम १ गणरात्र ॥

-प्रदोषो रजनीमुखम् ॥

रात्रिके प्रथमभागके नाम २ ॥

प्रदोष १ रजनीमुख २ ॥

अर्धगत्रनिशीथौ द्वौ-

आधीरात्रिके नाम २ ॥ अर्धरात्र १
निशीथ २ ॥

-द्वौ यामप्रहरौ समौ ॥ ६ ॥

प्रहरके नाम २ ॥ याम १ प्रहर २ ॥ ६ ॥

स पर्वसन्धिः प्रतिपत्पञ्चदशयो-
र्यदन्तरम् ॥

प्रतिपदा १ और पञ्चदशी १५ । ३०
के मध्यके कालका नाम १ ॥ पर्वसन्धि १ ॥

पक्षान्तौ पञ्चदशौ द्वे-

अमावास्या और पूर्णिमाका नाम
१ ॥ पक्षान्त १ ॥

-पौर्णमासी तु पूर्णिमा ॥ ७ ॥

पूर्णिमाके नाम २ ॥ पौर्णमासी १
पूर्णिमा २ ॥ ७ ॥

कलाहीने सानुमतिः-

जिस पूर्णमासीमे प्रतिपदाके योगसे
चन्द्रमाकी कला हीन हो उसका नाम
१ ॥ अनुमति १ ॥

-पूर्णे राका निशाकरे ॥

जिसमें पूर्ण चन्द्रमा हो उस पूर्णिमाका
नाम १ ॥ राका १ ॥

अमावास्या त्वमावस्या दर्शः

सूर्येन्दुसङ्गमः ॥ ८ ॥

अमावास्याके नाम ४ ॥ अमावास्या
१ अमावस्या २ दर्श ३ सूर्येन्दुस-
गम ४ ॥ ८ ॥

२

सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली-

जिसमे चतुर्दशीके योगसे चन्द्रमाका
दर्शन होय उस अमावास्याका नाम १ ॥
सिनीवाली १ ॥

-सा नष्टेन्दुकला कुहूः ॥

जिसमें बिलकुल चन्द्रदर्शन न होय
उस अमावास्याका नाम १ ॥ कुहू १ ॥

उपरागो ग्रहो राहुग्रस्ते त्विन्दौ
च पूष्णि च ॥ ९ ॥

सोपप्लवोपरक्तौ द्वा-

चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके नाम
४ ॥ उपराग १ ग्रह २ ॥ ९ ॥
सोपप्लव ३ उपरक्त ४ ॥

-वग्न्युत्पात उपाहितः ॥

धूम्रकेतुके नाम २ ॥ अग्न्युत्पात
१ उपाहित २ ॥

एकयोक्त्या पुष्पवन्तौ दिवा-
करनिशाकरौ ॥ १० ॥

सूर्य और चन्द्र दोनोंका इकट्ठा
नाम १ ॥ पुष्पवन्त १ ॥ १० ॥

व्यष्टादश निमेषास्तु काष्ठा-

पलकमारनेका नाम निमेष ॥
अठारह निमेषोंका नाम १ ॥ काष्ठा १ ॥

-त्रिंशत्तु ताः कला ॥

तीस काष्ठाओंका नाम १ ॥
कला १ ॥

वास्तु त्रिंशत्क्षण—

तीस कलाओंका नाम १ ॥ क्षण १ ॥

—स्तेतु मुहूर्त्तौ द्वादशास्त्रियाम् १ ॥

बारह क्षणोंका नाम १ ॥ मुहूर्त्त १ ॥ १ ॥

ते तु त्रिंशद्द्वारात्रः—

तीस मुहूर्त्तोंका नाम १ ॥ अहारात्र १ ॥

पक्षस्ते दक्षपञ्च च ॥

पंद्रह दिनरातका नाम १ ॥ पक्ष १ ॥

पक्षौ पूर्वापरौ शुक्लकृष्णौ—

पक्ष दो हैं १ ॥ शुक्ल १ कृष्ण २ ॥

—मासस्तु तावुभौ ॥ १२ ॥

दो पक्षोंका नाम १ ॥ मास १ ॥ १ ॥ २ ॥

द्वौ द्वौ मार्गादिमासौ स्यादतु—

मार्गशीर्षादि दो दो मासोंका नाम

१ ॥ ऋतु १ ॥

—स्वैरयनं त्रिभिः ॥

तीन ऋतुओंका नाम १ ॥ अयन १ ॥

अयने द्वे गतिरुदमदक्षिणार्कस्य

दो अयनोंके २ भेद ॥ उत्तरायण १ ॥

दक्षिणायन २ ॥

—वत्सरः ॥ १३ ॥

दो अयनोंका नाम १ ॥ वत्सर १ ॥ १ ॥

समरात्रिन्दिषे काले विपुसदि

पूर्वं च तत् ॥

त्रिसमें दिनरात समान होते हैं

उस सक्रान्ति (गुहा और मय) के

नाम २ ॥ विपुसत् १ विपुस २ ॥

मार्गशीर्षे सहा मार्ग आमहा

यणिकञ्च स* ॥ १४ ॥

अगहन महानेके नाम ४ ॥ मार्ग-

शीर्षे १ सहस्र २ मार्ग ३ आमहा

यणिक ४ ॥ १४ ॥

पौषे त्रैपसहस्यौ द्वौ—

पूसमासके नाम ३ ॥ पौष १ त्रैप २ सहस्य ३ ॥

—तषा माघेऽ

माघमासके नाम २ ॥ तषपत् १ माघ २ ॥

—थ फाल्गुने ॥

स्यात्तपस्याः फाल्गुनिक—

फाल्गुनमासके नाम ३ ॥ फाल्गुन

१ तपस्य २ फाल्गुनिक ३ ॥

—स्यात्त्रैत्रे चैत्रिको मधुः ॥ १५ ॥

चैत्रमासके नाम ३ ॥ चैत्र १

चैत्रिक २ मधु ३ ॥ १५ ॥

वैशाखे माघवो राघो—

वैशाखमासके नाम ३ ॥ वैशाख

१ माघ २ राघ ३ ॥

—ज्येष्ठे शुक्—

ज्येष्ठके नाम २ ॥ ज्येष्ठ १ शुक् २ ॥

—शुधित्स्वयम् ॥

भाषादे—

आषाढमासके नाम २ ॥ शुचि १
आषाढ २ ॥

—श्रावणे तु स्यान्नभाः

श्रावणिकश्च सः ॥ १६ ॥

श्रावणमासके नाम ३ ॥ श्रावण १
नभस् २ श्रावणिक ३ ॥ १६ ॥

स्युर्नभस्यः प्रौष्ठपदभाद्रभाद्र-
पदाः समाः ॥

भाद्रो मासके नाम ४ ॥ नभस्य १
प्रौष्ठपद २ भाद्र ३ भाद्रपद ४ ॥

स्यादाश्विन इषोप्याश्वयुजोऽपि—

कारमासके नाम ३ ॥ आश्विन १
इष २ आश्वयुज ३ ॥

—स्यात्तु कार्तिके ॥ १७ ॥

वाहुल्योर्जौ कार्तिकिको—

कार्तिकमासके नाम ४ ॥ कार्तिक
१ ॥ १७ ॥ वाहुल्य २ ऊर्ज ३
कार्तिकिक ४ ॥

हेमन्तः—

अगहन पूस माससे सिद्ध हई ऋतुका
नाम १ ॥ हेमन्त १ ॥

—शिशिरोऽस्त्रियाम् ॥

माघ फाल्गुनसे सिद्ध हई ऋतुका
नाम १ ॥ शिशिर १ ॥

वसन्ते पुष्पसमयः सुरभि—

चैत्र वैशाखसे सिद्ध ऋतुके नाम ३ ॥
वसन्त १ पुष्पसमय २ सुरभि ३ ॥

—ग्रीष्म ऊष्मकः ॥ १८ ॥

निदाघ उष्णोपगम उष्ण

ऊष्मागमस्तपः ॥

ज्येष्ठ आषाढके समयके नाम ७ ॥
ग्रीष्म १ ऊष्मक २ ॥ १८ ॥ निदाघ ३
उष्णोपगम ४ उष्ण ५ ऊष्मागम ६ तप ७ ॥

स्त्रियां प्रावृट् स्त्रियां भूम्नि वर्षा—
सावन भाद्रोके ऋतुके नाम २ ॥

प्रावृट् १ वर्षा २ ॥

—अथ शरत् स्त्रियाम् ॥ १९ ॥

कार कार्तिकके समयका नाम १
शरद् १ ॥ १९ ॥

षडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां
युगैः क्रमात् ॥

मार्गशीर्ष आदि दो २ महीनोंके
ये छः ऋतु होतेहैं ॥

संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनो-
ऽस्त्री शरत्समाः ॥ २० ॥

वर्षके नाम ६ ॥ संवत्सर १ वत्सर
२ अब्द ३ हायन ४ शरद् ५ समा
६ ॥ २० ॥

मासेन स्यादहोरात्रः पैत्रो—

मनुष्योंके एकमहीनेका पितरोंका
दिनरात्रि होता है ॥

—वर्षेण दैवतः ॥

और एकवर्षका देवताओंका दिन-
रात्रि होता है ॥

दैवे युगसहस्रे द्वे ब्राह्मः—
 देवोंके दो हजार युगका ब्रह्माका
 दिनरात्रि होता है ॥

—कल्पौ तु सौ वृणाम् ॥२१॥

उन दो युगसहस्रोंका मनुष्योंका
 कल्प कहतेहैं ब्रह्माका दिन मनुष्योंका
 स्थितिकाळ और ब्रह्माकी रात्रि मनुष्यों
 का प्रलयकाळ होता है ॥ २१ ॥

मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगाना
 मेकसप्ततिः ॥

इफइत्तर दिव्यवर्षका नाम १ ॥
 मन्वन्तर १ ॥

संवर्त प्रलयः कल्पः क्षयः
 कल्पान्त इत्यपि ॥ २२ ॥

प्रलयके नाम १ ॥ संवर्त १ प्रलय
 २ कल्प ३ क्षय ४ कल्पान्त ५ ॥२२॥

अस्त्री पंक्तं पुमान्पाप्मा पार्ष
 किलिषपकस्मपम् ॥ कट्यर्षं वृजि
 नेनोऽधर्महो दुरितदुष्कृतम् ॥२३॥

पापके नाम १२ ॥ पक १ पाप्मन्
 २ पाप ३ किलिष ४ कस्मप ५ कट्य
 ६ वृजि ७ एनम् ८ अय ९ अधर्म
 १० दुरित ११ दुष्कृत १२ ॥२३॥

स्याद्दर्ममतिषां पुण्यश्रेयसी
 मुहूर्तं वृष ॥

धर्मके नाम १ ॥ धर्म १ पुण्य २
 श्रेयस् ३ मुहूर्त ४ वृष ५ ॥

मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षप्रमोदामो
 दसंमदाः ॥ २४ ॥ स्यादानन्दयु
 रानन्दः क्षमशातसुखानि च ॥

हर्षके नाम १२ ॥ मुत् १ प्रीति २
 प्रमद ३ हर्ष ४ प्रमोद ५ आमोद ६
 सम्मद ७ ॥ २४ ॥ आनन्दयु ८ आ
 नन्द ९ शर्मन् १० शात ११ सुख १२ ॥

श्वश्रेयसं शिव भद्रं कल्याणं
 मगलं शुभम् ॥ २५ ॥

मायुकं भविकं भव्यं कुशल
 क्षेममस्त्रियाम् ॥ शस्तं चा-

कल्याणके नाम १२ ॥ श्वश्रेयस्
 १ शिव २ भद्र ३ कल्याण ४ मंगल
 ५ शुभ ६ ॥ २५ ॥ मायुक ७ भविक ८
 भव्य ९ कुशल १० क्षेम ११ शस्त १२ ॥

—अथ त्रिषु द्रव्ये पार्ष पुण्यं
 सुखादि च ॥ २६ ॥

पाप और पुण्यशब्द तथा
 सुखशब्दसं लकर शस्तशब्द पयत जो
 शब्दहैं वो यदि द्रव्यवाचक हों तो
 तीनों ङिगोमें हातहैं ॥ २६ ॥

मतल्लिका मचर्धिका मका
 ण्डमुटवत्तजो ॥ मशस्तवाचका
 न्यम्-

अच्छेके नाम ९ ॥ मतल्लिका १
मर्चचिका २ प्रकाण्ड ३ उद्ध ४
तल्लज ९ ॥

—न्ययः शुभावहो विधिः ॥ २७ ॥

शुमकारक विधिका नाम १ ॥

अय १ ॥ २७ ॥

दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री
नियतिर्विधिः ॥

भाग्यके नाम ६ ॥ दैव १ दिष्ट २ भाग-
धेय ३ भाग्य ४ नियति ५ विधि ६ ॥

हेतुर्ना कारणं बीज-

कारणके नाम ३ ॥ हेतु १ कारण
२ बीज ३ ॥

—निदानं त्वादिकारणम् ॥ २८ ॥

आदिकारणका नाम १ ॥ निदान १ ॥ २ ॥

क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः-

चैतन्यके नाम ३ ॥ क्षेत्रज्ञ १
आत्मन् २ पुरुष ३ ॥

—प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम् ॥

प्रकृतिके नाम २ ॥ प्रधान १
प्रकृति २ ॥

विशेषः कालिकोऽवस्था-

उमरका नाम १ ॥ अवस्था १ ॥

—गुणाः सत्त्वं रजस्तमः ॥ २९ ॥

गुणोंके नाम ३ ॥ सत्त्व १ रजस्
२ तमस् ३ ॥ २९ ॥

जनुर्जननजन्मानि जनिरुत्पत्ति-
रुद्भवः ॥

जन्मके नाम ६ ॥ जनुम् १ जनन
२ जन्मन् ३ जनि ४ उत्पत्ति ५ उद्भव ६ ॥

प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तु-
जन्युशरीरिणः ॥ ३० ॥

प्राणीके नाम ६ ॥ प्राणिन् १
चेतन २ जन्मिन् ३ जन्तु ४ जन्यु
५ शरीरिन् ॥ ६ ॥ ३० ॥

जातिर्जातं च सामान्यं-

जातिमात्रके नाम ३ ॥ जाति १
जात २ सामान्य ३ ॥

—व्यक्तिस्तु पृथगात्मता ॥

व्यक्तित्राचकके नाम २ ॥ व्यक्ति
१ पृथगात्मता २ ॥

चित्तं तु चेतो हृदयं स्वांतं
हृन्मानसं मनः ॥ ३१ ॥

मनके नाम ७ ॥ चित्त १ चेतस्
२ हृदय ३ स्वान्त ४ हृद् ५ मानस
६ मनस् ७ ॥ ३१ ॥

इति कालवर्गः ॥ ४ ॥

अथ धीवर्गः ९.

बुद्धिर्मनीषा विषणा धीः प्रज्ञा
शेमुषी मतिः ॥ प्रेक्षोपलब्ध्याश्चि-
त्संवित्प्रातिपञ्जासिचेतनाः ॥ १ ॥

द्वैवे युगसहस्रे द्वे ब्राह्म'-

द्वौके दो हजार युगका ब्रह्माका
दिनरात्रि होता है ॥

-कल्पौ तु तौ नृणाम् ॥२१॥

उन दो युगसहस्रौका मनुष्योका
कल्प कहतेहैं ब्रह्माका दिन मनुष्योका
स्मितिकाळ और ब्रह्माकी रात्रि मनुष्यो
का प्रलयकाळ होता है ॥ २१ ॥

मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगाना
मेकसप्तति' ॥

इकहत्तर दिव्यवर्षका नाम १ ॥
मन्वन्तर १ ॥

संवर्त' प्रलय' कल्प क्षय'
कल्पान्त इत्यपि ॥ २२ ॥

प्रलयके नाम १ ॥ संवर्त १ प्रलय
२ कल्प ३ क्षय ४ कल्पान्त १ ॥२२॥

अखी र्षक पुमान्पाप्मा पापं
किलिपकल्पमपम् ॥ कल्पं वृमि
नेनोऽयमहो दुरितदुष्कृतम् ॥२३॥

पापके नाम १२ ॥ र्षक १ पाप्मन्
२ पाप ३ किलिप ४ कल्पम ५ कल्प
६ वृमि ७ एनम् ८ अय ९ अहम्
१ दुरित ११ दुष्कृत १२ ॥२३॥

स्याद्धर्ममखियां पुण्यश्रेयसी
सुकृतं वृष' ॥

धर्मके नाम १ ॥ धर्म १ पुण्य २

श्रेयस् ३ सुकृत ४ वृष १ ॥

सुत्प्रीति' प्रमदो हर्षममोदामो
वसमदा' ॥ २४ ॥ स्यादानन्दसु
रानन्द' शर्मशातसुरवानि च ॥

हर्षके नाम १२ ॥ सुव १ प्रीति २
प्रमद ३ हर्ष ४ प्रमोद ५ आमोद ६
सम्पद ७ ॥ २४ ॥ आनन्दयु ८ आ
नन्द ९ शर्मन् १० शात ११ सुव १२ ॥

श'श्रेयसं शिव मद्रं कल्याण
मंगलं शुभम् ॥ २५ ॥

भायुर्क भविक मर्ष्य कुशल
क्षेममखियाम् ॥ अस्वं चा-

कल्याणके नाम १२ ॥ श'श्रेयस्
१ शिव २ मद्र ३ कल्याण ४ मंगल
५ शुभ ६ ॥ २५ ॥ भायुर्क ७ भविक ८
मर्ष्य ९ कुशल १० क्षेम ११ शास्त १२ ॥

-ज्य त्रिषु वृष्ये पापं पुण्यं
सुखादि च ॥ २६ ॥

पाप और पुण्यशब्द तथा
सुखशब्दसे उक्त शास्त्रशब्द पर्यंत जो
शब्दहैं वो यदि प्रत्यक्षशब्द हों हों
तीनों छिगोमें होतेहैं ॥ २६ ॥

मत्तल्लिका मर्षाधिका मका
ण्डमुटतल्लजी ॥ मशस्तबाघका
न्यमू-

मुक्तिः कैवल्यनिर्वाणश्रेयोनिः-

श्रेयसामृतम् ॥ ६ ॥

मोक्षोऽपवर्गो-

मोक्षके नाम ८ ॥ मुक्ति १ कैवल्य
२ निर्वाण ३ श्रेयस ४ निश्रेयस ५
अमृत ६ ॥ ६ ॥ मोक्ष ७ अपवर्ग ८ ॥

-ऽथाज्ञानमविद्याहंमतिः स्त्रियाम् ॥

अज्ञानके नाम ३ ॥ अज्ञान १
अविद्या २ अहम्मति ३ ॥

रूपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्च-
विषया अमी ॥ ७ ॥

गोचरा इन्द्रियार्थाश्च-

पञ्चविषयोके नाम ९ ॥ रूप १
शब्द २ गन्ध ३ रस ४ स्पर्श ५ ॥ ७ ॥

इकहे रूपरसादिके नाम ३ ॥
विषय १ गोचर २ इन्द्रियार्थ ३ ॥

-हृषीकं विषयीन्द्रियम् ॥

इन्द्रियके नाम ३ ॥ हृषीक १
विषयि २ इन्द्रिय ३ ॥

कर्मेन्द्रियं तु पाय्वादि-

कर्मेन्द्रियोके नाम ॥ गुदा १ आदि ॥

-मनोनेत्रादि धीन्द्रियम् ॥ ८ ॥

ज्ञानेन्द्रियोके नाम २ ॥ मनस १ नेत्र
२ आदि ॥ ८ ॥

तुवरस्तु कषायोऽस्त्री मधुरो
लवणः कटुः ॥ तिक्तोऽम्लश्च रसाः
पुंसि-

छः रसोंके नाम ६ ॥ तुवर-
कषाय १ मधुर २ लवण ३ कटु ४
तिक्त ५ अम्ल ६ ॥

-तद्रत्सु षडमी त्रिषु ॥ ९ ॥

कषाय आदि रसवाचक शब्द यदि
द्रव्यवाचक होयें तो तीनों लिंगोंमें
होते हैं ॥ ९ ॥

विमर्दोत्ये परिमलो गन्धे जन-
मनोहरे ॥

मनुष्योंके मनको हरनेवाले घिसनेसे
उत्पन्न हुए सुगन्धका नाम १ ॥ परिमल १ ॥

आमोदः सोऽतिनिर्हारी-

अत्यन्त मनको हरनेवाले सुगंधिका
नाम १ ॥ आमोद १ ॥

-वाच्यलिङ्गत्वमागुणात् १०

यहासे लेकर "गुणे शुक्लादयः पुंसि",
इससे पहले जो शब्द है वह वाच्यलिंग
अर्थात् विशेष्यलिंग होते हैं ॥ १० ॥

१ मनः कर्णस्तथा नेत्र रसना च

त्वचा सह । नासिका चति षट् तानि धीन्द्रि-
याणि प्रचक्षते ॥ भाषा-मन १ कर्ण २
नेत्र ३ जिह्वा ४ त्वचा ५ और नासिका
यह ६ ज्ञानेन्द्रिय (धीन्द्रिय) हैं ॥

१ पायूपस्थे पाणिपादौ वाक्चेतीन्द्रिय-
सग्रहः । भाषा-पायु १ उपस्थ २
पाणि ३ पाद ४ और वाक् ५ यह पांच
कर्मेन्द्रिय हैं ॥

बुद्धिके नाम १४ ॥ बुद्धि १
मनीषा २ विष्णा ३ घी ४ प्रज्ञा ५
शामुपी ६ मति ७ प्रेक्षा ८ उपलब्धि
९ चित् १० संविद् ११ प्रतिपद्
१२ इति १३ चतना १४ ॥ १ ॥

धीर्घारणावती मेघा-

कडीहुई वार्धको धारण रखने
वाली बुद्धिका नाम १ ॥ मेघा १ ॥

-संकल्प' कर्म मानसम् ॥

मन्त्री कामनाका नाम १ ॥ संकल्प १ ॥

चिन्तामोगो मनस्कार-

किसी वस्तुमें चिन्तके तत्पर हो जाने
के नाम २ ॥ चिन्तामोग १ मनस्कार २ ॥

अर्चा संख्या विचारणा ॥ २ ॥

विचारके नाम ३ ॥ चर्चा १

संख्या २ विचारणा ३ ॥ २ ॥

अध्याहारस्तक ऊहों-

अपूरनेचारके नाम ३ ॥ अध्या
हार १ तर्क २ ऊह ३ ॥

-विचिकित्ता तु सशय ॥

संवेहदापरी घा-

संवेहके नाम ४ ॥ विचिकित्ता
१ सशय २ संवेह ३ आपर ४ ॥

-ऽथ समी निर्णयनिश्चयो ॥ ३ ॥

निश्चय-० नाम २ ॥ निर्णय १
निश्चय २ ॥ ३ ॥

मिथ्यादृष्टिर्नास्तिकता-

परलोकको मिथ्या ज्ञाननेके नाम २ ॥

मिथ्यादृष्टि १ नास्तिकता २ ॥

-व्यापादो द्रोहचिन्तनम् ॥

परद्रोहके नाम २ ॥ व्यापाद १

द्रोहचिन्तन २ ॥

समो सिद्धान्तराद्धान्तौ-

निश्चयकरी हुई बातके नाम २ ॥

सिद्धान्त १ रासान्त २ ॥

-भ्रान्तिर्मिथ्यामतिर्भ्रमः ॥ ४ ॥

भ्रमके नाम ३ ॥ भ्रान्ति १

मिथ्यामति २ भ्रम ३ ॥ ४ ॥

संविदागू प्रतिज्ञानं नियमा

श्रवसश्रवाः ॥ अङ्गीकाराम्युपगम

प्रतिश्रवसमाधय ॥ ५ ॥

प्रतिज्ञाके नाम १० ॥ संविद् १

आगू २ प्रतिज्ञान ३ नियम ४ आश्रय

५ श्रवण ६ अङ्गीकार ७ अम्युपगम

८ प्रतिश्रवण-९ समाधि १० ॥ ५ ॥

मीसे धीज्ञान-

मोक्षमें बुद्धिखानेका नाम १ ॥

ज्ञान ॥ १ ॥

मन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः ॥ १

मोक्षमें अन्यत्र विज्ञानशास्त्रयोः और

शास्त्रमें बुद्धिखानेका नाम १ ॥

विज्ञान १ ॥

मुक्तिः कैवल्यनिर्वाणश्रेयोनिः-

श्रेयसामृतम् ॥ ६ ॥

मोक्षोऽपवर्गो-

मोक्षके नाम ८ ॥ मुक्ति १ कैवल्य
२ निर्वाण ३ श्रेयस ४ निश्रेयस ५
अमृत ६ ॥ ६ ॥ मोक्ष ७ अपवर्ग ८ ॥

-ऽथाज्ञानमविद्याहंमतिः स्त्रियाम् ॥

अज्ञानके नाम ३ ॥ अज्ञान १
अविद्या २ अहम्प्रति ३ ॥

रूपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्च-
विषया अमी ॥ ७ ॥

गोचरा इन्द्रियार्थाश्च-

पञ्चविषयोंके नाम ९ ॥ रूप १
शब्द २ गन्ध ३ रस ४ स्पर्श ५ ॥ ७ ॥

इकडे रूपरसादिके नाम ३ ॥
विषय १ गोचर २ इन्द्रियार्थ ३ ॥

-हृषीकं विषयीन्द्रियम् ॥

इन्द्रियके नाम ३ ॥ हृषीक १
विषयि २ इन्द्रिय ३ ॥

कर्मेन्द्रियं तु पादवादि-

कर्मेन्द्रियोंके नाम ॥ गुदा १ आदि ॥

-मनोनेत्रादि धीन्द्रियम् ॥ ८ ॥

१ पायूपस्थे पाणिपादौ वाक्चेतीन्द्रिय-
सग्रहः । भापा-पायु १ उपस्थ २
पाणि ३ पाद ४ और वाक् ५ यह पाच
कर्मेन्द्रिय हैं ॥

ज्ञानेन्द्रियोंके नाम २ ॥ मनस १ नेत्र
२ आदि ॥ ८ ॥

तुवरस्तु कषायोऽस्त्री मधुरो
लवणः कटुः ॥ तिक्तोऽम्लश्च रसाः
पुंसि-

छः रसोंके नाम ६ ॥ तुवर-
कषाय १ मधुर २ लवण ३ कटु ४
तिक्त ५ अम्ल ६ ॥

-तद्वत्सु षडमी त्रिषु ॥ ९ ॥

कषाय आदि रसवाचक शब्द यदि
द्रव्यवाचक होयें तो तीनों लिंगोंमें
होते हैं ॥ ९ ॥

विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे जन-
मनोहरे ॥

मनुष्योंके मनको हरनेवाले घिसनेसे
उत्पन्न हुए सुगन्धका नाम १ ॥ परिमल १ ॥

आमोदः सोऽतिनिर्हारी-

अत्यन्त मनको हरनेवाले सुगंधिका
नाम १ ॥ आमोद १ ॥

-वाच्यलिङ्गत्वमागुणात् १०

यहासे लेकर "गुणे शुक्लादयः पुंसि",
इससे पहले जो शब्द हैं वह वाच्यलिंग
अर्थात् विशेष्यलिंग होते हैं ॥ १० ॥

१ मन. कर्णस्तथा नेत्र रसना च
त्वचा सह । नासिका चेति षट् तानि धीन्द्रि-
याणि प्रचक्षते ॥ भापा-मन १ कर्ण २
नेत्र ३ जिह्वा ४ त्वचा ५ और नासिका
यह ६ ज्ञानेन्द्रिय (धीन्द्रिय) हैं ॥

समाकर्षीं तु निर्हारी-
 दूषीति जिसको गन्ध आये उसके
 नाम २ ॥ समाकर्षिन् १ निर्हारिन् २ ॥
 -सुरमिघ्राणतर्पण* ॥
 इष्टगन्ध* सुगन्धि* स्या-
 आत्युत्तमगन्धके नाम ४ ॥ सुरमि १
 घ्राणतर्पण २ इष्टगन्ध ३ सुगन्धि ४ ॥
 -दामोदी मुखवासन ॥ ११ ॥
 मुखको सुगन्धितकरनेवाले ताम्र छ
 आदिकी गन्धके नाम २ ॥ दामो-
 दिन् १ मुखवासन २ ॥ ११ ॥
 पूतिगन्धिस्तु दुर्गन्धो-
 दुर्गन्धके नाम २ ॥ पूतिगन्धि १
 दुर्गन्ध २ ॥
 -विस्र स्यादामगन्धि यत् ॥
 कञ्च मंस्तादिके गन्धका नाम १ ॥
 विम् १ ॥
 शुक्लशुभ्रशुचिश्चेतविशदस्येत
 पाण्डुराः ॥ १२ ॥ अवदातः
 सितो गौरो बलक्षो धवलोज्जुनः ॥
 उज्ज्वलके नाम १३ ॥ शुक्ल १ शु-
 भ्र २ शुचि ३ श्वेत ४ विशद ५ श्वेत
 ६ पाण्डुर ७ ॥ १२ ॥ अवदात ८ सित
 ९ गौर १ (व) छशु ११ धवल
 १२ अर्जुन १३ ॥
 हरिण* पाण्डुर* पाण्डु-

कुष्ठ पीलापनमिछेहुय सफेदवर्णके
 नाम ३ ॥ हरिण १ पाण्डुर २ पाण्डु ३
 -रीपत्पाण्डुस्तु धूसर* ॥ १३ ॥
 किञ्चित् उज्ज्वल नाम १ ॥
 धूसर १ ॥ १३ ॥
 कृष्णो नीलासितस्यामकाल
 श्यामलमेवका* ॥
 काले वर्णके नाम ७ ॥ कृष्ण १
 नील ३ अस्तित ३ श्याम ४ काल ५
 श्यामल ६ मेवका ७ ॥
 पीतो गौरो हरिद्राम*-
 पीले वर्णके नाम ३ पीत १ गौर
 २ हरिद्राम ३ ॥
 -पालाशो हरितो हरित् १४ ॥
 हरेवर्णके नाम ३ पालाश १ हरित
 २ हरित् ३ ॥ १४ ॥
 रोहितो लोहितो रक्तः-
 लालवर्णके नाम ३ ॥ रोहित १
 लोहित २ रक्त ३ ॥
 -शोण* कोकनदच्छवि* ॥
 लाल कमलके समानवर्णके नाम
 २ ॥ शोण १ कोकनदच्छवि २ ॥
 अथ्यक्तरागस्त्वरुणः-
 पीले लालका नाम १ ॥ अथ्य १ ॥
 -श्वेतरक्तस्तु पाटलः ॥ १५ ॥

मिलेहुए सफेद और लालवर्णका
नाम १ ॥ पाटल १ ॥ १५ ॥

श्यावः स्यात्कपिशो- /

मिले हुए काले और पीले रगके
नाम २ ॥ श्याव १ कपिश २ ॥

-धूम्रधूमलौ कृष्णलोहिते ॥

मिलेहुए काले और लालवर्णके नाम
३ ॥ धूम्र १ धूमल २ कृष्णलोहित ३ ॥

कडारः कपिलः पिङ्गपिशंगौ
कद्रुपिङ्गलौ ॥ १६ ॥

वानरकेसे रगके नाम ६ ॥ कडार १
कपिल २ पिङ्ग ३ पिशङ्ग ४ कद्रु ५
पिङ्गल ६ ॥ १६ ॥

चित्रं किर्मीरकल्माषशबलैताश्च
कर्चुरे ॥

चित्रवर्णके नाम ६ ॥ चित्र १ किर्मीर
२ कल्माष ३ शबल ४ एत ५ कर्चुरे ६ ॥

गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणि-
लिङ्गास्तु तद्वति ॥ १७ ॥

गुणवाचक शुक्ल आदि शब्द पुल्लिङ्ग
होते हैं, और द्रव्यवाचकशब्द द्रव्यके
अनुसार लिङ्गमें होते हैं ॥ १७ ॥

इति धीवर्गः ॥ ५ ॥

अथ शब्दादिवर्गः ६.

ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वा-
ग्वाणी सरस्वती ॥

सरस्वतीके नाम ७ ॥ ब्राह्मी १
भारती २ भाषा ३ गिर्, गिरा ४ वाच्
५ वाणी ६ सरस्वती ७ ॥

व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं
वचनं वचः ॥ १ ॥

बोलनेके नाम ६ ॥ व्याहार १
उक्ति २ लपित ३ भाषित ४ वचन ५
वचस् ॥ ६ ॥ १ ॥

अपभ्रंशोऽपशब्दः स्या—

अपभ्रष्ट अर्थात् व्याकरणकी रीतिसे
अशुद्ध शब्दका नाम १ ॥ अपभ्रश १ ॥

-च्छास्त्रे शब्दस्तु वाचकः ॥

व्याकरणशास्त्रानुसार शुद्धशब्दका
नाम १ ॥ शब्द १ ॥

तिङ्सुबन्तचयो वाक्यं क्रिया वा
कारकान्विता ॥ २ ॥

तिङन्तसुबन्तके समूह और कारक
युक्त क्रियाका नाम १ ॥ वाक्य १ ॥ २ ॥

श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी-
वेदके नाम ४ ॥ श्रुति १ वेद २
आम्नाय ३ त्रयी ४ ॥

-धर्मस्तु तद्विधिः ॥

वेदमें कहीहुई सध्या तर्पण आदि
विधिका नाम १ ॥ धर्म १ ॥

त्रियामृक्सामयजुषी—
 षडौके नाम २ ॥ ऋक् १ यजुस् २
 सामन् ३ ॥

—इति वेदाख्यस्त्रयी ॥ ३ ॥
 इहो तीनों षडौका इच्छा नाम १ ॥
 प्रयी १ ॥ ३ ॥

शिक्षेत्पादि भ्रुतेरु—
 केके छः अंगोंके नाम १ ॥ शिक्षा
 १ कल्प २ व्याकरण ३ निष्क ४
 स्योविष ५ छन्दस् ६ ॥

भौंकारप्रणवीं समी ॥
 भौंकारके नाम २ ॥ भौंकार १
 प्रणव २ ॥

इतिहास' पुरावृत्त—
 इतिहासके नाम २ ॥ इतिहास १
 पुरावृत्त २ ॥

मुदाचाद्यास्त्रयः स्वराः ॥ ४
 उदाच अनुदाच स्वरितका नाम
 १ ॥ स्वर १ ॥ ४ ॥

आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्वर्क-
 विद्यार्थशास्त्रयो ॥
 तर्कविद्याका नाम १ ॥ आन्वीक्षिकी १ ॥
 अर्थशास्त्रका नाम १ ॥ दण्डनीति १ ॥

आरूप्यापित्रीपलम्भ्यार्था—
 भिक्षा अर्थ जान लिया हो उस
 कथाके नाम २ ॥ आरूप्यापित्री १
 उपलम्भ्यार्था २ ॥

—पुराण पञ्चलक्षणम् ॥ ५ ॥
 पुराणोंके नाम २ ॥ पुराण १
 पञ्चलक्षण २ ॥ ५ ॥

प्रबन्धकल्पना कथा—
 कल्पना करी हुई कादम्बरी आदि
 कथाके नाम २ ॥ प्रबन्धकल्पना १
 कथा २ ॥

—प्रबहिका प्रहेलिका ॥
 जिसके सुननेसे मतलब जाना
 जाय और विचार करनेसे दूसरा मत
 लब निकले उस (कहानी) के नाम
 २ ॥ प्रबहिका १ प्रहेलिका २ ॥

'स्मृतिस्तु धर्मसंहिता—
 धर्म जनानेको रचना किये हुए स्तो
 त्रोंके स्मृतिके नाम १ ॥ स्मृति १
 धर्मसंहिता २ ॥

—समाह्वतिस्तु समहः ॥ ६ ॥
 समहके नाम २ ॥ समाह्वति १ स-
 मह २ ॥ ६ ॥

समस्या तु समाचार्यो—
 जिसमें कुछ अर्थ पूरा किया जाय
 उसके नाम २ ॥ समस्या १ समाचार्यो २ ॥

—किन्वन्ती अनश्रुतिः ॥
 लोकप्रवाद अर्थात् दुर्यशके नाम २ ॥
 किन्वन्ती १ अनश्रुति २ ॥
 नार्ता प्रवृत्तिवृत्तान्त उदन्त
 स्या—

मधैवताः ॥ पञ्चमश्रेत्यमी सप्तत-
न्त्रीकण्ठोत्थिताः स्वराः ॥ १ ॥

वीणासे वा कठसे उत्पन्न होनेवाले
स्वरोके नाम ७ ॥ निषाद १ ऋषभ २
गान्धार ३ षड्ज ४ मध्यम ५ धैवत ६
पञ्चम ७ ॥ १ ॥

काकली तु कले सूक्ष्मे-

सूक्ष्मशब्दका नाम १ ॥ काकली १ ॥

-ध्वनौ तु मधुरास्फुटे ॥

कलो-

मीठी और अस्फुट आवाजका नाम
१ ॥ कल १ ॥

-मन्द्रस्तु गम्भीरे-

गभीर शब्दका नाम १ ॥ मन्द्र १ ॥

-तारोऽत्युच्चै-

अत्युच्च शब्दका नाम १ ॥ तार १ ॥

-स्त्रयस्त्रिषु ॥ २ ॥

कल आदि तीन शब्द तीनों लिंगों-
में होतेहैं ॥ २ ॥

समन्वितलयस्त्वेकतालो-

वाद्यगानादिके एकसग तालस्वरका
नाम १ ॥ एकताल १ ॥

-वीणा तु वल्लकी ॥

विपश्ची

वीणाके • म ३ ॥ वीणा १ वल्लकी
२ विपश्ची ३ ॥

-सा तु तन्त्रीभिः सप्ताभिः परि-
वादिनी ॥ ३ ॥

सात तारोंसे बोलनेवाली वीणाका
नाम १ ॥ परिवादिनी १ ॥ ३ ॥

ततं वीणादिकं वाद्य-

वीणादिक वाजेका नाम १ ॥ तत १ ॥

-मानद्धं मुरजादिकम् ॥

मृदगआदि वाजेका नाम १ ॥ मानद्ध १ ॥

वंशादिकं तु सुषिरं-

वशीआदिवाजेका नाम १ ॥ सुषिर १ ॥

-कांस्यतालादिकं घनम् ॥ ४ ॥

झांझ मजीरा आदि वाजेका नाम

१ ॥ घन १ ॥ ४ ॥

चतुर्विधमिदं वाद्यं वादित्रातोद्य-

नामकम् ॥

तत आदि चारों वाजोंका इकट्ठा

नाम ३ ॥ वाद्य १ वादित्र २ आतोद्य ३ ॥

मृदङ्गा मुरजा-

मृदगके नाम २ ॥ मृदग १ मुरज २ ॥

-भेदास्त्वङ्ग्यालिङ्गयोर्ध्वका-

स्त्रयः ॥ ५ ॥

मृदगके भेद ३ ॥ अङ्गय १ आ-

लिङ्गय २ ऊर्ध्वक ३ ॥ ५ ॥

स्याद्यशःपटहो ढक्का-

नगाढके नाम २ ॥ यशःपटह १

ढक्का २ ॥

-भेर्यामानकदुन्दुमी ॥
 घोसानफीरि आदिके नाम १ ॥
 मेरी १ आनक २ दुन्दुमि ३ ॥
 आनक पटहोप्ली स्या-
 घोळके नाम २ ॥ आनक १ पटह २ ॥
 -स्कोणो वीणादिवादनम् ॥ ६ ॥
 जिस्से वीणादि बजातहें उस मक्की
 आदिका नाम १ ॥ कोण १ ॥ ६ ॥
 वीणावण्डः प्रबालः स्या-
 वीणाकी बंडीका नाम १ ॥ प्रबाल १ ॥
 -त्कुरुमस्तु प्रसेवक ॥
 वीणाके नीचे जो गोल गोल घर्म
 से मटाहुआ होताहै उसके नाम २ ॥
 कबुम १ प्रसेवक २ ॥
 कोलम्बकस्तु कायोऽस्या-
 वीणाके सर्वांगका नाम १ ॥ कोलम्बक १ ॥
 उपनाहो निबन्धनम् ॥ ७ ॥
 वीणामें बडा तार बांधे जातेहैं उसके
 नाम २ ॥ उपनाह १ निबन्धन २ ॥ ७ ॥
 वाद्यप्रभेदा इमरुमहुडिण्डिम
 शर्शरा ॥ मर्वल पणबोऽप्ये च
 इमरुका नाम १ ॥ इमरु १ ॥ बडे
 इमरुका नाम १ ॥ महु १ ॥ डिण्डि
 मका नाम १ ॥ डिण्डिन १ ॥ शोषका
 नाम १ ॥ शर्शर १ ॥ तथा मर्वल
 पणब आदि और भी बान हैं १ ॥

-नर्तकीलासिके समे ॥ ८ ॥
 नाचनेवालीके नाम २ ॥ नर्तकी १
 लासिका २ ॥ ८ ॥
 धिलम्बितं ध्रुवं मध्यं तत्त्वमोवो
 धन क्रमात् ॥
 धीरे धीरे नाचका नाम १ ॥ तत्त्व
 १ ॥ शीघ्र नाचका नाम १ ॥ ओघ
 १ ॥ मध्यम नाचकर नाम १ ॥ धन १ ॥
 तालः कालक्रियामान-
 समय और क्रियाके प्रमाणका
 नाम १ ॥ ताल १ ॥
 -छय साम्य-
 बाना और नाचका एक संग ताल
 छूटनेका नाम १ ॥ छय १ ॥
 -मघास्त्रियाम् ॥ ९ ॥
 भाषा-इस्से आगे कहे ये शब्द
 लीलिया वाची नहीं भर्थात् पुँलिया
 मपुस्का लिया वाची होत हैं ॥ ९ ॥
 ताण्डवं नटनं नाट्यं छास्यं नृत्यं
 च नर्तने ॥
 नाचके नाम ६ ॥ ताण्डव १ नटन
 २ नाट्य ३ छास्य ४ नृत्य ५ नर्तन ६ ॥
 वीर्यश्रिकं नृत्यगीतवाद्य मान्य
 मिव श्रयम् ॥ १० ॥

नाच गीत बाजा इन तीनके इकट्ठे
नाम २ ॥ तौर्यत्रिक १ नाट्य २ ॥ १० ॥

भ्रुकुंसश्च भ्रुकुंसश्च भ्रुकुंसश्चेति
नर्त्तके ॥ स्त्रीवेषधारी पुरुषो-

स्त्रीवेषधारी नाचनेवाले पुरुषके नाम ३ ॥
भ्रुकुस १ भ्रुकुस २ भ्रुकुस ३ ॥

नाट्योक्तौ गणिकाज्जुका १ १
केवल नाटकमें नाचने गानेवाली

घेश्याका नाम १ ॥ अज्जुका १ ॥ ११ ॥
भगिनीपतिरावुत्तो-

बहनोईका नाम १ ॥ भावुत्त १ ॥
-भावो विद्वा-

विद्वान्का नाम १ ॥ भाव १ ॥
नथावुकः ॥

जनको-
पिताका नाम १ ॥ आवुक १ ॥

युवराजस्तु कुमारे
भर्तृदारकः ॥ १२ ॥

युवराजके नाम २ ॥ कुमार १ भर्तृ-
दारक २ ॥ १२ ॥

राजा भट्टारको देव-
राजाके नाम २ ॥ भट्टारक १ देव २ ॥

-स्तत्सुता भर्तृदारिका ॥
राजकन्याका नाम १ ॥ भर्तृदारिका १ ॥

देवी कृताभिषेकाया-
अभिषेक की हुई रानीका नाम १ ॥
देवी १ ॥

-मितरासु तु भट्टनी ॥ १३ ॥
अन्य राजद्विरीयोका नाम १ ॥

भट्टनी १ ॥ १३ ॥
अब्रह्मण्यमवध्योक्तौ-

अवध्य वचनका नाम १ ॥ अब्र
ह्मण्य १ ॥

-राजश्यालस्तु राष्ट्रियः ॥
राजाके शालेका नाम १ ॥ राष्ट्रिय १ ॥

अम्बा माता-
माताके नाम २ ॥ अम्बा १ मातृ २ ॥

-ऽथ बाला स्याद्वासु-
कुमारीके नाम २ ॥ बाला १ वासु २ ॥

रार्यस्तु मारिषः ॥ १४ ॥
श्रेष्ठके नाम २ ॥ आर्य १ मारिष २ ॥ १४ ॥

अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा-
जेठी बहनका नाम १ ॥ अत्तिका १ ॥

-निष्ठा निर्वहणे समे ॥
नाटककी सधियोके नाम २ ॥ निष्ठा १
निर्वहण २ ॥

हण्डे हञ्जे हलाहाने नीचां चे-
टीं सर्वा प्रति ॥ १५ ॥

नीचस्त्रीके पुकारनेमें हण्डे १ ॥
चेटीके पुकारनेमें हजे १ ॥ सखीके

पुकारनेमें हला १ ॥ १५ ॥
अंगहारोंगविक्षेपो-

लचकनेके नाम २ ॥ अगहार १
अगविक्षेप २ ॥

—अ्यञ्जकामिनयौ समौ ॥

भाव धतानके नाम २ ॥ अ्यञ्जक १
अमिनय २ ॥

निवृत्ति त्वङ्गसत्त्वाभ्या द्वे त्रि-
प्याङ्गिकसात्त्विके ॥ १६ ॥

मोह मटकानेका नाम १ ॥ आंगिक
१ ॥ अन्त करणके भाषका नाम १ ॥
सात्त्विक १ ॥ १६ ॥

शृङ्गारवीरकरुणाद्भुतहास्यभया
नकाः ॥ भीमत्सरौद्रौ च रसाः—

दश रसोक्ति नाम १० ॥ शृङ्गार १
वीर २ करुण ३ अद्भुत ४ हास्य ५
भयानक ६ भीमत्स ७ रौद्र ८
(शांति ९ वात्सल्य १०)

—शृङ्गारं शुचिरुज्ज्वलं ॥ १७ ॥

शृङ्गारके भाव ३ ॥ शृङ्गार १
शुचि २ उज्ज्वल ३ ॥ १७ ॥

उत्साहवर्धनो वीरः—

वीररसर्ष नाम २ ॥ उत्साहवर्धन १
वीर २ ॥

—कारुण्यं फरुणा घृणा ॥

कृपादयानुक्रम्या स्यादनुक्रोशो
करुणा रसके नाम ७ ॥ कारुण्य १
करुणा २ घृणा ३ कृपा ४ दया ५ अनु-
क्रम्या ६ अनुक्रोश ७ ॥

—ऽप्यथो हसः ॥ १८ ॥

हासो हास्य च—

हास्य २ रसके नाम ३ ॥ हास १ ॥ १८ ॥
हास हास्य ३ ॥

—यीमत्स विकृत त्रिष्विदं द्रयम् ॥
भीमत्स रसके नाम २ ॥ भीमत्स १

विकृत २ ॥

विस्मयोऽद्भुतैर्माश्रयं चित्र—

अद्भुतरसके नाम ४ ॥ अद्भुत १
आश्रय २ विस्मय ३ चित्र ४ ॥

—मप्यथ भैरवम् ॥ १९ ॥

दारुण मीपण भीष्मं घोरं भीम
मयानकम् ॥ भयंकरं प्रतिमय—

मयानकरसके नाम ९ ॥ भैरव १ ॥
॥ १९ ॥ दारुण २ मीपण ३ भीष्म ४
घोर ५ भीम ६ मयानक ७ भयंकर ८
प्रतिमय ९ ॥

रौद्रं तूय—

रौद्ररसके नाम २ ॥ रौद्र १ उग्र २ ॥
—ममी त्रिषु ॥ २० ॥

चतुर्दश—

अत्रादि चौदह शब्द द्रम्यवाचक
हो तो त्रिषु निशब्धि आनना २० ॥

—दरस्थासो भोतिर्भो साध्वसं
भयम् ॥

भयके नाम ६ ॥ दर १ त्रास २

भीति ३ भी ४ साध्वस ५ भय ६ ॥

विकारो मानसो भावो-

मनके विकारका नाम १ ॥ भाव १ ॥

-ऽनुभावो भावबोधकः ॥ २१ ॥

भावप्रकाशकका नाम १ ॥ अनु-

भाव १ ॥ २१ ॥

गर्वोऽभिमानोऽहंकारो-

अहकारके नाम १ ॥ गर्व १ अभि-

मान २ अहकार ३ ॥

-मानश्चित्तसमुन्नतिः ॥

वडप्पनका नाम १ ॥ मान १ ॥

अनादरः परिभवः परीभावस्तिर-
स्क्रिया ॥ २२ ॥ रीढावमानना-
वज्ञावहेलनमसूर्क्षणम् ॥

निरादरके नाम २ ॥ अनादर १ परि

भव २ परीभाव ३ तिरस्क्रिया ४ ॥

॥ २२ ॥ रीढा ५ अवमानना ६ अव-

ज्ञा ७ अवहेलन ८ असूर्क्षण ९ ॥

मन्दाक्षं हीस्त्रपा व्रीडा लज्जा-

लज्जाके नाम ५ ॥ मन्दाक्ष १ हीर

त्रपा ३ व्रीडा ४ लज्जा ५ ॥

-सापत्रपान्यतः ॥ २३ ॥

दूसरेसे लज्जानेके नाम १ ॥ अप-

त्रपा १ ॥ २३ ॥

क्षान्तिस्तितिक्षा-

क्षमाके नाम २ ॥ क्षान्ति १ तितिक्षा २ ॥

-ऽभिध्यातुपरस्यविषयेस्पृहा ॥

परधनलेनेकी इच्छाका नाम १ ॥

अभिध्या १ ॥

अक्षान्तिरीर्ष्या-

ईर्ष्याका नाम २ ॥ अक्षान्ति १ ईर्ष्या २ ॥

-ऽसूया तु दोषारोपो गुणे-

ष्वपि ॥ २४ ॥

पराये गुणोका दोष प्रसिद्ध करनेका

का नाम १ ॥ असूया १ ॥ २४ ॥

वैरं विरोधो विद्वेषो-

वैरके नाम ३ ॥ वैर १ विरोध २

विद्वेष ३ ॥

मन्युशोकौ तु शुक् स्त्रियाम् ॥

शोकके नाम ३ ॥ मन्यु १ शोक

२ शुक् ३ ॥

पश्चात्तापोऽनुतापश्च विप्रतीसार

इत्यापि ॥ २५ ॥

पछित्तानेके नाम ३ ॥ पश्चात्ताप १

अनुताप २ विप्रतीसार ३ ॥ २५ ॥

कोपक्रोधामर्षरोषप्रतिघा रुद्रकुधौ

स्त्रियौ ॥

क्रोधके नाम ७ ॥ कोप १ क्रोध २

अमर्ष ३ रोष ४ प्रतिघा ५ रुद्र ६ कुध ७ ॥

धर्मसे चलायमान होनेके अथवा
बाळकोंके घुटुओंसे चञ्चलके नाम २ ॥
विज्ञान १ स्वच्छन २ ॥

स्वाभिद्रा शयन स्वापः स्वप्न
सवेश इत्यादि ॥ ३६ ॥

शयन करनेके नाम १ ॥ निद्रा १
शयन २ स्वाप ३ स्वप्न ४ सवेश ५ ॥ ३६ ॥

तन्द्री प्रमीला-
ओंचनेके नाम २ ॥ तन्द्री १ प्रमीला २ ॥

भ्रुकुटिर्भ्रुकुटिर्भ्रुकुटिः स्त्रियाम् ॥
कोषसहित मौह चञ्चानेके नाम ३ ॥

भ्रुकुटि १ भ्रुकुटि २ स्त्रुकुटि ३ ॥
अदृष्टिः स्यादसौम्येक्षिण-

भ्रुकुटिका नाम १ ॥ अदृष्टि १ ॥
-सिद्धिप्रकृती त्विमे ॥ ३७ ॥

स्वरूप च स्वभावश्च निसर्गश्चा
स्वभावके नाम ५ ॥ संसिद्धि १ प्रकृति २
॥ ३७ ॥ स्वप्न ३ स्वभाव ४ निसर्ग ५ ॥

-ऽय वेपथुः ॥
-कम्पो-

कापन्क नाम २ ॥ वेपथु १ कम्प २ ॥
-ऽय क्षण उदर्या मह उद्व
उत्तवः ॥ ३८ ॥

उत्सन्न नाम ५ ॥ क्षण १ उदर्या २
मह ३ उद्व ४ उत्सन्न ५ ॥ ३८ ॥

इति नाट्यभागः ॥ ७ ॥

अथ पातालभोगिवर्गः ८

अधोमुवनपातालं बलिसस रसा
सलम् ॥ नागलोको-

पातालके नाम ५ ॥ भवोमुवन १ पाता
ल २ बलिसस ३ रसा ४ नागलोक ५ ॥

-ऽय कुहर सुपिर विवर विल
म ॥ १ ॥ छिद्रं निर्घ्ययनं रोक
रन्ध्र चभ्रं वपा शुपिः ॥

छिद्रक नाम १ ॥ कुहर १ सुपिर २
विवर ३ विल ४ ॥ १ ॥ छिद्र ५ निर्घ्ययन ६

रोक ७ रन्ध्र ८ चभ्र ९ वपा १० शुपि ११ ॥

गर्तावटी सुवि चभ्रे-
पृष्ठीक गडहेके नाम २ ॥ गर्त १ ॥

चभ्रे २ ॥
-सरन्ध्रे सुपिरं त्रिपु ॥ २ ॥

छेद्युक्त वस्तुका नाम १ ॥ सुपिर
१ ॥ २ ॥

अन्धकारोऽस्त्रिया ध्वान्त तमिस्र
तिमिरं तमः ॥

अन्धकारके नाम ५ ॥ अन्धकार १
ध्वान्त २ तमिस्र ३ तिमिर ४ तमस ५ ॥

ध्वान्ते गाढेऽन्धतमस-
आपस्त अन्धकारका नाम १ ॥ अन्ध
तमस १ ॥

-शीणवतमसं-

थोडी अन्धियारीका नाम १ ॥
सन्तमस १

—तमः ॥ ३ ॥

विष्वक्सन्तमसं—

सत्र और फैले हुए अधकारका नाम

॥ सन्तमस १ ॥ ३ ॥

—नागाः काद्रवेया—

फन और पूछवाले मनुष्याकार
पोंके नाम २ ॥ नाग १ काद्रवेय २ ॥

स्तदीश्वरः ॥ शेषोऽनन्तो—

शेषनागके नाम २ ॥ शेष १ अनन्त २ ॥

—वासुकिस्तु सर्पराजो—

सर्पराजके नाम २ ॥ वासुकि १
सर्पराज २ ॥

५थ गोनसे ॥ ४ ॥ ४४३

तिलित्सः स्या—

गौकी समान नासिकावाले सर्पके
नाम २ ॥ गोनस १ ॥ ४ ॥
तिलित्स २ ॥

—अजगरे शयुर्वाहस इत्युभौ ॥

अजगरके नाम ३ ॥ अजगर १
शयु २ वाहस ३ ॥

अलगदौ जलव्यालः—

पानीके सर्पके नाम २ ॥ अल-
र्द १ जलव्याल २ ॥

समौ राजिलडुण्डुभौ ॥ ५ ॥

द्विमुही सर्पके नाम २ ॥ राजिल
१ डुण्डुम २ ॥ ५ ॥

मालुधानो मातुलाहि—

चीतेसर्पके नाम २ ॥ मालुधान
१ मातुलाहि २ ॥

निर्मुक्तो मुक्तकंचुकः ॥

कैचुलीके छोडेघुए सब सर्पोंके
नाम २ ॥ निर्मुक्त १ मुक्तकचुक २

सर्पः पृदाकुर्भुजगो भुजङ्गोऽहिर्भु-
जंगमः ॥ ६ ॥ आशीविषो विष-

धरश्चक्री व्यालः सरीसृपः ॥
कुण्डली गूढपाच्चक्षुःश्रवाः काको-

दरः फणी ॥ ७ ॥ दर्वीकरो
दीर्घपृष्ठो दन्दशूको विलेशयः ॥

उरगः पन्नगो भोगी जिह्वगः
पवनाशनः ॥ ८ ॥

सर्पके नाम २५ ॥ सर्प १ पृदाकु २
भुजग ३ भुजग ४ अहि ५ भुजगम

६ ॥ आशीविष ७ विषधर ८ चक्रिन्
९ व्याल १० सरीसृप ११ कुण्डलिन् १२

गूढपाद् १३ चक्षुःश्रवस् १४ काकोदर
१५ फणिन् १६ ॥ ७ ॥ दर्वीकर १७

दीर्घपृष्ठ १८ दन्दशूक १९ विलेशय
२० उरग २१ पन्नग २२ भोगिन्
२३ जिह्वग २४ पवनाशन २५ ॥ ८ ॥

धर्मसंघाद्यमान होनेके अथवा
घातकोके घुटुओंस चट्ठके नाम २ ॥
विज्ञान १ स्वच्छन २ ॥

स्याभिद्रा शयनं स्वाप स्वम
संवेश इत्यापि ॥ ३६ ॥

शयन करनेके नाम १ ॥ निद्रा १
शयन २ स्वाप ३ स्वप्न ४ संवेश ५ ॥ ३६ ॥

चन्द्री प्रमीला-

ओघनके नाम २ ॥ चन्द्री १ प्रमीला २ ॥

भ्रुकुटिर्भ्रुकुटिर्भ्रुकुटिःस्त्रियाम् ॥

क्रोबसहित मौह शठानके नाम ३ ॥

भ्रुकुटि १ भ्रुकुटि २ भ्रुकुटि ३ ॥

अद्यष्टिः स्यादसौम्येक्षिण-

शूरदृष्टिका नाम १ ॥ अद्यष्टि १ ॥

-सधिक्षिमकृषी त्विमे ॥ ३७ ॥

स्वरूप घ स्वभावश्च निसर्गश्चा

स्वभावके नाम १ ॥ संसिद्धि १ प्रकृति २

॥ ३७ ॥ स्वरूप ३ स्वभाव ४ निसर्ग ५ ॥

-ऽथ वेपथुः ॥

-कम्पो-

कांपनेके नाम २ ॥ वेपथु १ कम्प २ ॥

-ऽथ क्षण उद्वर्षो मह उद्भव

उत्सवः ॥ ३८ ॥

उत्सवके नाम १ ॥ क्षण १ उद्वर्ष २

मह ३ उद्भव ४ उत्सव ५ ॥ ३८ ॥

इति नाट्यवर्गः ॥ ७ ॥

अथ पातालभोगि-

अधोमुवनपातालं वा

सलम् ॥ नागलोका-

पातालके नाम १ ॥ म्

छन्दस्त्रिष्वन् ३ रसात्

-ऽथ कुहर सुपि-

म् ॥ १ ॥ छिद्र वि

रन्ध्र स्वप्न वपा सु

छदके नाम १ ॥

विवर ३ विड ४ ॥ १ ॥

रोक ७ रन्ध्र ८ स्वप्न ९ वपा

गतायतौ सुवि

पृथ्वीके गडहके ना

भवट २ ॥

-सरन्ध्रे सुपिरः

छेद्युक्त वस्तुका

१ ॥ २ ॥

अन्धकारोऽस्त्रियाम्

विमिरं तमः ॥

अन्धकारके नाम

पान्त २ तमिस ३ ति

ध्वान्ते गाढेऽन्ध

अत्यन्त अथकार

तमस १ ॥

-क्षीणेऽवतमस-

नरकमे जवरदस्ती ढकेलनेके नाम

२ ॥ विष्टि १ आजू २ ॥

-कारणा तु यातना तीव्रवेदना ॥

नरककी पीडाके नाम ३ ॥ कारणा

१ यातना २ तीव्रवेदना ३ ॥

पीडावाधाव्यथादुःखमामनस्यं

प्रसूतिजम् ॥ ३ ॥ स्यात्कष्टं

कृच्छ्रमाभीलं-

पीडाके नाम ९ ॥ पीडा १ वाधा

२ व्यथा ३ दुःख ४ आमनस्य ५

प्रसूतिज ६ ॥ ३ ॥ कष्ट ७ कृच्छ्र ८

आभील ९ ॥

-त्रिष्वेषां भेद्यगाभि यत् ॥ ४ ॥

इन शब्दोंमें जो द्रव्यवाचक हो

वह तीनों लिंगोंमें होते हैं ॥ ४ ॥

इति नरकवर्गः ॥ ९ ॥

अथ वारिवर्गः १०.

समुद्रोब्धिरकूपारः पारावारः

सारित्पतिः ॥ उदन्वानुदधिः

सिन्धुः सरस्वान्सागरोऽर्णवः ॥ १ ॥

रत्नाकरो जलनिधिर्यादःपतिरपां-

पतिः ॥

समुद्रके नाम १५ ॥ समुद्र १

अब्धि २ अकूपार ३ पारावार ४ सारि-

त्पति ५ उदन्वत् ६ उदधि ७ सिन्धु

८ सरस्वत् ९ सागर १० अर्णव

३

११ ॥ १ ॥ रत्नाकर १२ जलनिधि १३

यादःपति १४ अपाम्पति १५ ॥

तस्य प्रभेदाः क्षीरोदो लवणो-

दस्तथापरे ॥ २ ॥

समुद्रके भेद ७ ॥ क्षीरोद १

लवणोद २ (इक्षुरसोद ३सुरोद ४दधि-

मण्डोद ५ स्वाद्द ६ घृतोद ७) ॥ २ ॥

आपः स्त्री भूमि वार्वारि सलिलं

कमलं जलम् ॥ पयः कीलालम-

मृतं जीवनं भुवनं वनम् ॥ ३ ॥

कवन्धमुदकं पाथः पुष्करं सर्व-

तोमुखम् ॥ अम्भोऽर्णस्तोयपानी-

यनीरक्षीराम्बु शम्बरम् ॥ ४ ॥

मेघपुष्पं घनरस-

जलके नाम २७ ॥ अप् १ वार

२ वारि ३ सलिल ४ कमल ५ जल

६ पयस ७ कीलाल ८ अमृत ९

जीवन १० भुवन ११ वन १२ ॥

॥ ३ ॥ कवन्ध १३ उदक १४ पाथस्

१५ पुष्कर १६ सर्वतोमुख १७ अम्मस्

१८ अर्णस् १९ तोय २० पानीय

२१ नीर २२ क्षीर २३ अम्बु २४

शम्बर २५ ॥ ४ ॥ मेघपुष्प २६

घनरस २७ ॥

-स्त्रिषु द्वे आप्यमम्मयम् ॥

जलविकारके नाम २ ॥ आप्य १

अम्मय २ ॥

भङ्गस्तङ्ग ऊर्मिर्वा स्त्रिया	उस पारका नाम १ ॥ पार १ ॥
वीचि-	इस पारका नाम १ ॥ अवार १ ॥
जङ्गी तरंगके नाम ४ ॥ भग १	-पार्श्वं वदन्तरम् ॥
तरंग २ ऊर्मि ३ वीचि ४ ॥	नदीके पाटका नाम १ ॥ पात्र १ ॥
-रपोर्मिषु ॥ ५ ॥	टीपोऽस्त्रियामन्तरीयं यदन्त
महत्सुष्टोलकष्टोलौ-	वारिणस्तटम् ॥ ८ ॥
वहीतरंगके नाम २ ॥ ५ ॥	केके नाम २ ॥ शीप १ ॥ अन्त-
उष्टोळ १ कष्टोळ २ ॥	रीप २ ॥ ८ ॥
-स्पादावर्षोऽम्मर्षा भ्रम ॥	-तीपोस्थिव वत्पुलिन-
जङ्गी ममरका नाम १ ॥ आर्ष १ ॥	उच्चावेका नाम १ ॥ पुच्छिन १ ॥
पृपन्ति विन्दुपृपठा पुमासो	-सैकर्त सिक्तामपम् ॥
विपुष स्त्रियाम् ॥ ६ ॥	वालुकाधिकस्थानक नाम २ ॥
विन्दुओंके नाम ४ ॥ पृपत् १	सैकल १ सिक्तामप २ ॥
विन्दु २ पृपत् ३ विपुष ४ ॥ ६ ॥	निषदरस्तु जम्बालः पंकोऽञ्जी
घक्राणि पुटमेदा स्तु-	शादकर्दमौ ॥ ९ ॥
ममरपङ्कज अङ्के नीषेकी जानेके	भोदा (कीच) के नाम ५ ॥
नाम २ ॥ चक्र १ पुटमेद २ ॥	निषदर १ जम्बाल २ पंक ३ शाद
-ध्रमाश्च जलनिर्गमा ॥	४ कर्दम ५ ॥ ९ ॥
जङ्क निकलनेके जालके नाम	जलोष्वासाः परीवाहा-
२ ॥ भ्रम १ जलनिर्गम २ ॥	उच्छजनेके नाम २ ॥ जलोष्वास
कूल रोषश्च तीरं च प्रतीर च	१ परीवाह २ ॥
वर्तं त्रिषु ॥ ७ ॥	-कूपकास्तु विदारका ॥
नदीके किनारेके नाम ५ ॥ कूल	बूहा (सुबी नदीके गडह) के नाम
१ रोषत् २ तीर ३ प्रतीर ४	२ ॥ कूल १ विदारक २ ॥
वर्त ५ ॥ ७ ॥	नाव्य त्रिलिङ्गं नीवायै-
पारावाते परावाची तीरे-	नीकासे उत्तरनेके योग्य अञ्जा
	नाम १ ॥ नाव्य १ ॥

स्त्रियां नौस्तरणिस्तरिः ॥ १० ॥
 नावके नाम ३ ॥ नौ १ तरणि २
 तरि ३ ॥ १० ॥

उडुपं तु प्लवः कोलः—

घनईके नाम ३ उडुव १ प्लव ३
 कोल ३ ॥

—स्रोतोऽम्बुसरणं स्वतः ॥

स्रोतका नाम १ ॥ स्रोतस् १ ॥

आतरस्तरपण्यं स्या—

उतराईके नाम २ ॥ आतर १
 तरपण्य २ ॥

—द्रोणीकाष्ठाम्बुवाहिनी ॥ ११ ॥

पत्थर वा काष्ठनिर्मित नौकाके
 खेडीके नाम २ ॥ द्रोणी १ काष्ठाम्बु-
 वाहिनी २ ॥ ११ ॥

सांयात्रिकः पोतवणिक्—

नाव लादनेवाले उद्यमीके नाम २ ॥
 सांयात्रिक १ पोतवणिक् २ ॥

—कर्णधारस्तुनाविकः ॥

खेवा लगानेवालेके नाम २ ॥ कर्ण-
 धार १ नाविक २ ॥

नियामकाः पोतवाहाः—

जो नौकाके पीछे खडाहुआ लकडी
 छुमाया करताहै उसके नाम २ निया-
 मक १ पोतवाह २ ॥

—कूपको गुणवृक्षकः ॥ १२ ॥

जिस खूटेमें नौका बाधी जातीहै उसके
 नाम २ ॥ कूपक १ गुणवृक्षक २ ॥ १२ ॥

नौकादण्डः क्षेपणी स्या—

पाता (नौकाके दोनो पसवाडोंमें
 बधेहुए चलानेके काष्ठ) के नाम २ ॥
 नौकादण्ड १ क्षेपणी २ ॥

—दरित्रं केनिपातकः ॥

करिया (नौकाको पीठमें लगे हुए
 चलानेके काष्ठ) के नाम २ ॥ दरित्र
 १ केनिपातक २ ॥

अग्निः स्त्री काष्ठकुदालः—

नौका साफ करनेके कुदालके नाम
 २ ॥ अग्नि १ काष्ठकुदाल २ ॥

—सेकपात्रं तु सेचनम् ॥ १३ ॥

जिससे नावका जल उलीचा जाता
 है उसके नाम २ ॥ सेकपात्र १ सेचन
 २ ॥ १३ ॥

ह्यीवेऽर्धनावं नावोऽर्धे—

आधीनावका नाम १ ॥ अर्धनाव १ ॥

—ऽतीतनौकेऽतिनु त्रिषु ॥

जो नावलायक जल न हो उसका
 नाम १ ॥ अतिनु १ ॥

त्रिष्वागाधात्—

अगाध शब्दपर्यंत जितने शब्द हैं

वे तीनों लिंगोंमें चलतेहैं ॥

—प्रसन्नोऽच्छ—

निर्मलजङ्गलके नाम २ ॥ प्रसन्न १
अच्छ २ ॥

—कल्पपोनच्छ आविल— ॥ १४ ॥

मैले जङ्गलके नाम ३ ॥ कल्प १
मनच्छ २ आविल ३ ॥ १४ ॥

निम्न गमीर गम्भीर—

गहरे जङ्गलके नाम ३ ॥ निम्न १
गमीर २ गम्भीर ३ ॥

—मुत्तानं तद्विपर्यय ॥

घाहजङ्गलका नाम १ ॥ उत्तान १ ॥
अगाधमतलस्पर्श—

अयाह जङ्गलके नाम २ ॥ अगाध १
मतलस्पर्श २ ॥

—केवर्ते दाशधीवरौ ॥ १५ ॥

मच्छाहके नाम ३ ॥ केवर्त १ दाश
२ धीवर ३ ॥ १५ ॥

आनायं पुंस्त्रिं जाळं स्या—

जाळने नाम २ ॥ आनाय १ जाळ २ ॥
—च्छणसूत्र पवित्रकम् ॥

शाणसूत्र जाळके नाम २ ॥ शाण
सूत्र १ पवित्रक २ ॥

मत्स्याधानी कुन्वेणी स्या—

जिममें मछली भरी जायें उस्के नाम
२ ॥ मत्स्याधानी १ कुन्वेणी २ ॥

—एडिशा मत्स्यवेचनम् ॥ १६ ॥

मछली पकवानेके कानेके नाम २ ॥

मडिशा १ मत्स्यवेचन २ ॥ १६ ॥

पृथुरोमाशपोमत्स्योमीर्नविसारि

णोऽण्डम ॥ विसारं शकुलीवा-

मछलीके नाम ८ ॥ पृथुरोम् १

शप २ मत्स्य ३ मीन ४ विसारिण ५

अण्डम ६ विसार ७ शकुलिन् ८ ॥

—ऽय गडकः शकुलार्भक— ॥ १७ ॥

मछलीके बबोंके नाम २ ॥ गडक १

शकुलार्भक २ ॥ १७ ॥

सहस्रदंष्ट्र पाठीन—

पन्हा मछलीके नाम २ ॥ सहस्रदंष्ट्र
१ पाठीन २ ॥

—उद्वपी शिशुकः समौ ॥

सूत मछलीके नाम २ ॥ उद्वपिन् १
शिशुक २ ॥

नलमीनश्चिडिधिमः—

चेन्हा मछलीके नाम २ ॥ नल
मीन १ चिडिधिम २ ॥

—प्रोष्ठी मु सफरी द्वयो— ॥ १८ ॥

सहरी मछलीके नाम २ ॥ प्रोष्ठी १
शफरी २ ॥ १८ ॥

धुद्राण्डमत्स्यसघात पोता

धान—
बबोंसे निकली हुई छोटी मछलीस

मूत्का नाम १ ॥ पोसाधान १ ॥

-मयो श्वाः ॥

रोहितो मद्गुर. शालो राजीवः
शकुलस्तिमिः ॥ १९ ॥ तिमि-
गिलादयंश्चा-

रोहूमछलीका नाम १ ॥ रोहित १ ॥
मगरी मछलीका नाम १ ॥ मद्गुर
१ ॥ सौरिमछलीका नाम १ ॥ शाल
१ ॥ राया मछलीका नाम १ ॥ राजीव
१ ॥ सौरा मछलीका नाम १ ॥
शकुल १ ॥ बडीभारी मछलीका नाम
१ ॥ तिमि १ ॥ १९ ॥ तिमिके
निगलनेवाली मछलीका नाम १ ॥
तिर्मिगिळ १ ॥ आदि ॥

-ऽथ यादांसि जलजन्तवः ॥

सर्वजलजन्तुओके नाम २ ॥ यादस्
१ जलजन्तु २ ॥

तद्भेदाः शिशुमारोद्रशंकवो म-
करादयः ॥ २०

शिरसका नाम १ ॥ शिशुमार १ ॥
ओदका नाम १ ॥ उद्र १ ॥ शफ़का
नाम १ ॥ शंकु १ ॥ मगरका नाम
१ ॥ मकर १ आदि ॥ २० ॥

स्यात्कुलीरः कर्कटकः-

कैकडाके नाम २ ॥ कुलीर १
कर्कटक २ ॥

-कूर्मे कमठकच्छपौ ॥

कछुहेके नाम ३ ॥ कूर्म १ कमठ

२ कच्छप ३ ॥

ग्राहोऽवहारो-

वडियालके नाम २ ॥ ग्राह १
अवहार २ ॥

-नक्रस्तु कुम्भीरो-

नाकेके नाम २ ॥ नक्र १ कुम्भीर २ ॥

-ऽथ महीलता ॥ २१ ॥

गण्डूपदः किचुलको-

कैचुवाके नाम ३ ॥ महीलता १
॥ २१ ॥ गण्डूपद २ किचुलक ३ ॥

-निहाका गोधिका समे ॥

गोहके नाम २ ॥ निहाका १
गोधिका २ ॥

रक्तपा तु जलौकायां स्त्रियां
भूमि जलौकसः ॥ २२ ॥

जोकके नाम ३ ॥ रक्तपा १ जलौका
२ जलौकस् ३ ॥ २२ ॥

मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः-

समुद्रकी सीपीके नाम २ ॥ मुक्ता-
स्फोट १ शुक्ति २ ॥

-शंखः स्यात्कम्बुरास्त्रियौ ॥

शखके नाम २ ॥ शख १ कम्बुर १ ॥

क्षुद्रशंखाः शंखनखाः-

छोटे शखके नाम २ ॥ क्षुद्रशख १
शंखनख २ ॥

-शम्बूका जलशुक्तयः ॥ २३ ॥

सर्व सीपीके नाम २ ॥ शम्भुक १
जलशुक्ति २ ॥ २७ ॥

मेके मङ्ककवर्षामूशाखूरमुवद
दुरा ॥

मेदूकके नाम १ ॥ मंक १ मम्भुक
२ वर्षामू ३ शाखूर ४ खूर ५ दर्दुर ६ ॥

शिली गण्डूपदी-
काशुके नाम २ ॥ शिली १
गण्डूपदी २ ॥

-मेकी वर्षाभ्यी-
मङ्ककके नाम २ ॥ मेकी १
वर्षाभ्यी २ ॥

-कमठी डुलि ॥ २८ ॥
कडुईक नाम २ ॥ कमठी १
डुलि २ ॥ २४ ॥

मद्गुरस्य भिया शङ्गी
शीगीका नाम १ ॥ शङ्गी १ ॥

-दुनामा दीघकीशिका ॥
शिकवाके नाम २ ॥ दुनामा १
दीघकीशिका २ ॥

जलागया जलाधारा-
तदागतीयादि सत्र जलाशयोके
नाम २ ॥ जलाशय १ ॥ जलाधार २ ॥

-तत्रागायजली हृद ॥ २९ ॥
वुन्दका नाम १ ॥ हृद १ ॥ २९ ॥
आहावस्तु निपान स्यादुपकृ
मजलागये ॥

कूपके निकटकी चरही (जलके
छिये बनाई हुई) के नाम २ ॥ आहाव
१ निपान २ ॥

पुंस्येवान्धुः प्राहेः कूप उदपान
तु पुंसि वा ॥ २६ ॥
कुम्के नाम ४ ॥ अण्डु १ प्राहे २
कुम् ३ उदपान ४ ॥ २६ ॥

नेमिस्रिकाऽस्य- ॥
कुरक्री पाठिकाका नाम १ ॥
त्रिका १ ॥

-वीनाहो मुखकण्ठनयस्य यत् ॥
पका जगतका नाम १ ॥ वीनाह १ ॥

पुष्कारिण्यां तु खात स्या-
घोषान ताळाबके नाम २ ॥
पुष्कारिणी १ खात २ ॥

-दत्तातं देवखातकम् ॥ २७ ॥
नही खोदेदुर ताळाबके नाम २ ॥
अखात १ देवखातक २ ॥ २७ ॥

पद्माकरस्त्रङ्गागोऽस्त्री-
त्रिम ताळाबके कम्ठ हों उसके
नाम २ ॥ पद्माकर १ तदाग २ ॥

-कामारः सरसो सर ॥
सामाग्य ताळाबके नाम ॥
कामार १ सरसो २ सर ३ ॥

वेगन्त पन्थल चान्पगरी-
छोगीताका नाम ३ ॥ वेगन्त
१ पन्थल २ चान्पगरी ३ ॥

—वापी तु दीर्घिका ॥ २८ ॥
वावडीके नाम २ ॥ वापी १ दी-
र्घिका ॥ २ ॥ २८ ॥

खेयं तु परिखा—
खाँचा (ग्वाही) के नाम २ ॥ खेय
१ परिखा २ ॥

—ऽऽधारस्त्वम्भनां यत्र धारणम् ॥
वाधका नाम १ ॥ आधार १ ॥

स्यादालवालमावालमावापो—
थाल्हाके नाम ३ ॥ आलवाल १
आवाल २ आवाप ३ ॥

—ऽथ नदी सरित् ॥ २९ ॥

तरङ्गिणी शैवलिनी तटिनी
हादिनी धुनी ॥ स्रोतस्वती द्वीप-
पवती स्रवन्ती निम्नगापगा ॥ ३० ॥

नदीके नाम १२ ॥ नदी १ सरित् २
॥ २९ ॥ तरगिणी ३ शैवलिनी ४ तटिनी
५ हादिनी ६ धुनी ७ स्रोतस्वती ८
द्वीपवती ९ स्रवन्ती १० निम्नगा ११
आपगा १२ ॥ ३० ॥

गङ्गा विष्णुपदी जह्नतनया सुरनि-
म्नगा ॥ भागीरथी त्रिपथगा त्रि-
स्रोता भीष्मसूरपि ॥ ३१ ॥

गगाजीके नाम ८ ॥ गगा १ वि-
ष्णुपदी २ जह्नतनया ३ सुरनिम्नगा ४
भागीरथी ५ त्रिपथगा ६ त्रिस्रोतस् ७
भीष्मम् ८ ॥ ३१ ॥

कालिन्दी सूर्यतनया यमुना
शमनस्वसा ॥

यमुनाके नाम ४ ॥ कालिन्दी १
सूर्यतनया २ यमुना ३ शमनस्वसृ ४ ॥

रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मे-
कलकन्यका ॥ ३२ ॥

नर्मदाके नाम ४ ॥ रेवा १ नर्मदा
२ सोमोद्भवा ३ मेकलकन्यका ४ ॥ ३२ ॥

करतोया सदानीरा—

गौरीविवाहमें जो कन्यादानजलसे
उत्पन्नहुई उस नदीके नाम २ ॥ करतो-
या १ सदानीरा २ ॥

—बाहुदाँ सैतवाहिनी ॥

सहस्रबाहुकी नदीके नाम २ ॥
बाहुदा १ सैतवाहिनी २ ॥

शतद्रुस्तु शुतुद्रिः स्या—

शतलजके नाम २ ॥ शतद्रु १ शुतुद्रि २ ॥

—द्विपाशा तु विपाद स्त्रियाम् ॥ ३३ ॥
व्यासनदीके नाम २ ॥ विपाशा १
विपाश २ ॥ ३३ ॥

शोणो हिरण्यवाहः स्या—

शोणभद्रके नाम २ ॥ शोण १
हिरण्यवाह २ ॥

—कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित् ॥
नहरका नाम १ ॥ कुल्या १ ॥

शरावती वैश्रवती चन्द्रभागा
सरस्वती ॥ ३४ ॥ कावेरी-

शरावतीका नाम १ ॥ शरावती १ ॥
वक्रक्रीका नाम १ ॥ वक्रक्री १ ॥ वि
नाशका नाम १ ॥ चन्द्रभागा १ ॥
सरस्वतीका नाम १ ॥ सरस्वती १ ॥ ३४ ॥
कावेरीका नाम १ ॥ कावेरी १ ॥

-सरितोऽन्याश्च-

शेर मी कौशिकी आदि नदियहिं ॥
-संभेद* सिन्धुसंगम* ॥
जहाँ एक नदी दूसरीसे मिलती है
उस संगमके नाम २ ॥ संभेद १
सिन्धुसंगम २ ॥

द्वयो* प्रणाली पयसः पवड्यां-
पनारका नाम १ ॥ प्रणाली १ ॥

-त्रिपु तूचरी ॥ ३५ ॥

भागो होनवाले दोनों शब्द तीनों
रिगोमें बरते हैं ॥ ३५ ॥

देविकायां सरय्यां च भवेदा
विकसारवौ ॥

देविका मदीमें जो २ उत्पन्न हों
उनका नाम १ ॥ दाविक १ ॥ सरयूमें
जो २ उत्पन्न हों उनका नाम १ ॥ सारव १ ॥

सौगन्धिकं तु कङ्कारं-

कुर्व(सप्याम खिञ्जेबाळ श्रेतकमक)
के नाम २ ॥ सौगधिक १ कङ्कार २ ॥

-हल्लक रक्तसंभ्यकम् ॥ ३६ ॥

हाल कुर्वके नाम २ ॥ हल्लक १
रक्तसंभ्यक २ ॥ ३६ ॥

स्यादुत्पल कुवलय-

कुमुदकमलताधारणके नाम २ ॥
उत्पल १ कुवलय २ ॥

-मय नीलाम्बुजन्म च ॥

इन्दीवर च नीलेस्मिन्-
काळे कमलके नाम २ ॥ नील
म्बुजन्म १ ॥ इन्दीवर २ ॥

-सिते कुमुदकैरवे ॥ ३७ ॥

उज्ज्वल कमलके नाम २ ॥ कुमुद
कैरव २ ॥ ३७ ॥

गालुकमेयां कन्द* स्या-

कमलोंके कन्दका नाम १ ॥ गालुक १ ॥
-द्वारिपर्णी तु कुम्भिका ॥

जळकुमीके नाम २ ॥ द्वारिपर्णी १
कुम्भिका २ ॥

जलनीलो तु शोवालं शैवलो

शवालके नाम २ ॥ जलनीली १
शेवाल २ शैवल ३ ॥

-श्र्य कुमुदती ॥ ३८ ॥

कुमुदिन्यां-

कुमुदिनी वा कुमुदयुक्त देशके नाम
२ ॥ कुमुदती १ ॥ ३८ ॥ कुमुदिनी २ ॥

-नखिन्यां तु पित्तिनीपत्तिनी

मुस्ता

कमलिनीके नाम ३ ॥ नलिनी १
विसिनी २ पद्मिनी ३ आदि ॥
वा पुंसि पद्मं नलिनमरविन्दं
महोत्पलम् ॥ ३९ ॥ सहस्रपत्रं
कमलं शतपत्रं कुशेशयम् ॥
पङ्केरुहं तामरसं सारसं सरसी-
रुहम् ॥ ४० ॥ विसप्रसूनराजी-
वपुष्कराम्भोरुहाणि च ॥

कमलमात्रके नाम १६ ॥ पद्म १
नलिन २ अरविन्द ३ महोत्पल ४ ॥ ३९ ॥
सहस्रपत्र ५ कमल ६ शतपत्र ७ कुशेशय
८ पङ्केरुह ९ तामरस १० सारस ११
सरसीरुह १२ ॥ ४० ॥ विसप्रसून १३
राजीव १४ पुष्कर १५ अम्भोरुह १६ ॥

पुण्डरीकं सिताम्भोज-

उज्ज्वलकमलके नाम २ ॥ पुण्ड-
रीक १ सिताम्भोज २ ॥

-मथ रक्तसरोरुहे ॥ ४१ ॥

रक्तोत्पलं कोकनदं-

लालकमलके नाम ३ ॥ रक्तसरो-
रुह १ ॥ ४१ ॥ रक्तोत्पल २ कोकनद ३ ॥

--नालो नाल--

कमलकी डांडीके नाम २ ॥ नाल
(पुंड्रिग) १ नाल (नपुंसकलिग) २ ॥

--मथास्त्रियाम् ॥

मृणालं विस-

मसीडके नाम २ ॥ मृणाल १ विस २ ॥
-मञ्जादिकदम्बे खण्डमस्त्रि-
याम् ॥ ४२ ॥

कमलादिके समूहका नाम १ ॥ खण्ड १ ॥
केवलभी नाम १ ॥ खण्ड १ ॥ ४२ ॥

करहाटः शिफाकन्दः-

कमलकी जडके नाम २ ॥ करहाट
१ शिफाकन्द २ ॥

-किंजल्कः केसरोऽस्त्रियाम् ॥

कमलपुष्पके मध्यमें जो झालर होती
है उसके नाम २ ॥ किंजल्क १ केसर २ ॥

संवर्तिका नवदलं-

कमलके नवे पत्तोंके नाम २ ॥
संवर्तिका १ नवदल २ ॥

-बीजकोशो वराटक. ॥ ४३ ॥

कमलाक्षके नाम २ ॥ बीजकोश
१ वराटक २ ॥ ४३ ॥

उक्तं स्वर्व्योमदिक्कालधशिब्दा-
दि सनाद्यकम् ॥ पातालभोगि-
नरकं वारि चैषां च सङ्गतम् ॥ ४४ ॥

इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गा-
नुशासने ॥ स्वरादिकाण्डः प्रथमः
साङ्ग एव समर्थितः ॥ १ ॥

इति श्रीमदमरसिंहविरचितामरकोशस्य
भाषाटीकायां वारिवर्गः ॥ १० ॥

॥ श्री ॥

अथ द्वितीयः काण्डः ।

अथ भूमिवर्गः १

वगा पृथ्वीपुरदमामृद्रनौषधि
मृगादिभिः ॥ चमसप्तशतदस्य

त्रै सांगोपांगैरिदोदिताः ॥ १ ॥

इस द्वितीय काण्डमें भूमिवर्ग १

पुरवर्ग २ देशवर्ग ३ वनोपशिवग ४

सिंहादिवर्ग ५ मनुष्यवर्ग ६ प्रकृतिवर्ग ७

धर्मवर्ग ८ वैश्ववर्ग ९ व्योम शब्दवर्ग

१० सांगोपांग कहेंगे ॥ १ ॥

भूमिमेरुखलानस्ता रसा विश्व

भरा स्थिरा ॥ घरा धरित्री घर

धि क्षोणिज्या काश्यपी क्षि

ति ॥ २ ॥ सर्वसहा वसुमती

वसुधोनी वसुधरा ॥ गोत्रा कुः

पृथिवी पृथ्वी दमावनिर्मेदिनी

मही ॥ ३ ॥

पृथ्वीके नाम २७ ॥ मू १ भूमि २

भवता ३ अनन्ता ४ रसा ५ विश्वम्भरा

६ स्थिरा ७ घरा ८ धरित्री ९ धरणि

१ क्षोणि ११ ज्या १२ काश्यपी १३

क्षिति १४ ॥ २ ॥ सर्वसहा १५ वसुमती

१ वसुधा १० उर्वी १८ वसुधरा १९

गात्रा २० कु २१ पृथिवी २२ पृथ्वी २३

दमा २४ अवनि २५ मेदिनी २६

मही २७ ॥ ३ ॥

मृन्मृत्तिका-

मिट्टीके नाम २ ॥ मृत् १ मृत्तिका २ ॥

-प्रकृता तु मृत्ता मृत्त्रा च

मृत्तिका ॥

अच्छी मिट्टीके नाम २ ॥ मृत्ता १

मृत्त्रा २ ॥

उर्वरा सर्वसम्पादना-

त्रित मिट्टीसे सब काम उपजै

उत्पन्न नाम १ ॥ उर्वरा १ ॥

-स्पादृष सारमृत्तिका ॥ ४ ॥

सारीमिट्टी अर्थात् नौनीक नाम

२ ॥ ऊप १ सारमृत्तिका २ ॥ ४ ॥

ऊषवातूपरो द्वावप्यन्यलिङ्गी-

अच्छरभूमिके नाम २ ॥ ऊषवा १

ऊषर २ ॥

-स्थल स्थली ॥

स्थलके नाम २ ॥ स्थल १ स्थली २ ॥

समानौ मरुधन्वानी-

निर्जल अर्थात् मरुदेशके नाम २ ॥

मरु १ धन्वन् २ ॥

—द्वे खिलाप्रहते समे ॥ ५ ॥

त्रि—

बिनजोते खेतके नाम २ ॥ खिल

१ अप्रहत २ ॥ ५ ॥

—ष्वथो जगती लोको विष्टुं
भुवनं जगत् ॥

जगत्के नाम ५ ॥ जगती १ लोक

२ विष्टु ३ भुवन ४ जगत् ५ ॥

लोकोयं भारतं वर्षे—

हिमालयसे दक्षिण, समुद्रसे उत्तरके
देशतक अर्थात् हिन्दुस्थानका नाम

१ ॥ भारतवर्ष- १ ॥

—शरावत्यास्तु योऽवधेः ॥ ६ ॥

देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य—

शरावती नदीके ॥ ६ ॥ पूर्व दक्षिण
देशका नाम १ ॥ प्राच्य १ ॥

—उदीच्यः पश्चिमोत्तरः ॥

शरावती नदीके पश्चिमोत्तरदेशका
नाम १ ॥ उदीच्य १ ॥

प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्या—

फारस रूस रूम आदि देशोंके
नाम २ ॥ प्रत्यन्त १ म्लेच्छदेश २ ॥

—न्मध्यदेशस्तु मध्यमः ॥ ७ ॥

विन्ध्याचलसे उत्तर हिमालयसे नाम १ ॥

दक्षिण कुर्क्षेत्रसे पूर्व प्रयागसे पश्चिम

देशके नाम २ ॥ मध्यदेश १ मध्यम

२ ॥ ७ ॥

आर्यावर्तः पुण्यभूमिर्मध्यं वि-
न्ध्यहिमालयोः ॥

बगालके समुद्रसे पश्चिम अरबसमु-
द्रसे पूर्व हिमाचलसे दक्षिण विन्ध्याच-

लसे उत्तर देशके नाम २ ॥ आर्यावर्त
१ पुण्यभूमि २ ॥

नीवृज्जनपदो—

राजाओंके वसाये हुए मगध आदि
देशोंके नाम २ ॥ नीवृत् १ जनपद २ ॥

—देशविषयौ तूपवर्त्तनम् ॥ ८ ॥

देशमात्रके नाम ३ ॥ देश १
विषय २ उपवर्त्तन ३ ॥ ८ ॥

त्रिष्वागोष्ठा—

गोष्ठपर्यंत जे शब्द हैं वे तीनी
लिगोमें होते हैं ॥

—नडप्राये नडान्नड्डल इत्यपि ॥

नडाधिकदेशके नाम २ ॥ नडत् १
नड्डल २ ॥

कुमुद्रान्कुमुदप्राये—

जहा बहुत कुमुद हों उस देशका
नाम १ ॥ कुमुद्रत् १ ॥

—वेतस्वान्वहुवेतसे ॥ ९ ॥

जहा बहुत वेत हो उस देशका
नाम १ ॥ वेतम्वत् १ ॥ ९ ॥

शाद्वलु शाद्वरिते—

जहाँ हरी भास हो उसका नाम १ ॥

शाद्वलु १ ॥

—सजम्बाले तु पक्विल ॥

जहाँ बहुत कृषि हो उस देशका

नाम १ ॥ पक्विल १ ॥

जलप्रायमनूप स्यात्पुंसि कच्छ

स्तथाविधः ॥ १० ॥

जहाँ बहुत पानी हो उस देशके

नाम १ ॥ जलप्राय १ अनूप २

कच्छ ३ ॥ १० ॥

श्री शर्करा शर्करिल शर्कराः

शर्करावति ॥

जहाँ रेत हा उस देशक नाम १ ॥

शर्करा १ शर्करिल २ शर्करा ३ शर्करा-

रावत् ४ ॥

देश पचादिमा—

ऊपर कहलए शर्करा आदि शब्दोंमें

पहले शर्करा १ और शर्करिल यह

दोनों देशकेही नाम हैं ॥

वेवमुशेया सिकन्तावति ११ ॥

इसीप्रकार सिकन्ता १ और सिक

तिल यह शब्द भी रेतयुक्त देशकेही

नाम हैं ॥ ११ ॥

दशो नद्यम्बुवृष्टयम्बुसपसव्री

द्विपालित ॥ स्यान्नदीमातृको

नद्यमातृकश्च भयात्मकम् ॥ १२ ॥

जहाँ केकड़ नदीसकसे खेत सींच

जाय बर्या न होतीहो उस देशका

नाम १ ॥ नदीमातृक १ ॥ जहाँ

बर्षाकेही जलसे सींचे जाय उसका

नाम १ ॥ देवमातृक १ ॥ १२ ॥

धुरासि देशे राजन्वान्स्या—

धर्मात्मा राजाके देशका नाम १ ॥

राजन्वत् १ ॥

—सप्तोऽन्यत्र राजवान् ॥

सामान्य राजाके देशका नाम १ ॥

राजन्वत् १ ॥

गोष्ठं गोस्थानक—

गोष्ठके नाम २ ॥ गोष्ठ १ गोस्थान २ ॥

—वत्तु गौष्ठीन मूतपूषकम् ॥ १३ ॥

जहाँ पूँकेखलमें गाँधे रखी हों उसका

नाम १ ॥ गौष्ठीन १ ॥ १३ ॥

पर्पन्तमू परिसरा—

नदी पर्वतादिके समीपकी भूमिके

नाम २ ॥ पर्पन्तमू १ परिसर २ ॥

—सेवुराखी खियां—

पुलके नाम २ ॥ सेतु १ आडि २ ॥

—पुमान् ॥

नामद्वय नाहुश्च वर्त्मकम्

पुनपुलकम् ॥ १४ ॥

बर्मके नाम ३ ॥ बामद्वर १ नाहु

बर्मीक ३ ॥ १४ ॥

अयनं वर्त्ममार्गाध्वपन्थानः पदवी
सृतिः ॥ सरणिः पद्धतिः पद्या
वर्त्तन्येकपदीति च ॥ १५ ॥

मार्गके नाम १२ ॥ अयन १ वर्त्मन्
२ मार्ग ३ अध्वन् ४ पथिन् ५ पदवी
६ सृति ७ सरणि ८ पद्धति ९ पद्या
१० वर्त्तनी ११ एकपदी १२ ॥ १५ ॥

अतिपन्थाः सुपन्थाश्च सत्पथश्चा-
र्चितेऽध्वनि ॥

अच्छे मार्गके नाम ३ ॥ अतिपथिन् १
सुपथिन् २ सत्पथ ३ ॥
व्यध्वो दुरध्वो विपथः कदध्वा
कापथः समाः ॥ १६ ॥

खराव मार्गके नाम ५ ॥ व्यध्व १
दुरध्व २ विपथ ३ कदध्वन् ४ कापथ
५ ॥ १६ ॥

अपन्थास्त्वपथं तुल्ये—

जहां मार्ग न हो उसके नाम २ ॥
अपथिन् १ अपथ २ ॥

—शृंगाटकचतुष्पथे ॥

चौहंदा वा चौकेके नाम २ ॥

शृंगाटक १ चतुष्पथ २ ॥

प्रान्तरं दूरज्ञून्योऽध्वा—

जहां बड़ी दूरतक छाया वा मनु-
ष्यादि न हों उस मार्गका नाम १ ॥
प्रान्तर १ ॥

—कान्तारं वर्त्म दुर्गमम् ॥ १७ ॥
चोरकण्टकादियुक्त मार्गका नाम १ ॥
कान्तार १ ॥ १७ ॥

गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगं—

दो क्रोशका नाम १ ॥ गव्यूति १ ॥

—नल्वः किष्कुचतुःशतम् ॥

४०० हाथका नाम १ ॥ नल्व १ ॥

घण्टापथः संसरणं—

राजमार्ग अर्थात् सडकके नाम २ ॥

घण्टापथ १ संसरण २ ॥

—तत्पुरस्योपनिष्करम् ॥ १८ ॥

ग्रामके निकासका नाम १ ॥ उप-
निष्कर १ ॥ १८ ॥

इति भूमिवर्गः ॥ १ ॥

अथ पुरवर्गः २.

पूः स्त्री पुरीनगर्यौ वा पत्तनं पुटभे-
दनम् ॥ स्थानीयं निगमे—

शहरके नाम ७ ॥ पुर १ पुरी २ नगरी
३ पत्तन ४ पुटभेदन ५ स्थानीय ६
निगम ७ ॥

—ऽन्यत्रु यन्मूलनगरात्पुरम् ॥ १ ॥

तच्छाखानगरं—

शहरसम्बन्धी छोटे नगरोका नाम १ ॥
१ ॥ १ ॥ शाखानगर १ ॥

—वेशो वेश्याजनसमाश्रयः ॥

वेश्याके स्थानके नाम २ ॥ वरा १
वेश्याजनसमाश्रय २ ॥

आपणस्तु निपद्याया-

वजारके नाम २ ॥ आपण १ निपद्या २ ॥

-विपणि' पण्यवीथिका ॥ २ ॥

जहाँ बाजार न हो परन्तु कस्तु वि
फती हों उसके नाम २ ॥ विपणि १
पण्यवीथिका २ ॥ २ ॥

रथ्या प्रसोली विशिखा-

वीथगाउँकी गलीके नाम ३ ॥ रथ्या
१ प्रसोली २ विशिखा ३ ॥

-स्याश्रयो वप्रमस्त्रियाम् ॥

किलेके इधर उधरकी मिट्टीका नाम
२ ॥ श्रय १ वप्र २ ॥

प्राकारो वरणः साला-

किलेके नाम ३ ॥ प्राकार १ वरण
२ साला ३ ॥

-प्रार्चीन प्रान्ततो धृतिः ॥ ३ ॥

घारों ओर काटोंकी बाड़के नाम १ ॥
प्रार्चीन १ ॥ ३ ॥

भित्ति' स्त्री कुड्य-

दीवारके नाम २ ॥ भित्ति १ कुड्य २ ॥
-मेट्टकं यदन्तर्न्यस्तकीकसम् ॥

जिस दीवारमें मजमूर्तके नास्ते हट्टी
आदि लगाए गए हों उसका नाम २ ॥

एतत् ॥

गृहं गेहोदवासित वेश्म सद्य निके
तनम् ॥ ४ ॥ निशान्तपस्त्य
सदन भवनागारमन्दिरम् ॥ गृहाः
पुंसि च भूम्न्येव निकाम्यनिलया
लया' ॥ ५ ॥ वास' कुटी
द्वयो' शाला सभा-

गृहके नाम २० ॥ गृह १ गेह २
उदरसित ३ वेस्मन् ४ सभन् ५ निकेतन
६ ॥ ४ ॥ निशान्त ७ पस्त्य ८ सदन ९
मवन १० अगार ११ मन्दिर १२ गृह
(पुं० बहुवचन) १३ निकाम्य १४
निल्य १५ आलय १६ ॥ ५ ॥ वास
१७ कुटी १८ शाला १९ समा २० ॥

-संजवन त्विदम् ॥

चतुःशाल-

जिस गृहमें आग्ने सामने एकसे चार
मकान हों उसके नाम २ ॥ संजवन १
चतुःशाल २ ॥

-मुनीनां तु पर्णशालाटजो-
स्त्रियाम् ॥ ६ ॥

मुनियोंकी कुटीके नाम २ ॥ पर्ण
शाला १ उटन २ ॥ ६ ॥

चैत्यमापतन तुल्ये-

पत्रशालाके नाम २ ॥ चय १
आपतन ॥

-चाग्निगाला तु मन्दरा ॥

बुडसालके नाम २ ॥ वाजिशाला

१ मन्दुरा २ ॥

आवेशनं शिल्पिशाला-

कारिगरोके स्थानके नाम २ ॥ आवे-

शन १ शिल्पिशाला २ ॥

-प्रपा पानीयशालिका ॥ ७ ॥

पौशाला अर्थात् पानी पिलानेके

स्थानके नाम २ ॥ प्रपा १ पानीयशा-

लिका २ ॥ ७ ॥

मठश्छात्रादिनिलयः-

विद्यार्थी और सन्यासी आदिके
रहनेके स्थानका नाम १ ॥ मठ १ ॥

-गञ्जा तु मदिरागृहम् ॥

जहा मद्य बनाया जाय अथवा
जहा मद्य रक्खा जाय उस स्थानके

नाम २ ॥ गञ्जा १ मदिरागृह २ ॥

गङ्गासगृह-

गङ्गाके नाम २ ॥

गङ्गासगृह २ ॥

गङ्गासगृहम् ॥ ८ ॥

(प्रसूतीके) गृहके नाम

२ ॥ अरिष्ट १ सूतिकागृह २ ॥ ८ ॥

वातायनं गवाक्षो-

जरोखोके नाम २ ॥ वातायन १

गवाक्ष २ ॥

अथ मण्डपोऽस्त्री जनाश्रयः ॥

मण्डपके नाम २ ॥ मण्डप १

जनाश्रय २ ॥

हर्म्यादि धनिनां वासः-

धनवानोके गृहका नाम १ ॥ हर्म्य
१ आदि ॥

-प्रासादो देवभूभुजाम् ॥ ९ ॥

देवता और राजाओंके गृहका
नाम १ प्रासाद १ ॥ ९ ॥

सौधोऽस्त्री राजसदन-

राजाओंके गृहके नाम २ ॥ सौध १
राजसदन २ ॥

-मुपकार्योपकारिका ।

राजाओंके साधारण गृहोके नाम
२ ॥ उपकार्या १ उपकारिका २ ॥

स्वस्तिकः सर्वतोभद्रो नन्द्या-
वर्तादयोऽपि च ॥ १० ॥ विच्छ-
न्दकः प्रभेदा हि भवन्तीश्वरस-
न्ननाम् ॥

राजगृहोंके भेद जिनमे ४ दरवाजे
आदि भेद हैं स्वस्तिक १ सर्वतोभद्र २
नन्द्यावर्त ३ ॥ १० ॥ विच्छन्दक ४ इत्यादि ॥

रुयगारं भूभुजामन्तःपुरं स्या-
दवरोधनम् ॥ ११ ॥

शुद्धान्तश्चावरोधश्च-

राजद्विषियोंके रहनेके स्थानके नाम
४ ॥ अन्तःपुर १ अवरोधन २ ॥ ११ ॥

शुद्धान्त ३ अवरोध ४ ॥

—स्यादृष्ट* क्षौममस्त्रियाम् ॥
गृहके ऊपरके घरके नाम २ ॥

भट्ट १ क्षौम २ ॥

प्रधाणप्रघणाखिन्दा बहिर्दार
प्रकोष्ठके ॥ १२ ॥

दहलीजके नाम ३ ॥ प्रधाण १
प्रघण २ अखिन्द ३ ॥ १२ ॥

गृहावग्रहणी देह—

देहलीके नाम २ ॥ गृहावग्रहणी १
देहली २ ॥

—स्यङ्गण चत्वरजिरे ॥

भागनके नाम ३ ॥ अंगण १
घत्तर २ अजिर ३ ॥

अघस्ताहारुणि शिला—

दरवाजेके नीचेके काठका नाम १ ॥
शिला १ ॥

—नासा वारूपरि स्थितम् ॥ १३ ॥

दरवाजेके ऊपरके काठका नाम
१ ॥ नासा १ ॥ १३ ॥

प्रच्छन्नमन्तर्दार स्या—

खिडकीके नाम २ ॥ प्रच्छन्न १
अन्तर्दार २ ॥

—स्पशदारं तु पशकम् ॥

बगलके द्वारके नाम २ ॥ पश
शर १ पशक २ ॥

बैलीकनीचे पटलप्रान्ते—

बरोनीक नाम ३ ॥ बलीक १
नीघ्न २ पटलप्रान्त ३ ॥

—स्य पटल छदि* ॥ १४ ॥

छानिक नाम १ ॥ पटल १ छदि
२ ॥ १४ ॥

गोपानसी तु बलभी छादने
वक्रवारुणि ॥

छजेके नाम २ ॥ गोपानसी १ कलमी २ ॥
कपोतपालिकायां तु विटकं

पुनपुंसकम् ॥ १५ ॥

कमूतरखानेके नाम २ ॥ कपोत
पालिका १ विटक २ ॥ १५ ॥

स्त्री द्वादरं प्रतीहारः—

शरके नाम ३ ॥ शर १ द्वार २
प्रतीहार ३ ॥

—स्याद्विर्विस्तु वेदिका ॥

कदीके नाम २ ॥ विर्वि १ वेदिका २ ॥
तोरणोऽस्त्री बहिर्दार—

घरके बाहरके फाटकके नाम २ ॥
तोरण १ बहिर्दार २ ॥

—पुरदारं तु गोपुरम् ॥ १६ ॥

नगरके बाहरके फाटकके नाम ३ ॥
पुरदार १ गोपुर २ ॥ १६ ॥

कूटे पृर्दारि यदस्तिनक्षस्व ।
स्मि—

नगरके बाहरी द्वारके लिये उतार
बढ़ानकी भूमिका नाम १ ॥ स्मिनाय १ ॥

-त्रय त्रिषु ॥

कपाटमररं तुल्ये-

रोंके नाम २ ॥ कपाट १ अरर २ ॥

द्विष्कम्भोर्गलं न ना ॥ १७ ॥

किवाडोंके ढण्डेलेका नाम १ ॥

॥ १ ॥ १७ ॥

आरोहणं स्यात्सोपानं-

मिट्टी पत्थर आदिकी सीढीके नाम

॥ आरोहण १ सोपान २ ॥

-निश्रेणिस्त्वधिरोहणी ॥

काठकी सीढीके नाम २ ॥ निश्रेणि

अविरोहणी २ ॥

मंमार्जनी शोधनी स्या-

बुहारी अर्थात् झाड़के नाम २ ॥

मार्जनी १ शोधनी २ ॥

-त्संकरोऽवकरस्तया ॥ १८ ॥

क्षिते-

करकट वा कूडेके नाम २ ॥ सकर

अवकर २ ॥ १८ ॥

-मुखं निःसरणं-

निकासके नाम २ ॥ मुख १

निःसरण २ ॥

-संनिवेशो निकर्षणम् ॥

नगर इत्यादिमें स्थानके निमित्त

पीड्डई भूमिके नाम २ ॥ सनिवेश

१ निकर्षण २ ॥

समौ संवसथग्रामौ-

ग्रामके नाम २ ॥ संवसथ १ ग्राम २ ॥

वेश्मभूर्वास्तुरस्त्रियाम् ॥ १९ ॥

घरकी भूमिका नाम १ ॥ वास्तु

१ ॥ १९ ॥

ग्रामान्त उपशल्यं स्या-

ग्रामके समीपका नाम १ ॥ उपशल्य १ ॥

-त्सीमसीमे स्त्रियामुभे ॥

सीमके नाम २ ॥ सीमन् १ सीमा २ ॥

घोष आभीरपल्ली स्या-

अहीरोंके ग्रामके नाम २ ॥ घोष

१ आभीरपल्ली २ ॥

-त्पक्कणः श्वरालयः ॥ २० ॥

जगलियोंके ग्रामके नाम २ ॥ पक्कण

१ श्वरालय २ ॥ २० ॥

इति पुरवर्गः ॥ २ ॥

अथ शैलवर्गः ३

महीध्रे शिखरिक्ष्माभृदहार्यध-

रपर्वताः ॥ अद्रिगोत्रगिरिग्रा-

वाचलशैलशिलोच्चयाः ॥ १ ॥

पर्वतके नाम १३ ॥ महीध्र १

शिखरिन् २ क्ष्माभृत् ३ अहार्य ४

धर २ पर्वत ६ अद्रि ७ गोत्र ८

गिरि ९ प्रावन् १० अचल ११ शैल

१२ शिलोच्चय १३ ॥ १ ॥

लोकालोकश्चक्रवाल-

जो पर्वत पृथ्वीको घरे है उसके नाम

२ ॥ लोकालोक १ चक्रवाल २ ॥

-त्रिकूटत्रिककुन्तमी ॥

त्रिकूट कि त्रिसपर छंफा बसी है
उसका नाम १ ॥ त्रिकूट १ त्रिकुन्दूर ॥

अस्वस्तु चरमक्षमाभृ-

अस्तावच्छके नाम १ ॥ अस्त १
चरमदमामृत् २ ॥

-शुद्ध्याः पूर्वपर्वत ॥ २ ॥

उदयावच्छके नाम २ ॥ उदय १
शुक्लपर्वत २ ॥ २ ॥

हिमवाशिपघो विन्ध्यो मास्य
वा पारियात्रक ॥ गन्धमादनमन्ये
च हेमकूटादयो नगा ॥ ३ ॥

पर्वतोंके मेद ३ ॥ हिमवत् १ निम्ब
२ विन्ध्य ३ मास्यवत् ५ पारियात्रक
५ गन्धमादन ६ तथा हेमकूट आदि
अन्यभो पर्वत हैं ॥ ३ ॥

पापाणमस्तरमाबोपलाश्मान
शिला इपत् ॥

पत्थरके नाम ७ ॥ पापाण १
मस्तर २ माबन् ३ उपल ४ अश्मान
५ शिला ६ इपत् ७ ॥

कूटोऽप्ली शिखर शूर्प-

पहाडकी चोटी वा कंगूरके नाम
३ ॥ कूट १ शिखर २ शूर्प ३ ॥

-प्रपातस्त्वत्नो भृगु ॥ ४ ॥

बीहडक नाम ३ ॥ प्रपात १ अटट
२ भृगु ३ ॥ ४ ॥

कटकोऽप्ली निम्ब्योऽद्रे-

बीघ पर्वतका नाम १ ॥ कटक १ ॥

-स्तु प्रमथ सानुरक्षियाम् ॥

पर्वतके किनारक नाम २ ॥ स्तु १

प्रमथ २ सानु ३ ॥

उत्सः प्रसवण-

जहां पर्वतसे बूकर पानी बहता
है अर्थात् कुम्भक नाम २ ॥ उत्स १
प्रसवण २ ॥

-वारिप्रवाहो निक्षरो शर ॥ ७ ॥

शरनोंके नाम ३ ॥ वारिप्रवाह १
निक्षर २ शर ३ ॥ ७ ॥

व्री सु कन्दरो वा स्त्री-

बनार्ह ईई गुफाक नाम २ ॥ दरो
१ कन्दर-कन्दरा २ ॥

-द्वेवस्वावयिले गुहा ॥

गह्वर-

अपने भाप बनीईई गुफाके नाम ४ ॥
द्वेवस्वाव १ विल २ गुहा ३ गह्वर ४ ॥

-गण्डशैलास्तु व्युत्थाः स्थूलो

पला गिरो ॥ ६ ॥
जो कि पर्वतसे भारी भारी पत्थर गिरते
हैं उनका नाम १ ॥ गण्डशैल १ ॥ ६ ॥

स्वनि स्त्रियामाकर स्या-

स्वान्तिके नाम १ ॥ स्वनि १ आकरर
-त्पादाः प्रत्यन्तपर्वता ॥

पर्वतके धोरेके छोटे पर्वतके नाम

। पाद १ प्रत्यन्तपर्वत २ ॥

अधित्यकाद्रेयासन्ना भूमिरूर्ध्वम-
अधित्यका ॥ ७ ॥

पहाडके नीचेकी भूमिका नाम १ ॥

अधित्यका १ ॥ पहाडकी ऊपरकी भूमिका

नाम १ ॥ अधित्यका १ ॥ ७ ॥

अतुर्मनःशिलाद्यद्रेगैरिकं तु वि-
विषतः ॥

पर्वतसे उत्पन्न हुए जो मन शिल-
आदि तिनका नाम १ ॥ धातु १ ॥ गैरिक
(गैरू) तो धातु शब्दसेही विख्यात है ॥

निकुञ्जकुञ्जौ वा क्लीवे लतादिपि-
हितोदरे ॥ ८ ॥

जहा कि बहुत लता तृणादिसे घिरा
हो उसके नाम २ ॥ निकुञ्ज १ कुञ्ज २ ॥ ८ ॥

इति शैलवर्गः ॥ ३ ॥

अथ वनौषधिवर्गः ४.

अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं
वनम् ॥

वनके नाम ६ ॥ अटवी १ अरण्य २
विपिन ३ गहन ४ कानन ५ वन ६ ॥

महारण्यमरण्यानी-

बड़े वनके नाम २ ॥ महारण्य
१ अरण्यानी २ ॥

गृहारामास्तु निष्कुटाः ॥ १ ॥

गृहके समीप बनायेहुए बगीचेके
नाम २ ॥ गृहाराम १ निष्कुट २ ॥ १ ॥

आरामः स्यादुपवनं कृत्रिमं वन-
मेव यत् ॥

गृहसमीपके वनके नाम २ ॥

आराम १ उपवन २ ॥

अमात्यगणिकागेहोपवने वृक्ष-
वाटिका ॥ २ ॥

जहा राजाके नौकर चाकर और
उनकी वेश्या रहें उस बगीचेका नाम
१ ॥ वृक्षवाटिका १ ॥ २ ॥

पुमानाक्रीड उद्यानं राज्ञः साधा-
रणं वनम् ॥

राजाके उस बगीचेका नाम जिसका
सब पुरुष भोग करसकै १ ॥ आक्रीड १ ॥

स्यादेतदेव प्रमदवनमन्तःपुरो-
चितम् ॥ ३ ॥

जहा राजा स्त्रियोसहित क्रीडा करै
उस बगीचेका नाम १ ॥ प्रमदवन १ ॥ ३ ॥

वीथ्यालिरावलिः पंक्तिः श्रेणी-
पक्तिके नाम ५ ॥ वीथी १ आलि २
आवलि ३ पक्ति ४ श्रेणी ५ ॥

-लेखास्तु राजयः ॥

लकीरके नाम २ ॥ लेखा १ राजि २ ॥

वन्या वनसमूहे स्या-

वनके शृङ्खके नाम २ ॥ कन्या
१ वनसमूह २ ॥

—दक्षुरोगभिनवोद्भिदि ॥ ४ ॥

अक्षुरके नाम २ ॥ अक्षुर १
अभिनवोद्भिद् २ ॥ ४ ॥

वृक्षो महीरुह शारवी विटपी
पादपस्तरु ॥ अनोकह कुटः
शाळ पलाशी वृद्धमागमा ॥५ ॥

वृक्षक नाम ११ ॥ वृक्ष १ महीरुह २
शास्त्रिन् ३ विटपिन् ४ पादप ५ तरु ६
अनोकह ७ कुटः ८ शाळ ९ पलाशिन् १०
वृ ११ वृम १२ अगम १३ ॥ ५ ॥

वानस्पत्य फलैः पुष्पात्—

जो वृक्ष फलकर फलै उतका
नाम १ ॥ वानस्पत्य १ ॥

—वेरपुष्पाद्वनस्पति ॥

जो कि फलमे बिना फले जैसे गुडर
कन्हर आदि उनका नाम १ ॥ वनस्पति
१ ॥ (वृक्षमात्रमे मी वनस्पति कहतहै)
ओषध्य फलपाकाम्ना स्यु—
फलकर पकनेपर मष्ट होनेवाले
आयात् वन आदिकानाम १ ॥ ओषधी १ ॥

—वन्धय फलेमहिः ॥ ६ ॥

फलनेवाले वृक्षके नाम २ ॥ वनस्पत्य
१ फलेमहि २ ॥ ६ ॥
वन्धयोऽफलोऽभ्यकेशी च—

जो नहीं फले उस वृक्षके नाम ३
वन्धय १ अफल २ वनस्पति ३ ॥

—फलवान् फलिन् फनी ॥
फलयुक्त वृक्षक नाम ३ ॥ फली
१ फलिन् २ फलिन् ३ ॥

प्रफुल्लोत्फुल्लसफुल्लव्याकोशविक
चस्फुटा ॥ ७ ॥
फुल्लवैते विकसित—

फुल्लयुक्त (विकसित) वृक्षके
नाम ८ ॥ प्रफुल्ल १ उत्फुल्ल २ सफुल्ल
३ व्याकोश ४ विकच ५ स्फुट ६
॥ ७ ॥ फुल्ल ७ विकसित ८ ॥

—स्युरवन्ध्यादयस्त्रिषु ॥
अवन्ध्यादि शब्द तीनों छिगोंमें होवें
स्यास्युर्वा ना ध्रुव शंकु—
रूट वृक्षके नाम ३ ॥ स्यासु १
ध्रुव २ शंकु ३ ॥

—ईश्वशारवाशिफः ध्रुप ॥ ८ ॥
जिस वृक्षमें छोटो २ बालें नीचे
हों उसका नाम १ ॥ ध्रुप १ ॥ ८ ॥
अप्रकाण्डे स्वम्बगुहमी—
जिसमें बालिये न हों उस वृक्षके
नाम २ ॥ स्वम्ब १ गुहमी २ ॥

—बह्वी तु घततिर्बता ॥
बह्वीके नाम ३ ॥ बह्वी १ घतति
२ बह्वी ३ ॥

लता प्रतानिनी वीरुद्दुलिमन्युलप
इत्यपि ॥ ९ ॥

वडी लवी बेलके नाम ३ ॥ वीरुत्
१ गुलिमनी २ उलप ३ ॥ ९ ॥

नगाधारीह उच्छ्राय उत्सेधश्चो-
च्छ्रयश्च सः ॥

वृक्षादिककी उचाईके नाम ३ ॥
उच्छ्राय १ उत्सेध २ उच्छ्रय ३ ॥

अस्त्री प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मू-
लाच्छाखावधिस्तरोः ॥ १० ॥

जडसे शाखातक पेडके नाम २ ॥
प्रकाण्ड १ स्कन्ध २ ॥ १० ॥

समे शाखालते-
डालके नाम २ ॥ शाखा १
लता २ ॥

-स्कन्धशाखाशाले-
प्रधानशाखा (मोटे डगो) के नाम
२ ॥ स्कन्धशाखा १ शाल २ ॥

-शिफाजटे ॥
जडके नाम २ ॥ शिफा १ जटा २ ॥

शाखाशिफावरोहः स्या-
वरोहका नाम १ ॥ अवरोह १ ॥

-न्मूलाञ्जाग्रं गता लता ॥ ११ ॥
मूलसे लेकर अग्रभागपर्यंत गई हुई

गिलोय आदिके बेलका नामभी अवरोह
है ॥ ११ ॥

शिरोऽग्रं शिखरं वा ना-

टनीके नाम २ ॥ शिरोऽग्रं १ शिखर २ ॥

-मूलं बुध्नोऽङ्घ्रिनामकः ॥
मिट्टीके मीतरकी जडके नाम ३ ॥

मूल १ बुध्न २ अङ्घ्रिनामक सब शब्द ३ ॥
सारो मज्जा नरि-

गूदेके नाम २ ॥ सार १ मज्जन् २ ॥
-त्वक् स्त्री वल्कं वल्कलमस्त्रि-

याम् ॥ १२ ॥
वृक्षकी छालके नाम ३ ॥ त्वच् १
वल्क २ वल्कल ३ ॥ १२ ॥

काष्ठं दा-
काठके नाम २ ॥ काष्ठ १ दारु ॥

-विन्धनं त्वेध इधममेधः समि-
त्त्रियाम् ॥

ईधनके नाम ३ ॥ इन्धन १ एध २
इधम ३ यज्ञादिके इधनके नाम २ ॥
एधस् १ समिध २ ॥

निष्कुहः कोटरं वा ना-
खोकलके नाम २ ॥ निष्कुह १ कोटर २ ॥

-वल्लरिर्मञ्जरिः स्त्रियौ ॥ १३ ॥
मजरीके नाम २ ॥ वल्लरि १ मजरी

२ ॥ १३ ॥
पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः
पुमान् ॥

पत्रोंके नाम ६ ॥ पत्र १ पलाश
२ छदन ३ दल ४ पर्ण ५ छद ६ ॥

पल्लवोऽस्त्री किसलय-

फोंपके नाम २॥ पल्लव १ किसलय २॥

विस्वारो विटपोऽस्त्रियाम् ॥ १४॥

वालोंके केकनेके नाम २ ॥ विस्वा

र १ विटप २॥ १४ ॥

वृक्षादीनां फल सस्यं-

वृक्षादिकोंके फलका नाम १ ॥

सस्य १ ॥

-वृन्त प्रसवय धनम् ॥

नारुक नाम २ ॥ वृन्त १ प्रसव

कन्य २ ॥

आमे फले शलाटु स्या-

कवेफलका नाम १ ॥ शलाटु १ ॥

-च्छुष्के वान-

सूखे फलका नाम १ ॥ वान १ ॥

-मुमे त्रिपु ॥ १५ ॥

शलाटु और वान शब्द तीनोखिगों

में होतेह ॥ १५ ॥

क्षारको जालक श्लेषे-

नइ कळी व कळीकी बंडीके नाम

२ ॥ क्षारक १ जालक २ ॥

कलिका कोरका पुमान् ॥

बिना शूली कळीके नाम २ ॥

कलिका १ कारक २ ॥

स्यानुच्छकस्तु स्तबक -

गुथेका नाम १ ॥ स्तबक १ ॥

-कुङ्कुमलो मुकुलो स्त्रियाम् १॥

अथकळी कळीके नाम २ ॥ कु

मल १ मुकुट २ ॥ १६ ॥

स्त्रिय सुमनस* पुष्प प्रसूनं कुङ्कु

सुमम् ॥

शूद्धे नाम ॥ १ सुमनस् १ पु

२ प्रसून ३ पुस्तुम ४ सुम ५ ॥

मकरन्द* पुष्परसः-

शूद्धके रसके नाम २ ॥ मकर

१ पुष्परस २ ॥

परागः सुमनोरज ॥ १७ ॥

१ शूद्धकी धुळिके नाम २ ॥ पराग १

सुमनोरजस् २ ॥ १७ ॥

दिहीनं प्रसवे सर्व-

भागो अश्रत्य आदिकोंके जो प

पुण्यादिकोंके नाम कहेंगे कहु शब्द केत

नपुसकछिगहीमें होंगे ॥

-हरीतकपादय* स्त्रियाम् ॥

मापा-हरीतकी आदिकोंके फलोंके शब्द

क(हरीतकी)आदि शब्द छिगमें होंगे

आश्रयवैणवभ्रासनैयमोर्ध्वमुव फले

॥ १८ ॥ वार्हितं च-

(पीपलके फलका नाम) भाष्य

१ ॥ (बांसका फल) वैणव १ ॥

(पाककक फलका नाम) श्लेष १ ॥

(कके फलका नाम) नैयमोव १ ॥

(इगुदीके फलका नाम) ऐंगुद १॥१८॥

(भटकटैयाके फलका नाम) बार्हत १ ॥

-फले जम्बूवा जम्बूः स्त्री जम्बु
जाम्बवम् ॥

जामुनके फलके नाम ३ ॥ जम्बू १
जम्बु २ जाम्बव ३ ॥

पुष्पे जातीप्रभृतयः स्वलिङ्गा-

जुहीके फलका नाम १॥ जाती १॥

-त्रीहयः फले ॥ १९ ॥

यव आदि वान्योके फलभी यव
आदि नामसे ही कहे जाते हैं जैसे
यवका फल यव, माषका फल माष,
मुद्गका फल मुद्ग ॥ १९ ॥

विदार्याद्यास्तु मूलेपि-

विदारी आदिकोके जड पुष्प और
फलभी विदारी आदि नामवाले ही
होतेहैं अर्थात् जाती आदि शब्दोंके
पुष्पादिकभी स्वलिङ्ग ही होतेहैं ॥

-पुष्पे क्लीवेऽपि पाटला ॥

पाटलाके पुष्पका नाम १॥ पाटला १॥

यह शब्द पुष्पका नाम होकरभी स्वलिङ्ग
अर्थात् पाटलाका लिङ्ग जो स्त्रीलिङ्ग
रूपमें होता है ॥

बोधिद्रुमश्चलदलः पिप्पलः कुञ्ज
राशनः ॥ २० ॥

अश्वत्थे-

पीपलके नाम ९॥ बोधिद्रुम १ चल-

दल २ पिप्पल ३ कुजरोशन ४ ॥ २० ॥
अश्वत्थ ९ ॥

-ऽथ कपित्थे स्युर्दधित्थग्राहिम-
न्मथाः ॥ तस्मिन्दाधेफलः पुष्प-
फलदन्तशठावपि ॥ २१ ॥

कैथके नाम ७ ॥ कपित्थ १ दधित्थ
२ ग्राहिन् ३ मन्मथ ४ दधिफल ९
पुष्पफल ६ दन्तशठ ७ ॥ २१ ॥

उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो
हेमदुग्धकः ॥

गूलरके नाम ४ ॥ उदुम्बर १ जन्तु-
फल २ यज्ञाग ३ हेमदुग्धक ४ ॥

कोविदारे चमरिकः कुदालो
युगपत्रकः ॥ २२ ॥

कचनारके नाम ४ ॥ कोविदार १
चमरिक २ कुदाल ३ युगपत्रक ४ ॥ २२ ॥
सप्तपर्णो विशालत्वक्छारदो विष-
मच्छदः ॥

छतिवतीके नाम ४ ॥ सप्तपर्ण १
विशालत्वक् २ शारद ३ विषमच्छद ४ ॥

आरग्वधे राजवृक्षशम्याकच-
चतुरंगुलाः ॥ २३ ॥ आरेवतव्या-
धिवातकृतमालसुवर्णकाः ॥

अमलतासके नाम ८ ॥ आरग्वध १
राजवृक्ष २ शम्याक ३ चतुरंगुल ४ ॥ २३ ॥

शारेकत ५ व्याधिवात ६ छत्रामाल ७
सुकर्णक ८ ॥

स्युर्जम्बीरे दन्तशठजम्भजम्बीर
जम्भला ॥ २४ ॥

जम्बीरी मीमूक नाम १ ॥ जम्बीर १
दन्तशठ २ जंभ ३ जंमीर ४ जंमल
५ ॥ २४ ॥

बरणो बरुण संतुस्वित्तशाख
कुमारक ॥

बरुण (बरणा) के नाम १ ॥ बरुण
१ बरुण २ सेतु ३ तित्तशाख ४ कुमारक ५ ॥
पुनागे पुरुपस्तुङ्ग केसरो देव
वल्लभ ॥ २५ ॥

नागकंसके नाम १ ॥ पुनाग १
पुरुप २ पुङ्ग ३ केसर ४ देववल्लभ ५ ॥ २५ ॥
पारिभद्रे निम्बतरुर्मन्दार पारि
जातक ॥

बकायनके नाम १ ॥ पारिभद्र १
निम्बतरु २ मन्दार ३ पारिजातक ४ ॥
विनिशे स्पन्दनो नेमी रघदुर
विमुक्तकः ॥ २६ ॥

वञ्जुलखिप्रकृष्णा-

वञ्जुल वृद्धे नाम ७ ॥ तिमिश १
स्पन्दन २ नेमि ३ रघदुर ४ अतिमुक्तक ५ ॥
॥ २६ ॥ वञ्जुल ६ खिप्रकृष्ण ७ ॥
-ऽथ द्वा पातनकपीतनी ॥

धाम्नातके-

धाम्नातके नाम ३ ॥ पीतन १ कपी
तन २ धाम्नातक ३ ॥

मधुके तु गुडपुष्पमधुदुमा ॥ २७ ॥
वानप्रस्थमधुष्टीलौ-

मधुके नाम १ ॥ मधुके १ गुडपुष्प २
मधुदुम ३ ॥ २७ ॥ वानप्रस्थ ४ मधु-
ष्टील ५ ॥

-जलजेऽत्र मधुलक ॥

जलके मधुलका नाम १ ॥ मधुलक १ ॥
पीलौ गुडफल सती-

देशी अक्षरोटके नाम ३ ॥ पीठ १
गुडफल २ सतिन् ३ ॥

-तस्मिन्नु गिरिस्रमवे ॥ २८ ॥

अक्षोटकन्दराखी द्वा-

पद्माक्षी अक्षरोटके नाम २ ॥ २८ ॥
अक्षो १ कन्दराख २ ॥

-वैकोटे तु निकोचक ॥
अकोचके नाम २ ॥ अकोट १
निकोचक २ ॥

पलाशे किञ्चुक पर्णो वातपोषो-

पलाशके नाम ४ ॥ पलाश १ किञ्चुक
२ पर्ण ३ वातपोष ४ ॥
-ऽथ वेवसे ॥ २९ ॥

रथाध्रपुष्पविदुरशीतवानीख
ञ्जुलाः ॥

रथ नाम ७ ॥ कनक १ ॥ २९ ॥ रथ २

अन्नपुष्प ३ विदुर ४ शीत ५ वानीर ६
वज्रुल ७ ॥

द्वौ परिव्याधविदुलौ नादेयी
चाम्बुवेतसे ॥ ३० ॥

पानीके वेतके नाम ४ ॥ परिव्याध १
विदुल २ नादेयी ३ अम्बुवेतस ४ ॥ ३० ॥

सोभाञ्जने शिशुतीक्ष्णगन्धका-
क्षीवमोचकाः ॥

सँहिजनेके नाम ५ ॥ सोभाञ्जन १
शिशु २ तीक्ष्णगन्धक ३ अक्षीव ४
मोचक ५ ॥

रक्तोऽसौ मधुशिशुः स्या-

लालफूलवाले सँहिजनका नाम १ ॥
मधुशिशु १ ॥

-दरिष्टः फेनिलस्समौ ॥ ३१ ॥

रीठेके नाम २ ॥ अरिष्ट १ फेनिल
२ ॥ ३१ ॥

विल्वे शाण्डिल्यशैलूपौ मालूर-
श्रीफलावपि ॥

वेलके नाम ५ ॥ विल्व १ शाण्डिल्य २
शैलूप ३ मालूर ४ श्रीफल ५ ॥

पुक्षो जटी पर्कटी स्या-

पाकरके नाम ३ ॥ पुक्ष १ जटिन्
२ पर्कटिन् ३ ॥

-न्यग्रोधो बहुपाद्दः ॥ ३२ ॥

४

वटके नाम ३ ॥ न्यग्रोध १ बहुपाद्
२ वट ३ ॥ ३२ ॥

गालवः शावरो लोध्रस्तिरीट-
स्तिल्वमार्जनौ ॥

लोधके नाम ६ ॥ गालव १ शावर २
लोध्र ३ तिरीट ४ तिल्व ५ मार्जन ६ ॥

आम्रश्रूतो रसालो-

आमके नाम ३ ॥ आम्र १ चूत २
रसाल ३ ॥

-ऽसौ सहकारोऽतिसौरभः ३३

सुगधित आमका नाम १ ॥ सह-
कार १ ॥ ३३ ॥

कुम्भोलूरखलकं क्लीबे कौशिको
गुग्गुलुः पुरः ॥

गूगलके नाम ५ ॥ कुम्भ १ उल्ल-
खलक २ कौशिक ३ गुग्गुलु ४
पुर ५ ॥

शेलुः श्लेष्मातकः शीत उद्दालो
बहुवारकः ॥ ३४ ॥

लसोढेके नाम ५ ॥ शेलु १ श्लेष्मा-
तक २ शीत ३ उद्दाल ४ ॥ बहुवा-
रक ५ ॥ ३४ ॥

राजादनं प्रियालः स्यात्सन्नक-
दुर्धनुष्पटः ॥

चिरोजीके नाम ४ ॥ राजादन १
प्रियाल २ सन्नक ३- धनुष्पट ४ ॥

गम्भारी सर्वतोभद्रा काश्मरी
मधुपर्णिका ॥ ३८ ॥ श्रीपर्णी
भद्रपर्णी च काश्मर्यम्वा-

खमारीके नाम ७ ॥ गम्भारी १
सर्वतोभद्रा २ काश्मरी ३ मधुपर्णिका ४
॥ ३९ ॥ श्रीपर्णी ५ भद्रपर्णी ६
काश्मर्य ७ ॥

-प्यथ द्वयोः ॥

कर्कन्धूर्ध्वदरी कोली-

केरु नाम ३ ॥ कर्कधू १ मदरी २
कोली ३ ॥

-कोल कुबलफेनिले ॥ ३६ ॥

सौवीर घदर घोष्ठा-

यरके फलक नाम ६ ॥ काळ १
कुबल २ फनिड ३ ॥ ३६ ॥ सौवीर ४
घदर ५ घोष्ठा ६ ॥

-प्यथ स्यात्स्वादुकण्टके ॥

विकटत सुवाहसो मन्थिलो
ध्याप्रपादपि ॥ ३७ ॥

टैकीके नाम ९ ॥ स्वादुकण्टक १
विकटत २ सुवाहस ३ मन्थिल ४
ध्याप्रपाद ५ ॥ ३७ ॥

परावती नागरक्षी नादेयी भू
मिजम्बुका ॥

नारलीके नाम २ ॥ परावती १ नाग
क्षी २ नादेयी ३ भूमिजम्बुका ४ ॥

तिन्दुक स्फूर्जक कालस्क
न्यत्र शितिसागके ॥ ३८ ॥

सैन्दूके नाम ४ ॥ तिन्दुक १ स्फूर्जकर
कालस्कन्ध २ शितिसारक ३ ॥ ३८ ॥
काकेन्दु फुलकः काकतिन्दु
कः काकपीलुके ॥

कुबलेके नाम ४ ॥ काकेन्दु १
कुबल २ काकतिन्दुक ३ काकपीलुक ४ ॥

गोलीडो शाटलो घण्टापाद
लिमोभमुष्ककौ ॥ ३९ ॥

लोपके भेद मोखाके नाम ६ ॥
गोलीड १ शाटल २ घण्टापादलि ३ मोख
४ मुष्कक ५ ॥ ३९ ॥

तिलक धुरक श्रीमान-
तिळकके नाम ३ ॥ तिलक १ धुर
करधीमत ३ ॥

-समो पिबुलशाबुकौ ॥
शाडके नाम २ ॥ पिबुल १
शाबुक २ ॥

श्रीपाणका कुमुदिका कुम्भी
पैडर्यङ्गदफली ॥ ४० ॥

कावफलक नाम ९ ॥ श्रीपाणका १
कुमुदिका २ कुम्भी ३ केडव ४ फद्
पल ५ ॥ ४० ॥

कसुक पट्टिकारय स्यात्पटी
लाभामसादन ॥

पठानी लोधके नाम ४॥ क्रमुक १
पट्टिकारव्य २ पट्टी ३ लाक्षाप्रसादन ४॥

तूदस्तु यूपः क्रमुको ब्रह्मण्यो
ब्रह्मदारु च ॥ ४१ ॥ तुलं च-

पार्श्वपिप्पल वा तूतके नाम ६॥ तूद
१ यूप २ क्रमुक ३ ब्रह्मण्य ४ ब्रह्मदारु ५
॥ ४१ ॥ तूल ६ ॥

—नीपप्रियककदम्बास्तु हरिप्रियः॥

कदम्बके नाम ४ ॥ नीप १ प्रियक
२ कदम्ब ३ हरिप्रिय ४ ॥
वीरवृक्षोऽरुष्करोऽग्निमुखी भल्ला-
तकी त्रिषु ॥ ४२ ॥

मिलावेके नाम ४ ॥ वीरवृक्ष १ अरु-
ष्कर २ अग्निमुखी ३ भल्लातकी ४ ॥ ४२
गर्दभाण्डे कन्दरालकपीतनसु-
पार्श्वकाः ॥ प्लक्षश्च-

गेठी (पिलखन) के नाम ५ ॥
गर्दभाण्ड १ कन्दराल २ कपीतन ३
सुपार्श्वक ४ प्लक्ष ५ ॥

—तिन्तिडी चिञ्चाम्लिका—

इमलीके नाम ३ ॥ तिन्तिडी १
चिञ्चा २ अम्लिका ३ ॥

—ऽथ पीतसारके ॥ ४३ ॥

सर्जकासनबन्धूकपुष्पप्रियक-
जीवकाः ॥

विजयसारके नाम ६ ॥ पीतसारक १

॥ ४३ ॥ सर्जक २ असन ३ बन्धूक ४
पुष्पप्रियक ५ जीवक ६ ॥

शाले तु सर्जकार्ण्याश्वकर्णकाः
सस्यसम्बरः ॥ ४४ ॥

शालके नाम ५ ॥ शाल १ सर्ज २
कार्ण्य ३ अश्वकर्णक ४ सस्यसवर ५ ॥ ४४ ॥
नदीसर्जो वीरतरुर्इन्द्रद्रुः ककु-
भोऽर्जुनः ॥

अर्जुनवृक्षके नाम ५ ॥ नदीसर्ज १
वीरतरु २ इन्द्रद्रु ३ ककुभ ४ अर्जुन ५ ॥
राजादनः फलाध्यक्षः क्षीरि-
काया—

खिल्लीके नाम ३ ॥ राजादन १ फ-
लाध्यक्ष २ क्षीरिका ३ ॥

—मथ द्वयोः ॥ ४५ ॥
इंगुदी तापसतरु—

पाखीके नाम २ ॥ इंगुदी १ तापस-
तरु २ ॥ ४५ ॥

—भूर्जे चर्मिमृदुत्वचौ ॥

भोजयत्रके वृक्षके नाम ३ ॥ भूर्ज १
चर्मिन् २ मृदुत्वच् ३ ॥

पिच्छिला पूरणी मोचा स्थिरायुः
शाल्मलिर्द्वयोः ॥ ४६ ॥

सेमलके नाम ५ ॥ पिच्छिला १ पूरणी
२ मोचा ३ स्थिरायु ४ शाल्मलि ५ ॥ ४६ ॥

पिच्छा तु शाल्मलीवेष्टे—

सम्लक गोंदके नाम २॥ पिष्ठा १
शाम्बडीवेष्ट २ ॥

-रोचन कूटशाल्माळि ॥
काष्ठ सेमलके नाम २ ॥ रोचन १
कूटशाल्माळि २ ॥

धिरविल्वो नक्तमाल करजञ्ज
करञ्जके ॥ ४७ ॥

करञ्जके नाम ४॥ धिरविल्व १ नक्त
माल २ करज ३ करजक ४ ॥ ४७ ॥
प्रक्षरिणं पूतिकरजं पूतिकं कलि
मारकः ॥

फलीछे करंजके नाम ४॥ प्रक्षरिण १
पूतिकरज २ पूतिक ३ कलिमारक ४ ॥
करञ्जभेदा पञ्चग्रन्थो मकटघ
ङ्गारवह्वरी ॥ ४८ ॥

करंजक भेद ३ ॥ पञ्चग्रन्थ १ मकट
ङ्गारवह्वरी २ ॥ ४८ ॥

रोही रोहितकं शूहिनशुर्वादिम
पुष्परं ॥

रोहीशान नाम ३॥ रोहिण २ रोहि
तक ३ शूहिनशु ३ दाहिमशु ४ ॥
गायत्री मालतनय खदिरी
दन्तयावन ॥ ४९ ॥

पेक शशाङ्क कथक नाम ४ ॥ गा
यत्री १ मालतनय २ गान्धि ३ दन्त
यावन ४ ॥ ४९ ॥

अरिमेघो विदखदिरे-
दुग्गभ्युक्त खैरके नाम २॥ अरिमेघः
विदखदिरे २ ॥

-कदर खदिरे सिते ॥
सोमबल्कोड-
सफेद खैरके नाम २ ॥ कदर १ सो
मबल्क २ ॥

-प्यय व्याघ्रपुच्छगन्धर्वहस्तकी
॥ ५० ॥ एरण्ड उरुसूकञ्ज रुच
कक्षिप्रकञ्ज स ॥ चञ्चु पञ्चो
गुलो मण्डबधमानव्यदम्बका ५१
रेंड अयात् एरण्डक नाम १ ॥ व्याघ्र-
पुच्छ १ गन्धर्वहस्त २ ॥ ५० ॥ एरण्ड
३ उरुसूक ४ रुचक ५ कक्षिप्रक ६ चञ्चु
७ पञ्चो ८ मंड ९ बधमान १०
व्यदम्बक ११ ॥ ५१ ॥

अल्पा शमी शमीरं स्या-
छोटीशमी(जौटी)का नाम १॥ शमीर १ ॥
-छुमी सकुफला द्विवा ॥

शमी (जौटी) क नाम ३ ॥
शमी १ सकुफला २ शिषा ३ ॥
पिण्डीतकी मरुषकं चसत
करहाटक ॥ ५२ ॥ शाल्यक मदन-

मदनपठक नाम ६ ॥ पिण्डीतकी १
मरुषक २ चसत ३ करहाटक ४ ॥ ५२ ॥
शाल्य ५ मदन ६ ॥

शक्रपादपः पारिभद्रकः ॥ भद्र-
दारु टुकिलिमं पीतदारु च दारु
च ॥ ५३ ॥ पूतिकाष्ठं च सप्त
स्युर्देवदारु-

देवदारुके नाम ८ ॥ शक्रपादप १
पारिभद्रक २ भद्रदारु ३ टुकिलिम ४
पीतदारु ५ दारु ६ ॥ ५३ ॥ पूति-
काष्ठ ७ देवदारु ॥ ८ ॥

ण्यथ द्वयोः ॥

पाटलिः पाटला मोघा काचस्थाली
फलेरुहा ॥ ५४ ॥

कृष्णवृन्ता कुबेराक्षी-

पाटलीके नाम ७ ॥ पाटलि १ पाट-
ला २ मोघा ३ काचस्थाली ४ फलेरुहा
५ ॥ ५४ ॥ कृष्णवृन्ता ६ कुबेराक्षी ७ ॥

-श्यामा तु महिलाह्वया ॥

लता गोविन्दिनी गुन्द्रा प्रियगु,
फलिनी फली ॥ ५५ ॥ विष्व
क्सेना गन्धफली कारम्भा प्रिय-
कश्च सा ॥

काकुनीके नाम १२ ॥ श्यामा १

महिलाह्वया २ लता ३ गोविन्दिनी ४
गुन्द्रा ५ प्रियगु ६ फलिनी ७ फली ८
॥ ५५ ॥ विष्वक्सेना ९ गन्धफली
१० कारम्भा ११ प्रियक १२ ॥

मण्डूकपर्णपत्रोर्णनटकट्वंगटुण्डु-
काः ॥ ५६ ॥ स्योनाकशुकनास-
र्क्षदीर्घवृन्तकुटन्नटाः ॥

शोणकश्चारलौ-

सरिखन (सोनापाठाके नाम १२ ॥
मण्डूकपर्ण १ पत्रोर्ण २ नट ३ कट्वंग ४
टुण्डुक ५ ॥ ५६ ॥ स्योनाक ६ शुक-
नास ७ ऋक्ष ८ दीर्घवृन्त ९ कुटन्नट
१० शोणक ११ अरलु १२ ॥

-तिष्यफलात्वामलकी त्रिषु ५७ ॥

अमृता च व्यवस्था च-

आमलके नाम ४ ॥ तिष्यफला १
आमलकी २ ॥ ५७ ॥ अमृता ३ वय स्था ४ ॥

-त्रिलिङ्गस्तु विभीतकः ॥ ना-

क्षस्तुपः कर्षफलो भूतावासः
कलिद्रुमः ५८ ॥

बहेडेके नाम ६ ॥ विभीतक १ अक्ष
२ तुप ३ कर्षफल ४ भूतावास ५
कलिद्रुम ६ ॥ ५८ ॥

अभया त्वव्यथा पथ्या कायस्था
पूतनामृता ॥ हरतिक्की हैमवती
चेतकी श्रेयसी शिवा ॥ ५९ ॥

हरडके नाम ११ ॥ अभया १ अव्यथा
२ पथ्या ३ कायस्था ४ पूतना ५
अमृता ६ हरीतकी ७ हैमवती ८ चेतकी
९ श्रेयसी १० शिवा ११ ॥ ५९ ॥

पीतद्व* सरल* पूविकाष्ठ चा-	-अपिच्छिलाश्रुशिशपाः ६२॥
सरलाके नाम ३ ॥ पीतद्व १ सरल	सीसमके नाम ३ ॥ पिच्छला १
० पूविकाष्ठ ३ ॥	अश्रु २ शिशपा ३ ॥ ६२ ॥
-ज्य द्रुमोत्पल* ॥	कपिला मस्मगर्मा सा-
काँणिकार* परिध्याघो-	छण्णर्ण सीसमता नाम १ ॥
करनेके नाम ३ ॥ द्रुमोत्पल १ काँणि	मस्मगमा ॥
कार २ परिध्याघ ३ ॥	शिरीषस्तु कपीतन* ॥
-छकुचो लिङ्गुचो उडु* ॥ ६० ॥	मण्डिलो-
बद्धरके नाम ३ ॥ छकुच १	शिरिसक नाम ३ ॥ शिरीष १ कपी-
लिङ्गुच २ उडु ३ ॥ ६० ॥	तन २ मण्डिल ३ ॥
पनस* कण्टकिफलो-	-प्यय चाम्पेयश्चम्पको हेमपु
कटहरके नाम २ ॥ पनस १ कण्ट	प्यक* ॥ ६३ ॥
किफल २ ॥	चम्पेक नाम ३ ॥ चाम्पेय १
-निजुलो द्विजलोऽम्बुज* ॥	चम्पक २ हेमपुष्पक ३ ॥ ६३ ॥
समुद्रफलक नाम ३ ॥ निजुल १	एतस्य कलिका गन्धफली
द्विजल २ अम्बुज ३ ॥	स्या-
काकोदुम्बरिका कल्युर्मलयूर्ज-	चम्पेकी कलीका नाम १ ॥
घनेफला ॥ ६१ ॥	गन्धफली १ ॥
कट्टमरके नाम ४ ॥ काकोदुम्बरिका	-टथ केसरे ॥ वजुलो-
१ पत्तु २ मयू ३ ज्वनेरगा ४ ॥ ६१ ॥	मौलसिराके नामके २ ॥ भेतर १ वजु ३ ॥
अरिष्ट* सवतोमद्रद्दिगुनियासमाल	-उजुलोऽशोक-
फा* ॥ पियुमन्दश्च निये-	अशोक नाम २ ॥ उजु ३ ॥ अशोक २ ॥
नीरके नाम ६ ॥ अरिष्ट १	-समौ करकद्रादिर्मा ॥ ६४ ॥
तोमद्र २ दिगुनियास ३ मालफ ४	नारक नाम २ ॥ करक १ दाडिम ६ ॥
विषमन् ५ निर ६ ॥	चाम्पेय* केसरी नागकगरः
	काथनाटय ॥

चपापुष्पके नाम ४ ॥ चापेय १

केसर २ नागकेसर ३ काञ्चनाह्वय ४

जया जयन्ती तर्कारी नादेयी

वैजयन्तिका ॥ ६५ ॥

जाहीके नाम ५ ॥ जया १ जयन्ती २

तर्कारी ३ नादेयी ४ वैजयतिका ५ ॥ ६५ ॥

श्रीपर्णमग्निमन्थः स्यात्कणिका

गणिकारिका ॥ जयो-

अरणीके नाम ५ ॥ श्रीपर्ण १ अग्नि-

मथ २ कणिका ३ गणिकारिका ४ जय ५ ॥

-ऽथ कुटजः शक्रो वत्सको

गिरिमल्लिका ॥ ६६ ॥

कुरयाके नाम ४ ॥ कुटज १ शक्र-

२ वत्सक ३ गिरिमल्लिका ४ ॥ ६६ ॥

एतस्यैव कलिङ्गेन्द्रयवभद्रयवं

फले ॥

इन्द्रजव अर्थात् कुरैयाके फलके नाम

३ ॥ कलिङ्ग १ इन्द्रयव २ भद्रयव ३ ॥

कृष्णपाकफलाविग्रसुषेणाः क-

रमर्दके ॥ ६७ ॥

करोंदाके नाम ४ ॥ कृष्णपाकफल १

अविग्र २ सुषेण ३ करमर्दक ४ ॥ ६७ ॥

कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापि-

च्छो-

तमालके नाम ३ ॥ कालस्कन्ध १

तमाल २ तापिच्छ ३ ॥

-प्यथ सिन्दुके ॥

सिन्दुवारेन्द्रसुरसौ निर्गुण्डीन्द्राणि-

केत्यपि ॥ ६८ ॥

म्योडी(सिमाद्ध)के नाम ५ ॥ सिन्दुक १

सिन्दुवार २ इन्द्रसुरस ३ निर्गुण्डी ४

इन्द्राणिका ५ ॥ ६८ ॥

वेणी खरा गरी देवताडो जीमूत

इत्यपि ॥

वृन्दाल वृक्ष जो गुजरातमें गोडी

प्रसिद्ध है उसके नाम ५ ॥ वेणी १

खरा २ गरी ३ देवताड ४ जीमूत ५ ॥

श्रीहस्तिनी तु भूरुण्डी-

घुइया (अरवी) के नाम २ ॥ श्रीह-

स्तिनी १ भूरुण्डी २ ॥

-तृणशून्यं तु मल्लिका ॥ ६९ ॥

भूपदी शीतभीरुश्च-

बेला (मल्लिका) के नाम ४ ॥ तृण-

शून्य १ मल्लिका २ ॥ ६९ ॥ भूपदी ३

शीतभीरु ४ ॥

-सैवास्फोटा वनोद्भवा ॥

वनबेलाका नाम १ ॥ आस्फोटा १ ॥

शेफालिका तु सुवहा निर्गुण्डी

नीलिका च सा ॥ ७० ॥

न्यवारी (कालेपुष्पवाली निर्गुण्डी)

के नाम ४ ॥ शेफालिका १ सुवहा २

निर्गुण्डी ३ नीलिका ४ ॥ ७० ॥

सितासौ श्वेतसुरसा भूतवे-

उजडी नेत्रादीक नाम २॥ स्वेत
सुरसा १ मूषकेदी २ ॥

-श्यय मागधी ॥

गणिका मूषिकाम्बुधा-

शुद्धीके नाम ४ ॥ मागधी १

गणिका २ मूषिका ३ अम्बुधा ४ ॥

-सा पीता हेमपुष्पिका ॥ ७१ ॥

पीठे फुलकी शुद्धीका नाम १ ॥ हेमपु

ष्पिका १ ॥ ७१ ॥

अतिमुक्तं पुण्ड्रकं स्याद्वासन्ती
माधवी लवा ॥

वासन्तीके नाम १॥ अतिमुक्त १ पु

ण्ड्रकर वास्ती ३ माधवी ४ लवा ५ ॥

मुमना मालती जातिः-

भमडीके नाम ३ ॥ मुमनस् १

मालती २ जाति ३ ॥

-सप्तला नवमालिका ॥ ७२ ॥

बर्नाली पेडीके नाम २॥ सप्तला १

नवमालिका २ ॥ ७२ ॥

माध्य कुन्द-

कुन्दके नाम २ ॥ माध्य १ कुन्द २ ॥

-रक्तकस्तु बन्धुको बन्धुर्माविक ॥

दृपारी कूडके नाम ३ ॥ रक्तक १

बन्धुको २ बन्धुर्माविक ३ ॥

महा कुमारी तरणि-

धम्मिवाके नाम ३ ॥ महा १ कुमारी
२ तरणि ३ ॥

-रम्लानस्तु महासहा ॥ ७३ ॥

कडैयाके नाम २ ॥ अम्बान १ महा

सहा २ ॥ ७३ ॥

तत्र शोणे कुरक्क-

शालकटैयाका नाम १ ॥ कुरक्क १ ॥

-स्तत्र पीठे कुरण्टक ॥

पीठी कटैयाका नाम १ ॥ कुरण्टक १ ॥

नीली सिण्डी द्वयोर्बाणा दासी
चातगलञ्च सा ॥ ७४ ॥

मीठी सिण्डीके नाम ३ ॥ बाणा १

दासी २ चातगलञ्च ३ ॥ ७४ ॥

सैरयकस्तु सिण्डी स्या-

सिण्डीमात्रक नाम २ ॥ सैरयेक १

सिण्डी २ ॥

-तस्मिन्कुरयकोऽरुणे ॥

शाल सिण्डीका नाम १ ॥ कुरयको १ ॥

पीता कुरण्टको सिण्डी तस्मि

न्सहचरी द्वयो ॥ ७५ ॥

पीठी सिण्डीके नाम २ ॥ कुरण्टको १

सहचरी २ ॥ ७५ ॥

ओण्डपुण्य जपापुण्य-

गुदरके नाम २ ॥ ओण्डपुण्य १

जपापुण्य २ ॥

-वज्रपुण्य विलस्य यत् ॥

तिलीके फूलका नाम १ ॥ वज्रपुष्प १ ॥

प्रतिहासशतप्रासचण्डातहय-

मारकाः ॥ ७६ ॥ करवीरि-

कदइल (कनेर) के नाम ९ ॥

प्रतिहास १ शतप्रास २ चण्डात ३

हयमारक ४ ॥ ७६ ॥ करवीर ९ ॥

-करिरे तु क्रकरग्रन्थिलावुभौ ॥

करिरके नाम ३ ॥ करीर १ क्रकर
२ ग्रन्थिल ३ ॥

उन्मत्तः कितवो धूर्तो धत्तूरः
कनकाहयः ॥ ७७ ॥

मातुलो मदनश्चा-

धतूरेके नाम ७ ॥ उन्मत्त १ कितव
२ धूर्त्त ३ धत्तूर ४ कनकाहय ५ ॥ ७७ ॥
मातुल ६ मदन ७ ॥

-ऽस्य फले मातुलपुत्रकः ॥

धतूरेके फलका नाम १ ॥ मातुल-
पुत्रक १ ॥

फलपूरो बीजपूरो-

विजौरा नीबूके नाम २ ॥ फलपूर १
बीजपूर २ ॥

-रुचको मातुलङ्गके ॥ ७८ ॥

विजौरा नीबूके भेद ॥ मातुलङ्ग १
रुचक २ ॥ ७८ ॥

समीरणो मरुवकः प्रस्थपुष्पः
फणिजकः ॥ जम्बीरोऽ-

मरुवाके नाम ९ ॥ समीरण १
मरुवक २ प्रस्थपुष्प ३ फणिजक ४
जबीर ९ ॥

-प्यथ पर्णासि कठिञ्जरकुटे-
रकौ ॥ ७९ ॥

पनसके नामः ३ ॥ पर्णास १ कठि-
ञ्जर २ कुठेरक ३ ॥ ७९ ॥

सितेर्जकोऽत्र-

श्वेत पनसका नाम १ ॥ अर्जक १ ॥

-पाठी तु चित्रको वह्निसंज्ञकः ॥

- चीतेके नाम ३ पाठी १ चित्रक २
वह्निसंज्ञक ३ जितने अग्निके नाम उतने
भी चीतेके नाम हैं ॥

अर्काह्ववसुकाऽऽस्फोटगणरूपवि-
कीरणाः ॥ ८० ॥ मन्दारश्चा-
र्कपर्णो-

आकके नाम ७ ॥ अर्काह्व १ वसुक
२ आस्फोट ३ गणरूप ४ विकारण ५
॥ ८० ॥ मन्दार ६ अर्कपर्ण ७ सूर्यके
सत्र नाम आकके नाम हैं ॥

-ऽत्र शुक्लेर्कप्रतापसौ ॥

श्वेत आकके नाम २ ॥ अर्क १
प्रतापस २ ॥

शिवमल्ली पाशुपत एकाष्टीलो
बुको वसुः ॥ ८१ ॥

गूर्मेके नाम, ९ ॥ शिवमल्ली १ पा-
शुपत २ एकाष्टील ३ बुक ४ वसु
५ ॥ ८१ ॥

बन्दा वृक्षादनी वृक्षरुहा जीव
वन्तिकेत्यापे ॥

आकाशकेके नाम ४ ॥ बन्दा १
वृक्षादनी २ वृक्षरुहा ३ जीवन्तिका ४ ॥

बत्सादनी छिन्नरुहा गुडूची
तन्त्रिकाऽमृता ॥ ८२ ॥ जीव
न्तिका सोमवल्ली विशल्या
मधुपर्णपि ॥

मिष्ठोपके नाम ९ ॥ बत्सादनी १
छिन्नरुहा २ गुडूची ३ तन्त्रिका ४ अ-
मृता ५ ॥ ८२ ॥ जीवन्तिका ६ सोम-
वल्ली ७ विशल्या ८ मधुपर्णी ९ ॥

मूर्वा देवी मधुरसा मोरटा से-
अनी सषा ॥ ८३ ॥ मधुलिफा
मधुभेणी गोकर्णी पीलुपर्णपि ॥

चिनारके नाम १० ॥ मूर्वा १ देवी
२ मधुरसा ३ मोरटा ४ सेअनी ५
सषा ६ ॥ ८३ ॥ मधुलिफा ७ मधु-
भेणी ८ गोकर्णी ९ पीलुपर्णी १० ॥

पाटाम्बुष्टा विद्धकर्णी स्यापनी
भेषती रसा ॥ ८४ ॥ एकाष्टी
ला पापवेली प्राचीना वनति-
क्तिका ॥

पेठेके नाम १० ॥ पाटा १ अम्बुष्टा
२ विद्धकर्णी ३ स्यापनी ४ भेषती ५
रसा ६ ॥ ८४ ॥ एकाष्टीला ७ पाप-
वेली ८ प्राचीना ९ वनतिक्तिका १० ॥

कटु 'कटुमराऽशोकरोहिणी
कटुरोहिणी ॥ ८५ ॥ मत्स्यपिप्ता

कृष्णभेदी चक्राङ्गी शकुलादनी ॥
कुठकीके नाम ८ ॥ कटु १ क-

टुमरा २ अशोकरोहिणी ३ कटुरो-
हिणी ४ ॥ ८५ ॥ मत्स्यपिप्ता ५
कृष्णभेदी ६ चक्राङ्गी ७ शकुलादनी ८ ॥

आत्मगुप्ताजहाऽप्यण्डाकण्डूरा
मावृषायणी ॥ ८६ ॥ ऋष्यप्रो-
क्ता शुकशिम्बिः कपिकण्डुम्
मर्कटी ॥

कैचक नाम ९ ॥ आत्मगुप्ता १
अजहा २ अय्यण्डा ३ कण्डूरा ४ प्रा-
षायणी ५ ॥ ८६ ॥ ऋष्यप्रोक्ता ६
शुकशिम्बि ७ कपिकण्डु ८ मर्कटी ९ ॥

विश्रोपविश्रा न्यप्रोषी द्रवन्ती
क्षम्बरी वृषा ॥ ८७ ॥ मत्स्यक्रे-
णी सुतभेणी रण्डा मूषिकप-
र्णपि ॥

मूळीके नाम १० ॥ विश्रा १ उप-
विश्रा २ न्यप्रोषी ३ द्रवन्ती ४ क्षम्बरी ५
वृषा ६ ॥ ८७ ॥ मत्स्यक्रेणी ७ सुतभेणी
८ रण्डा ९ मूषिकपर्णी १० ॥

अपामार्गः क्षैत्वारिको घामार्ग
धमपूरको ॥ ८८ ॥ मत्स्यपर्णी
केशपर्णी किण्वी खरमञ्जरी ॥
अपामार्गः नाम ८ ॥ अपामार्ग १

शैखरिक २ अधामार्गव ३ मयूरक ४
॥ ८८ ॥ प्रत्यक्पर्णी ५ केशपर्णी ६
किणिही ७ खरमञ्जरी ८ ॥

हस्त्रिका ब्राह्मणी पद्मा भार्गी
ब्राह्मणयष्टिका ॥ ८९ ॥ अंगार-
वल्ली बालेयशाकवर्वरवर्धकाः ॥

भारगीके नाम ९ ॥ हस्त्रिका १
ब्राह्मणी २ पद्मा ३ भार्गी ४ ब्राह्म-
णयष्टिका ५ ॥ ८९ ॥ अंगारवल्ली
६ बालेयशाक ७ वर्वर ८ वर्धक ९ ॥

मज्जिष्ठा विकसा जिगी समंगा
कालमेषिका ॥ ९० ॥ मण्डूकपर्णी
मण्डीरी भण्डी योजनवल्लीयपि ॥

मजीठके नाम ९ ॥ मजिष्ठा १
विकसा २ जिगी ३ समगा ४ काल-
मेषिका ५ ॥ ९० ॥ मण्डूकपर्णी ६
मण्डीरी ७ भण्डी ८ योजनवल्ली ९ ॥

यासो यवासो दुःस्पर्शो धन्व-
यासः कुनाशकः ॥ ९१ ॥ रोदनी
कच्छुरानन्ता समुद्रान्ता दुरालभा ॥

जवासेके नाम १० ॥ यास १
यवास २ दुःस्पर्श ३ धन्वयास ४
कुनाशक ५ ॥ ९१ ॥ रोदनी ६
कच्छुरा ७ अनन्ता ८ समुद्रान्ता ९
दुरालभा १० ॥

पृश्निपर्णी पृथक्पर्णी चित्रपर्ण-

द्विपर्णिका ॥ ९२ ॥ क्रोष्टुविन्ना
सिंहपुच्छी कलशी धावनी गुहा ॥
पिठिवनके नाम ९ ॥ पृश्निपर्णी १

पृथक्पर्णी २ चित्रपर्णी ३ अग्निपर्णिका
४ ॥ ९२ ॥ क्रोष्टुविन्ना ५ सिंहपुच्छी
६ कलशी ७ धावनी ८ गुहा ९ ॥

निदिग्धिका स्पृशी व्याघ्री
बृहती कण्टकारिका ॥ ९३ ॥
प्रचोदनी कुली क्षुद्रा दुःस्पर्शा
राष्ट्रिकेत्यापि ॥

भटकटैया (कटेहली) के नाम
१० ॥ निदिग्धिका १ स्पृशी २ व्याघ्री ३
३ बृहती ४ कण्टकारिका ५ ॥ ९३ ॥
प्रचोदनी ६ कुली ७ क्षुद्रा ८ दुःस्पर्शा
९ राष्ट्रिका १० ॥

नीली काला क्लीतकिका ग्रामी-
णा मधुपर्णिका ॥ ९४ ॥ रजनी
श्रीफली तुत्या द्रोणी दोला च
नीलिनी ॥

नीलके नाम ११ ॥ नीली १ काला
२ क्लीतकिका ३ ग्रामीणा ४ मधु-
पर्णिका ५ ॥ ९४ ॥ रजनी ६ श्रीफली
७ तुत्या ८ द्रोणी ९ दोला १०
नीलिनी ११ ॥

अवलगुजः सोमराजी सुवलिः
सोमवल्लिका ॥ ९५ ॥ कालमेषी
कृष्णफला वाकुची पूतिफलयपि ॥

वाकुचीके नाम ८ ॥ अवलगुज १

सोमराजी २ सुवह्नि ३ सोमवह्नि ४
॥ ९९ ॥ काष्ठमेधी ५ कृष्णकला ६
माकुची ७ प्रतिकली ८ ॥

कृष्णोपकुस्मा वैदेही मागधी
घण्टा कणा ॥ ९६ ॥ उषणा
पिप्पली शौण्डी कोला-

पीपलके नाम १० ॥ कृष्णा १
उपकुस्मा २ वैदेही ३ मागधी ४
घण्टा ५ कणा ६ ॥ ९६ ॥ उषणा
७ पिप्पली ८ शौण्डी ९ कोला १० ॥

उष करिपिप्पली ॥

कपिवल्ली कोलबल्ली भेयसी
वक्षिर* पुमान् ॥ ९७ ॥

गन्धपीपलके नाम ९ ॥ करिपिप्पली
१ कपिवल्ली २ कोलबल्ली ३ भेयसी ४
वक्षिर ५ ॥ ९७ ॥

चक्षुष्य तु चविका-

चाकके नाम २ ॥ चक्षु १ चविका २ ॥
-काकचिन्नागुम्भे तु कृष्णला ॥
कुमुची (चिरमठी) के नाम ३ ॥
काकचिन्ना १ गुम्भा २ कृष्णला ३ ॥

पलकपा त्विधुगन्धा श्वदष्टा
स्त्राहुकण्टक ॥ ९८ ॥ गोक-
ण्को गोसुरको बनर्धगाट इत्यपि ॥

गोसुरक नाम ७ ॥ पलकपा १
श्वदष्टा २ स्त्राहुकण्टक

४ ॥ ९८ ॥ गोकण्टक ९ गोसुरक
१ वनशृङ्गट ७ ॥

विषा विपा प्रतिविपाजतिवि
पोवविपारुणा ॥ ९९ ॥ शृंगी
महौषध चा-

धृतीसक नाम ८ ॥ विषा १ विपा २
प्रतिविपा ३ अतिविपा ४ उपविपा ५
अरुणा ६ ॥ ९९ ॥ शृंगी ७ महौषध ८ ॥

-अक्षीराबी दुग्धिका समे ॥
शृंगीके नाम २ ॥ क्षीराबी १ दुग्धिका २ ॥

शतमूली बहुसुताऽभीरुर्न्दी-
वरी वरी ॥ १०० ॥ शृङ्गप्रोक्ता
ऽभीरुपत्री नारायण्य क्षतावरी ॥
अहेरु-

क्षतावरीके नाम १० ॥ शतमूली
१ बहुसुता २ अभीरु ३ इन्दीवरी ४
वरी ५ ॥ १०० ॥ शृङ्गप्रोक्ता ६
अभीरुपत्री ७ नारायणी ८ क्षतावरी
९ अहेरु १० ॥

-रय पीतद्रकालेयकहरिद्रवः ॥
॥ १०१ ॥ दार्दी पचम्पचा दारु
हरिद्रा पर्जनीत्यपि ॥

दारुहरिद्राके नाम ७ ॥ पीतद्रु १
कालेयक २ हरिद्र ३ ॥ १०१ ॥ दार्दी ४
पचम्पचा ५ दारुहरिद्रा ६ पर्जनी ७ ॥

बचोमगन्धा पञ्चमन्या गोलोमी
क्षतपार्शिका ॥ १०२ ॥

वचके नाम ९॥ वचा १ उम्रगन्वा
२ षड्ग्रन्था ३ गोलोमी ४ शत-
पर्विका ९ ॥ १०२ ॥

शुक्ला हैमवती-

जिसका श्वेत जड हो उस वचका
नाम १ ॥ हैमवती १ ॥

-वैद्यमातृसिंह्यौ तु वाशिका ॥
वृषोऽटरूपः सिंहास्यो वासिको
वाजिदन्तकः ॥ १०३ ॥

अडूसेके नाम ८॥ वैद्यमातृ १ सिंही
२ वाशिका ३ वृष ४ अटरूप ५ सिंहास्य
६ वासिक ७ वाजिदन्तक ८ ॥ १०३ ॥

आस्फोटा गिरिकर्णी स्याद्विष्णु-
क्रान्तापराजिता ॥

विष्णुक्रान्ताके नाम ४॥ आस्फोटा
१ गिरिकर्णी २ विष्णुक्राता ३ अपरा-
जिता ४ ॥

इक्षुगन्धा तु काण्डेक्षु कोकिलाक्षे-
क्षुरक्षुराः ॥ १०४ ॥

तालमखानेके नाम ९॥ इक्षुगन्धा
१ काण्डेक्षु २ कोकिलाक्ष ३ इक्षुर ४
क्षुर ९ ॥ १०४ ॥

शालेयः स्याच्छीतशिवश्छत्रा
मधुरिका मिसिः ॥

मिश्रेया-

सोंफके नाम ६॥ शालेय १ शीत-
शिव २ छत्रा ३ मधुरिका ४ मिसी ५
मिश्रेया ६ ॥

प्यथ सीहुण्डो वज्रःस्नुक्त्री स्नुही
गुडा ॥ १०५ ॥ समन्तदुग्धा-

सेहुंड (थोहर) के नाम ६॥ सीहुंड
१ वज्र २ स्नुह ३ स्नुही ४ गुडा ५ ॥
॥ १०५ ॥ समन्तदुग्धा ६ ॥

-ऽथो वेल्ममोघा चित्रतण्डुला ॥
तण्डुलश्च कृमिघ्नश्च विडङ्गं पुंन-
पुंसकम् ॥ १०६ ॥

वायविडगके नाम ६ ॥ वेल्म १
अमोघा २ चित्रतण्डुला ३ तण्डुल ४
कृमिघ्न ५ विडङ्ग ६ ॥ १०६ ॥

बला वाट्यालको-

षरियरा (खरहँटी) के नाम २ ॥
बला १ वाट्यालक २ ॥

-घटारवा तु शणपुष्पिका ॥
सनाटाके नाम २ ॥ घटारवा १

शणपुष्पिका २ ॥

मृद्धीका गोस्तनी द्राक्षा स्वाद्री
मधुरसेति च ॥ १०७ ॥

दाखके नाम ९ ॥ मृद्धीका १
गोस्तनी २ द्राक्षा ३ स्वाद्री ४ मधु-
रसा ५ ॥ १०७ ॥

सर्वानुभूतिः सरला त्रिपुटा त्रिवृता
त्रिवृत् ॥ त्रिभण्डी रोचनी-

श्वेत त्रिवारा (निसोत) के नाम ७ ॥
सर्वानुभूति १ सरला २ त्रिपुटा ३ त्रिवृता
४ त्रिवृत् ५ त्रिभण्डी ६ रोचनी ७ ॥

—श्यामापालिन्धौ तु मुपेणिका
॥ १०८ ॥ काला मसूरविदलाऽ
र्धचन्द्रा कालमेपिका ॥

काले त्रिधारे (निसोत) के नाम ७ ॥
श्यामा १ पालिन्धी २ मुपेणिका ३
॥ १०८ ॥ काला ४ मसूरविदला ५
अर्धचन्द्रा ६ कालमेपिका ७ ॥
मधुक छीतकं यष्टीमधुक मधुय
ष्टिका ॥ १०९ ॥

जेठीमधुके नाम ४ ॥ मधुक १
छीतक २ यष्टीमधुक ३ मधुयष्टिका ४
॥ १०९ ॥

विदारी क्षीरशुद्धेक्षुगन्धा
क्रोष्टी तु या सिवा ॥
क्षुण्णमूकभाण्डके नाम ४ ॥ विदारी १
क्षीरशुद्धा २ क्षुगन्धा ३ क्रोष्टी ॥
अन्या क्षीरविदारी स्पान्महाभेत
संगन्धिका ॥ ११० ॥

क्षुण्णमूकभाण्डके नाम ३ ॥ क्षीरवि
दारी १ महाभेता २ अक्षगन्धिका ३ ॥
॥ ११० ॥

टाङ्गली शारदी सोपपिप्पली
शकुलादनी ॥

जठपीप्लरु नाम ४ ॥ टाङ्गली १
शारदी २ सोपपिप्पली ३ शकुलादनी ४ ॥
खराशा कारवी दीप्यो मयूरो
लोचमस्तकः ॥ १११ ॥

मयूरशिखा वा अञ्जुमोदकं माम ९ ॥
खराशा १ कारवी २ दीप्य ३ मयूरः
लोचमस्तक ९ ॥ १११ ॥

गोपी श्यामा शारिवा स्या
दनन्तोत्पलशारिवा ॥
कालीशाम्ब (अनन्तमूल) के नाम ९ ॥
गोपी १ श्यामा २ शारिवा ३ अनन्ता ४
उत्पलशारिवा ९ ॥

योग्यसृष्टिः सिद्धिलक्ष्म्यौ—
सृष्टि, औषधिके नाम ४ ॥ योग्य १
सृष्टि २ सिद्धि ३ लक्ष्मी ४ ॥

—वृद्धेरप्याह्वया इमे ॥ ११२ ॥
यही नाम वृद्धिनामक औषधिकेमी
होते है ॥ ११२ ॥

कदली धारणमुसा रम्भा मोचा
शुमत्फला ॥ काष्ठीला—

कलके नाम ६ ॥ कदली १ धारण
मुसा २ रम्भा ३ मोचा ४ अञ्जुमफला
५ काष्ठीला ६ ॥

—मुद्गपर्णी तु काकमुद्गा सहे-
स्यपि ॥ ११३ ॥

वनमृगः नाम ३ ॥ मुद्गपर्णी १
काकमुद्गा २ सहा ३ ॥ ११३ ॥
वासाकी हिंगुली तिही भण्टाकी
दुष्प्रभर्षिणी ॥
वनमेत (रानकटहली) क नाम ९ ॥

वार्ताकी १ हिंगुली २ सिंही ३ भण्टाकी ४
दुष्प्रधर्षिणी ५ ॥

नाकुली सुरसा रास्ना सुगन्धा
गन्धनाकुली ॥ ११४ ॥ नकुलेष्टा
भुजंगाक्षी छत्राकी सुवहा
च सा ॥

रासन (तुळसी) के नाम ९ ॥

नाकुली १ सुरसा २ रास्ना ३ सुगन्धा ४
गन्धनाकुली ५ ॥ ११४ ॥ नकुलेष्टा ६
भुजगाक्षी ७ छत्राकी ८ सुवहा ९ ॥

विदारिगन्धांशुमती सालपर्णी
स्थिरा ध्रुवा ॥ ११५ ॥

शालपर्णी वा सरिवनके नाम ५ ॥

विदारिगन्धा १ अंशुमती २ शालपर्णी
३ स्थिरा ४ ध्रुवा ५ ॥ ११५ ॥

तुण्डिकेरी समुद्रान्ता कार्पासी
वदरेति च ॥

कपासके नाम ४ ॥ तुण्डिकेरी १

समुद्रान्ता २ कार्पासी ३ वदरा ४ ॥

भारद्वाजी तु सा वन्या—

वनकी कपास अर्थात् नरमाका नाम
१ ॥ भारद्वाजी १ ॥

—शृंगी तु ऋषभो वृषः ॥ ११६ ॥

काकडासीगीके नाम ३ ॥ शृङ्गी १

ऋषभ २ वृष ३ ॥ ११६ ॥

गागेरुकी नागवला झषा हस्व-
गवेधुका ॥

ककही (गंगेरु) के नाम ४ ॥

गागेरुकी १ नागवला २ झषा ३

हस्वगवेधुका ४ ॥

धामार्गवो घोषकः स्या—

श्वेत तुरईके नाम २ ॥ धामार्गव

१ घोषक २ ॥

न्महाजाली स पीतकः ॥ ११७ ॥

पीलेफूलकी तुरईका नाम १ ॥

महाजाली १ ॥ ११७ ॥

ज्योत्स्नी पटोलिका जाली—

चचेडेके नाम ३ ॥ ज्योत्स्नी १

पटोलिका २ जाली ३ ॥

—नादेयी भूमिजम्बुका ॥

भूमिजामुनके नाम २ ॥ नादेयी १

भूमिजम्बुका २ ॥

स्याल्लंगलिक्याग्निशिखा—

कारियारी (कलहारी) के नाम २ ॥

लंगलिकी १ अग्निशिखा २ ॥

—काकांगी काकनासिका ॥ ११८ ॥

काकजघा अर्थात् कौवाठोढी

(मकोह) के नाम २ ॥ काकांगी १

काकनासिका २ ॥ ११८ ॥

गोधापदी तु सुवहा—

हसपदी (लजावती) के नाम २ ॥

गोधापदी १ सुवहा २ ॥

—मुसली तालमूलिका ॥

मुसलीके नाम २ ॥ मुसली १ ताल

मूलिका २ ॥

व्यजङ्गुगी विपाणी स्या-

मेढ्रासीगीके नाम २ ॥ ममशृङ्गी १
विपाणी २ ॥

-श्रोत्रिहादार्विके समे ॥ ११९ ॥

गोमीके नाम २ ॥ गोत्रिहा १
दार्विक ३ ॥ ११९ ॥

ताम्बूलबल्ली ताम्बूली नागव
ल्लघ-

नागकेल अर्पात् पानक नाम ३ ॥
ताम्बूलबल्ली १ ताम्बूली २ नागबल्ली ३ ॥

-प्यथ द्विजा ॥
हरेणु रेणुका कौन्ती कपिला
मस्मगन्धिनी ॥ १२० ॥

गगनधूरिके नाम ६ ॥ द्विजा १
हरेणु २ रेणुका ३ कौन्ती ४ कपिला
५ मस्मगन्धिनी ६ ॥ १२० ॥

पलावाल्लकमैलेयं सुगन्धिहरि
वाल्लकम् ॥ वाल्लकं च-

एलमा नामक गन्धद्रव्यविशेषके
नाम १ ॥ एलावाल्लक १ ऐलेय २
सुगन्धि ३ हरिवाल्लक ४ वाल्लक ५ ॥

-ज्य पालङ्गुषा मुकुन्द कु-
न्दकुन्दुरु ॥ १२१ ॥

पालकाके नाम ४ ॥ पालकी १
मुकुन्द २ कुन्द ३ कुन्दुरु ४ ॥ १२१ ॥

वाल्ल विषगर्भाहोदीर्यं केशाम्बु
नाम च ॥

नेत्रवालाक नाम ४ ॥ बाळ १

हीवर २ बहिष्ठ ३ उदीप्य ४ ॥
केशके और उदकके सब नाम ५ ॥

कालानुसार्यवृद्धाश्मपुष्पशीवि-
शिवानि तु ॥ १२२ ॥ शैलेय-

शिलाजीतक नाम ५ ॥ काञ्जु-
सार्य १ वृद्ध २ अश्मपुष्प ३ शक्ति
शिव ४ ॥ १२२ ॥ शैलेय ५ ॥

-चाळपर्णी तु देत्या गन्धकुटी
मुरा ॥ गन्धिनी-

मुरैठी वा तास्त्रिसपत्रके नाम ५ ॥
ताळपर्णी १ देत्या २ गन्धकुटी ३
मुरा ४ गन्धिनी ५ ॥

-गजभक्ष्या तु सुवहा सुरभी
स्ता ॥ १२३ ॥ महेरुणा कुन्दु-
रुकी सल्लकी हादिनीति च ॥

कासके नाम ८ ॥ गजभक्ष्या १
सुवहा २ सुरभि ३ स्ता ४ ॥ १२३ ॥
महेरुणा ५ कुन्दुरुकी ६ सल्लकी ७
हादिनी ८ ॥

अग्निज्वालामुभिक्षे तु धातकी
धातुप्रपिका ॥ १२४ ॥

षष (धायण्य) क नाम ४ ॥
अग्निज्वाला १ मुभिक्षा २ धातकी ३
धातुप्रपिका ४ ॥ १२४ ॥

पृथ्वीका चन्द्रबालेण निष्क
त्रिर्घट्टा-

बड़ी इलायची के नाम ५॥पृथ्वीका १
चन्द्रवाला २प्ला ३निष्कुटी ४ बहूला ५॥

-5थ सा ॥

सूक्ष्मोपकुञ्चिका तुत्या कोरङ्गी
त्रिपुटा त्रुटिः ॥ १२५ ॥

गुजराती (छोटी) इलायचीके
नाम ५ ॥ उपकुञ्चिका १ तुत्या २
कोरङ्गी ३ त्रिपुटा ४ त्रुटि ५ ॥ १२५ ॥

व्याधिः कुष्ठं पारिभाव्यं व्याप्यं
पाकलमुत्पलम् ॥

कूठके नाम ६ ॥ व्याधि १ कुष्ठ २
पारिभाव्य ३ व्याप्य ४ पाकल ५ उत्पल ६ ॥
शंखिनी चोरपुष्पी स्यात्केशि-

शखाहुलीके नाम ३ ॥ शंखिनी १
चोरपुष्पी २ केशिनी ३ ॥

-न्यथ वितुन्नकः ॥ १२६ ॥

झटामलाञ्जटा ताली शिवा ताम-
लकीति च ॥

भूम्यामलकी अर्थात् अँवरीके नाम
७ ॥ वितुन्नक १ ॥ १२६ ॥ झटा २
अमला ३ अञ्जटा ४ ताली ५ शिवा
६ तामलकी ७ ॥

प्रपौण्डरीकं पौण्डर्य-

गुलाबके नाम २ ॥ प्रपौण्डरीक १
पौण्डर्य २ ॥

-मथ तुन्नः कुवेरकः ॥ १२७ ॥
कुणिः कच्छः कान्तलको नन्दि-
वृक्षो-

तुनके नाम ६ ॥ तुन्न १ कुवेरक २ ॥ १२७ ॥
कुणि ३ कच्छ ४ कान्तलक ५ नन्दि वृक्ष ६ ॥

-5थ राक्षसी ॥

चण्डा धनहरी क्षेमदुष्पत्रगणहा-
सकाः ॥ १२८ ॥

धनहरीके नाम ६ ॥ राक्षसी १
चण्डा २ धनहरी ३ क्षेम ४ दुष्पत्र ५
गणहासक ६ ॥ १२८ ॥

व्याडायुधं व्याघ्रनखं करजं
चक्रकारकम् ॥

नखा, गन्धद्रव्यके नाम ४ ॥ व्या-
डायुध १ व्याघ्रनख २ करज ३ चक्रकारक ४
सुषिरा विद्रुमलता कपोताग्निर्नदी
नली ॥ १२९ ॥

मालकागनीके नाम ५ ॥ सुषिरा १
विद्रुमलता २ कपोताग्नि ३ नदी ४
नली ५ ॥ १२९ ॥

धमन्यञ्जनकेशी च हनुर्हृद्विला-
सिनी ॥

ककूदनिके नाम ४ ॥ धमनी १ अञ्ज-
नकेशी २ हनु ३ हृद्विलासिनी ४ ॥
शक्तिः शंखः खुरः कोलदलं
नख-

नक्षी नाम गम्बद्रप्यविशेषके नाम
१ ॥ क्षुक्ति १ शंस २ सुर ३ कोळ-
टक ४ नख ५ ॥

-मषाडकी ॥ १३० ॥

काशी मृत्स्ना सुवरिका मृषालक
सुराक्षे ॥

अरहरके नाम १ ॥ आडकी १ ॥

॥ १३० ॥ काशी २ मृत्स्ना ३ सुवरिका
४ मृषालक ५ सुराक्ष ६ ॥

कुटम्बट दाशपुर वानेय परिपेख्वम्
॥ १३१ ॥ मृगगोपुरगोनर्दकैवर्ती
मुस्तकानि च ॥

मोयाक नाम २ ॥ कुटम्बट १ दाश
पुर २ वानेय ३ परिपेख्वम् ४ ॥ १३१ ॥
मृगगोपुरगोनर्दकैवर्ती ५ मुस्तक ६
प्रन्विपर्ण शुक्र वर्हपुष्पे स्थौणे
यकुक्कुरे ॥ १३२ ॥

कलरोके नाम १ ॥ प्रन्विपर्ण १ शुक्र २
वर्हपुष्प ३ स्थौणय ४ कुक्कुर ५ ॥ १३२ ॥
मरुन्माळा तु पिशुना स्पृषा देवी
छवा छपु ॥ समुद्रान्ता वधू को
न्विर्षा लंकोपिषेत्यपि ॥ १३३ ॥

अस्तरक नाम १ ॥ मरुन्माळा
१ पिशुना २ स्पृषा ३ देवी ४ छवा ५
छपु ६ समुद्रान्ता ७ वधू ८ कन्विर्षा
९ लंकापिका १० ॥ १३३ ॥

तपस्विनी जटा मांसी जटिला
लोमशा मिशी ॥

जटामांसीके नाम ६ ॥ तपस्विनी १
जटा २ मांसी ३ जटिला ४ लोमशा
५ मिशी ६ ॥

त्वक्पत्रमुत्कट मृङ्ग त्वर्ष चोष
घराङ्कम् ॥ १३४ ॥

राजके नाम ६ ॥ त्वक्पत्र १ उत्कट २
मृंग ३ त्वर्ष ४ चोष ५ घराङ्क ६ ॥ १३४ ॥
कर्धूरको द्राविडक कास्पको
वेधमुस्तक ॥

कधूरके नाम ४ कर्धूरफ १ द्रावि
डक २ कास्पक ३ वेधमुस्तक ४ ॥

ओषधयो जातिमात्रे स्यु-
स्य अन्नोका नाम १ ॥ ओषधी १ ॥
-स्वाती सर्वमौषधम् ॥ १३५ ॥
अन्नमानका नाम १ ॥ औषध १ ॥ १३५ ॥

शाकाख्य पत्रपुष्पादि-
तर्करिमात्रक नाम १ ॥ शाक १ ॥
-तण्डुलीयोऽल्पमारिष ॥

शौराई के नाम २ ॥ तण्डुलीय १ अन्न
मारिष २ ॥

विशल्यामिशिक्षान्ता पत्तिनी
शुकपुष्पिका ॥ १३६ ॥

कक्षियाटी इन्द्रपुष्पीक नाम ६ ॥
विशल्या १ अमिशिक्षा २ अन्नन्ता ३
पत्तिनी ४ शुकपुष्पिका ५ ॥ १३६ ॥

स्यादृक्षगन्धा छगलान्त्र्यावेगी
वृद्धदारकः ॥ जुङ्गो-

विधाराके नाम ९ ॥ ऋक्षगन्धा
१ छगलान्त्री २ आवेगी ३ वृद्धदारक
४ जुङ्ग ९ ॥

-ब्राह्मी तु मत्स्याक्षी वयस्था
सोमवल्लरी ॥ १३७ ॥

ब्राह्मीके नाम ४ ॥ ब्राह्मी १ मत्स्याक्षी
२ वयस्था ३ सोमवल्लरी ४ ॥ १३७ ॥

पटुपर्णी हैमवती स्वर्णक्षीरी
हिमावती ॥

मकोईके नाम ४ ॥ पटुपर्णी १
हैमवती २ स्वर्णक्षीरी ३ हिमावती ४ ॥

हयपुच्छी तु काम्बोजी माष-
पर्णी महासहा ॥ १३८ ॥

मूगके नाम ४ ॥ हयपुच्छी १ काम्बोजी
२ माषपर्णी ३ महासहा ४ ॥ १३८ ॥

तुण्डिकेरी रक्तफला विम्बिका
पल्लिपर्ण्यापि ॥

कुटुरीके नाम ४ ॥ तुण्डिकेरी १
रक्तफला २ विम्बिका ३ पीलुपर्णी ४ ॥

बर्वरा कवरी तुंगी खरपुष्पा-
जगन्धिका ॥ १३९ ॥

बर्वराके नाम ९ ॥ बर्वरा १ कवरी
२ तुंगी ३ खरपुष्पा ४ अजगन्धिका
९ ॥ १३९ ॥

एलापर्णी तु सुवहा रास्ना
युक्तरसा च सा ॥

एलापर्णीके नाम ४ ॥ एलापर्णी १
सुवहा २ रास्ना ३ युक्तरसा ४ ॥

चांगेरी चुक्रिका दन्तशठाम्ब-
ष्टाम्ल्लोणिका ॥ १४० ॥

अम्लोना वा चूकाके नाम ९ ॥
चांगेरी १ चुक्रिका २ दन्तशठ ३
अम्बष्टा ४ अम्ल्लोणिका ९ ॥ १४० ॥

सहस्रवेधी चुक्रोऽम्ल्लवेतसः
शतवेध्यपि ॥

अमल्लवेतके नाम ४ ॥ सहस्रवेधी १
चुक्र २ अम्ल्लवेतस ३ शतवेधी ४ ॥

नमस्कारी गण्डकारी समंगा
खदिरेत्यपि ॥ १४१ ॥

किसी २ के मतसे चांगेरी आदि ९
भी अमल्लवेतके नाम हैं ॥ लजाल्लके
नाम ४ ॥ नमस्कारी १ गण्डकारी २
समंगा ३ खदिरा ४ ॥ १४१ ॥

जीवन्ती जीवनी जीवा जीव-
नीया मधुः स्रवा ॥

जिसे गुर्जरदेशमें दोढी कहते हैं उस
औषधिके नाम ६ ॥ जीवन्ती १ जीवनी
२ जीवा ३ जीवनीया ४ मधु ५
स्रवा ६ ॥ कोईक ' मधुस्रवा ' एक-
नाम कहतेहै ॥

कूर्चशीर्षो मधुरकः शृंगहस्वा-
ङ्गजीवकाः ॥ १४२ ॥

जीवकके नाम ९ ॥ कूर्चशीर्ष १
मधुरक २ शृंग ३ हस्वाग ४ जीवक
९ ॥ १४२ ॥

किरातवित्तो, मूनिम्बोऽनार्य
वित्तो—

धिरापतेके नाम ३ ॥ किरातवित्त
१ मूनिम्ब २ अनार्यवित्त ३ ॥

—ऽय सप्तला ॥

विमला सातला मूरिफेना
चमकपेत्यापि ॥ १४३ ॥

सीङ्गुम्बमेदके नाम १ ॥ सातला १
विमला २ सातला ३ मूरिफेना ४
चर्मकपा ५ ॥ १४३ ॥

वायसोली स्वादुरसा वयस्या
काकोलीके नाम ३ ॥ वायसोली
१ स्वादुरसा २ वयस्या ३ ॥

—ऽय मकूलकः ॥

निकुम्भो दन्तिका प्रत्यक्छे
शुद्धुम्बरपर्ण्यपि ॥ १४४ ॥

बज्रदन्ती अर्थात् दन्तिमाके नाम जिसके
बीसको जयराज कहते हैं १ ॥ मकूलक १
निकुम्भ २ दन्तिका ३ प्रत्यक्छेणी ४
उद्धुम्बरपर्णी ५ ॥ १४४ ॥

अजमोदा तुमगन्धा ब्रह्मवर्मा
यथानिका ॥

अजमोद या अज्जाफनके नाम
४ ॥ अजमोदा १ उमगावा २ बस
दमी ३ यथानिका ४ ॥

मूले पुष्करकाश्मीरपद्मपत्राणि
करे ॥ १४५ ॥

पौहकरमूष्क नाम ३ ॥ पुष्कर १
काश्मीर २ पद्मपत्र ३ ॥ १४५ ॥

अध्ययातिचरा पद्मा चारती
पद्मधारिणी ॥

पद्मालक नाम ५ ॥ अध्यया १
अतिचरा २ पद्मा ३ चारती ४
पद्मधारिणी ५ ॥

काम्पिन्य कर्कशश्चन्द्रो रक्ता
गोरोचनीत्यपि ॥ १४६ ॥

कशीछेके नाम ५ ॥ काम्पिन्य १
कर्कशा २ चन्द्र ३ रक्तांग ४ रोचनी
५ ॥ १४६ ॥

प्रपुष्पाब्दस्त्वेडगजो दृष्टान्धश्च
मर्दका ॥ पद्मात् उरणाख्यश्च—

चक्रवर्त्त वा पद्माब्दक नाम ६ ॥ प्रपु
ष्पाब्द १ एडगज २ दृष्टान्ध ३ चक्रमर्दक
४ पद्मात् ५ उरणाख्य ६ ॥

—पलाण्डुस्तु सुकन्दक १४७ ॥
प्याजके नाम २ ॥ पलाण्डु १

सुकन्दक २ ॥ १४७ ॥

लवाकशुद्धुमौ तत्र हरिते—
हरे प्याजके नाम २ ॥ लवार्क १
शुद्धुम २ ॥

—ऽय महौषधम् ॥
लघुनं गृह्यनारिष्टमहाकन्दर
सोनका ॥ १४८ ॥

लघुनके नाम ६ ॥ महौषध १ लघुन
२ गुन्न ३ अरिष्ट ४ महाकन्द ५
सोनका ६ ॥ १४८ ॥

पुनर्नवा तु क्षोषमी—

गदहपुरैना (सांठी) के नाम २ ॥

पुनर्नवा १ शोधघ्नी २ ॥

—वितुन्नं सुनिषण्णकम् ॥

विसखपडाके नाम २ ॥ वितुन्न १

सुनिषण्णक २ ॥

स्याद्वातकः शीतलोऽपराजिता
शणपर्ण्यपि ॥ १४९ ॥

पटशनके नाम ४ ॥ वातक १ शीतल
२ अपराजिता ३ शणपर्णी ४ ॥ १४९ ॥

पारावताद्वाग्निः कटभी पण्या
ज्योतिष्मती लता ॥

मालकागनीके नाम ५ ॥ पारावताग्नि
१ कटभी २ पण्या ३ ज्योतिष्मती ४
लता ५ ॥

वार्षिकं त्रायमाणा स्यात्रायन्ती
बलभद्रिका ॥ १५० ॥

त्रायमाणके नाम ४ ॥ वार्षिक १
त्रायमाणा २ त्रायन्ती ३ बलभद्रिका
४ ॥ १५० ॥

विष्वक्सेनप्रिया गृष्टिर्वाराही
बदरेत्यापि ॥

वाराहीकन्दके नाम ४ ॥ विष्वक्से-
नप्रिया १ गृष्टि २ वाराही ३ बदरा ४ ॥

मार्कवो भृङ्गराजः स्या—

भृगराज (भगारा) के नाम २ ॥

मार्कव १ भृगराज २ ॥

—त्काकमाची तु वायसी ॥ १५१ ॥

कावैया वा कौवाहाडी गोडीके नाम
२ ॥ काकमाची १ वायसी २ ॥ १५१ ॥

शतपुष्पा सितच्छत्राऽतिच्छत्रा
मधुरा मिसिः ॥ अवाक्पुष्पी
कारवी च—

सौफके नाम ७ ॥ शतपुष्पा १
सितच्छत्रा २ अतिच्छत्रा ३ मधुरा ४
मिसि ५ अवाक्पुष्पी ६ कारवी ७ ॥

—सरणा तु प्रसारिणी ॥ १५२ ॥

तस्यां कटभरा राजवला भद्र-
बलेत्यापि ॥

कुञ्जप्रसारिणी वा चाद्वेल वा
प्रसारनि (खीप) के नाम ५ ॥ सरणा
१ प्रसारिणी २ ॥ १५२ ॥ कटभरा ३
राजवला ४ भद्रवला ५ ॥

जनी जतूका रजनी जतुकृच्चक्र-
वर्तिनी ॥ १५३ ॥ संस्पर्शा—

चक्रवतके नाम ६ ॥ जनी १ जतूका
२ रजनी २ जतुकृत् ४ चक्रवर्तिनी
५ ॥ १५३ ॥ संस्पर्शा ६ ॥

—ऽथ शठी गन्धमूली षड्ग्रन्थि-
केत्यापि ॥ कर्चुरोऽपि पलाशो—

कचूरके नाम ५ ॥ शठी १ गन्ध-
मूली २ षड्ग्रन्थिका ३ कर्चूर ४
पलाश ५ ॥

—ऽथ कारवेलः कठिलकः ॥ १५४
सुषवी चा—

फरलोक नाम ३ ॥ फारुद्ध १
फरिद्धक २ ॥ १५४ ॥ सुषी ३ ॥

-ज्य कुसक पटोलस्तिक्तक
पटु ॥

परवरक नाम ४ ॥ कुलक १ पटोल
२ तिक्तक ३ पटु ४ ॥

कूर्पाण्डकस्तु ककारु-
कुम्हा (काह्ला) के नाम २ ॥

कूर्माण्डक १ कर्काद २ ॥
-रीवारु ककट्टी स्त्रियौ ॥ १५५ ॥

ककटीक नाम ॥ ईशक १ ककटी २
॥ १५६ ॥

इस्वाकु कट्टुतुम्बी स्या-
रामतुर्द्ध अर्थात् सौर्क्षाक नाम २ ॥

इस्वाकु १ कट्टुतुम्बी २ ॥
-तुम्ब्यलायुरुभे समे ॥

तुम्बीक नाम २ तुम्बी १ अलानू २ ॥
चित्रा गवाक्षी गोडुम्ब्या-

जठठ ककटी (गडुमा) क नाम ३ ॥
चित्रा १ गवाक्षी २ गोडुम्बा ३ ॥

-विशाला त्विन्द्रवारुणी ॥ २५१ ॥
इन्द्रवारुणीक नाम ॥ विशाला १
इन्द्रवारुणी २ ॥ १५६ ॥

-अशोन्न सूरणः कन्द -
सूरण अपात् अनीकन्दन नाम ३ ॥

अशोन्न १ सूरण २ कन्द ३ ॥

गण्डीरस्तु समष्टिता ॥

गंडरीक नाम २ ॥ गंडीर १
समष्टिता २ ॥

कलम्ब्यु-

कर्युआका नाम १ ॥ कलम्बी १ ॥
-पोदिका-

पोदिका नाम १ ॥ उपोदिका १ ॥
-स्त्री तु मूलक-

मूलीका नाम १ ॥ मूलक १ ॥
-हिलमोचिका ॥ १५७ ॥

हिल्साका नाम १ ॥ हिल्मोचिका १
॥ १५८ ॥

वास्तूक-

यधुरका नाम १ ॥ वास्तुक १ ॥
-आकमेदा स्यु-

यह सब द्राकके भेद करे ॥
-ईर्वा तु गृध्रपार्षिका ॥

सहस्रवीषाभागव्यौ रुहा
जन्ता-

दूषक नाम ६ ॥ दूषा १ दूष
पार्षिका - सहस्रवीषा २ मागर्षी ३
रुहा ४ अमन्ता ५ ॥

-ज्य सा सिता ॥ १५८ ॥
गोलीमी शतवीषा च गण्डाली
शकुलाक्षक ॥

उबर्ही दूषक नाम ४ ॥ १५८ ॥
गोलीमी १ शतवीषा २ गण्डाली ३
शकुलाक्षक ४ ॥

कुरुविन्दो मेघनामा मुस्ता
मुस्तकमस्त्रियाम् ॥ १५९ ॥
मोथाके नाम ४ ॥ कुरुविन्द १
मेघनामन् २ मुस्ता ३ मुस्तक ४ ॥
॥ १५९ ॥

रयाद्भद्रमुस्तकी गुन्द्रा-
नागरमोथाके नाम २ ॥ भद्रमुस्त-
क १ गुन्द्रा २ ॥

-चूडाला चक्रलोच्चटा ॥
मोथाविशेषके नाम ३ ॥ चूडाला
१ चक्रला २ उच्चटा ३ ॥

वंशे त्वक्सारकर्मारत्वचिसार-
तृणध्वजाः ॥ १६० ॥ शतपर्वा
यवफली वेणुमस्करतेजनाः ॥

वाशके नाम १० ॥ वश १ त्व-
क्सार २ कर्मार २ त्वचिसार ३ तृणध्वज
५ ॥ १६० ॥ शतपर्वन् ६ यवफल ७
वेणु ८ मस्कर ९ तेजन १० ॥

वेणवः कीचकास्ते स्युर्ये स्वन-
न्त्यनिलोद्धताः ॥ १६१ ॥

जो छेदमें वायु जानेसे शब्द करने
लगे उन वांशोंका नाम १ ॥ कीचक
१ ॥ १६१ ॥

ग्रन्थिर्ना पर्वपरुषी-

गांठके नाम. ३ ॥ ग्रन्थि १ पर्वन्
२ परुष ३ ॥

-गुन्द्रस्तेजनकः शरः ॥

शरके नाम ३ ॥ गुन्द्र १ तेज-
नक २ शर ३ ॥

नडस्तु धमनः पोटगलो-
नलके नाम ३ ॥ नड १ धमन २
पोटगल ३ ॥

-ऽथो काशमस्त्रियाम् ॥ १६२ ॥

इक्षुगन्धा पोटगलः-

काशके नाम ३ ॥ काश १ ॥ १६२ ॥
इक्षुगन्धा २ पोटगल ३ ॥

-पुंसि भूमि तु बल्वजाः ॥

वर्गईका नाम १ ॥ बल्वज १ ॥

रसाल इक्षु-

ऊख अर्थात् गन्नांक नाम २ ॥
रसाल १ इक्षु २ ॥

-स्तद्भेदाः पुण्ड्रकान्तारका
दयः ॥ १६३ ॥

पोंडा ऊखके नाम २ ॥ पुण्ड्र १
कान्तारक २ आदि ॥ १६३ ॥

स्याद्दीरणं वीरतरं-

गांडरेके नाम २ ॥ वीरण १
वीरतर २ ॥

-मूलेऽस्योशीरमस्त्रियाम् ॥

अभयं नलदं सेव्यममृणालं जला-
शयम् ॥ १६४ ॥ लामज्जकं
लघुलयमवदाहेष्टकापथे ॥

गांडरेकी जड अर्थात् खशके नाम
१० ॥ उशीर १ अभय २ नलद ३ सेव्य

४ अमृणाळ ५ जलाशय ६ ॥ ११४ ॥
 नामभ्रक ७ लघुल्य ८ अकदाह ९
 इष्टकापय १० ॥

नडादयस्त्वृण गर्भुच्छधामाक-
 प्रमुखा अपि ॥ १६५ ॥

नडादि गर्भुत् स्वामाकआदिका
 नाम १ ॥ तृण १ ॥ १६५ ॥

अस्त्री कुश कुया दर्भ पवित्र-
 कुशक नाम ४ ॥ कुश १ कुय २
 दर्भ ३ पवित्र ४ ॥

-मय कृष्णम् ॥

पौरसौगधिकध्यामदेवजग्य
 करौहिपम् ॥ १६६ ॥

रोहितके नाम ६ ॥ कृष्ण १ पौर २
 सौगधिक ३ ध्याम ४ देवजग्य ५
 रोहिप ६ ॥ १६६ ॥

छात्रातिच्छत्रपालघ्नी-

पानीके तृणके नाम ३ ॥ छात्रा १
 अतिच्छत्र २ पाळन ३ ॥

-मालातृणकमूस्त्वृणे ॥

तृणविशेषके नाम २ ॥ मालातृ
 णक १ मूस्त्वृण २ ॥

शष्य बालतृण-

मये तृणके नाम २ ॥ शष्य १
 बालतृण २ ॥

-घासो मबर्त्त-

घासक नाम २ ॥ घास १ यवत् २ ॥
 -तृणमर्जुनम् ॥ १६७ ॥

तृणमात्रक नाम २ ॥ तृण १
 अर्जुन २ ॥ १६७ ॥

तृणानां संहतिस्त्वृष्या-

तृणममूहका नाम १ ॥ तृष्या १ ॥
 -नट्या तु नडसंहतिः ॥

नडोक्त समूहका नाम १ ॥ नट्या १ ॥
 तृणराजाह्वयस्तालो-

ताडके नाम २ ॥ तृणराज १ ताळ २ ॥
 -नालिकेरस्तु लाङ्गली १६८ ॥

नारियळक नाम २ ॥ नालिकेर १
 लाङ्गली २ ॥ १६८ ॥

घोष्ठा सु पूगः क्रमुको गुवाका
 खपुरो-

सुपारीके नाम ५ ॥ घोष्ठा १ पूग
 २ क्रमुक ३ गुवाक ४ खपुर ५ ॥

-ऽस्य तु ॥ फलमुदेग-

सुपारीक फळका नाम १ ॥
 उदेग १ ॥

-मेते च हिन्तालसाहितालय'
 ॥ १६९ ॥ सर्जुरा केतकी ताली

सर्जुरी च तृणतुमाः ॥
 सर्जुरीके नाम ४ ॥ सर्जुर १ केतकी

२ ताली ३ सर्जुरी ४ तृणतुमा
 नाम ६ ॥ १६९ ॥

इति वनीपधिबग ४ ॥

अथ सिंहादिवर्गः ९.

सिंहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः
केसरी हरिः ॥

सिंहके नाम ६ ॥ सिंह १ मृगेन्द्र २
पञ्चास्य ३ हर्यक्ष ४ केसरिन् ५ हरिः ६ ॥

शार्दूलद्वीपनौ व्याघ्रे—

वाघके नाम ३ ॥ शार्दूल १ द्वीपिन् २
व्याघ्र ३ ॥

—तरक्षुस्तु मृगादनः ॥ १ ॥

चीत्तेके नाम २ ॥ तरक्षु १ मृगादन
२ ॥ १ ॥

वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री
किरिः किटिः ॥ दंष्ट्री घोणी
स्तब्धरोमा क्रोडो भूदार इत्यपि २

सूअरके नाम १२ ॥ वराह १ सूकर
२ घृष्टि ३ कोल ४ पोत्रिन् ५ किरि ६
किटि ७ दंष्ट्रिन् ८ घोणिन् ९ स्तब्ध-
रोमन् १० क्रोड ११ भूदार १२ ॥ २ ॥

कपिप्लवङ्गप्लवगशाखामृगवली-
मुखाः ॥ मर्कटो वानरः कीशो
वनौका—

वानरके नाम ९ ॥ कपि १ प्लवङ्ग २
प्लवग ३ शाखामृग ४ वलीमुख ५ मर्कट
६ वानर ७ कीश ८ वनौकस् ९ ॥

—अथ भल्लुके ॥ ३ ॥

ऋक्षाऽच्छभल्लभल्लका—

५

रीछके नाम ४ ॥ भल्लुक १ ॥ ३ ॥

ऋक्ष २ अच्छभल्ल ३ भल्लुक ४ ॥

—गण्डके खङ्गखङ्गिनौ ॥

गैडेके नाम ३ ॥ गण्डक १ खङ्ग २
खङ्गिन् ३ ॥

लुलायो महिपो वाहद्विषत्कासर-
सैरिभाः ॥ ४ ॥

भैसेके नाम ९ ॥ लुलाय १ महिष २

वाहद्विषत् ३ कासर ४ सैरिभ ५ ॥ ४ ॥

स्त्रियां शिवा भूरिमायगोमायुमृग-
धूर्तकाः ॥ शृगालवचकक्रोष्टुफे-
रुफेरवजम्बुकाः ॥ ५ ॥

सियार—गीदडके नाम १० ॥ शिवा
१ भूरिमाय २ गोमायु ३ मृगधूर्तक ४
शृगाल ५ वचक ६ क्रोष्टु ७ फेरु ८
फेरव ९ जम्बुक १० ॥ ५ ॥

ओतुर्विडालो मार्जारो वृषदंशक
आखुभुक्—

विलावके नाम ५ ॥ ओतु १ विडाल
२ मार्जार ३ वृषदंशक ४ आखुभुक् ५ ॥

त्रयो गौधेरगौधारगौधेया गो-
धिकात्मजे ॥ ६ ॥

चन्दनगोह (गुहेरा) अर्थात् यह
जन्तु काले सर्पसे गोहमें उत्पन्न होता
है उसके नाम ३ ॥ गौधेर १ गौधार
२ गौधेय ३ ॥ ६ ॥

श्वविचु शल्य—

साहीके नाम २॥ प्राक्दि १ शत्य २॥
स्त्रोत्रि शलली शल्लं शलम् ॥

साहीके परोके नाम ३ ॥ शल्लि
१ शल्ल २ शल ३ ॥

वातप्रमीवातमृग-
शीघ्रगामी मृगविशेषके नाम २ ॥

वातप्रमी १ वातमृग २ ॥
-कोकत्स्वीहामृगो वृकाः ॥ ७ ॥

मन्त्रियेके नाम ३ ॥ श्लोक १ ईहा
मृग २ वृक ३ ॥ ७ ॥

मृगे कुरगवातायुहरिणाग्निनयो
नय* ॥

मृगके नाम ९ ॥ मृग १ कुरग २
वातायु ३ हरिण ४ अग्निनयानि ५ ॥

पेण्येयमेण्याश्चर्माद्य-
हरिणीके चर्म मांसादिका नाम १ ॥

पेण्येय १ ॥
-भेणस्पैण-

हरिणके चर्म मांसादिका नाम १ ॥ रेण १ ॥
-मुभे त्रिपु ॥ ८ ॥

पेण्येय और एण ये शब्द तीनों
त्रिगोमे होते हैं ॥ ८ ॥

कदली कन्दली चीनश्चमूरुमि
पकावपि ॥ समूहभेति हरिणा
अमी अग्निनयोनय* ॥ ९ ॥

मृगोक भद्र ७ ॥ कदम्बि १ कन्द

लिन् २ चीन ३ चमूर ४ प्रियक ५
समूर ६ हरिण ७ ॥ ९ ॥

कृष्णसाररुहन्महुरकुम्भरौहि
पा* ॥ गोकर्णपृषतीणस्पर्शरोहिताश्च-

मरो मृगा* ॥ १० ॥
तथा मृगोके भेद १२ ॥ कृष्णसार

१ रुह २ मृग ३ रुह ४ सम्बर ५
रौहिण ६ गोकर्ण ७ पृषती ८ एण ९

कृष्ण १० रोहित ११ चमूर १२ ॥ १० ॥
गन्धर्व शरभो राम सुमरो

गवम* शश* ॥ इत्यादयो मृगे
न्द्राद्या गवाद्या* पशुजातयः ॥ ११ ॥

तथा मृगोके भेद ११ ॥ गन्धर्व १
शरभ २ राम ३ सुमर ४ गवय ५ शश

६ इस प्रकार मृग आदि और सिंह
आदि तथा गौआदि पशुजाति कह

जाते हैं ॥ ११ ॥
उन्मुकमूर्पकोप्याखु-

पूहेक नाम ३ ॥ उन्मुक १ मूक २
आसु ३ ॥

-गिरिका बालमृपिका ॥
छोटी बुहियाके नाम २ ॥ गिरिका

१ बालमृपिका २ ॥
सरट* कृकलासः स्या-

गिराटकके नाम २ ॥ सरट १ कृक
लास २ ॥
सुमली मृगोदिका ॥ १२ ॥

छपकलीके नाम २ ॥ मुसली १

गृहगोधिका २ ॥ १२ ॥

लूता स्त्री तन्तुवायोर्णनाभमर्कटकाः
समाः ॥

मकडीके नाम ४ ॥ लूता १ तन्तुवाय
२ ऊर्णनाभ ३ मर्कटक ४ ॥

नीलंगुस्तु कृमिः—

कीटविशेषके नाम २ ॥ नीलंगु १ कृमि २ ॥

—कर्णजलौकाः शतपद्युभे ॥ १३ ॥

कानखजूरेके नाम २ ॥ कर्णजलौकस्
१ शतपदी २ ॥ १३ ॥

वृश्चिकः शूककीटः स्या—

ऊनी वस्त्रके खानेवाले कीड़ेके नाम
२ ॥ वृश्चिक १ शूककीट २ ॥

—दलिद्रोणौ तु वृश्चिके ॥

बीछूके नाम ३ ॥ अलि १ द्रोण २ वृश्चिक ३ ॥

पारावतः कलरवः कपोतो—

कवृत्तरके नाम ३ ॥ पारावत १
कलरव २ कपोत ३ ॥

—ऽथ शशादनः ॥ १४ ॥

पत्री श्येन—

बाजके नाम ३ ॥ शशादन १ ॥

॥ १४ ॥ पत्रिन् २ श्येन ३ ॥

—उलूकस्तु वायसारातिपेचकौ ॥

उलूकेके नाम ३ ॥ उलूक १ वायसा-
राति २ पेचक ३ ॥

व्याघ्राटः स्याद्भरद्वाजः—

भरद्वाज पक्षीके नाम २ ॥ व्याघ्राट

१ भरद्वाज २ ॥

खञ्जरीटस्तु खञ्जनः ॥ १५ ॥

खञ्जनके नाम २ ॥ खञ्जरीट १ ॥

खञ्जन २ ॥ १५ ॥

—लोहपृष्ठस्तु कङ्कः स्या—

कक पक्षीके नाम २ ॥ लोहपृष्ठ १ कक २ ॥

—दथ चाषः किकीदिविः ॥

नीलकण्ठके नाम २ ॥ चाष १
किकीदिवि २ ॥

कलिङ्गभृङ्गधूम्याटा—

मस्तकचूडपक्षीके नाम ३ ॥
कलिङ्ग १ भृङ्ग २ धूम्याट ३ ॥

—अथ स्याच्छतपत्रकः ॥ १६ ॥

दार्वाघाटो—

खुटबढई पक्षीके नाम २ ॥ शतप-
त्रक १ ॥ १६ ॥ दार्वाघाट २ ॥

—ऽथ सारङ्गस्तोककश्चातकः
समाः ॥

पपीहा अर्थात् चातकके नाम ३ ॥
सारङ्ग १ तोकक २ चातक ३ ॥

कृकवाकुस्ताम्रचूडः कुक्कुटश्चर-
णायुधः ॥ १७ ॥

मुरगेके नाम ४ ॥ कृकवाकु १ ताम्र-
चूड २ कुक्कुट ३ चरणायुध ४ ॥ १७ ॥

घटकं कलविहक स्या-
किरोटे (चिडे) क नाम २ ॥
घटक १ कर्मिक २ ॥

-तस्य स्त्री घटका-
विद्याका नाम १ ॥ घटका १ ॥
-तयोः ॥ घूमपत्ने चाटकीर-
इनके मधेका नाम १ ॥ चाटकीर १ ॥
घूमपत्ने घटकैव सा ॥ १८ ॥
इनक बधीका नाम १ ॥ घटका १ ॥ १८ ॥

कर्करोटुः कोटुः स्या-
एक प्रकारक अशुभ शब्द करनेवाले
पक्षीके नाम २ ॥ कर्करोटु १ कोटु २ ॥
-रूकणाकर्करो समौ ॥
विडियाविसेयके नाम २ ॥ रूकण १
कर्कर २ ॥

वनप्रियः परमृवः कोकिल-
पिक इत्यपि ॥ १९ ॥

कायकके नाम ४ ॥ वनप्रिय १
परमृव २ कोकिल ३ पिक ४ ॥ १९ ॥
काके तु करटारिष्टवलिपुष्टसकृ-
त्यमा ॥ ध्वाङ्गनात्मघोषपरमृ-
द्वलिभुग्वापसा अपि ॥ २० ॥

कौत्के नाम १ ॥ काक १ क्वट
१ करिष्ट ३ वलिपुष्ट ४ सकृत्यम ५
धाङ्ग ६ आत्मघोष ७ परमृव ८
वलिभुग् ९ वापसा १० ॥ २० ॥

घ्रोगकाकस्तु काकोलो-
बोम कौत्के नाम २ ॥ घ्रोगकाक १
काकाल २ ॥

-दात्सूइः कालकण्ठक ॥
काले कौत्के नाम १ ॥ दात्सूइ १
कालकण्ठक २ ॥

आतापिचिह्नौ-
चीह्नके नाम २ ॥ आतापि १ चिह्न २ ॥

-दाक्षाय्यगृध्रौ-
गीधक नाम २ ॥ दाक्षाय्य १ गृध्र २ ॥
-कीरुणकौ-
तोतक नाम २ ॥ कीर १ लुक २ ॥
-समौ ॥ २१ ॥

आतापि और चिह्न, दाक्षाय्य और
गृध्र, तथा कीर और लुक शब्द समान
छिन्न है ॥ २१ ॥

-क्रुङ्क्रीणौ-
क्रौञ्चपक्षीके नाम २ ॥ क्रुङ्क १ क्रौञ्च २ ॥

-उष घकं कक-
बगुळेके नाम २ ॥ उष १ कक २ ॥
-पुष्करास्तु सारस ॥

सारसके नाम २ ॥ पुष्करा १ सारस २ ॥
कोकिलकथकयाफो रयाङ्गनादय
नामक ॥ २३ ॥

बकई बकवाके नाम २ ॥ कोक १
बक २ बकवाक ३ रयाङ्ग ४ ॥ २३ ॥

कादम्बः कलहंसः स्या-

वर्तक पक्षीके नाम २ ॥ कादम्ब

१ कलहंस २ ॥

दुत्क्रोशकुररौ समौ ॥

कुररी पक्षीके नाम २ ॥ उत्क्रोश १

कुरर २ ॥

हंसास्तु श्वेतगरुतश्चक्रांगा मा-
नसौकसः ॥ २३ ॥

हसके नाम ४ ॥ हस १ श्वेतगरुत
२ चक्राग ३ मानसौकस ४ ॥ २३ ॥

राजहंसास्तु ते चञ्चुचरणै-
र्लोहितैः सिताः ॥

जिन हसोंकी चोंच और पैर लाल
हों और देह उज्ज्वल हो उन हसोंका
नाम १ ॥ राजहस १ ॥

मलिनैर्मल्लिकाक्षास्ते-

जिन हसोंके चरणादि मैले हों
उनका १ ॥ मल्लिकाक्ष १ ॥

धार्तराष्ट्राः सितेतरैः ॥ २४ ॥

जिनके चोंच और चरण काले हों उन
हसोंका नाम १ धार्तराष्ट्र १ ॥ २४ ॥

शरारिराटिराडिश्च-

आडी पक्षीके नाम ३ ॥ शरारि १
आटि २ आडि ३ ॥

-बलाका विसकण्ठिका ॥

बगुलेके दूसरी जातिके नाम २ ॥

बलाका १ विसकण्ठिका २ ॥

हंसस्य योषिद्वरटा-

हसनीका नाम १ ॥ वरटा १ ॥

-सारसस्य तु लक्ष्मणा ॥ २५ ॥

सारसकी स्त्रीका नाम १ ॥ लक्ष्मणा

१ ॥ २५ ॥

जतुकाऽजिनपत्रा स्या-

चिमगादरके नाम २ ॥ जतुका १

अजिनपत्रा २ ॥

त्परोष्णी तैलपायिका ॥

चपरा पक्षीके नाम २ ॥ परोष्णी

१ तैलपायिका २ ॥

वर्वणा मक्षिका नीला-

मक्खीके नाम ३ ॥ वर्वणा १

मक्षिका २ नीला ३ ॥

-सरघा मधुमक्षिका ॥ २६ ॥

शहदकी मक्खीके नाम २ ॥ सरघा

१ मधुमक्षिका २ ॥ २६ ॥

पताङ्गिका पुत्तिका स्या-

छोटी मधुमक्खीके नाम २ ॥

पतंगिका १ पुत्तिका २ ॥

दंशीस्तु वनमक्षिका ॥

ढासके नाम २ ॥ दश १ वनमक्षिका २ ॥

दंशी तज्जातिरल्पा स्या-

छोटे ढासका नाम १ ॥ दशी १ ॥

-गन्धोली वरटा द्वयोः ॥ २७ ॥

गन्धोली मक्खीके नाम २ ॥ गन्धोली

१ वरटा २ ॥ २७ ॥

शृगारी श्रुका चीरी क्षिति
का घ समा इमाः ॥

श्रीगरके नाम ४ ॥ शृगारी १
श्रीश्रुका २ चीरी ३ क्षितिकृता ४ ॥

समौ पतगशलभौ-
पतंगके नाम २ ॥ पतंग १ शलभ २ ॥

-खद्योतो ज्योतिरिगणा २८ ॥
ध्रुगन् क्रोडेके नाम २ ॥ खद्योत
१ ज्योतिरिगण २ ॥ २८ ॥

मधुवतो मधुक्त्रो मधुलिण्म
धुपालिन् ॥ द्विरेफपुष्पकिह्रुं
गपट्टपदभ्रमराख्य ॥ २९ ॥

मध्वरेके नाम १ ॥ मधुवत १ मधु
क्त्र २ मधुकिह्रु ३ मधुप ४ अस्त्रिन् ५
द्विरेफ ६ पुष्पकिह्रु ७ मङ्ग ८ पट्टपद
९ भ्रमर १ अख्य ११ ॥ २९ ॥

मयूरो बर्हिणो बर्हिं नीलकण्ठो
मुजंगमुज्ज ॥ शिखाबलः शिखी
केकी मेघनादानुलात्मपि ॥ ३० ॥

मोरके नाम ९ ॥ मयूर १ बर्हिण २
बर्हिन् ३ नीलकण्ठ ४ मुजंगमुज्ज ५
शिखाबल ६ शिखिन् ७ केकिन् ८
मेघनादानुलात्मिन् ९ ॥ ३० ॥

केका वाणी मयूरस्य-
मोरके शब्दका नाम १ ॥ केका १ ॥
-समौ चन्द्रकमचकौ ॥

मोरके परोपर चन्द्राकार धिक्के
नाम २ ॥ चन्द्रक १ मेचक २ ॥

शिरसा घृडा-
मोरकां चोटीकेनाम २ ॥ शिरसा १ घृडा २ ॥

-शिरखण्डस्तु पिच्छयर्हे, नष्ट
सके ॥ ३१ ॥

मोरके परोके नाम १ ॥ शिरखण्ड १
पिच्छ २ वर्हे ३ ॥ ३१ ॥

खगे विहगाविहगाविहगमविहा
पस ॥ शकुन्तिपाक्षिशकुनिशकुन्त
शकुनादिजा ॥ ३२ ॥ पतत्रिपत्रि-
पतगपतत्पत्ररथाण्डजा ॥ नगौ
कोबाजिविकिरविधिष्किरपतत्रय
॥ ३३ ॥ नीडोद्भवा गरुत्मन्त
पिस्तन्तो नमसंगमा ॥

पक्षीमात्रके नाम २७ ॥ खग १ शिग
२ शिगा ३ शिगाम ४ विहापस ५
शकुन्ति ६ पक्षिन् ७ शकुनि ८ शकुन्त
९ शकुम १० द्विज ११ ॥ ३२ ॥
पतत्रिन् १२ पक्षिन् १३ पतग १४
पतत् १५ पत्ररथ १६ पण्डज १७
नगौकम् १८ बाजिन् १९ विकिर २०
किर २१ विष्किर २२ पतत्रि २३ ॥
३४ ॥ नीडोद्भव २४ गरुत्मत् २५
पिस्तत् २६ नमसंगम २७ ॥

तेषां विधेया हारीतो मङ्ग
कारण्डव घृवा ॥ ३४ ॥ तित्तिरि-

कुक्कुभो लावो जीवजीवश्च
कोरकः ॥ कोयष्टिकाष्टिष्टिभको
वर्तको वर्तिकादयः ॥ ३५ ॥

पक्षियोंके भेद १३ ॥ हारीत १
मद्दु २ कारण्डव ३ प्लव ४ ॥ ३४ ॥

तित्तिरि ५ कुक्कुभ ६ लाव ७ जीव-
जीव ८ चकोरक ९ कोयष्टिक १०
टिष्टिभक ११ वर्तक १२ वर्तिका १३
इत्यादि ॥ ३५ ॥

गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं च
तनूरुहम् ॥

पक्षियोंके परोके नाम ६ ॥ गरुत् १
पक्षर छद ३ पत्र ४ पतत्र ५ तनूरुह ६ ॥

स्त्री पक्षतिः पक्षमूलं—

पक्षियोंके बाजूके नाम २ ॥
पक्षति १ पक्षमूल २ ॥

—चञ्चुस्त्रोटिरुभे स्त्रियौ ॥ ३६ ॥

चोंचके नाम २ ॥ चञ्चु १
त्रोटि २ ॥ ३६ ॥

प्रडीनोड्डीनसंडीनान्येताः खग
गतिक्रियाः ॥

पक्षियोंकी चालके भेद ३ ॥
प्रडीन १ उड्डीन २ सडीन ३ ॥

पेशी कोशो द्विहीनेण्डं—

अण्डेके नाम ३ ॥ पेशी १ कोश २
अण्ड ३ ॥

—कुलायो नीडमास्त्रियाम् ॥ ३७ ॥

पक्षियोंके घरके नाम २ ॥ कुलाय
१ नीड २ ॥ ३७ ॥

पोतः पाकोऽर्भको डिम्भः पृथु-
कः शावकः शिशुः ॥

पक्षीके वा साधारण बच्चोंके
नाम ७ ॥ पोत १ : पाक २ अर्भक ३
डिम्भ ४ पृथुक ५ शावक ६ शिशु ७ ॥

स्त्रीपुंसौ मिथुनं द्वन्द्वं—

स्त्रीपुरुषके जोड़ेके नाम ३ ॥

स्त्रीपुस १ मिथुन २ द्वन्द्व ३ ॥

—युगं तु युगुलं युगम् ॥ ३८ ॥

जोड़ेके नाम ३ ॥ युग १ युगुल २
युग ३ ॥ ३८ ॥

समूहो निवहव्यूहसंदोहविसर-
व्रजाः ॥ स्तोमौघनिकरव्रात-

वारसंघातसंचयाः ॥ ३९ ॥ समु-

दायः समुदयः समवायश्चयो

गणः ॥ स्त्रियां तु संहतिर्वृन्दं

निकुरम्बं कदम्बकम् ॥ ४० ॥

समूहके नाम २२ ॥ समूह १

निवह २ व्यूह ३ सन्दोह ४ विसर ५

व्रज ६ स्तोम ७ ओघ ८ निकर ९

व्रात १० वार ११ संघात १२

संचय १३ ॥ ३९ ॥ समुदाय १४

समुदय १५ समवाय १६ चय १७

गण १८ संहति १९ वृन्द २० नि-
कुरम्ब २१ कदम्बक २२ ॥ ४० ॥

वृन्दमेदा -

अथ समूहोंके भेद कहतहैं ॥

-समैर्वग-

जीव अजीव एकही जातिके

समूहका नाम १ ॥ वग १ ॥

-सवसार्थो तु जन्तुभिः ॥

कवळ प्राणियोंके समूहके नाम २ ॥

सव १ सार्थ २ ॥

सजातीयैः कुल-

एक जातिके ही प्राणियोंके

समूहका नाम १ ॥ कुल १ ॥

-यूय तिरष्वां पुनर्पुंसकम् ॥ ४१ ॥

पक्षियोंके समूहका नाम १ ॥

यूय १ ॥ ४१ ॥

पशूनां समाजो-

पशुओंके समूहका नाम १ ॥ समाज १ ॥

-ऽम्पेषां समाजो-

पक्षी और पशुओंसे दूसरोंके

समूहका नाम १ ॥ समाज १ ॥

-ऽय सवर्मिणाम् ॥

स्वाभिकाष-

एकवर्मापक्षियोंके समूहका नाम १ ॥

निकाष १ ॥

-पुञ्जराशी तुत्करं फूटम-

श्रियाम् ॥ ४२ ॥

अक्षादिके ऊषे ढेरके नाम ४ ॥

पुञ्ज १ राशी २ तुत्कर ३ फूट ४ ॥ ४२ ॥

कापोतशोकमायूरतैत्तिरादीनि

वद्रणे ॥

(क्यूतरोके समूहका नाम) कापोता ॥

(तोतोंके समूहका नाम) शोक ॥

(मयूरोंके समूहका नाम) मायूरा (तीत

रोंके समूहका नाम) तैत्तिर इत्यादि ॥

गृहासक्ताः पक्षिमृगाश्छेकास्ते

गृह्यकाश्च ते ॥ ४३ ॥

घरके पाछे हुए मृगपक्षी आदिके

नाम २ ॥ छेक १ गृह्यक २ ॥ ४३ ॥

इति सिंहादिर्गणः ॥ ५ ॥

अथ मनुष्यवर्गः ६

मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा

मानवा नराः ॥

मनुष्यमात्रक नाम ६ ॥ मनुष्य १

मानुष २ मर्त्य ३ मनुज ४ मानव ५

नर ६ ॥

स्यु पुमांसः पञ्चमनाः पुरुषाः

पुरुषा नराः ॥ १ ॥

मनुष्यभातिपुरुषके नाम ५ ॥ पुंस्

१ पञ्चमन २ पुरुष ३ पूरुष ४

दृ ५ ॥ १ ॥

स्त्री योषिद्वला योषा नारी

सीमंतिनी वयू ॥ प्रतीपदर्शिनी

वामावनिता महिला तथा ॥ २ ॥

स्त्रीके नाम १ १ ॥ स्त्री १ योषि २

अकथा ३ योषा ४ नारी ५ सीमंतिनी ६

वधू ७ प्रतीपदर्शिनी ८ वामाएवनिता
१० महिला ११ ॥ २ ॥

विशेषा-

स्त्रियोंके विशेषभेद कहते हैं ॥

-स्वङ्गना भीरुः कामिनी

वामलोचना ॥ प्रमदा मानिनी
कान्ता ललना च नितम्बिनी
॥ ३ ॥ सुन्दरी रमणी रामा-

अच्छे अर्गोवाली स्त्रीका नाम १ ॥

अगना १ ॥ डरभूत स्त्रीका नाम १ ॥

भीरु १ ॥ कामयुतस्त्रीका नाम १ ॥

कामिनी १ ॥ सुन्दरनेत्रोंवाली स्त्रीका

नाम १ ॥ वामलोचना १ ॥ बहुतकामवती

स्त्रीका नाम १ ॥ प्रमदा १ ॥ प्रणयको-

पवाली स्त्रीका नाम १ ॥ मानिनी १ ॥

मन हरनेवाली स्त्रीका नाम १ ॥ कान्ता

१ ॥ दुलारी स्त्रीके नाम २ ॥ ललना १

नितम्बिनी २ ॥ ३ ॥ सुन्दरअर्गोवाली

स्त्रीका नाम १ ॥ सुन्दर अङ्गोंवाली

स्त्रीकेनाम सुन्दरी १ ॥ जिसमें

अतिचित्त रमित हो उस स्त्रीका नाम १ ॥

रमणी १ ॥ बिहारके योग्य स्त्रीका

नाम १ ॥ रामा १ ॥

-कोपना सैव भामिनी ॥

कोपवाली स्त्रीके नाम २ ॥ कोपना १

भामिनी २ ॥

वरारोहा मत्तकाशिन्युत्तमा

वरवर्णिनी ॥ ४ ॥

बहुत ही उत्तम स्त्रीके नाम ४ ॥

वरारोहा १ मत्तकाशिनी २ उत्तमा ३

वरवर्णिनी ४ ॥ ४ ॥

कृताभिषेका महिषी-

जिस रानीका अभिषेक हुआ हो

उसका नाम १ ॥ महिषी १ ॥

-भोगिन्योऽन्या नृपस्त्रियः ॥

महिषीको छोड़ राजाकी अन्यस्त्रि-

योंका नाम १ ॥ भोगिनी १ ॥

पत्नी पाणिगृहीती च द्वितीया

सहधर्मिणी ॥ ५ ॥ भार्या जा-

याय पुंभूम्नि दाराः-

व्याहीहुई स्त्रीके नाम ७ ॥ पत्नी १

पाणिगृहीती २ द्वितीया ३ सहधर्मिणी

४ ॥ ५ ॥ भार्या ५ जाया ६ दारा पु० व० ७ ॥

स्यात्तु कुटुम्बिनी ॥

पुरन्ध्री-

जिस स्त्रीके पतिपुत्र दोनों विद्य-

मानहों उसके नाम २ ॥ कुटुम्बिनी १

पुरन्ध्री २ ॥

-सुचरित्रा तु सती साध्वी

पतिव्रता ॥ ६ ॥

पतिव्रता स्त्रीके नाम ४ ॥ सुचरित्रा १

सती २ साध्वी ३ पतिव्रता ४ ॥ ६ ॥

कृतसापत्निकाध्युद्धाधिविन्ना-

जिसके बहुतसी स्त्रिया हो उनमें

जो प्रथम व्याही गई हो उसके नाम ३ ॥

द्वयसापत्निका १ अभ्यूढा २ अधि
विमा ३ ॥

-ऽय स्वयंवरा ॥

पतिवरा च वर्याय-

जो अपने आप स्वयंवरादिमें पति

की इच्छा करे उस स्त्रीके नाम ३ ॥

स्वयवरा १ पतिवरा २ वर्या ३ ॥

-कुलस्त्री कुलपालिका ॥ ७ ॥

कुलवती स्त्रीके नाम २ ॥ कुल

स्त्री १ कुलपालिका २ ॥ ७ ॥

कन्या कुमारी-

पाँच वर्षकी कन्याके नाम २ ॥

कन्या १ कुमारी २ ॥

-गौरी तु नमिकाऽनागतार्तवा ॥

दशवर्षकी कन्याके नाम ३ ॥ गौरी

१ नमिका २ अनागतार्तवा ३ ॥

स्यान्मध्यमा दृष्टरजा-

त्रिसको रजोभर्मे होजाय उस

स्त्रीका नाम १ ॥ मध्यमा १ ॥

-स्तहणी युवति समे ॥ ८ ॥

युवास्त्रीके नाम २ ॥ तरणी १

युवता ७ ॥ ८ ॥

समास्तुपाजनीविध्व-

बहू (पुत्रक्यू) के नाम ३ ॥

स्तुपा १ जनी २ क्यू ३ ॥

-क्षिरप्टी तु सुवासिनी ॥

जो कि किंचित् पुत्रकन्याका प्रातः

प्याही दूध निरविनाक घरमें रहनी हो

उस स्त्रीके नाम २ ॥ क्षिरप्टी १ ॥
सुवासिनी २ ॥

इच्छावती कामुका स्या-

जो धनादिका इच्छा करती हो उस

स्त्रीके नाम २ ॥ इच्छावती १ कामुका २ ॥

-वृपस्पन्ती तु कामुकी ॥ ९ ॥

मद्युक्ती इच्छाकरनेवाली स्त्रीक

नाम २ ॥ वृपस्पन्ती १ कामुकी २ ॥ ९ ॥

कान्तार्थिनी तु या याति सके-

त साऽभिसारिका ॥

जो पतिकी इच्छाकर कामार्थ हो

सकेत स्यान्को जाये उस स्त्रीका नाम

१ ॥ अभिसारिका १ ॥

पुंसली घर्षिणी बन्धक्यसती

कुलदेवरी ॥ १० ॥ स्वैरिणी पां

शुला च स्या-

व्यभिचारिणी स्त्रीके नाम ८ ॥

पुंसली १ घर्षिणी २ बन्धक्यसती

४ कुलदेवरी ५ इत्यरी ६ ॥ १० ॥ स्वैरिणी

७ पाशुला ८ ॥

-दक्षिणी शिशुना विना ॥

विनपुत्रवाली स्त्रीका नाम १ ॥

दक्षिणी १ ॥

अवीरा निष्पत्तिमुता-

जिसके पतिपुत्र न हों उस स्त्रीका

नाम १ ॥ अवीरा १ ॥

-विश्वस्ताविधवे समे ॥ ११ ॥

विश्वस्ता स्त्रीक नाम २ ॥ विश्वस्ता १
विश्वता २ ॥ ११ ॥

आलिः सखी वयस्याथ—
 सखी वा साथके खेलनेवाली स्त्रीके
 नाम ३॥ आलि १ सखी २ वयस्या ३॥
 -पतिवल्नी समर्तृका ॥
 जिस स्त्रीका पति जीता हो उसके
 नाम २॥ पतिवल्नी १ समर्तृका २ ॥
 वृद्धा पलिक्री—
 वृद्धी स्त्रीके नाम २॥ वृद्धा १ पलिक्री २॥
 -प्राज्ञी तु प्रज्ञा—
 कुछ कुछ समझदार स्त्रीके नाम २॥
 प्राज्ञी १ प्रज्ञा २ ॥
 -प्राज्ञा तु धीमती ॥ १२ ॥
 अतिबुद्धिमती स्त्रीके नाम २॥ प्राज्ञा
 १ धीमती २ ॥ १२ ॥
 शूद्री शूद्रस्य भार्या स्या—
 चाहे अन्य जातिभी हो पर शूद्रकी
 स्त्री हो उस स्त्रीका नाम १॥ शूद्री १॥
 -च्छूद्रा तज्जातिरेव च ॥
 शूद्रजातिका नाम १ ॥ शूद्रा १॥
 आभीरी तु महाशूद्री जातिपुंयो-
 गयोः समा ॥ १३ ॥
 अहिरिनिके नाम २ ॥ आभीरी १
 महाशूद्री २ ॥ १३ ॥
 अर्याणी स्वयमर्या स्या—
 बनैलीके नाम २॥ अर्याणी १ अर्या २॥
 तक्षत्रिया क्षात्रियाण्यपि ॥

क्षत्रियानीके नाम २ ॥ क्षत्रिया १
 क्षत्रियाणी २ ॥

उप ाध्यायाप्युपाध्यायी—

पढितानीके नाम २ ॥ उपाध्याया
 १ उपाध्यायी २ ॥

-स्यादाचार्यापि च स्वतः ॥ १४ ॥

जो अपने आप मंत्रोके अर्थ कहस
 के उसका नाम १॥ आचार्या १॥ १४ ॥

आचार्यानी तु पुंयोगे—

चाहे मंत्रादिकी व्याख्या न करसके
 पर आचार्यकी स्त्री हो उसका नाम १॥
 आचार्यानी १ ॥

-स्यादर्या—

तैसेही अर्थ (वैश्य) की स्त्रीका
 नाम १॥ अर्या १ ॥

-क्षत्रियी तथा ॥

क्षत्रियकी स्त्रीका नाम १॥ क्षत्रियी १॥

उपाध्यायान्युपाध्यायी—

पढानेवालेकी स्त्रीके इसी प्रकारके
 नाम २॥ उपाध्यायनी १ उपाध्यायी २॥

-पोटा स्त्री पुंसलक्षणा ॥ १५ ॥

ढाढीमूछ आदियुक्त स्त्रीका नाम १॥
 पोटा १ ॥ १५ ॥

वीरपत्नी वीरभार्या—

वीरकी स्त्रीके नाम २॥ वीरपत्नी १
 वीरभार्या २ ॥

—वीरमार्ता तु वीरसू ॥

वीरकी माताके नाम २ ॥ वीरमातृ

१ वीरसू २ ॥

जातापत्या प्रजाता च प्रसूता च
प्रसूतिका ॥ १६ ॥

निसके बाळक पैदा हुना हो उच
कीके नाम ४ ॥ जातापत्या १ प्रजाता
२ प्रसूता ३ प्रसूतिका ४ ॥ १६ ॥

स्त्री नामिका कोटवी स्या-

नम्री कीके नाम २ ॥ नामिका १ कोटवी २

—इवृती सचारिके समे ॥

दूतके नाम २ ॥ इवृती १ सचारिका २ ॥

कात्यायन्यर्षवृद्धा या कापायवस
माश्रया ॥ १७ ॥

गेठ आदिसे रंगेद्वारे वस्त्र पहरनेवाली
बुद्ध वृद्ध विवशा कीका नाम १ ॥
कात्यायनी १ ॥ १७ ॥

सैरन्धी परवेशमस्था स्ववशा
शिल्पकारिका ॥

अपनी इच्छाके अनुसार पराय गृह
में रहकर शिल्पकार्य करमेवाली स्त्रीका
नाम १ ॥ सैरन्धी १ ॥

असिक्ती स्यादवृद्धा या मेष्प्याऽन्तः
पुरचारिणी ॥ १८ ॥

घरके भीतर सेवा आदि काय करने वा
छोकरानकीसामान २ ॥ असिक्ती १ ॥ १८ ॥

वारस्त्री गणिका वेद्या रूपा

जीवा-

वेद्याके नाम ४ ॥ वारस्त्री १

गणिका २ वेद्या ३ रूपाजीवा ४ ॥

—ऽथ सा जनै ॥

सत्कृषा वारमुख्या स्या-

निसका पुरुष अधिक स्तकार की
अर्थात् सममें श्रेष्ठ वेद्याका नाम १ ॥
वारमुख्या १ ॥

—कुट्टनी, शम्भली समे ॥ १९ ॥

कुट्टनीके नाम २ ॥ कुट्टनी १ ॥

शम्भली २ ॥ १९ ॥

विप्रशिक्षा त्वीक्षणिका देवज्ञा-
सामुद्रिक आदि शास्त्रानुसार छल्लण
जानकर शुभाशुभ फल कहनेवाली स्त्री
के नाम ३ ॥ विप्रशिक्षा १ त्वीक्षिका २
देवज्ञा ३ ॥

—ऽथ रजस्वला ॥

स्त्रीषमिण्यविरात्रेयी मलिनी
पुष्पवत्पि ॥ २० ॥ अस्तुमत्य
प्युत्कमापि-

रजस्वला स्त्रीके नाम ८ ॥ रजस्वला १
स्त्रीषमिणी २ अत्रि ३ आत्रेयी ४ मलिनी ५
पुष्पवती ६ ॥ २ ॥ अस्तुमती ७ उदक्या ८ ॥

—स्याद्गजः पुष्पमातनम् ॥

स्त्रीके मासिक रजोधर्मके नाम ३ ॥
रजसू १ पुष्प २ आतन ३ ॥

श्रद्धालुर्दोहदवती-

गर्भके समय अनेकप्रकारकी इच्छा करनेवाली स्त्रीके नाम २ ॥ श्रद्धालु १ दोहदवती २ ॥

-निष्कला विगतार्तवा ॥२१॥

रजोहीन स्त्रीके नाम २ ॥ निष्कला १ विगतार्तवा २ ॥ २१ ॥

आपन्नसत्त्वा स्याद्गुर्विण्यन्त-
र्वत्नी च गर्भिणी ॥

गर्भवाली स्त्रीके नाम ४ ॥ आप-
न्नसत्त्वा १ गुर्विणी २ अन्तर्वत्नी ३
गर्भिणी ४ ॥

गणिकादेस्तु गाणिक्यं गा-
भिणं यौवतं गणे ॥ २२ ॥

वेश्याओंके समूहका नाम १ ॥ गाणि-
क्य १ ॥ गर्भिणियोंके समूहका नाम
१ ॥ गर्भिण १ ॥ युवतियोंके समू-
हका नाम १ ॥ यौवत १ ॥ २२ ॥

पुनर्भूदिधिषूखटा द्वि-

जिस स्त्रीका विवाहसंस्कार द्वितीय-
वार हो उस स्त्रीके नाम २ ॥ पुनर्भू
१ दिधिषू २ ॥

-स्तस्या दिधिषुः पतिः ॥

उसके पतिका नाम १ ॥ दिधिषु १ ॥

स तु द्विजोऽप्रेदिधिषुः सैव

यस्य कुटुम्बिनी ॥ २३ ॥

जिसका द्वितीयवार विवाह संस्कार

हो वह स्त्री और उसका पति उन
दोनोंसे उत्पन्न बालकका नाम १ ॥
अप्रेदिधिषु १ ॥ २३ ॥

कानीनः कन्यकाजातः सुतो-
कन्यासे उत्पन्न हुए पुत्रके नाम २ ॥

कानीन १ कन्यकाजात २ ॥

-ऽथ सुभगासुतः ॥

सौभागिनेयः-

सौभाग्यवती स्त्रीके पुत्रके नाम २ ॥

सुभगासुत १ सौभागिनेय २ ॥

-स्यात्पारस्त्रैणेयस्तु परस्त्रिया २४ ॥

परस्त्रीके पुत्रका नाम १ ॥ पार-
स्त्रैणेय १ ॥ २४ ॥

पैतृष्वसेयः स्यात्पैतृष्वस्त्रीयश्च
पितृष्वसुः ॥ सुतो-

पिताकी बहन अर्थात् भूवाके
पुत्रके नाम २ ॥ पैतृष्वसेय १ पैतृष्व-
स्त्रीय २ ॥

-मातृष्वसुश्चैवं-

माँकी पुत्रके नाम २ ॥ मातृ-
ष्वसेय १ मातृष्वस्त्रीय २ ॥

-वैमात्रेयो विमातृजः ॥२५॥

सौतेले भाईके नाम २ ॥ वैमात्रेय
१ विमातृज २ ॥ २५ ॥

अथ बान्धकिनेयः स्याद्बन्धु-
लश्चासतीसुतः ॥ कौलटेरः कौ-

लटेयो-

कुलटाये पुत्रक नाम १ ॥
 बान्धकिनेय १ बन्धुल २ भस्तीक्षुत
 ३ कौष्ठेर ४ कौष्ठेय ५ ॥

-भिषुकी तु सती यदि ॥ २६ ॥
 सदा कौलटिनेयोऽस्या कौल
 टेयोऽपि, चात्मज ॥

जो सती भिक्षाक निमित्त धरोमें
 फिरे ॥ २६ ॥ उसके पुत्रक नाम २ ॥
 कौलटिनेय १ कौष्ठेय २ ॥

-आत्मजस्वनयः सन्नुः सुतः पुत्र
 पुत्रके नाम ५ ॥ आत्मज १ तनय
 २ सनु ३ सुत ४ पुत्र ५ ॥

-स्त्रियां त्वमी ॥ २७ ॥
 आहुर्दुहितरं सर्वे-
 जो पुत्रक नाम स्त्रीस्त्रिामें हों तो

पुत्रीक नाम हो जातेहैं ॥ २७ ॥
 -ऽपत्य तोकं तयोः समे ॥
 पुत्र पुत्री साधारणका नाम २ ॥

अपत्य १ तोक २ ॥
 स्वभाते त्वीरसोरस्यौ-
 सगपुत्रे नाम २ ॥ औरस १
 टरस्य २ ॥

-वातस्तु जनकः पिता ॥ २८ ॥
 जितारु नाम ३ ॥ वात १ जनक २
 पित्र ३ ॥ २८ ॥

जनवित्री प्रसूमाता जननी-
 माता नाम ८ ॥ जनवित्री १
 प्रसू २ मातृ ३ जननी ४

-भगिनी स्वसा ॥
 बहिनक नाम २ ॥ भगिनी १
 स्वसू २ ॥

ननान्दा तु स्वसा पत्यु-
 ननदका नाम १ ॥ ननान्द १ ॥

-नैषी पौत्री सुतात्मजा २९ ॥
 नातिनिक नाम ३ ॥ नषी १
 पौत्री २ सुतात्मजा ३ ॥ २९ ॥

भार्योस्तु भ्रातृवर्गस्य भारः
 स्युः परस्परम् ॥
 भापसमें भ्रातृवर्गकी स्त्रियोंका नाम

१ ॥ यातृ १ ॥
 प्रजावती भ्रातृजाया-
 मौजार्थिक नाम २ ॥ प्रजावती १
 भ्रातृजाया २ ॥

मातुलानी तु मातुली ॥ ३० ॥
 मामीके नाम २ ॥ मातुलानी १
 मातुली २ ॥ ३० ॥

पतिपत्न्योः प्रसूः शश्रूः-
 पति और स्त्रीको माताका नाम
 १ ॥ शश्रू १ ॥

-शशुरस्तु पिता तयोः ॥
 पति और स्त्रीक पिताका नाम १ ॥
 शशुर १ ॥

पितुभ्राता पितृव्यः स्या-
 पाथा या ताऊका नाम १ ॥ पितृव्य १ ॥
 -मातुभ्राता तु मातुल ॥ ३१ ॥

मामाके नाम २ ॥ मातुर्भ्रातृ १ ॥

मातुल २ ॥ ३१ ॥

श्यालाः स्युर्भ्रातरः पत्न्याः-

शालेका नाम १ ॥ श्याल १ ॥

-स्वामिनो देवृदेवरौ ॥

देवरके नाम २ ॥ देवृ १ देवर २ ॥

स्वस्त्रीयो भागिनेयः स्या-

भानजेके नाम २ ॥ स्वस्त्रीय १

भागिनेय २ ॥

-जामाता दुहितुः पतिः ॥ ३२ ॥

जमाईके नाम २ ॥ जामातृ १

दुहितुःपति २ ॥ ३२ ॥

पितामहः पितृपिता-

दादाके नाम २ ॥ पितामह १ ॥

पितृपितृ २ ॥

-तृपिता प्रपितामहः ॥

परदादाका नाम १ ॥ प्रपितामह १ ॥

मातुर्मातामहाद्येवं-

इसी प्रकार (नानाका नाम) माता-

मह (परनानाका नाम) प्रमातामह ॥

-सपिण्डास्तु सनाभयः ॥ ३३ ॥

सपिण्डके नाम २ ॥ सपिण्ड १

सनाभि २ ॥ ३३ ॥

समानोदर्यसोदर्यसगर्भ्यसहजाः

समाः ॥

सगेभाईके नाम ४ ॥ समानोदर्य १

सोदर्य २ सगर्भ्य ३ सहज ४ ॥

सगोत्रवान्धवज्ञातिबन्धुस्वस्व-
जनाः समाः ॥ ३४ ॥

एक गोत्रवाल्लोके अर्थात् समगोत्रि-
योके नाम ६ ॥ सगोत्र १ बान्धव २

ज्ञाति ३ बन्धु ४ स्व६स्वजन ६ ॥ ३४ ॥

ज्ञातेयं बन्धुता तेषां क्रमाद्भा-
वसमूहयोः ॥

विरादरीके भावका नाम १ ॥ ज्ञातेय

१ ॥ परिवारके समूहका नाम १ ॥

बन्धुता १ ॥

धवः प्रियः पतिर्भर्ता-

पतिके नाम ४ ॥ धव १ प्रिय २

पति ३ भर्तृ ४ ॥

-जारस्तूपपतिः समौ ॥ ३५ ॥

जिसके साथ व्याही हो उससे अ-

न्यसे मैथुन करती हो तो उस पतिके

नाम २ ॥ जार १ उपपति २ ॥ ३५ ॥

अमृते जारजः कुण्डो-

अपने पतिके जीतेही अन्य पतिसे

जो पुत्र हो उसका नाम १ ॥ कुण्ड १ ॥

-मृते भर्तारि गोलकः ॥

जो पतिके मरनेपर अन्य पतिसे उत्प-

न्नहो उसका नाम १ ॥ गोलक १ ॥

भात्रीयो भ्रातृजो-

भतीजेके नाम २ ॥ भ्रात्रीय १

भ्रातृज २ ॥

-भ्रातृभगिन्यौ भ्रातराबुभौ ॥ ३६ ॥

बहिनमर्षिके नाम २ ॥ आत्वमिनि
(न्यौ) १ आत्व (तौ) २ ॥ ३६ ॥

मातापितरौ पितरौ मातर
पितरौ मसूजनपितरौ ॥

जहां मातापिताको साथ ही कइया
हो उसके नाम ४ ॥ मातापितृ (तौ)
१ पितृ (तौ) २ मातरपितृ (तौ)
३ प्रसूजनपितृ (तौ) ४ ॥

शश्रुशश्रुगौ शश्रुरौ—
ऐसेही साम्प्रस्युरके नाम २ ॥

शश्रुशश्रु (रौ) १ शश्रु (रौ) २ ॥
—पुत्रौ पुत्रश्च दुहितौ च ३७ ॥

इसी प्रकार कन्यापुत्रका नाम १ ॥
पुत्र (प्रौ) १ ॥ ३७ ॥

दपती जपती जायापती भा
यापती च छौ ॥

छीपुरुषक इच्छे नाम ४ ॥ दम्पति
(ती) १ जम्पति (ती) २ जायापति
(ती) २ मार्यापति (ती) २ ॥

गमाशयो जरायु' स्या—
गर्मस्थानके नाम २ ॥ गर्माशय १
जरायु २ ॥

—दुह्य थ कललोडक्षियाम् ॥ ३८ ॥
गर्मस्थानक नाम २ ॥ दुह्य १
कल्ल २ ॥ ३८ ॥

सृतिमासो वैजननो—
गम रहनम मरमे वा दसामे नाम २

नाम जिसमें बाष्क पैदा होता है २ ॥
सृतिमास १ वैजनन २ ॥

—गर्भो भ्रूण इमौ समौ ॥
गर्भके नाम २ ॥ गर्भ १ भ्रूण २ ॥

तृतीयाप्रकृतिः पण्ड' डीवा
पण्डो नपुंसके ॥ ३९ ॥

हीनडेके नाम १ ॥ तृतीयाप्रकृति
१ पण्ड २ डीव ३ पण्ड ४ नपुंसक
५ ॥ ३९ ॥

शिशुत्व शैशव वाल्य—
कटकपनके नाम ३ ॥ शिशुत्व १

शैशव २ वाल्य ३ ॥
—तारुष्यं यौवनं समे ॥

जबानीके नाम २ ॥ तारुष्य १
यौवन ३ ॥

स्यात्स्याविरं तु वृद्धत्व—
मुठापेके नाम २ ॥ स्याविर १
वृद्धत्व २ ॥

—वृद्धत्वधिजिपि वार्धकम् ॥ ४० ॥
वृद्धके स्मृष्टका नाम १ ॥ वार्धक
१ ॥ ४० ॥

पलितं गरसा शौक्ल्य केशादी
भक्तिमुदापमे कश आधिक्ये जरा
करके जो सफदी भायी है उसका

नाम १ ॥ पलित १ ॥
—विक्रता अग ॥

मुदाईक नाम २ ॥ विक्रता १ अग २ ॥
स्यादुत्तानशया दिम्भा स्वन

पा थ स्तान्धयी ॥ ४१ ॥

दूधपिई छोटी लडकीके नाम ४ ॥

उत्तानशया १ डिम्भा २ स्तनपा ३
स्तनन्धयी ४ ॥ ४१ ॥

बालस्तु स्यान्माणवको-

सोलह वर्षपर्यन्त लडकेके नाम २ ॥

बाल १ माणवक २ ॥

-वयःस्थस्तरुणो युवा ॥

जवानपुरुषके नाम ३ ॥ वयःस्थ १
तरुण २ युवन् ३ ॥

प्रवयाः स्थविरो वृद्धो जीनो
जीर्णो जरन्नापि ॥ ४२ ॥

वृद्धके नाम ६ ॥ प्रवयस् १
स्थविर २ वृद्ध ३ जीन ४ जीर्ण ५
जरत् ६ ॥ ४२ ॥

वर्षीयान्दशमी ज्याया-

अतिवृद्धके नाम ३ ॥ वर्षीयस् १
दशमिन् २ ज्यायस् ३ ॥

-पूर्वजस्त्वग्रियोऽग्रजः ॥

ज्येष्ठभाईके नाम ३ ॥ पूर्वज १
अग्रिय २ अग्रज ३ ॥

जघन्यजे स्युः कनिष्ठयवीयोव-
रजानुजाः ॥ ४३ ॥

छोटे भाईके नाम ५ ॥ जघन्यज १
कनिष्ठ २ यवीयस् ३ अवरज ४
अनुज ५ ॥ ४३ ॥

अमांसो दुर्वलश्छातो-

दुबलेके नाम ३ ॥ अमांस १
दुबले २ छात ३ ॥

बलवान्मांसलोऽसलः ॥

बलवान्के नाम ३ ॥ बलवत् १
मासल २ असल ३ ॥

तुन्दिलस्तुन्दिभस्तुन्दीवृहत्कुक्षिः
पिचण्डिलः ॥ ४४ ॥

बड़े पेटवालेके नाम ५ ॥ तुन्दिल १
तुन्दिभ २ तुन्दिन् ३ वृहत्कुक्षि ४
पिचण्डिल ५ ॥ ४४ ॥

अवटीटोऽवनाटश्चाऽवभ्रटो नत-
नासिके ॥

चपटी नाकवालेके नाम ३ ॥ अव-
टीट १ अवनाट २ अवभ्रट ३ ॥

केशवः केशिकः केशी-

अच्छे बालवालेके नाम ३ ॥ केशव १
केशिक २ केशिन् ३ ॥

वालिनो वालिभः समौ ॥ ४५ ॥

जिसकी बुढापेके मारे खाल सिकुरगई
हो उसके नाम २ ॥ वालिन १
वालिभ २ ॥ ४५ ॥

विकलाङ्गस्त्वपोगण्डः-

जिसका अपनेहीसे कोई अग अधिक
वा कम हो उसके नाम २ ॥ विक-
लाङ्ग १ अपोगण्ड २ ॥

खर्वो ह्रस्वश्च वामनः ॥

वौनेके नाम ३ ॥ खर्व १ ह्रस्व २
वामन ३ ॥

खरणाः स्यात्खरणसो-

जिसकी तीखी नाकहो उसके
नाम २ ॥ खरणस् १ खरणस २ ॥

विमस्तु गतनासिक' ॥ ४६ ॥

नक्रेके नाम २ ॥ विम १ गतना
सिकर ॥ ४६ ॥

खुरणा' स्पात्खुरणस'-

जिसकी पशुके खुरकी सभ्य
नासिका हो उसके नाम २ ॥ खुरणस् १
१ खुरणस २ ॥

प्रभु' प्रगतजानुक' ॥

बात आदिरोगसे जिसके घुटने बहुत
दूर २ बागए हों उसके नाम २ ॥

प्रभु १ प्रगतजानुक २ ॥

ऊर्ध्वगुर्ध्वजानु' स्या-

जिसके घुटने ऊंचे हों उसके नाम २
ऊर्ध्वगु १ ऊर्ध्वजानु २ ॥

-त्सांशु संद्वतजानुक' ॥ ४७ ॥

जिसके घुटने मिठ हुए हों उसके
नाम २ ॥ सांशु १ संद्वतजानुक २ ॥ ४७ ॥

स्पादिड बधिर'-

बधिरके नाम २ ॥ स्पदिड १ बधिर २ ॥

-कुम्भे गडुल -

कुम्भके नाम २ ॥ कुम्भ १ गडुल २ ॥

-कुम्भे कुणि' ॥

जिगरु हाथमें रोगादिसे कुठ नि-
कार हो उतासनाम २ ॥ कुम्भ १ कुणि २ ॥

पृथिव्यल्पवर्णा-

जिसका बहुत ही छोटा शरीरहो
उसके नाम २ ॥ पृथिव्य १ अल्पवर्ण २ ॥

-ध्रोण' पगौ-

छूलेके नाम २ ॥ ध्रोण १ पंगुर २ ॥

-मृण्डस्तु मुण्डिते ॥ ४८ ॥

जिसका शिर मुँहाहुवा हा उसके
नाम २ ॥ मृण्ड १ मुण्डित २ ॥ ४८ ॥

बलिर' केकरे-

भडे (जिसके नेत्रकी पुतली फिरती
हो) उसके नाम २ ॥ बलिर १ केकरे २ ॥

-खोडे खन्न-

खगडके नाम २ ॥ खोडे १ खन्न २ ॥

स्त्रिपु जरावरा' ॥

जडुल' कालका पिण्ड-

जिसके भगमें उगुनाकारका चिह्न
हो उसके नाम १ ॥ जडुल १ कालका २

पिण्ड ३ ॥

स्तिलकास्तिलकालव' ॥ ४९ ॥

देहके तितके नाम २ ॥ स्तिलका १

स्तिलकालव २ ॥ ४९ ॥

अनामय स्पादारोग्य-

जिना रोगके नाम १ ॥ अनामय १
भारोग्य २ ॥

-चिकित्सा द्यप्रतिक्रिया ॥

एनाम करनर नाम २ ॥ चिकित्सा १
प्रतिक्रिया २ ॥

भेषजौषधभैषज्यान्व्यगदो जायुरि
त्यपि ॥ ५० ॥

१ औषधके नाम ५ ॥ भेषज १ औषध
२ भैषज्य ३ अगद ४ जायु ५ ॥ ५० ॥

स्त्री रुग्णजा चोपतापरोगव्याधि
गदामयाः ॥

रोगके नाम ७ ॥ रुग् १ रुजा २
उपताप ३ रोग ४ व्याधि ५ गद ६
आमय ७ ॥

क्षयः शोषश्च यक्ष्मा च-

क्षयी रोगके नाम ३ ॥ क्षय १ शोष
२ ॥ यक्ष्मन् ३ ॥

-प्रतिश्यायस्तु पीनसः ॥ ५१ ॥

पीनसरोगके नाम २ ॥ प्रतिश्याय
१ पीनस २ ॥ ५१ ॥

स्त्रा क्षुत्क्षुतं क्षवः पुंसि-

छीकके नाम ३ ॥ क्षुत् १ क्षुत २ क्षव ३ ॥

-कासस्तु क्षवथुः पुमान् ॥

खासीके नाम २ ॥ कास १ क्षवथु २ ॥

शोफस्तु श्वयथुः शोथः-

सूजनके नाम ३ ॥ शोक १ श्वयथु
२ शोथ ३ ॥

-पादस्फोटो विपादिका ॥ ५२ ॥

विषायी रोगके नाम २ ॥ पाद-
स्फोट १ विपादिका २ ॥ ५२ ॥

किलाससिध्मे-

सेह्वा (सीप) के नाम २ ॥

किलास १ सिध्म २ ॥

कच्छां तु पामपामे विचर्चिका ॥

खाजुरोगके नाम ४ ॥ कच्छ १

पामन् २ पामा ३ विचर्चिका ४ ॥

कण्डूः खर्जूश्च कण्डूया-

खुजलीके नाम ३ ॥ कण्डू १ खर्जू २
कण्डूया ३ ॥

-विस्फोटः पिटकोऽस्त्रियाम् ॥ ५३ ॥

फोडेके नाम २ ॥ विस्फोट १ पिटक
२ ॥ ५३ ॥

व्रणोऽस्त्रियामीर्ममरुः क्लीवे-

धावके नाम ३ ॥ व्रण १ ईर्म २ अरुस् ३

-नाडीव्रणः पुमान् ॥

नासूरका नाम १ ॥ नाडीव्रण १ ॥

कोठो मण्डलकं-

जो गोल उज्ज्वल चन्दे पढजातेहैं उस
कोठके नाम २ ॥ कोठ १ मण्डलक २ ॥

कुष्ठश्चित्रे-

छाजनके नाम २ ॥ कुष्ठ १ चित्र २ ॥

-दुर्नामकार्शसी ॥ ५४ ॥

ववासीरके नाम २ ॥ दुर्नामक १
अर्शस् २ ॥ ५४ ॥

आनाहस्तु विबन्धः स्या-

कजई जिसमें मलमूत्र रुकजाय उस
रोगके नाम २ ॥ आनाह १ विबन्ध २ ॥

-दृहणी रुक्प्रवाहिका ॥

संमहणी रोगके नाम २ ॥ महणी
१ प्रवाहिका २ ॥

प्रच्छेदिका वमिश्च स्त्री पुमांस्तु
वमथु* समाः ॥ ५५ ॥

उच्छेदा अयोत् वमनके नाम ३ ॥
प्रच्छेदिका १ वमि २ वमथु ३ ॥ ५५ ॥

व्याधिभेदा विद्रधि* स्त्री ज्वरमेह
मगन्दरा* ॥

म्यरयिया (एकप्रकारका फोडा) का
नाम १ ॥ विद्रधि १ ॥ ज्वरका नाम १ ॥
चर १ ॥

प्रमेहका नाम १ ॥ मेह १ ॥
मगन्दर अर्थात् गुदसमीपक फोडाका
नाम १ ॥ मगन्दर १ ॥

अश्मरी मूत्रकृच्छ्रं स्यात्-
कर्करोग अर्थात् पयरीरोगके नाम
२ ॥ अश्मरी १ मूत्रकृच्छ्र २ ॥

-पूर्वे शुक्रावधेस्त्रिपु ॥ ५६ ॥
पहले लेकर शुक्रशब्दके पहले २के
शब्द तीनों स्त्रियोंमे होते हैं ॥ ५६ ॥

रोगहार्यगर्दकारा भिषग्बैद्यौ
चिकित्सके ॥

वैद्यक नाम ५ ॥ रोगहारिन् १ भगद
कार २ भिषग् ३ वैद्य ४ चिकित्सक ५ ॥

वाचो निरामय कल्प उद्याघो
निर्गतो गदात् ५७ ॥

रोगरहितके नाम ४ ॥ वाचो निरा
मय २ कल्प ३ उद्याघ ४ ॥ ५७ ॥

ग्लानग्लास्तु-
रोगवशत क्षीण हो जानवालेके
नाम २ ॥ ग्लान १ ग्लास्तु २ ॥

-रामयावी विकृतो ध्याधितो
स्पदु* ॥

आतुरोऽभ्यमितोऽभ्यान्त-
रोगीके नाम ७ ॥ आभ्यान्तिन्
विहृत २ ध्याधित ३ स्पदु ४ ॥
आतुर ५ अभ्यमित ६ अभ्यान्त ७ ॥

समो पामनकच्छुरो ॥ ५८ ॥
सुनखीवालेक नाम २ ॥ पामन १
कच्छुर २ ॥ ५८ ॥

ददृणो ददुरोगी स्या-
ददुरोगके नाम १ ॥ ददृण १
ददुरोगिन् २ ॥

-दर्शोरोगयुतोऽर्शस* ॥
बवासीररोगीका नाम १ ॥ अर्शस १ ॥

वातकी वातरोगी स्यात्-
वातरोगीके नाम २ ॥ वातकिन्
१ वातरोगिन् २ ॥

-सातिसारोऽतिसारकी ॥ ५९ ॥
निसको बहुत दस्त हो उसके नाम
२ ॥ सातिसार १ अतिसारकिन् २
॥ ५९ ॥

स्यु* क्षिभासे बुधधिष्ठिष्ठा*
क्षिमेऽक्षिण चाप्यमी ॥

स्यु* क्षिभासे बुधधिष्ठिष्ठा*
क्षिमेऽक्षिण चाप्यमी ॥

चुन्धेके नाम ४ ॥ छिन्नाक्ष १

चुह २ चिह ३ पिह ४ ॥

उन्मत्त उन्मादवति-

उन्मत्त अर्थात् वावलेके नाम २ ॥

उन्मत्त १ उन्मादवत् २ ॥

-श्लेष्मलः श्लेष्मणः कफी ॥६०॥

कफरोगवालेके नाम ३ ॥ श्लेष्मल

१ श्लेष्मण २ कफिन् ३ ॥६०॥

न्युब्जो भुम्ने रुजा-

कुवडेका नाम १ ॥ न्युब्ज १ ॥

-वृद्धनाभौ तुन्दिलतुन्दिभौ ॥

जिसकी वातरोगसे नाभि बढजाय

उसके नाम ३ ॥ वृद्धनाभि १ तुन्दिल

२ तुन्दिभ ३ ॥

किलासी सिध्मलो-

किलास (सीप) रोगीके नाम २ ॥

किलासिन् १ सिध्मल २ ॥

-ऽन्धोऽहृक्-

अन्धेके नाम २ ॥ अन्ध १

अहृक् २ ॥

मूर्च्छाले मूर्तमूर्च्छितौ ॥ ६१ ॥

बेहोशीके नाम ३ ॥ मूर्च्छाल १

मूर्त २ मूर्च्छित ३ ॥ ६१ ॥

शुक्रं तेजोरेतसी च बीजवी-

र्येन्द्रियाणि च ॥

धातुके नाम ६ ॥ शुक्र १ तेजसू २

रेतसू ३ बीज ४ वीर्य ५ इन्द्रिय ६ ॥

मायुः पित्तं-

पित्तके नाम २ ॥ मायु १ पित्त २ ॥

-कफः श्लेष्मा-

कफके नाम २ ॥ कफ १ श्लेष्मन् २ ॥

स्त्रियां तु त्वगसृग्धरा ॥६२॥

खालके नाम २ ॥ त्वच् १ असृ-

ग्धरा २ ॥ ६२ ॥

पिशितं तरसं मांसं पललं

क्रव्यमामिषम् ॥

मासके नाम ६ ॥ पिशित १ तरस

२ मास ३ पलल ४ क्रव्य ५ आमिष ६ ॥

उत्तंसं शुष्कमांसं स्यात्तद्वल्लूर

त्रिलिङ्गकम् ॥ ६३ ॥

सूखेमासके नाम ३ ॥ उत्तंस १

शुष्कमास २ वल्लूर ३ ॥ ६३ ॥

रुधिरोऽसृग्लोहितास्त्ररक्तक्षत-

जशोणितम् ॥

रुधिरके नाम ७ ॥ रुधिर १ असृग्

२ लोहित ३ अस्त्र ४ रक्त ५ क्षतज

६ शोणित ७ ॥

बुक्काग्रमांसं-

कलेजेके नाम २ ॥ बुक्का १

अग्रमास २ ॥

-हृदयं हृ-

हृदयके नाम २ ॥ हृदय १ हृद् २ ॥

न्मेदस्तु वपा वसा ॥ ६४ ॥

चरवीके नाम ३ ॥ मेदस् १ वषा २ वसा ३ ॥ १४ ॥	छारके नाम ३ ॥ सृणिका १ स्यन्दिनी २ छाया ३ ॥
पश्चाद्गीवाशिरा मन्या-	-दृषिका भेष्यमोर्मलम् ॥
गलेके पीथेकी मसका नाम १ ॥ मन्या १ ॥	कीचर (गीड) का नाम १ ॥ दृषिका १ ॥
नाडी तु धमनि शिरा ॥	मूत्र प्रसाव-
नाडीके नाम ३ ॥ नाडी १ धमनि २ शिरा ३ ॥	मूत्रके नाम २ ॥ मूत्र १ प्रसाव २ ॥
तिलक क्लोम-	-उच्चारवस्करौ शमलं शकृत् ॥ ६७ ॥ पुरीष गूधवर्चस्कमली विष्टाविशौ स्त्रियौ ॥
शरीरके छिछके नाम २ ॥ तिलक १ क्लोम २ ॥	विष्टाके नाम ९ ॥ उषार १ अयस्कर २ शमल ३ शकृत् ४ ॥
-मस्तिष्क गोर्द-	॥ ६७ ॥ पुरीष ५ गूध ६ वचस्क ७ विष्टा ८ किञ्च ९ ॥
गुर्दके नाम २ ॥ मस्तिष्क १ गोर्द २ ॥	स्यात्कर्पर कपालोऽस्त्री-
-किटं मलोऽखियाम् ॥ ६५ ॥	कपालके नाम २ ॥ कर्पर १ कपाल २ ॥
मिठके नाम २ ॥ किट १ मल २ ॥ ६५ ॥	कीकस्त फुल्प्यमास्थिं च ॥ ६८ ॥
अन्त्रं पुरीत-	हृदिके नाम ३ ॥ कीकस्त १ फुल्प्य २ अस्थि ३ ॥ ६८ ॥
आंतोके नाम २ ॥ अन्त्र १ पुरीतत् २ ॥	स्याच्छरीरास्थि कपाल-
-दुल्मस्तु धृदिहा पु-	कांकरका नाम १ ॥ कपाल १ ॥
पत्रेया (तिड्डी) रोगके नाम २ ॥	-पृष्ठास्थि तु कजोरुका ॥
गुम्भ १ धृदिह २ ॥	पीठकी हृदिका नाम १ ॥ कजोरुका १ ॥
-स्पथ वस्तसा ॥ स्रायु श्रिया-	शिराऽस्थनि करोटि री-
नमरु नाम २ ॥ वस्तसा १ स्रायु २ ॥	गोपटीका नाम १ ॥ करोटि १ ॥ ६९ ॥
-बालरण्डयपृती तु समे इमे ॥ ६६ ॥	-पाइर्वास्थनि तु पशुका ॥ ६९ ॥
पामे जा नदनी बोद पत्रिया हा नमरु नाम २ ॥ कारुण्ड १ पट्ट २ ॥ ६६ ॥	पशुकी नाम १ ॥ पशुका १ ॥ ६९ ॥
सृणिका स्यन्दिनी लाला-	अद्भ प्रतीकाऽवयवोऽपचना-

अङ्गके नाम ४ ॥ अग १ प्रतीक २
अवयव ३ अपघन ४ ॥

-ऽथ कलेवरम् ॥

गात्रं वपुः संहननं शरीरं वर्ष्म
विग्रहः ॥ ७० ॥ कायो देहः क्ली-
वपुंसोः स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनूः ॥

देहके नाम १२ ॥ कलेवर १ गात्र
२ वपुस् ३ सहनन ४ शरीर ५ वर्ष्मन्
६ विग्रह ७ ॥ ७० ॥ काय ८ देह ९
मूर्ति १० तनु ११ तनू १२ ॥

पादाग्रं प्रपदं-

पावके आगेके नाम २ ॥ पादाग्र १
प्रपद २ ॥

-पादः पदंघ्रिश्चरणोऽखि-
याम् ॥ ७१ ॥

पावके नाम ४ ॥ पाद १ पद् २
अघ्रि ३ चरण ४ ॥ ७१ ॥

तद्वन्ध्या घुटिके गुल्फौ-

टाकनोंके नाम २ ॥ घुटिका १
गुल्फ २ ॥

-पुमान्पार्ष्णिस्तयोरधः ॥

एडीका नाम १ ॥ पार्ष्णि १ ॥

जह्वा तु प्रसृता-

जवा (पीडी) के नाम २ ॥ जवा
प्रसृता २ ॥

-जानूरुपर्वाधीवदास्त्रियाम् ७२

जानुके नाम ३ ॥ जानु १ ऊरु,
पर्वन् २ अष्टीवत् ३ ॥ ७२ ॥

सक्थि क्लीबे पुमानूरु-

निरोहके नाम २ ॥ सक्थि १ ऊरु २ ॥

-स्तत्सन्धिः पुंसि वङ्क्षणः ॥

टिड्डनीका नाम १ ॥ वक्षण १ ॥

गुदं त्वपानं पाथुर्ना-

गुदाके नाम ३ ॥ गुद १ ॥ अपान २

पाथु ३ ॥

वस्तिर्नाभिरधो द्वयोः ॥ ७३ ॥

जहा मूत्र रहता है अर्थात् पेडूका नाम
१ ॥ वस्ति १ ॥ ७३ ॥

कटो ना श्रोणिफलकं-

कमरके दोनों बगलके नाम ३ ॥

कट १ श्रोणि २ फलक ३ ॥

-कटिः श्रोणिः ककुब्जती ॥

कमरके नाम ३ ॥ कटि १ श्रोणि २
ककुब्जती ३ ॥

पश्चान्नितम्बः स्त्रीकट्याः-

स्त्रीके चूतरेका नाम १ ॥ नितम्ब १ ॥

-क्लीबे तु जघनं पुरः ॥ ७४ ॥

स्त्रीके जावका नाम १ ॥ जघन १ ॥
॥ ७४ ॥

कूपकौ तु नितम्बस्थौ द्वयहीने
कुकुन्दरे ॥

नितम्बमें जो दो गड्ढे होते हैं उतका
नाम १ ॥ कुकुन्दर १ ॥

स्त्रियां स्फिचौ कटिप्रोथा-

कूलेके नाम २ ॥ स्फिच १ कटि-
प्रोथ २ ॥

—नुपस्थो वक्ष्यमाणयो ॥७२॥	द्वयक नाम ३ ॥ उरस् १ वक्ष १
लिंगयोनिना नाम १ ॥ उपम्य १ ॥७३॥	वक्षस् ३ ॥
भग योनिद्वयो -	पृष्ठ तु चरमं तनोः ॥
योनिके नाम २ ॥ भग १ योनि २ ॥	पीठका नाम १ ॥ पृष्ठ १ ॥
-गिश्रो मेद्रं मेहनशोकसी ॥	स्कन्धो भुजशिरोऽसोऽस्त्री-
लिंगर नाम ४ ॥ शिश्र १ मद्र २	कशेके नाम ३ ॥ स्कन्ध १ भुज-
मेहन ३ शकम् ४ ॥	शिरस् २ अंस ३ ॥
मुष्कोऽण्डकोणो वृषण -	-मधी तस्यैव जघुणी ॥७८॥
अण्डकाशके नाम ३ ॥ मुष्क १	हंसकीका नाम १ ॥ जघु १ ॥७८॥
अण्डकोश २ वृषण ३ ॥	यादुमूले उभे कक्षी-
पृष्ठवगाधरे त्रिकम् ॥ ७६ ॥	वगउंका नाम १ ॥ कक्ष १ ॥
पीठक वानक नीच गदा तानि	पाश्वमस्त्री तयोरध ॥
गद निउ ? उम जादका नाम १ ॥	वगदर नीधका नाम १ ॥ गध १ ॥
त्रिक १ ॥ ७६ ॥	मध्यम घाबलप्र च मध्योऽस्त्री
पिचण्डकुक्षी जठरोदरं तुन्द-	पत्र नीधका और कमरक उर
पत्रक नाम ५ ॥ पिचण्ड १ कुक्षि	के मागके नाम ३ ॥ मध्य १
२ जठर ३ उदर ४ तुन्द ५ ॥	भवन्त २ मध्य ३ ॥
-स्तनी कुर्ची ॥	-द्वौ परौ द्वयो ॥ ७७ ॥
पत्रके नाम २ ॥ स्तन १ कुच १ ॥	भुजपाद् प्रवष्टा दो स्या-
शृगूरं तु शृगाम स्या-	वतिके नाम ४ ॥ ७७ ॥ मत्र १
शृगूर भषमाणर नाम ७ ॥	बाहू प्रवण २ दोग् ४ ॥
शृगूर १ शृगाम ॥	-स्वनाणिस्तु गूर्परं ॥
-स ना म १ मुमान्तम् ७७ ॥	कानीके नाम ॥ कक्षी १
ना क नाम ७ ॥ गीद १ मत्र	५२ १ ॥
१ ॥ ७७ ॥	अधोपरि प्रगणः स्या-
उग वर्ग व बाध-	क नीर उररा नाम १ ॥ गण १ ॥
	-त्रकास्तत्रैव भाष्यय ॥८०॥

कोनीके नीचेका नाम १ ॥ प्रकोष्ठ १ ॥ ८०

मणिवन्धादाकनिष्ठं करस्य
करभो बहिः ॥

मणिवन्धसे कनिष्ठा अगुलीपर्य-
तका नाम १ ॥ करभ १ ॥

पञ्चशाखः शयः पाणि-

हाथके नाम ३ ॥ पञ्चशाख १
शय २ पाणि ३ ॥

-स्तर्जनी स्यात्प्रदेशिनी ॥ ८१ ॥

हाथके अगूठके पासकी अगुलीके
नाम २ ॥ तर्जनी १ प्रदेशिनी २ ॥ ८१ ॥

अंगुल्यः करशाखाः स्युः-

अगुलियोके नाम २ ॥ अगुली १
करशाखा २ ॥

-पुस्यंगुष्ठः-

अगूठेका नाम १ ॥ अगुष्ठ १ ॥

-प्रदेशिनी ॥

अगूठके पासवाली अगुलीका
नाम १ ॥ प्रदेशिनी १ ॥

मध्यमाऽनामिका चापि कनिष्ठा
चेति ता. क्रमात् ॥ ८२ ॥

बीचवाली अगुलीका नाम १ ॥
मध्यमा २ ॥

बीचवाली और कन अगुलीके बीच-
वालीका नाम १ ॥ अनामिका १ ॥

कन अगुलीका नाम १ ॥ कनिष्ठा
१ ॥ ८२ ॥

पुनर्भवः कररुहो नखोऽस्त्री
नखरोऽस्त्रियाम् ॥

नाखुनोंके नाम ४ ॥ पुनर्भव १
कररुह २ नख ३ नखर ४ ॥

प्रादेशतालगोकर्णास्तर्जन्यादि-
युते तते ॥ ८३ ॥

अगुष्ठ तर्जनीतककी लम्बाईका
नाम १ ॥ प्रादेश १ ॥

अगुष्ठ बीचवालीके फेलातेकी लम्बा-
ईका नाम १ ॥ ताल १ ॥

अगुष्ठ अनामिकाके फेलातेकी
लम्बाईका नाम १ ॥ गोकर्ण १ ॥ ८३ ॥

अंगुष्ठे सकनिष्ठे स्याद्वितस्ति-
द्वादशांगुलः ॥

नापनेमें विलस्तके नाम २ ॥
वितस्ति १ द्वादशांगुल २ ॥

पाणौ चपेटप्रतलप्रहस्ता विस्तृ-
तांगुलौ ॥ ८४ ॥

थप्पडके नाम ३ ॥ चपेट १
प्रतल २ प्रहस्त ३ ॥ ८४ ॥

द्वौ संहतौ संहतलप्रतलौ वाम-
दक्षिणौ ॥

दुहत्थडेके नाम २ ॥ सहतल १ प्रतल २ ॥

पाणिर्निकुब्जः प्रसृति-

चुलेका नाम १ ॥ प्रसृति १ ॥

-स्तौ युतावञ्जलिः पुमान् ८५

अवच्छिन्ना नाम १ ॥ अवच्छि १ ॥ ८१ ॥

प्रकोष्ठे विस्त्वक्रे इस्त्वो-

हायका नाम १ ॥ हस्त १ ॥

-सुष्टया तु वक्ष्या ॥

सरतिः स्या-

मुद्दी बाधे हायका नाम १ ॥

(सरति) रति १ ॥

-वरतिस्तु निष्कनिष्ठेन मु
ष्टिना ॥ ८२ ॥

कनि अगुच्छियाको छोडके मुद्दीबाधे
हायका नाम १ ॥ अरति १ ॥ ८३ ॥

व्यामो बाधो सकम्पोस्त्वयो
स्त्वियगन्तरम् ॥

हाय फैलानका नाम १ ॥ व्याम १ ॥

ऊर्ध्वविस्त्वदो पाणिर्नृमाने
पौरुष त्रिषु ॥ ८७ ॥

ऊरकाय हाय उडाके नापनेका
नाम १ ॥ पौरुष १ ॥ ८७ ॥

कण्ठो गलो-

गळेके नाम २ ॥ कण्ठ १ गळ २ ॥

-ऽथ प्रीवार्षा शिरोधि-

कन्धरेत्पि ॥

गर्दनके नाम ३ ॥ प्रीमा १
शिरोधि २ कन्धरा ३ ॥

कम्बुमीवा त्रिरेखा सा-

तीन रेखासे युक्त गर्दनका नाम
१ ॥ कम्बुमीवा १ ॥ २ ॥

-श्वदुर्घाटा कृकाटिका ॥ ८८ ॥

घाटीके नाम ३ ॥ श्वदु १ घाट

२ कृकाटिका ३ ॥ ८८ ॥

बकान्धे वदन तुण्डमानन
लपन मुखम् ॥

मुँडके नाम ७ ॥ बक १ आस्य
२ वदन ३ तुण्ड ४ आनन ५ अन्न

६ मुख ७ ॥

छुंषि घ्राणं गन्धवाहा घोणा
नासा च नासिका ॥ ८९ ॥

१ नाकके नाम ९ ॥ घ्राण १ गन्धवाहा २
घोणा ३ नासा ४ नासिका ५ ॥ ८९ ॥

ओषाधरौ तु रदनच्छदौ
दशनवाससी ॥

डोळेके नाम ४ ॥ ओष्ठ १ अघर २
रदनच्छद ३ दशनवाससी ४ ॥

अघस्ताशिशुक-

टोडीका नाम १ ॥ शिशुक १ ॥

-गण्डी कपोला-

गण्डीके नाम २ ॥ गण्डी १ कपोल २ ॥

-चत्परा इनु ॥ ९० ॥

कनपटीका नाम १ ॥ इनु १ ॥ ९० ॥

रदना दशना वृन्ता ग्वा-

दाठके नाम ४ ॥ रदन १ दशन
२ दात ३ रद ४ ॥

-स्ताडु तु काण्डुम् ॥

ताडुके नाम २ ॥ ताडु १ काण्डु १ ॥

रसज्ञा रसना जिह्वा-

जीभके नाम ३ ॥ रसज्ञा १ रसना

२ जिह्वा ३ ॥

ग्रान्तावोष्ठस्य सृक्किणी ॥९१ ॥

होठोके किनारोका नाम १ ॥

सृक्किणी १ ॥ ९१ ॥

ललाटमलिकं गोधि-

लिलारके नाम ३ ॥ ललाट १

अलिक २ गोधि ३ ॥

रुर्ध्वे दृग्भ्यां भ्रुवौ स्त्रियौ ॥

भौहका नाम १ ॥ भ्रू १ ॥

कूर्चमस्त्री भ्रुवोर्मध्यं-

भौहके बीचका नाम १ ॥ कूर्च १ ॥

- तारकाक्ष्णः कनीनिका ॥९२ ॥

आखके तिलका नाम १ ॥ तारका १ ॥ ९२

लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं

चक्षुरक्षिणी ॥ दृग्दृष्टी चा-

आखके नाम ८ ॥ लोचन १

२ नेत्र ३ ईक्षण ४ चक्षुस् ५ अक्षि

६ दृश् ७ दृष्टि ८ ॥

-ऽसु नेत्राम्बु रोदनं चास-

मश्चु च ॥ ९३ ॥

आसूके नाम ५ ॥ असु १ नेत्राम्बु २

रोदन ३ अस्त ४ अश्रु ५ ॥ ९३ ॥

अपाङ्गौ नेत्रयोरन्तौ-

आखके किनारोंका नाम १ ॥

अपाग १ ॥

-कटाक्षोऽपाङ्गदर्शने ॥

अपागसे देखनेका नाम १ ॥ कटाक्ष १ ॥

कर्णशब्दग्रहौ श्रोत्रं श्रुतिः

स्त्री श्रवणं श्रवः ॥ ९४ ॥

कानके नाम ६ ॥ कर्ण १ शब्दग्रह २

श्रोत्र ३ श्रुति ४ श्रवण ५ श्रवम् ६ ॥ ९४ ॥

उत्तमाङ्गं शिरः शीर्षं मूर्द्धा ना

मस्तकोऽस्त्रियाम् ॥

शिरके नाम ५ ॥ उत्तमाग १ शिरस्

२ शीर्ष ३ मूर्द्धन् ४ मस्तक ५ ॥

चिकुरः कुन्तलो वालः कचः

केशः शिरोरुहः ॥ ९५ ॥

वालके नाम ६ ॥ चिकुर १ कुन्तल

२ वाल ३ कच ४ केश ५ शिरोरुह ६ ॥ ९५ ॥

तद्दन्दे कैशिकं कैश्य-

वाल्लोंके समूहके नाम २ ॥ कैशिक

१ कैश्य २ ॥

-मलकाश्चूर्णकुन्तलाः ॥

टेढे वाल्लोंके नाम २ ॥ अलक १

चूर्णकुन्तल २ ॥

ते ललाटे भ्रमरकाः-

ललाटपर लटकते हुए वाल्लोंका

नाम १ ॥ भ्रमरक १ ॥

-काकपक्षः शिखण्डकः ॥ ९६ ॥

जुल्फोंके नाम २ ॥ काकपक्ष १

शिखण्डक ३ ॥ ९६ ॥

कवरी केशवेक्षो-
 मांगके नाम २ ॥ कवरी १ केश
 वक्ष २ ॥
 -ऽय घम्मिहः सयत्ता कघा ॥
 वैभेहृए वाळोका नाम १ ॥ घम्मिह १ ॥
 शिखा घूडा केशपाशी-
 घोटीके नाम ३ ॥ शिखा १ घूडा
 २ केशपाशी ३ ॥
 -प्रतिनस्तु सटा जटा ॥ ९७ ॥
 जटाके नाम २ ॥ सटा १ जटा २ ॥ ९७ ॥
 वेणि प्रवेणी-
 तेजदि न छगानके ह्यु छटरे बाळ हो
 जानक नाम २ ॥ वेणि १ प्रवेणी २ ॥
 -शीर्षण्यशिरस्यो विशदे कचे ॥
 साफ बाळोके नाम २ ॥ शीर्षण्य
 १ शिरस्य २ ॥
 पाश पशम्य इस्तम्य कला
 पाया कचात्परे ॥ ९८ ॥
 कशममूरक नाम ३ ॥ केशपाश १ कश
 पश २ कुन्तलइस्त ३ ॥ इत्यादि ॥ ९८ ॥
 तनूहं रोम लोम-
 त्रिके नाम ३ ॥ तनूह १ रोमन्
 २ लोमन् ३ ॥
 -वदृष्टो श्मश्रु पुमुख ॥
 दाढी मूठका नाम २ ॥ श्मश्रु १ ॥
 आकल्पवर्षा नेपथ्य प्रति
 कम प्रमाधनम् ॥ ९९ ॥

अलंकारणी शोमाक नाम १ ॥
 भास्व १ क्य २ नेपथ्य ३ प्रतिक
 र्मन् ४ प्रसाधन ५ ॥ ९९ ॥
 दशैते त्रि-
 यह भागे कहे दश शब्द तीनों
 स्थानोंमें होते हैं ॥
 -श्वलकर्त्ताऽलकरिण्युश्च-
 अलंकार करनेवालाक नाम २ ॥
 अलङ्कार्ये १ अलङ्कारिण्यु २ ॥
 -मण्डित ॥
 प्रसाधितोऽलङ्कृतश्च मूषितश्च
 परिष्कृत ॥ १०० ॥
 अलङ्कार्युक्तक नाम १ ॥ मण्डित
 १ प्रसाधित २ अलङ्कृत ३ मूषित ४
 परिष्कृत ५ ॥ १०० ॥
 विद्याङ्ग भ्राजिण्युरोचिण्यु-
 अलंकारादिसे अतिशोभित इवम्
 नाम ३ ॥ विद्याङ् १ भ्राजिण्यु २
 रोचिण्यु ३ ॥
 -भूषण स्यादलक्रिया ॥
 सैयारन वा सिंगारनके नाम २ ॥
 भूषण १ अलक्रिया २ ॥
 अलङ्कारस्त्वामरण परिष्कारो
 विभूषणम् ॥ १०१ ॥ मण्डन घा-
 गहन आदिके नाम १ ॥ अलङ्कार
 १ आमरण २ परिष्कार ३ विभूषण
 ४ ॥ १०१ ॥ मण्डन ५ ॥

-5थ मुकुटं किरीटं पुत्रपुंसकम् ॥

मुकुटके नाम २॥ मुकुट १ किरीट २॥
दोनोंभी पुं० न० ॥

चूडामणिः शिरोरत्नं-

चोटीका मणिके नाम २॥ चूडामणि
१ शिरोरत्न २ ॥

-तरलो हारमध्यगः ॥ १०२ ॥

जो हारके बीचमें सबसे बड़ा मणि
होता है उसका नाम १॥ तरल १॥ १०२

वालपाश्या पारितथ्या-

चोटीके गहनेके नाम २॥ वालपाश्या
१ पारितथ्या २ ॥

-पत्रपाश्या ललाटिका ॥

बेंदी वा टीकेके नाम २॥ पत्रपाश्या
ललाटिका २ ॥

कर्णिका तालपत्रं स्या-

वाली वा तरकीके नाम २॥ कर्णिका
१ तालपत्र २ ॥

-त्कुण्डलं कर्णवेष्टनम् ॥ १०३ ॥

सुवर्णादिरचित वालीके नाम २ ॥
कुण्डल १ कर्णवेष्टन २ ॥ १०३ ॥

त्रैवेयकं कण्ठभूषा-

कण्ठी वा कण्ठके नाम २॥ त्रैवेयक
१ कण्ठभूषा २ ॥

-लम्बनं स्याल्ललन्तिका ॥

जो सूँझीतक लम्बी कण्ठी हो उस
कण्ठीके नाम २॥ लम्बन १ ललन्तिका २॥

स्वर्णैः प्रालम्बिका-

ऐसी ही यदि सोनेकी कण्ठी हो तो
उस कण्ठीका नाम १ ॥ प्रालम्बिका १ ॥

-5थोरःसूत्रिका मौक्तिकैः

कृता ॥ १०४ ॥

और वैसी ही मोतीसे गुथी हो तो
उसका नाम १॥ उरसूत्रिका १ ॥ १०४ ॥

हारो मुक्तावली-

मोतीके हारके नाम २ ॥ हार १
मुक्तावली २ ॥

-देवच्छन्दोसौ शतयष्टिका ॥

जो सौ लडका हार हो उसका
नाम १ ॥ देवच्छन्द १ ॥

हारभेदा यष्टिभेदाद्गुच्छगुच्छा-

र्धगोस्तनाः ॥ १०५ ॥ अर्धहारो

माणवक एकावल्येकयष्टिका ॥

सैव नक्षत्रमाला स्यात्सप्तविं-

शतिमौक्तिकैः ॥ १०६ ॥

बत्तीस लडका हार हो उसका नाम १॥

गुच्छ १॥ जो चौबीस लडका हार हो

उसका नाम १॥ गुच्छार्ध १॥ चार लडका

हार हो उसका नाम १॥ गोस्तन १॥ १०५

बारह लडका हार हो उसका नाम १ ॥

अर्द्धहार १॥ बीस लडका हार हो उसका

नाम १ ॥ माणवक १ ॥ एक लडका हार

हो उसका नाम १ ॥ एकावली १॥ वही

एक छट अगर सत्ताईस मोखियोंकी
हो तो उसका नाम १ ॥ नक्षत्रमाला
१ ॥ १०६ ॥

आवापक पारिहायः कटक
बलयोऽस्त्रियाम् ॥

पट्टीके नाम ४ ॥ आवापक १ पारि
हाय २ कटक ३ घट्टय ४ ॥

केयूरमद्गुण्ये-

बाज्रमद्भाति मुद्राके गहनोके
नाम २ ॥ केयूर १ अद्गद २ ॥

-अगुलीयकसूर्मिका ॥ १०७ ॥

छलेअगुलीके नाम २ ॥ अगुलीयक १
अर्मिका २ ॥ १०७ ॥

साक्षरांगुलिमुद्रा सा-

मोहरसहित अंगुलीका नाम १ ॥
अंगुलिमुद्रा १ ॥

-फकण करभूषणम् ॥

ककनक नाम २ ॥ फकण १ कर
भूषण २ ॥

स्त्रीकटर्षा मेखला काशी
सप्तकी रक्षना तथा ॥ १०८ ॥

ह्रींवे सारसन धा-

स्त्रीके कमरकी जनीर अर्थात्
मखलाके नाम १ ॥ मखला १ काशी २
सप्तकी ३ रक्षना ४ ॥ १ ॥ सारसन १

-ऽथ पुस्कटर्षा श्रंतुलं त्रिपु ॥

पुस्कटके जनीरका नाम १ ॥ श्रंतुल १ ॥

पादाद्गद गुलाकोटिमञ्जरी
नूपुरोऽस्त्रियाम् ॥ १०९ ॥

पैगण आदि स्त्रीके पाँचके गहनके
नाम ४ ॥ पादाद्गद १ गुलाकोटि २ ॥
मञ्जरी ३ नूपुर ४ ॥ १०९ ॥

हंसक पादकटक-

कडेके नाम २ ॥ हंसक १ पादकटक २ ॥
-किंकिणी सुव्रघण्टिका ॥

कुंजुलके नाम २ ॥ किंकिणी १
सुव्रघण्टिका २ ॥

त्वक्फलकिमिरोमाणि वस्त्र-
योनि-

माया ॥ कर्णोकी छत्र फल और
कानोके रोम बस्त्रके उत्पन्न होनेके
स्थान हैं ॥

-ईश त्रिपु ॥ ११० ॥

माया ॥ यह दशों शब्द तीनों
लिंगोंमें होत है ॥ ११ ॥

वाल्क सीमादि-

कृष्णादिकी छाच्छे बनेहुए कर्णोके
नाम २ ॥ वाल्क १ सीमा २ स्थापि ॥

-फालं तु कापासं यादर च
वत् ॥

कापासके बनेहुये कर्णोके नाम ३ ॥
फाल १ कापास २ यादर ३ ॥

कौशेय कृमिकोशोत्थ-

रेचमीकर्णोका नाम १ ॥ कौशेय १ ॥

-राङ्गचं मृगरोमजम् ॥१११॥

ऊनीवस्त्रोका नाम १ ॥ राङ्गव १ ॥ १११ ॥

अनाहतं निष्प्रवाणि तन्त्रकं
च नवाम्बरम् ॥

कोरेवस्त्रके नाम ४ ॥ अनाहत १ नि-
ष्प्रवाणिन् २ तन्त्रक ३ नवाम्बर ४ ॥

तत्स्यादुद्गमनीयं यद्घौतयोर्वस्त्र-
योर्युगम् ॥ ११२ ॥

धुलेह्वये दो वस्त्रोंके जोडेका नाम
१ ॥ उद्गमनीय १ ॥ ११२ ॥

पत्रोर्णं घौतकौशेयं-

धुलेह्वए रेशमी वस्त्रका नाम १ ॥
पत्रोर्ण १ ॥

-बहुमूल्यं महाधनम् ॥

बडेमोलके वस्त्रादिता नाम १ ॥
महाधन १ ॥

क्षौमं दुकूलं स्या-

दुपट्टेके नाम २ ॥ क्षौम १ दुकूल २ ॥

-द्वे तु निवीतं प्रावृतं त्रिपु ११३

कपडेके छोरके नाम २ ॥ निवीत
१ प्रावृत २ ॥ ११३ ॥

स्त्रियां बहुत्वे वस्त्रस्य दशाः

स्युर्वस्तयोर्द्वयोः ॥

छीराका नाम १ ॥ दशा १ ॥

दैर्घ्यमायाम आरोहः-

कपडेआदिकी लम्बाईके नाम ३ ॥

दैर्घ्य १ आयाम २ आरोह ३ ॥

-परिणाहो विशालता ॥ ११४ ॥

कपडेआदिकी चौडाईके नाम २ ॥
परिणाह १ विशालता २ ॥ ११४ ॥

पटच्चरं जीर्णवस्त्रं-

पुराने कपडेके नाम २ ॥ पटच्चर १
जीर्णवस्त्र २ ॥

-समौ नक्तककर्पटौ ॥

फटेचीथरेके नाम २ ॥ नक्तक १ कर्पट २ ॥

वस्त्रमाच्छादनं वासश्चैलं वस-
नमंशुकम् ॥ ११५ ॥

कपडेमात्रके नाम ६ ॥ वस्त्र १ आ-
च्छादन २ वासस् ३ चैल ४ वसन ५
अशुक ६ ॥ ११५ ॥

सुचेलकः पटोऽस्त्री-

अच्छे वस्त्रके नाम २ ॥ सुचेलक १ पट २ ॥

-स्याद्वराशिः स्थूलशाटकः ॥

मोटे वस्त्रके नाम २ ॥ वराशि १
स्थूलशाटक २ ॥

निचोलः प्रच्छदपटः-

पालकी आदिके ढकनेके वस्त्रके
नाम २ ॥ निचोल १ प्रच्छदपट २ ॥

-समौ रल्लककम्बलौ ॥ ११६ ॥

कम्बलके नाम २ ॥ रल्लक १ कम्बल
२ ॥ ११६ ॥

अन्तरीयोपसंव्यानपरिधाना-
न्यधांशुके ॥

धोतीके नाम ४ ॥ अन्तरीय १ उप
संस्थान २ परिधान ३ अर्धोद्युक्त ४ ॥
द्वौ प्रावारोचरासङ्गौ समौ
घृह्तिका तथा ॥ ११७ ॥
संस्थानमुत्तरीय च—

अंगौठा (स्मालआदि) के नाम ९ ॥
प्रावार १ उत्तरसङ्ग २ घृह्तिका ३
॥ ११७ ॥ संस्थान ४ उत्तरीय ५ ॥

—घोळ कूर्पासकोऽस्त्रियाम् ॥
चोलीके नाम २ ॥ घोळ १ कूर्पासक २ ॥
नीशारः स्यात्प्रावरणे हिमा
निलनिवारणे ॥ ११८ ॥

रजार्का नाम १ ॥ नीशार १ ॥ ११८ ॥
अर्धोरुकं वरस्त्रीणां स्याच्च
ण्डातकमस्त्रियाम् ॥

अर्धोरुका नाम १ ॥ अण्डातक १ ॥
स्याभिष्वाप्रपदीर्नं तत्प्राप्नोत्या
प्रपर्द्धं हि यत् ॥ ११९ ॥

अण्डातकोका नाम १ ॥ आप्रपदीम
१ ॥ ११९ ॥

अस्त्री विधानमुल्लोचो—
चट्टीके नाम २ ॥ कितान १
उल्लोच २ ॥

—दृष्याद्य मल्लवेश्मनि ॥
तम्बू वा डेरका नाम १ ॥ दृष्य १ ॥
प्रतिसीरा जमनिका स्याच्चिर
स्करिणी च सा ॥ १२ ॥

कनातके नाम ३ ॥ प्रतिसीरा १ अण
निका २ तिरस्करिणी ३ ॥ १२० ॥

परिकमाङ्गसंस्कार—
आनादि अंगसंस्कारके नाम २ ॥
परिकर्मन् १ अङ्गसंस्कार २ ॥

—स्यान्मार्ष्टिर्माजना मृजा ॥
पौञ्जनेके नाम ३ ॥ मार्ष्टि १ मा
जना २ मृजा ३ ॥

उद्वर्तनोत्सादने द्वे समे—
उद्वर्तनके नाम २ ॥ उद्वर्तन १
उत्सादन २ ॥

—आप्लाव आप्लव ॥ १२१ ॥

आप्लव—
आप्लवके नाम ३ ॥ आप्लाव १ आप्लव
२ ॥ १२१ ॥ आप्लव ३ ॥

—अर्धा तु चार्धिक्य स्यात्सको—
चन्द्रनादिस देहके अर्धक नाम ३ ॥
अर्धा १ चार्धिक्य २ स्यात्सक ३ ॥

—अथ प्रबोधनम् ॥
अनुबोध—
अनुबोधके नाम २ ॥ प्रबोधन
१ अनुबोध २ ॥

—पत्रलेखा पत्रांमुल्लिरिमे समे १२२ ॥
अल्लिरिमेके नाम ३ ॥ पत्रलेखा १ पत्रांमुल्लि २ ॥ १२२ ॥

तमालपत्रतिलकचित्रकाणि
विशेषकम् ॥ द्वितीयं च तुरीयं
च न स्त्रिया-

मस्तकमें चन्दन कस्तूरी आदिसे
टीका लगानेके नाम ४ ॥ तमालपत्र
१ तिलक २ चित्रक ३ विशेषक ४ ॥

-मथ कुंकुमम् ॥ १२३ ॥

काश्मीरजन्माग्निशिखं वरं वा-
ह्लीकपीतने ॥ रक्तसंकोचपिशुनं
धीरं लोहितचन्दनम् ॥ १२४ ॥

केशरके नाम ११ ॥ कुंकुम १ ॥
१२३ ॥ काश्मीरजन्मन् २ अग्निशिख
३ वर ४ वाह्लीक ५ पीतन ६ रक्त-
सकोच ७ पिशुन ८ धीर ९ लोहित
१० चन्दन ११ ॥ १२४ ॥

लाक्षा राक्षा जतु क्लीवे यावो-
ऽलक्तो द्रुमामयः ॥

महावरके नाम ६ ॥ लाक्षा १ राक्षा २
जतु ३ याव ४ अलक्त ५ द्रुमामय ६ ॥

लवङ्गं देवकुसुमं श्रीसज्ञ-

लौगके नाम ३ ॥ लवग १ देव-

कुसुम २ श्रीसज्ञ ३ ॥

-मथ जायकम् ॥ १२५ ॥

कालीयकं च कालानुसार्यं चा-

पीले चन्दनके नाम ३ ॥ जायक १ ॥

॥ १२५ कालीयक २ कालानुसार्य ३ ॥

-ऽथ समार्यकम् ॥ वंशकागुरु-
राजारहलोहं कृमिजजोङ्गकम् १२६ ॥

अगरके नाम ६ ॥ वशक १

अगुरु २ राजार्ह ३ लोह ४ कृमिज ५
जोङ्गक ६ ॥ १२६ ॥

कालागुर्वगुरुः-

काले अगरके नाम २ ॥ काला-
गुरु १ अगुरु २ ॥

-स्यात्तन्मंगल्या मल्लिगन्धि
यत् ॥

अगरका भेद १ ॥ मंगल्या १ ॥

यक्षधूपः सर्जरसो राल सर्वर-
सावापि ॥ १२७ बहुरूपोऽ-

रालके नाम ५ ॥ यक्षधूप १
सर्जरस २ राल ३ सर्वरस ४ ॥ १२७ ॥
बहुरूप ५ ॥

-प्यथ वृकधूपकृत्रिमधूपकौ ॥

कृत्रिम धूपके नाम २ ॥ वृकधूप १
कृत्रिमधूप २ ॥

तुरुष्कः पिण्डकः सिहो याव-

नो-

लोवानके नाम ४ ॥ तुरुष्क १
पिण्डक २ सिह ३ यावन ४ ॥

-प्यथ पायसः ॥ १२८ ॥

श्रीवासो वृकधूपोऽपि श्रीवेष्टसरल-
द्रवौ ॥

देवदारु घूपके नाम १ ॥ पायस १
॥ १२८ ॥ धीपात २ शुकघूप ३
थ्रीषट् ४ सरलश्रव ५ ॥

मृगनाभिमृगमद* कस्तूरी चा-
कस्तूरीफ नाम ३ ॥ मृगनाभि १
मृगमद २ कस्तूरी ३ ॥

-ऽथ कोलकम् ॥ १२९ ॥
कश्कोलक क्रोशफल-
ककाळने नाम ३ ॥ कोलक १ ॥
॥ १२९ ॥ ककाळक २ काशफळ ३ ॥

-मय कपूरमस्त्रियाम् ॥ घन
सारश्चन्द्रसप्त* सिताश्रो हिमवा
सुका ॥ १३० ॥

कपूरके नाम ५ ॥ कर्पूर १ ॥
घनसार २ चन्द्रसङ्ग ३ सिताश्र ४
हिमपाजुना ५ ॥ १३० ॥

गन्धसारो मलपत्रो भद्रश्रीश्च
न्दनोऽस्त्रियाम् ॥

मन्वागिरि चन्दनके नाम ४ ॥ गन्ध
सार १ मन्वापत्र २ मन्वाश्री ३ चन्दन ४ ॥

तेलपर्णिकगोनीप इरिचन्दन
मस्त्रियाम् ॥ १३१ ॥

सप्त चन्दनका नाम १ ॥ तेलपर्णिक
१ ॥ तिसपे फमन्व ममान गन्ध हा
टग चन्दनका नाम १ ॥ गोनीप १ ॥

कवितामे चन्दनका नाम १ ॥

तिलपर्णी तु पत्रांग रञ्जन रक्त
चन्दनम् ॥ कुचन्दन चा-

लाञ्छन्दनके नाम ५ ॥ तिल-
पर्णी १ पत्रांग २ रञ्जन ३ रक्तचन्दन
४ कुचन्दन ५ ॥

-ऽथ जातीकोशजातीफले
समे ॥ १३२ ॥

जापपल्लक नाम २ ॥ जातीकोश
१ जातीफळ २ ॥ १३२ ॥

कर्पूरागरुकस्तूरीकंकोलैर्यसक-
र्दम* ॥

कपूर अगर कस्तूरी और ककोल
इन को बराबर मिश्रणसे जो छपन
बनता है उसका नाम १ ॥ यक्षकर्दम १ ॥

गात्रानुलेपनी वर्तिर्बर्णक स्या
दिलेपनम् ॥ १३३ ॥

वितीर्हई छपन बस्तुके नाम २ ॥
गात्रानुलेपनी १ वर्ति २ ॥

वितीर्(राडी) हई छेपन बस्तुके नाम
२ ॥ वर्ति १ छिपन २ ॥ १३३ ॥

घृणानि वासयोगा* स्यु-

कपडछान करके जो गन्धरास्य घोड़ी
जाय उसके नाम १ ॥ घृणी १ वासयोग २ ॥

-भाषित वासित त्रिपु ॥
पुण इत्यादिम पठाई इर बस्तुके
नाम २ ॥ भाषित १ वासित २ ॥

संस्कारो गन्धमालयाद्यैः
स्यात्तदधिवासनम् ॥ १३४ ॥

सुगंध पुष्पादिसे संस्कार करनेके
नाम १ ॥ अधिवासन १ ॥ १३४ ॥

माल्यं मालास्रजौ मूर्ध्नि-

सिरपै धारण करने योग्य मालाके
नाम ३ ॥ माल्य १ माला २ स्रज् ३ ॥

-केशमध्ये तु गर्भकः ॥

वाल्लोंके बीचमें धारण की हुई
मालाका नाम १ ॥ गर्भक १ ॥

प्रभ्रष्टक शिखालम्बि-

जो चोटीमें गुन्दी हुई माला हो
उसका नाम १ ॥ प्रभ्रष्टक १ ॥

-पुरोन्यस्तं ललामकम् ॥ १३५ ॥

जो शिखामें लिलारतक लपेटी माला
हो उसका नाम १ ॥ ललामक १ ॥ १३५ ॥

प्रालम्बमृजुलम्बि स्यात्कण्ठा-

कठमें पहरी हुई मालाका नाम १ ॥
प्रालम्ब १ ॥

-वैकक्षिकं तु तत् ॥ यत्तिर्यक्-
क्षिप्तमुरासि-

जो यज्ञोपवीतके तुल्य पहनीजाय
उस मालाका नाम १ ॥ वैकक्षिक १ ॥

-शिखास्वापीडशेखरौ ॥ १३६ ॥

जो शिखामें पहरी जाय उसमालाके
नाम २ ॥ आपीड १ शेखर २ ॥ १३६ ॥

रचना स्यात्परिस्पन्द-

माला धादिके बनानेके नाम २ ॥

रचना १ परिस्पन्द २ ॥

-आभोगः परिपूर्णता ॥

सर्वसामग्रीके पूरे होनेके नाम २ ॥

आभोग १ परिपूर्णता २ ॥

उपधानं तूपवर्हः-

तकियेके नाम २ ॥ उपधान १ उपवर्ह २ ॥

-शय्यायां शयनीयवत् ॥ १३७ ॥

शयनं-

बिछौनेके नाम ३ ॥ शय्या १ शय-
नीय २ ॥ १३७ ॥ शयन ३ ॥

-मञ्चपर्यकपल्यंकाः खट्व्या

समाः ॥

पलग वा खाटके नाम ४ ॥ मञ्च १
पर्यङ्क २ पल्यङ्क ३ खट्वा ४ ॥

गेन्दुकः न्दुको-

गेंदके नाम २ ॥ गेन्दुक १ कन्दुक २ ॥

-दीपः प्रदीपः-

दियाके नाम २ ॥ दीप १ प्रदीप २ ॥

-पीठमासनम् ॥ १३८ ॥

पीठाके नाम २ ॥ पीठ १ आसन २
॥ १३८ ॥

समुद्रकः संपुटकः-

डिब्बाके नाम २ ॥ समुद्रक १ सपु-
टक २ ॥

-प्रतिमाहः पतद्ग्रह ॥
 पीकदानके नाम २ ॥ प्रतिमाह १
 पतद्ग्रह २ ॥
 प्रसाधनी ककतिका-
 कवीक नाम २ ॥ प्रसाधनी १
 ककतिका २ ॥
 -पिष्टाव पटवासक ॥ १३९ ॥
 कुकाके नाम २ ॥ पिष्टाव १ पटवा
 सक २ ॥ १३९ ॥
 दर्पणे मुकुरादर्शी-
 दर्पण (सीस) के नाम ३ ॥ दर्पण
 १ मुकुर २ आदर्श ३ ॥
 -ध्यजनं तालवृन्तकम् ॥
 पंखेके नाम २ ॥ ध्यजन १ तालवृन्तक २ ॥
 इति मनुष्यवर्ग ॥ ८ ॥

अथ ब्राह्मणः ७

संवतिर्गोप्रजननकुडान्मभिज
 नान्बयौ ॥ बशोऽन्ववाय सन्तानो
 बंशके नाम ९ ॥ संतति १ गोप्र
 जनन २ कुड ३ अमिजन ४ अन्वय
 ५ बश ७ अन्ववाय ८ सन्तान ९ ॥
 -वणाः स्युर्ब्राह्मणादयः ॥ १ ॥
 ब्राह्मण आदिका नाम १ ॥ वर्ण १ ॥ १ ॥

विमक्षत्रियविन्दूवाश्चार्जुव
 र्ण्यमिते स्मृतम् ॥

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारोंका
 इकठा नाम १ ॥ चार्जुवर्ण्य १ ॥
 राजवीजी राजवश्यो-
 राजाक वंशवालोंके नाम २ ॥
 राजवीजिन् १ राजवंश्य २ ॥
 -वीज्यस्तु कुखसंभवः ॥ २ ॥
 कुजीनक नाम २ ॥ वीज्य १ कुख-
 संभव २ ॥ २ ॥

महाकुलकुलीनार्यसम्पस
 जनसाधवः ॥

सज्जनके नाम ६ ॥ महाकुल १ कुलीन २
 आर्य्य ३ सम्प ४ सज्जन ५ साधु ६ ॥
 ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो मि
 क्षुब्धतृष्टये ॥ ३ ॥ आश्रमोऽस्त्री-
 ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थ यति इन
 चारोंका इकठा नाम १ ॥ ३ ॥ आश्रम १ ॥

-दिजास्यमजन्ममूदेववाद
 वाः ॥ विप्रश्च ब्राह्मणो-
 ब्राह्मणके नाम ६ ॥ दिजाति १
 अमजन्मन् २ मूदेव ३ वादव ४ विप्र ५
 ब्राह्मण ६ ॥

-ऽसौ पट्कर्मो यागादि
 भिर्युत ॥ ४ ॥

इ वा अभयन दान वाचन जप्या-
 पन प्रतिग्रह इन पट् कर्मोंकरके युक्त
 विप्रका नाम १ ॥ पट्कर्मन् १ ॥ ४ ॥

विद्वान्विपश्चिदोषज्ञः सन्सुधीः
कोविदो बुधः ॥ धीरो मनीषी
ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान्पण्डितः
कविः ॥ ६ ॥ धीमान्सूरिः कृती
कृष्टिर्लब्धवर्णो विचक्षणः ॥ दूरदर्शी
दीर्घदर्शी-

पण्डितके नाम २२ ॥ विद्वस् १
विपश्चित् २ दोषज्ञ ३ सत् ४ सुधी ५
कोविद ६ बुध ७ धीर ८ मनीषिन् ९ ज्ञ
१० प्राज्ञ ११ संख्यावत् १२ पण्डित १३
कवि १४ ॥ ५ ॥ धीमत् १५ सूरि १६
कृतिन् १७ कृष्टि १८ लब्धवर्ण १९ विच-
क्षण २० दूरदर्शिन् २१ दीर्घदर्शिन् २२ ॥

-श्रोत्रियच्छान्दसौ समौ ॥ ६ ॥

वेदपाठीके नाम २ ॥ श्रोत्रिय १
छान्दस २ ॥ ६ ॥

उपाध्यायोऽध्यापको-

जो पढाता हो उस पढितके नाम
२ ॥ उपाध्याय १ अध्यापक २ ॥

-ऽथ स्यान्निषेकादिकृद्गुरुः ॥

गर्भाधानादि कर्म करानेवालेका
नाम १ ॥ गुरु १ ॥

मन्त्रव्याख्याकृदाचार्य-

मन्त्रकी व्याख्या करनेवालेका नाम
१ ॥ आचार्य १ ॥

-आदेष्टा त्वध्वरे-

यज्ञमें सब ऋत्विजोंके सिखानेवाले-
का नाम १ ॥ आदेष्टृ १ ॥

व्रती ॥ ७ ॥

यथा च यजमानश्च-

यजमानके नाम ३ ॥ व्रतिन् १
॥ ७ ॥ यष्टृ २ यजमान ३ ॥

-स सोमवति दीक्षितः ॥

सोमयज्ञके यजमानका नाम १ ॥
दीक्षित १ ॥

इज्याशीलो यायजूको-

वारम्वार यज्ञ करनेवालेके नाम २ ॥
इज्याशील १ यायजूक २ ॥

-यज्वा तु विधिनेष्टवान् ॥ ८ ॥

जो विधिसे यज्ञ करे उसका नाम १ ॥
यज्वन् १ ॥ ८ ॥

स गीष्पतीष्ट्या स्थपतिः-

बृहस्पति यज्ञ करनेवालेका नाम १ ॥
स्थपति १ ॥

सोमपीथी तु सोमपाः ॥

सोमबल्लीका रस पीनेवालेके नाम
२ ॥ सोमपीथिन् १ सोमपा २ ॥

सर्ववेदाः स धेनेष्टो यागः
सर्वस्वदक्षिणः ॥ ९ ॥

जो यज्ञमें अपना सब धन ठे डाले
उसका नाम १ ॥ सर्ववेदस् १ ॥ ९ ॥

अनृचानः प्रवचने साङ्गेऽधीती-

सांगोपांग षट् पदनेवाळेका नाम
१ ॥ अनूधान १ ॥

-गुरोस्तु यः ॥ लब्धानुक्त*
समावृत्त*-

पही अनूधान गुहकी गृहस्याग्रमा
दिमें प्राप्त होनेकी आद्या पावेतो उसका
नाम १ ॥ समावृत्त १ ॥

-मुत्वा स्वभिपवे कृते ॥ १० ॥
अभिपव स्नानकरियाका नाम १ ॥

मुत्तन् १ ॥ १० ॥
छात्रान्तेवासिनौ शिष्ये-

विपार्थिकि नाम ३ ॥ छात्र १
अप्तेवासिन् २ शिष्य ३ ॥

-शैसाः प्रायमकल्पिकाः ॥
छोटे (नये) विपार्थिकि नाम २ ॥

शैश १ प्रायमकल्पिक २ ॥
एकग्रहप्रताचारा मिष* सप्र-

क्षचारिण* ॥ ११ ॥
सहपाठी अर्पात् एक साथ एकही

बस्तु पदनेवाळेका नाम १ ॥ सप्रक्षचा-
रिन् १ ॥ ११ ॥

सतीर्थ्यास्त्वेकशुरव-
नित्ने एक गुरुसे पढते हों उनका
नाम १ ॥ सर्ताग्य १ ॥

-क्षित्वान्नमिमिषित् ॥
जो अन्निको बटोरे हे उसका नाम

१ ॥ अमिषित् १ ॥

पारम्पर्योपदेशे स्यादैतिह्यमि
तिहाव्ययम् ॥ १२ ॥

परम्परा उपदेशके नाम २ ॥ ऐतिह्य
१ इतिह २ ॥ १२ ॥

उपहा ज्ञानमार्थ स्या-
प्रथमज्ञानका नाम १ ॥ उपहा १ ॥

-ज्ञात्वारम्भ उपक्रम* ॥
समकके अन्यके प्रारम्भकरनेका नाम १ ॥

उपक्रम १ ॥
यज्ञ* सवोऽध्वरो यागः सप्तव-

न्तुर्मख* ऋतु* ॥ १३ ॥
यज्ञके नाम ७ ॥ यज्ञ १ सव २

अध्वर ३ याग ४ सप्ततन्तु ५ मख ६
ऋतु ७ ॥ १३ ॥

पाठो होमआतिथीनां सपर्या
वर्षण बलि* ॥ घटे पञ्च महायज्ञा

ब्रह्मयज्ञादिनामका* ॥ १४ ॥
महायज्ञके नाम ९ ॥ पाठ १ होम

२ अतिथिपूजा ३ वर्षण ४ बलि ५ ॥ १४ ॥
समज्या परिपहोष्ठी सभास

मितिसंसदः ॥ आस्थानी ह्रीब
मास्थान क्षीनपुंसकयो* सद* १५ ॥

समाके नाम ९ ॥ समज्या १ पारि
षद् २ गोष्ठी ३ समा ४ समिति ५

ससद् ६ आस्थानी ७-आस्थान ८
स्यस ९ ॥ १५ ॥

प्राग्वंशः प्राग्घविर्गेहा-

सदस्योके गृहका नाम १ ॥ प्राग्वश १

-त्सदस्या विधिदर्शिनः ॥

सभामें विचार करनेवालोका नाम

१ ॥ सदस्य १ ॥

सभासदः सभास्ताराः सभ्याः

सामाजिकाश्च ते ॥ १६ ॥

सभामे बैठनेवालोके नाम ४ ॥

सभासद १ सभास्तार २ सभ्य ३

सामाजिक ४ ॥ १६ ॥

अध्वर्युद्गातृहोतारो यजुः साम-

ग्विदः क्रमात् ॥

यजुर्वेद जाननेवालोका नाम १ ॥

अध्वर्यु १ ॥ सामवेदीका नाम १ ॥ उद्गातृ

१ ॥ ऋग्वेदीका नाम १ ॥ होतृ १ ॥

आग्नीध्राद्या धनैर्वार्या ऋत्विजो

याजकाश्च ते ॥ १७ ॥

जिनको धन आदि देकर यज्ञमें वरण
क्रियाजाय तिस आग्नीध्र आदि सोलहके
नाम २ ॥ ऋत्विज १ याजक २ ॥ १७ ॥

वेदिः परिष्कृता भूमिः-

वेदीके नाम १ ॥ वेदि १ ॥

-समे स्थण्डिलचत्वरे ॥

यज्ञार्थ चवृत्तराके नाम २ ॥

स्थण्डिल १ चत्वर २ ॥

चषालो यूपकटकः-

खम्भान्त ऊपर जो ककणाकार

काष्ठका रहता है उसके नाम २ ॥ चषाल

१ यूपकटक २ ॥

-कुम्वा सुगहना वृत्तिः ॥ १८ ॥

यज्ञोको अन्यजाति न देखनेके
निमित्त जो टट्टी धादि लगाई जाती

है उसका नाम १ ॥ कुम्वा १ ॥ १८ ॥

यूपग्रं तर्म-

यज्ञस्तम्भके आगेके नाम २ ॥ यूपग्र
१ तर्मन् २ ॥

-निर्मन्थ्यदारुणि त्वराणिर्द्वयोः ॥

जिस लकड़ीको मथके अग्नि निकालते
है उसका नाम १ ॥ अरणि १ ॥

दक्षिणाग्निर्गार्हपत्याहवनीयौ

त्रयोऽग्नयः ॥ १९ ॥

१ यज्ञकी अग्निके नाम ३ ॥ दक्षिणाग्नि
१ गार्हपत्य २ आहवनीय ३ ॥ १९ ॥

अग्नित्रयमिदं त्रेता-

इन तीनों अग्नियोंका नाम १ ॥ त्रेता १ ॥

-प्रणीतः संस्कृतोऽनलः ॥

संस्कारित अग्निका नाम १ ॥ प्रणीत १

समूह्यः परिचाय्योपचाय्यत्पत्रां

प्रयोगिणः ॥ २० ॥

यज्ञाग्निके नाम ३ ॥ समूह्य १ परि-
चाय्य २ उपचाय्य ३ ॥ २० ॥

यो गार्हपत्यादानीय दक्षि-

णाग्निः प्रणीयते ॥

तस्मिन्नानायो-
गार्हपत्यामिसे छेकर जो दक्षिणा
मि प्रवेश कराया जाये उसका नाम १ ॥
भानाम्य १ ॥

-ऽथाग्रायी स्वाहा च इतमु
किमया ॥ २१ ॥

स्वाहा अर्पात् अमिकी अर्धके नाम ३ ॥
अग्रायी १ स्वाहा २ इतमुकिमया ३ ॥ २१ ॥

ऋक्सामिधेनी धाय्या च या
स्यादमितसमिन्धने ॥

अमिवाङ्मके अथ जो ऋचा पढी
जाय उसके नाम २ ॥ सामिधेनी १
घाय्या २ ॥

गायत्रीप्रमुखं छन्दो-
गायत्री ठण्णिह् अनुष्टुप् इत्यादिका
नाम १ ॥ छन्दस् १ ॥

-इठपपाके चरुः प्रुमान् ॥ २२ ॥
अग्निमें छेबने योग्य साकस्यका नाम
१ ॥ चरु १ ॥ २२ ॥

आमिक्षा सा शृतोष्यो या
क्षीरे स्यादधिभोगतः ॥

गरमपक दूधमें दही बाकनेसे जो
बनता है उसका नाम १ ॥ आमिक्षा १ ॥

घवित्र ध्यञ्जनं तद्यद्रचित
मृगश्मर्मणा ॥ २३ ॥

मृगश्मर्मे री हुये बीजन्ताका नाम
१ ॥ घवित्र १ ॥ २३ ॥

पृषदाज्य सदध्याज्ये-
दही घी मिलहुएका नाम १ ॥ पृषदाज्य १ ॥

-परमाश्रं तु पायसम् ॥
खीरके नाम २ ॥ परमाश्र १ पायस २ ॥

हव्यकव्ये देवपिष्ये अन्न-
देवताके अर्धका खीरका नाम १ ॥

हव्य १ ॥ पितरोका खीरका नाम १ ॥
कव्य १ ॥

पात्र सुवादिकम् ॥ २४ ॥
सुवा आदिका नाम १ ॥ पात्र १ ॥ २४ ॥

ध्रुवापभृज्जुहर्नातु सुवो भेदा
सुचः स्त्रियं ॥

सुवाके भेद ४ ॥ ध्रुवा १ उपभृत् २
शुह ३ सुव ४ ॥

उपाकृतं पशुरसौ योऽभिमन्त्र्य
ऋती इतः ॥ २५ ॥

यज्ञक पशुका नाम १ ॥ उपाकृत
१ ॥ २५ ॥

परम्पराक श्मन प्रोक्षण च
वधार्थकम् ॥

यज्ञके अर्थ पशुमारनेका नाम ३ ॥
परम्पराक १ श्मन २ प्रोक्षण ३ ॥

वास्यसिद्ध्याः प्रमीतोपसंपन्नप्रो
सिता इते ॥ २६ ॥

यज्ञमें मारेहुये पशुके नाम ३ ॥ प्रमीत
१ उपसम्पन्न २ प्रोक्षित ३ ॥ २६ ॥

साभाज्य इवि-

साकल्यके नाम २ ॥ सान्नाय्य १ ॥
हविष् २ ॥

—रग्नौ तु हुतं त्रिषु वषट्कृतम् ॥
अग्निमें जो हुनाजावे उसका नाम
१ ॥ वषट्कृत १ ॥

दीक्षान्तोऽवभृथो यज्ञः—

यज्ञान्तस्नानका नाम १ ॥ अवभृथ १ ॥
—तत्कर्मर्हि तु यज्ञियम् ॥
॥ २७ ॥ त्रि—

यज्ञयोग्यवस्तुका नाम १ ॥ यज्ञिय
१ ॥ २७ ॥

—ष्वथ क्रतुकर्मैष्टं—

यज्ञमें कर्मका नाम १ ॥ इष्ट १ ॥
—पूर्त खातादि कर्म यत् ॥
वावडी तालाव आदि खुदानेका
नाम १ ॥ पूर्त १ ॥

अमृतं विघसो यज्ञशेषभोजन-
शेषयोः ॥ २८ ॥

यज्ञसे बची हुई जाउरि आदिका
नाम १ ॥ अमृत १ ॥ और भोजनसे बची
हुई वस्तुका नाम १ ॥ विघस १ ॥ २८ ॥

त्यागो विहापितं दानमुत्सर्जन-
विसर्जने ॥ विश्राणनं वितरणं
स्पर्शनं प्रतिपादनम् ॥ २९ ॥
प्रादेशनं निर्वपणमपवर्जनमंहतिः ॥

दानके नाम १४ ॥ त्याग १ विहा-

पित १ दान ३ उत्सर्जन ४ विसर्जन ५
विश्राणन ६ वितरण ७ स्पर्शन ८ प्रति-
पादन ९ ॥ २९ ॥ प्रादेशन १० निर्व-
पण ११ अपवर्जन १२ ॥ अहति १३ ॥

मृतार्थं तदहे दानं त्रिषु स्या
दौर्ध्वदेहिकम् ॥ ३० ॥

मृतकके अर्थ जो दश दिनके बीचमें
पिडादि दिये जाते हैं उनका नाम १ ॥
और्ध्वदेहिक १ ॥ ३० ॥

पितृदानं निवापः स्या—

पितरोंके देनेके निमित्त जो दान
दिया जावे उसके नाम २ ॥ पितृदान १
निवाप २ ॥

—च्छ्राद्धं तत्कर्म शास्त्रतः ॥

पितरोंके देनेके निमित्तके कर्मका
नाम ॥ १ ॥ श्राद्ध १ ॥

अन्वाहार्यमासिकं—

अमावास्याके श्राद्धके नाम २ ॥ अ-
न्वाहार्य १ मासिक २ ॥

—ऽशोऽष्टमोऽद्भः कुतपोऽस्त्रि

याम् ॥ ३१ ॥

दिनके आठवें हिस्सेका नाम १ ॥
कुतप १ ॥ ३१ ॥

पर्येषणा परीष्टिश्चाऽन्वेषणा च
गवेषणा ॥

श्राद्धमे ब्राह्मणकी भक्ति और सेवा

करनेके नाम २ ॥ पर्येषणा १ परीष्टि
२ ॥ धर्म आदिके खोजनेके नाम २ ॥
अन्वेषणा १ गवेषणा २ ॥ मापा-
अथवा ४ नाम धम आदिके खोजन
केही जानने ॥

सनिस्त्वह्येषणा-

किन्तीक नाम २ ॥ सति १ अध्येषणा २ ॥

-माष्ट्राऽभिज्ञस्तिर्याचनाऽ

र्थना ॥ ३२ ॥

मागन्के नाम ४ ॥ याचना १ अमि
छस्ति १ याचना २ अर्थना ४ ॥ ३२ ॥

-यन्तु त्रि-

मापा-यह छ शब्द तीनों छिद्रोमें
क्षत हैं ॥

-ध्वष्यमर्षाथ पाथ पाढाय
वारिणि ॥

पूजाय पानी छोड़नेका नाम १ ॥
अर्ष्य १ ॥ पाथ धोनेको छोड़ने योग्य
पानीका नाम १ पाथ १ ॥

क्रमादातिथ्यातिथेय अतिथ्यर्थेऽ
श्र साधुनि ॥ ३३ ॥

अतिथिक अथ जो कम टसका नाम
१ ॥ आति १ ॥ अतिथिक निमित्त जो
मिद हो यह १ ॥ आतिमथ १ ॥ ३३ ॥
स्युगवेगिक आगन्तुरतिथिना गृ
हागते ॥

महिमानर नाम २ ॥ आगिक १
आगन्तु २ अतिथि ३ गृहागत ४ ॥ ३६ ॥ पत्वाय ५ ॥

पूजा नमस्याऽपचिति* सपर्यार्धा
ईणा* समा* ॥ ३४ ॥

पूजाके नाम ६ ॥ पूजा १ नमस्या २
अपचिति ३ सपर्या ४ अर्धा ५ अर्हणा
६ ॥ ३४ ॥

परिषस्या तु शुश्रूषा परिषर्या
प्युपासना ॥

उपासनाके नाम ४ ॥ परिषस्या १
शुश्रूषा २ परिषर्या ३ उपासना ४ ॥

ग्रज्याऽटाटथा पर्यटनं-
मिदेशमें अमणकरनेके नाम १ ॥ ग्रज्या

१ अटाटथा २ पर्यटन ३ ॥

-चर्या त्वीयापये स्थिति* ॥ ३५ ॥
योगमार्गमें स्थितिका नाम १ ॥

चया १ ॥ ३५ ॥
उपस्पर्शस्वाद्यमन-

आचमने नाम २ ॥ उपस्पर्श १ ॥
आचमन २ ॥

-मथ मौनममापणम् ॥
गुणरहनेके नाम २ ॥ मौन १ अमा
पण २ ॥

आनुपूर्वा स्त्रियां वाऽऽभृत्वारि
पाटी अनुक्रम* ॥ ३६ ॥ पर्यायश्चा

अनुक्रमक नाम ५ ॥ आनुपूर्वा १
आभृत् २ परिपाटी ३ अनुक्रमक

४ ॥ ३६ ॥ पत्वाय ५ ॥

-ऽतिपातस्तु स्यात्पर्यय उपा-
त्ययः ॥

अतिक्रमके नाम ३ ॥ अतिपात २
पर्यय २ ॥ उपात्यय ३ ॥

नियमो व्रतमस्त्री-

व्रतके नाम २ ॥ नियम १ व्रत २ ॥

-तच्चोपवासादि पुण्यकम् ॥ ३७ ॥

चान्द्रायणादि व्रतका नाम १ ॥ पुण्य
१ ॥ ३७ ॥

औपवस्त तूपवासो-

उपवासके नाम २ ॥ औपवस्त १
उपवास २ ॥

-विवेकः पृथगात्मता ॥

प्रकृतिपुरुषके भेद जाननेके विचारके
नाम २ ॥ विवेक १ पृथगात्मता २ ॥

स्याद्ब्रह्मवर्चसं वृत्ताध्ययनद्धि-

सदाचारपालन और वेदाभ्यास कर
नेसे जो तेज होता है उसका नाम १ ॥
ब्रह्मवर्चस १ ॥

-रथाञ्जलिः ॥ ३८ ॥ पाठे-

ब्रह्माञ्जलिः-

वेदपढनेके समयकी अजलिका नाम
१ ॥ ब्रह्माञ्जलि १ ॥ ३८ ॥

-पाठे विप्रुषो ब्रह्मविन्दवः ॥

वेदपढनेके समय जो मुखसे जल चूता
है उनका नाम १ ॥ ब्रह्मविट्टु १ ॥

ध्यानयोगासने ब्रह्मासनं-

ध्यान और योगके आसनका नाम
१ ॥ ब्रह्मासन १ ॥

-कल्पे विधिक्रमौ ॥ ३९ ॥

नियोगशास्त्रके नाम ३ ॥ कल्प १
विधि २ क्रम ३ ॥ ३९ ॥

मुख्यः स्यात्प्रथमः कल्पो-

प्रथम विधिका नाम १ ॥ मुख्य १ ॥

-ऽनुकल्पस्तु ततोऽधमः ॥

द्वितीयविधिका नाम १ ॥ अनुकल्प १ ॥

संस्कारपूर्व ग्रहणं स्यादुपाकर-

णं श्रुतेः ॥ ४० ॥

संस्कारपूर्वक वेदके सुननेका नाम १ ॥

उपाकरण १ ॥ ४० ॥

समे तु पादग्रहणमभिवादन

मित्युभे ॥

नामगोत्रादि पूर्वक प्रणाम करनेके
नाम २ ॥ पादग्रहण १ अभिवादन २ ॥

भिक्षुः परिव्राट् कर्मन्दी पारा

शर्यापि मस्करी ॥ ४१ ॥

सन्यासीके नाम ५ ॥ भिक्षु १ परि-
व्राट् २ कर्मन्दिन् ३ पाराशरिन् ४
मस्कारिन् ५ ॥ ४१ ॥

तपस्वी तापसः पारिकांक्षी-

तपस्वीके नाम ३ ॥ तपस्विन् १ तापस
२ पारिकाक्षिन् ३ ॥

-वाचयमो मुनिः ॥

मुनिके नाम २ ॥ वाचयम १ मुनि १ ॥

तपःश्लेशसहो दान्तो-

तपस्याक हृद्यकं सन्नेत्रालका नाम

१ ॥ दान्त १ ॥

-वर्णिनो ब्रह्मचारिणः ॥ ४२ ॥

ब्रह्मचारीके नाम २ ॥ वर्णिन् १

ब्रह्मचारिन् २ ॥ ४२ ॥

फूपयः सत्यवचसः-

कृपिनेनाम २ ॥ कृपि १ सत्यवचस २ ॥

-आवकस्त्वाभ्रुवो प्रती ॥

जो कदप्रतभारण किये हुये गुरुकी

आभासे स्नाम फरे उसका नाम १ ॥

कागक १ ॥

ये निर्जितेन्द्रियमामा यतिनो

यस्यश्च से ॥ ४३ ॥

जितेन्द्रियके नाम २ ॥ यतिन् १ ॥

यति २ ॥ ४३ ॥

यः स्पण्डिले व्रतवशाच्छेते स्प

ण्डिलशाय्यसौ ॥ स्पण्डिलश्चा-

जो व्रतवश हो पृथ्वीपर कबूतरा

कना उसपर सोने उसके नाम २ ॥ स्पण्डि

लशायिन् १ स्पण्डिल २ ॥

-इय विरजस्तमनः स्युर्दया

तिगाः ॥ ४४ ॥

रजोगुण तमोगुण रहित म्यासदि

मुनिके नाम २ ॥ विरजस्तमस् १ इया

तिगा १ ॥ ४४ ॥

पवित्र प्रयत पूत -

पवित्रक नाम २ ॥ पवित्र १ प्रयत

२ पूत ३ ॥

-पारवण्डा सर्वालङ्गिना ॥

यौश्लषणकादि दुष्टशास्त्रवर्तिमोके

नाम २ ॥ पारवण्डा १ सर्वालङ्गिन् १ ॥

पालाशो दण्ड आपादो प्रते-

ब्रह्मधर्ममे फलाशके दण्डका नाम

१ ॥ आपाद १ ॥

-राम्मस्तु वेणवः ॥ ४५ ॥

यदि वह दण्ड बस्तका हो तो उसका

नाम १ राम्म १ ॥ ४५ ॥

अस्त्री कमण्डलुः कुण्डी-

व्रतियोंके छोटके नाम २ ॥ कमण्डलु

१ कुण्डी २ ॥

-व्रतिनामासनं वृत्ती ॥

और उनके आसनका नाम १ ॥

वृत्ती १ ॥

अजिनं चर्म कृपिः स्त्री-

मृगाणिके चर्मके नाम १ ॥ अजिन

१ चर्मन् १ कृपि १ ॥

-मैस भिसाकदम्बकम् ॥ ४६ ॥

मिखाके दरका नाम १ ॥ मैस १ ॥ ४६ ॥

स्वाध्यायः स्याज्जपः—

वेदके अभ्यासके नाम २ ॥ स्वाध्याय

१ जप २ ॥

—सुत्याऽभिषवः सवनं च सा ॥

यज्ञौषधिके कूटनेके नाम ३ ॥ सुत्या

१ अभिषव २ सवन ३ ॥

सर्वेनसामपध्वंसि जप्यं त्रिष्व-
घमर्षणम् ॥ ४७ ॥

सब्र पापके नाशकरनेवाले मत्रका
नाम १ ॥ अघमर्षण १ ॥ ४७ ॥

दर्शश्च पौर्णमासश्च यागौ प-
क्षान्तयोः पृथक् ॥

अमावसके दिनके यज्ञका नाम १ ॥

दर्श १ पौर्णमासीके दिनके यज्ञका नाम

१ ॥ पौर्णमास १ ॥

शरिरसाधनापेक्षं नित्यं यत्कम
तद्यमः ॥ ४८ ॥

अहिंसा सत्य चोरी न करना ब्रह्मच-
र्य अपरिग्रह (दान न लेना) इन
नित्यकर्मका नाम १ ॥ यम १ ॥ ४८ ॥

नियमस्तु स यत्कर्म नित्यमा-
गन्तुसाधनम् ॥

शौच सन्तोष तप स्वाध्याय ईश्वर-
प्रणिधान इन आगन्तु कर्म साधनका
नाम १ ॥ नियम १ ॥

उपवीतं ब्रह्मसूत्रं प्रोद्धृते दक्षि-
णे करे ॥ ४९ ॥

वाये काधेके जनेऊके नाम २ ॥ उप-

वीत १ ब्रह्मसूत्र २ ॥ ४९ ॥

प्राचीनावीतमन्यस्मि—

दहने काधेपर रहनेवाले जनेऊका

नाम १ ॥ प्राचीनावीत १ ॥

त्रिवीतं कण्ठलम्बितम् ॥

मालाकार यज्ञोपवीत पहिरनेका

नाम २ ॥ त्रिवीत १ ॥

अंगुल्यग्रे तीर्थं दैवं—

भाषा ॥ अगुलियोंका अंशभाग दे-

वताओका तीर्थ कहाता है ॥

—स्वल्पांगुल्योर्मूले कायम् ॥ ५० ॥

भाषा—कन अगुलियोंके मूलका नाम

१ ॥ प्रजापति तीर्थ है ॥ ५० ॥

मध्येऽङ्गुष्ठांगुल्योः पित्र्यं—

भाषा—अगुष्ठ और तर्जनी अगुलीके
मध्यमें पितृतीर्थ कहाता है ॥

—मूले त्वंगुष्ठस्य ब्राह्मम् ॥

भाषा ॥ अगुष्ठके मूलमें ब्राह्मतीर्थ
कहाता है ॥

स्याद्ब्रह्मभूयं ब्रह्मत्वं ब्रह्मसायु-
ज्यमित्यपि ॥ ५१ ॥

ब्रह्ममें मिलजानेके नाम ३ ॥ ब्रह्म-
भूय १ ब्रह्मत्व २ ब्रह्मसायुज्य ३ ॥ ५१ ॥

देवभूयादिकं तद्वत्—

देवमें मिलजानेके नाम ३ ॥ देवभूय
१ देवल २ देवसायुज्य ३ ॥

—कृच्छ्र सान्त्वननादिकम् ॥

गोमूत्र गोबर दूध दही घी कुशो
दक इमका मक्षण करन और एक रात्रिके
उपवासका नाम १ ॥ कृच्छ्र १ ॥

सन्धासप्तपनशने पुमान्प्रायो
सन्धासूर्ध्वक मोचनत्यागका नाम
१ ॥ प्राय १ ॥

—श्रय वीरहा ॥५२॥ नष्टामि—
त्रिस तपस्वीका अग्नि सुप्तगई हा
उस तपस्वीक नाम ॥ बीरहन् १
॥५२ ॥ नष्टामि २ ॥

कुहना छोमान्मिथ्येयापयक-
ल्पना ॥

दम्भसे ध्यानादि करनका नाम १ ॥
कुहना १ ॥

प्रात्य सस्कारहीन स्या—
त्रिस ब्राह्मणका गौण फालमेंमी
बडापर्याप्त न हुआ हा उसका नाम
१ ॥ त्रात्य १ ॥

—दस्वाध्यायो निराकृति ॥७३॥
दस्वाम्यामरहितका नाम १ ॥ निरा
कृति १ ॥ ७३ ॥

धमध्वमी छिन्नवृत्ति—
बहुविधा ब्राह्मणक नाम २ ॥
धमध्विना १ छिन्नवृत्ति २ ॥

—रवकीर्णो शतव्रत ॥

त्रिसका ब्रह्मधर्म नष्ट होगया हो
उसके नाम २ ॥ भवकाणिन् १ शतव्रत २ ॥

सुप्ते यस्मिन्नस्तमेति सुप्ते य
स्मिन्नदेति च ॥ ५४ ॥ अशुमान
भिनिमुक्तान्युदितौ च यथाक्रमम् ॥

साय संध्यामें सोनेबालेका नाम १ ॥
अभिनिर्मुक्त १ ॥ प्रातःकाळकी संध्यामें
सोनेबालेका नाम १ ॥ अमुदित १ ॥ ५४

परिवेसाञ्जुजोञ्जुदे ज्येष्ठे दार
परिमहात् ॥ ५५ ॥

त्रिसका बडा माई न ब्याहा गय
हो प्रथम छोगा ब्याहा जाय हा उस
छोटेका नाम १ ॥ परिवृत् १ ॥ ५५ ॥

परिवित्तिस्तु सञ्ज्यायान-
उसक बडमाईका नाम १ ॥ परि
वित्ति १ ॥

—विवाहोपयमो ममो ॥ तथा
परिणयोद्वाहोपयामा पाणिपी
दनम् ॥ ५६ ॥

विवाहके नाम ६ ॥ विवाह १ उप-
यम परिणय ३ उद्वाह ४ उपयाम २
पाणिपीदन ६ ॥ ५६ ॥

ध्ववायो ग्राम्यधमा मधुन
निधुवन रतम् ॥

मधुनका नाम ५ ॥ ध्ववाय १ ग्राम्य
धम मधुन ३ निधुवन ४ रत ५ ॥

त्रिवर्गो धर्मकामार्थै-

वेदविहितयज्ञादि विधि, स्त्रीसेवन,
न्यायसे धनोपार्जन, इनका नाम १ ॥
त्रिवर्ग १ ॥

-श्वतुर्वर्गः समोक्षकैः ॥ ५७ ॥

और मोक्ष करके युक्त धर्म अर्थ काम
हो तो उसका नाम १ ॥ चतुर्वर्ग १ ॥ ५७ ॥

सबलैस्ते श्वतुर्मद्रं-

और वे धर्मादि सबल हो तो उनका
नाम १ ॥ चतुर्मद्र १ ॥

-जन्याः स्निग्धा वरस्य ये ॥ ५८ ॥

बराती अर्थात् वरके पक्षवालोंका
म ॥ १ ॥ जन्य १ ॥ ५८ ॥

इति ब्रह्मवर्गः ॥ ७ ॥

अथ क्षत्रियवर्गः ८.

धाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः
त्रियो विराट् ॥

क्षत्रियके नाम ५ ॥ मूर्द्धाभिषिक्त १
जन्य २ बाहुज ३ क्षत्रिय ४ विराट् ५ ॥

राजा राट् पार्थिव क्षमाभृन्नृपभू-
महीक्षितः ॥ १ ॥

राजाके नाम ७ ॥ राजन् १ राज्
२ पार्थिव ३ क्षमामृत् ४ नृप ५ भूप ६
महीक्षित् ७ ॥ १ ॥

राजा तु प्रणताशेषसामन्तः
स्याद्धीश्वरः ॥

जो बहुत राजाओका मालिक हो
उसका नाम १ ॥ अधीश्वर १ ॥

चक्रवर्ती सार्वभौमो-

समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका जिसका राज्य
हो उसके नाम २ ॥ चक्रवर्तिन् १
सार्वभौम २ ॥

-नृपोऽन्यो मण्डलेश्वरः ॥ २ ॥

चारहजार ४००० कोशके भूमंडलके
राजाका नाम १ ॥ मण्डलेश्वर १ ॥ २ ॥

येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्ये-
श्वरश्च यः ॥ शास्ति यश्चाज्ञया
राज्ञः स सम्रा-

वही मण्डलेश्वर राजसूययज्ञ किये हो
और सब राजाओका शिक्षक हो तौ
उसका नाम १ ॥ सम्राज् १ ॥

-इथ राजकम् ॥ ३ ॥ राज-
न्यकं च नृपतिक्षत्रियाणां गणे
क्रमात् ॥

राजाओंके गणका नाम १ ॥
राजक १ ॥ ३ ॥ और क्षत्रियोंके गणका
नाम १ ॥ राजन्यक १ ॥

मन्त्री धीसचिवोऽमात्यो-

मन्त्रीके नाम ३ ॥ मन्त्रिन् १ धीस-
चिव २ अमात्य ३ ॥

-ऽन्ये कर्मसचिवास्ततः ॥ ४ ॥
मन्त्रीसे छोटे अन्य मुसाहिवोंका
नाम १ ॥ कर्मसचिव १ ॥ ४ ॥

महामात्रा प्रधानानि-

सुरूपमन्त्रीक नाम २ ॥ महामात्र १

प्रधान २ ॥

-पुरोधास्तु पुरोहितं ॥

पुरोहितके नाम २ ॥ पुरोधस् १

पुरोहित २ ॥

वृष्टरि व्यवहारार्णां प्राड्विषाकाक्ष
दर्शकौ ॥ ५ ॥

पत्र अर्थात् स्यामोधीशक नाम २ ॥

प्राड्विषाक १ अक्षदर्शक २ ॥ ५ ॥

प्रतीहारो ढाग्पालद्वाःस्थद्वा

स्थितदर्शकाः ॥

द्वारपालक नाम ५ ॥ प्रतीहार १

द्वारपालक २ द्वाःस्थद्वा स्थित ३ दर्शक ५ ॥

रक्षिबर्गस्त्वनीकस्थो-

रक्षबाकेके नाम २ ॥ रक्षिबर्ग १

मनीकस्थ २ ॥

-ऽयाध्यक्षाधिकृतौ समौ ॥ ६ ॥

अधिकारीक नाम ॥ अध्यक्ष १

अधिकृत २ ॥ ६ ॥

स्यायुक्तोऽधिकृता ग्रामे-

एक ग्रामक ठरुद्वारका नाम १ ॥

स्यायुक्त १ ॥

गोपो ग्रामेषु शूःषु ॥

बहुत ग्रामके ठेकरारका नाम १ ॥

गोप १ ॥

भौरिक कनकाध्यक्षो-

सोनेके अधिकारीके नाम २ ॥

भौरिक १ कनकाध्यक्ष २ ॥

-रूप्याध्यक्षस्तु नैषिकक ॥ ७ ॥

राजानधीक नाम २ ॥ रूप्याध्यक्ष

१ नैषिकक २ ॥ ७ ॥

अन्तःपुरे त्वधिकृतं स्यादन्त

र्षिको जनः ॥

जो जनानेनी बस्तुओंका अधिकारी

हो उसका नाम १ ॥ अन्तर्षिक १ ॥

सौविदक्षाः कञ्चुकिन् स्याप्त्या

मौविदाश्च ते ॥ ८ ॥

राजा वा राजस्त्रियोंके निकट जो

बैत लिय हुए खड्ग रखते हैं उनके नाम

४ ॥ सौविदक्ष १ कञ्चुकिन् २ स्याप्त्या

३ सौविद ४ ॥ ८ ॥

पण्डो वपवरस्तुत्या-

राजोंके नाम २ ॥ पण्ड १ वपवर २ ॥

-सेवकार्थमनुजीविनः ॥

सेवक वा नौकरके नाम ३ ॥ सेवक

१ अर्थिन् २ अनुजीविन् ३ ॥

विपमानन्तरो राजा शत्रु-

राजाके दशम पासक राजाका नाम

१ ॥ शत्रु १ ॥

-मत्रमत परम् ॥ ९ ॥

उत्सव अथ राजाका नाम १ ॥

मित्र १ ॥ ९ ॥

उदासीनः परतरः—

इन शत्रु मित्रोंसे पर अन्य राजा-
ओंका नाम १ ॥ उदासीन १ ॥

—पार्ष्णिग्राहस्तु पृष्ठतः ॥

अपने राज्यके पीछे राजा हो उसका
नाम १ ॥ पार्ष्णिग्राह १ ॥

रिपौ वैरिसपत्नारिद्विषद्वेषणदु-
हृदः ॥ १० ॥ द्विद्विषक्षाहितामित्रद-
स्युशात्रवशत्रवः ॥ अभिघातिपरा-
रातिप्रत्यर्थिपरिपंथिनः ॥ ११ ॥

दुश्मनके नाम १९ ॥ रिपु १ वैरि-
न् २ सपत्न ३ अरि ४ द्विपत् ५ द्वेषण
६ दुहृद् ७ ॥ १० ॥ द्विप् ८ विषक्ष ९
अहित १० अमित्र ११ दस्यु १२
शात्रव १३ शत्रु १४ अभिघातिन् १५
पर १६ अराति १७ प्रत्यर्थिन् १८
परिपथिन् १९ ॥ ११ ॥

वयस्यः स्निग्धः सवया—

हमजोलीके नाम ३ ॥ वयस्य १
स्निग्ध २ सवयसू ३ ॥

—अथ मित्रं सखा सुहृत् ॥

मित्रके नाम ३ ॥ मित्र १ सखि २ सुहृद् ३

सख्यं साप्तपदीनं स्या—

मित्रताके नाम २ ॥ सख्य १ सा-
प्तपदीन २ ॥

—द्वुरोधोऽनुवर्तनम् ॥ १२ ॥

७

मला मनाने (मुलाहिजे)के नाम २ ॥

अनुरोध १ अनुवर्तन २ ॥ १२ ॥

यथार्हवर्णः प्रणिधिरपसर्पश्चरः

स्पशः ॥ चारश्च गूढपुरुष—

जासूस वा हलिकारेके नाम ७ ॥

यथार्हवर्ण १ प्रणिधि २ अपसर्प ३ चर

४ स्पश ५ चार ६ गूढपुरुष ७ ॥

—श्वासप्रत्ययितौ समौ ॥ १३ ॥

विश्वासीके नाम २ ॥ आप्त १

प्रत्ययित २ ॥ १३ ॥

सांवत्सरो ज्योतिषिको दैव-
ज्ञगणकावपि ॥ स्युर्मौहूर्तिकमौ-
हूर्तज्ञानिकार्तान्तिका अपि ॥ १४ ॥

ज्योतिषी पण्डितके नाम ८ ॥ साव-
त्सर १ ज्योतिषिक २ दैवज्ञ ३ गणक
४ मौहूर्तिक ५ मौहूर्त ६ ज्ञानिन् ७
कार्तान्तिक ८ ॥ १४ ॥

तान्त्रिको ज्ञातसिद्धान्तः—

शास्त्रीके नाम २ ॥ तान्त्रिक १
ज्ञातसिद्धान्त २ ॥

—सत्री गृहपतिः समौ—

मोदीके नाम २ ॥ सत्रिन् १ गृहपति २ ॥

लिपिकरोऽक्षरचणोऽक्षरचुञ्चु-

श्च लेखके ॥ १५ ॥

लेखकके नाम ४ ॥ लिपिकर १ अक्षर-

चण २ अक्षरचुञ्चु ३ लेखक ४ ॥ १५ ॥

लिखितवासरविन्यासे त्रिपिण्डे	सिपार हो रहनेका नाम १॥ आसन १॥
विठमे स्त्रियाँ ॥	शत्रुके अधिकारियोंमें फूट करानका भाष
लिखित इए लखके नाम ३॥ लिखित १	१॥ ईश १ ॥ दूसरेका वासरा लेनेका
अक्षरविन्यास २ लिपि ३ लिखि ४ ॥	नाम १ ॥ आश्रय २ ॥ १८ ॥ एक
स्वास्त्यवेशद्वरो दृष्टी-	गुण फलकात हैं
दूतक नाम २॥ संदेशद्वर १ दूत २॥	-अक्तयस्तिष्ठ प्रभावीत्साइ
-दूत्य सद्भावकर्मणी ॥ २६ ॥	मन्त्रजाः ॥
दूतस्नका नाम १॥ दूत्य १॥ २६ ॥	राजाके शक्तियोंके नाम ३॥ अस्त्वज
अध्वनीनोऽध्वगोऽध्वस्य पान्य	१ उत्साहज २ मन्त्रज ३॥
पथिक इत्यपि ॥	क्षयं स्थानं च वृद्धिश्च त्रिवर्गो
रस्तेगीरक नाम ५ ॥ अध्वनीम १	नीतिवेदिनाम् ॥ १९ ॥
अध्वग २ अध्वन्य ३ पान्य ४ पथिक ५ ॥	नीतिशाब्दोक्त क्षय स्थान वृद्धिश्च
स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्ग	नाम १ ॥ त्रिवर्गो १ ५ १० ॥
वलानि च ॥ १७ ॥ राज्याङ्गानि	स प्रताप प्रभावश्च वसंत
मकूतपः पीमणां श्रेण्योऽपि च ॥	कोशदण्डजम् ॥
स्वामी (राजा) कामात्य (मन्त्री) सुहृद्	सजाना और दंडक प्रमाणक नाम
(मित्र) कोश (सजाना) राष्ट्र (दिव्यश्री	१ ॥ प्रताप १ प्रभाव २ ॥
भूमि) दुर्ग (दुर्गमस्थान) मकू (फौज)	सामदाने भेददण्डाविस्त्युपायश्च
॥ १७ ॥ पुरजासी और शिन्धी इन	दुष्टमर्म ॥ २० ॥
सबक नाम २॥ राम्या १ प्रहृष्टि २ ॥	राजाके चारों उपायोंक नाम ४ ॥
संधिनां विग्रहो याममासर्तं द्वेष	साम् १ दान २ भेददण्ड ३ ॥ २० ॥
माश्रयः ॥ १८ ॥ पहयुणाः-	साहसं तु क्षमो दण्ड-
सुवर्णादि देव शत्रुस मित्रानेकत्र नाम	दण्ड देनेके नाम ३ ॥ साहस १ दम
१ ॥ सन्धि १ ॥ शत्रुक साथ मित्रद्वयेका	२ दण्ड ३ ॥
नाम १ ॥ शिपह १ ॥ शत्रुपर चढ़ाई कर	-साम सान्त्व-
नेका नाम १ ॥ याम १ ॥ अपन स्थानपर	साहक फलके नाम २ ॥ साम् १
	साम् २ ॥

-मयो समौ ॥ भेदोपजापा-
फरक डालनेके नाम २ ॥ भेद १
उपजाप २ ॥

-वुपधा धर्माद्यैर्यत्परीक्षणम् २१
धर्म अर्थ काम और भयसे मत्री
इत्यादिकोंकी परीक्षा करनेका नाम १
॥ उपधा १ ॥ २१ ॥

पञ्च त्रि-

भाषा-अषडक्षीण आदि निःशलाक
पर्यन्त पाच शब्द तीनों लिङ्गोंमें होतेहैं॥

-ज्वषडक्षीणोयस्तृतीयाद्यगो-
चरः ॥

दो जनोकीही सलाहका नाम १ ॥
अषडक्षीण १ ॥

विविक्तविजनच्छन्ननिःशलाका
स्तथा रहः ॥ २२ ॥ रहश्चोपांशु
चालिङ्गे-

एकान्तके नाम ७ ॥ विविक्त १
विजन २ छन्न ३ निःशलाक ४ रहस् ५
॥ २२ ॥ रह ६ उपांशु ७ ॥

-रहस्यं तद्भवे त्रिषु ॥

एकान्तकी बात वा कामका नाम १
॥ रहस्य १ ॥

समौ विस्त्रम्भविश्वासौ-

विश्वासके नाम २ ॥ विस्त्रम्भ १
विश्वास २ ॥

-भ्रेषो भ्रंशो यथोचितात् ॥ २३
अन्यायका नाम १ ॥ भ्रेष १ ॥ २३ ॥
अभ्रेषन्यायकल्पास्तु देशरूपं
समञ्जसम् ॥

न्यायके नाम ९ ॥ भ्रेष १ न्याय
२ कल्प, ३ देशरूप ४ समञ्जस ५ ॥

युक्तमौपयिकं लभ्यं भजमाना-
भिनीतवत् ॥ २४ ॥ न्याय्यं च
त्रिषु षट्-

न्यायसे जो वस्तु ली जावे उसके नाम
६ ॥ युक्त १ औपयिक २ लभ्य ३ भज-
मान ४ ॥ अभिनीत ५ ॥ २४ ॥ न्याय्य
६ ॥ ये छः शब्द त्रिलिङ्ग हैं ॥

-संप्रधारणा तु समर्थनम् ॥
यही उचित है ऐसे निश्चय करनेके
नाम २ ॥ सम्प्रधारणा १ समर्थन २ ॥

अववादस्तु निर्देशो निदेशः
शासनं च सः ॥ २५ ॥ शिष्टि-
श्चाज्ञा च-

आज्ञाके नाम ६ ॥ अववाद १ निर्देश
२ निदेश ३ शासन ४ ॥ २५ ॥
शिष्टि ५ आज्ञा ६ ॥

-संस्था तु मर्यादा धारणा
स्थितिः ॥

मर्यादाके नाम ४ ॥ संस्था १
मर्यादा, २ धारणा ३ स्थिति ४ ॥

आगोऽपराधो मन्तुष्व-
 अपराधके नाम ३ ॥ आगस् १ अ
 पराध १ मन्तु ३ ॥
 -समे तुहानवन्धने ॥ २६ ॥
 बधनके नाम २ ॥ उदान ॥ बन्धन
 २ ॥ २६ ॥
 द्विपायो द्विगुणो दण्डो-
 दून दण्डका नाम १ द्विपाय १ ॥
 -भागधेयं करो वलिं ॥
 करके नाम ३ ॥ भागधेय १ कर २
 वलि ३ ॥
 घटादिदेय शुल्कोऽञ्जरी-
 घाटीबौरहमे देन योग्य महसूचका
 नाम १ ॥ शुल्क १ ॥
 -प्राभृत तु प्रदेशनम् ॥ २७ ॥
 मित्रादिको मंत्र वा नजर देनेके नाम
 २ ॥ प्राभृत १ प्रदेशन २ ॥ २७ ॥
 उपायनमुपमाह्यमुपहारस्तयो
 पदा ॥
 राजाको मंत्र वा नजर देनेके नाम ३ ॥
 उपायन १ उपमाह २ उपहार ३ उपदा ३ ॥
 यातकादि तु यदेष्यं मुदायो
 हरणं च तत् ॥ २८ ॥
 दहन वा मार्शन्गुर्भोके देनेको वस्तु
 क नाम २ मुदाय १ हरण २ ॥ २८ ॥
 तत्पासस्तु तदात्वं स्या-

वर्तमानस्मयके नाम २ ॥ तत्काम
 १ तदात्वं २
 -दुस्तरं काल आयति ॥
 आनन्तत्व स्मयका नाम १ आयति १ ॥
 सांख्यिकं फल सद्य-
 तुरन्तके फलका नाम १ ॥ सांख्यिक १ ॥
 -उदर्कं फलमुत्तरम् ॥ २९ ॥
 आगेके होनेवालेका नाम १ ॥ उदर्क
 १ ॥ २९ ॥
 अष्टष्टुष्वित्तोपादि-
 भाग छान और अतिष्टुष्टिने भा
 दि उत्पातका नाम १ ॥ अष्टष्टु १ ॥
 -दृष्टं स्वपरचक्रजम् ॥
 अपने या परये राज्यसे चौरादिके
 मयका नाम १ ॥ दृष्ट १ ॥
 महीसुमामहिर्मयं स्वपक्षममर्षं
 मयम् ॥ ३० ॥
 अपने सहायकसे मयका नाम १ ॥
 महिमय १ ॥ ३० ॥
 प्राक्रिया त्वधिकारः स्या-
 कानून चलानेके नाम २ ॥ प्राक्रिया
 १ अधिकार २ ॥
 -धामर तु प्रकीर्णकम् ॥
 धारक नाम २ ॥ धामर १ प्रकीर्णक २ ॥
 नृपासनं यत्तद्भद्रासन-
 मणि आदिसे बनी हुई राजगद्दीक मान
 २ ॥ नृपासन १ मद्रासन २ ॥

-सिंहासनं तु तत् ॥ ३१ ॥

हैमं-

कदाचित् वही राजाके बैठनेका स्थान सोनेसे बनाहो तो उसका नाम १ ॥ सिंहासन १ ॥ ३१ ॥

-छत्रं त्वातपत्रं-

छतुरीके नाम २ ॥ छत्र १ आतपत्र २ ॥

-राज्ञस्तु नृपलक्ष्म तत् ॥

राजाके छत्रका नाम १ ॥ नृपलक्ष्मन् १ ॥

भद्रकुम्भः पूर्णकुम्भो-

मरेघडेके नाम २ ॥ भद्रकुम्भ १ पूर्णकुम्भ २ ॥

भृङ्गारः कनकालुका ॥ ३२ ॥

झारी या गडुवेके नाम २ ॥ भृङ्गार १ कनकालुका २ ॥ ३२ ॥

निवेशः शिविरं षण्ढे-

उराके नाम २ ॥ निवेश १ शिविर २ ॥

सज्जनं तूपरक्षणम् ॥

पहरेके नाम २ ॥ सज्जन १ उपरक्षण २ ॥

हस्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्गं स्याच्चतुष्टयम् ॥ ३३ ॥

हाथी घोडा रथ सिपाही इन सबका नाम १ ॥ सेनाङ्ग १ ॥ ३३ ॥

दन्ती दन्तावलो हस्ती द्विरदोऽनेकपो द्विपः ॥ मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी ॥ ३४ ॥ इभः स्तम्बेरमः पद्मी-

हाथीके नाम १ ॥ दन्तिन् १ दन्तावल २ हस्तिन् ३ द्विरद ४ अनेकप ५ द्विप ६ मतगज ७ गज ८ नाग ९ कुञ्जर १० वारण ११ करिन् १२ ॥ ३४ ॥ इभ १ ३ स्तम्बेरम १ ४ ॥ पद्मिन् १ ५ ॥

-यूथनाथस्तु यूथपः ॥

हाथियोंके सिरदार हाथीके नाम २ ॥ यूथनाथ १ यूथप २ ॥

मदोत्कटो मदकलः-

मदान्व हाथीके नाम २ ॥ मदोत्कट १ मदकल २ ॥

-कलभः करिशावकः ॥ ३५ ॥

हाथीके बच्चोंके नाम २ ॥ कलभ १ करिशावक २ ॥ ३५ ॥

प्रभिन्नो गर्जितो मत्तः-

जिसके मद बहता हो उसके नाम ३ ॥ प्रभिन्न १ गर्जित २ मत्त ३ ॥

-समाबुद्धान्तनिर्मदौ ॥

वे मदवालेके नाम २ ॥ उद्धान्त १ निर्मद २ ॥

हास्तिकं गजता वृन्दे-

हाथियोंके समूहके नाम २ ॥ हास्तिक १ गजता २ ॥

-करिणी धेनुका वशा ॥ ३६ ॥

हथिनीके नाम ३ ॥ करिणी १ धेनुका २ वशा ३ ॥ ३६ ॥

आगोऽपराधो मन्तुश्च-
 अपराधकं नाम ३ ॥ आगस् १ अ
 पराध १ मन्तु ३ ॥
 -समे तृहानबन्धने ॥ २६ ॥
 बन्धनकं नाम २ ॥ उदान ॥ बघन
 २ ॥ २६ ॥
 द्विपाथो द्विगुणो दण्डो-
 दूने दण्डका नाम १ द्विपाथ १ ॥
 -भागधेयं क्तो बलिं ॥
 क्तके नाम ३ ॥ भागधेय १ क्त २
 बलि ३ ॥
 घट्टादिदेय शुल्कोऽखी-
 घाटीबगेख्म देन योग्य महसूल्का
 नाम १ ॥ शुल्क १ ॥
 -प्राभृत तु मदेशनम् ॥ २७ ॥
 मित्रादिको भट्ट वा नजर देनेके नाम
 २ ॥ प्राभृत १ मदेशन २ ॥ २७ ॥
 उपायनमुपमाह्नमुपहारस्तयो
 पदा ॥
 राजाको भेट वा नजर देनेके नाम ४ ॥
 उपायन १ उपमाह्न २ उपहार ३ उपदा ४ ॥
 यावकादि तु पदेयं सुदायो
 हरणं च तसु ॥ २८ ॥
 दहज वा भाईबन्धुओंके देनेकी वस्तु
 के नाम २ सुदाय १ हरण २ ॥ २८ ॥
 तत्कारुस्तु वदात्थ स्या-

वर्तमानसमयके नाम २ ॥ तत्कारु
 १ तदात्थ २
 -दुत्तरं काल आयति ॥
 आनगल समयका नाम १ आयति १ ॥
 सांघट्टिकं फल सद्य-
 तुरन्तके फलका नाम १ ॥ सांघट्टिक १ ॥
 -उदर्कं फलमुत्तरम् ॥ २९ ॥
 आगके होनेवालेका नाम १ ॥ उदर्क
 १ ॥ २९ ॥
 अष्टष्ट, बद्धितोयादि-
 भाग खाने और अतिवृष्टिहोन वा
 दि उत्पातका नाम १ ॥ अष्टष्ट १ ॥
 -दृष्ट स्वपरचक्रजम् ॥
 अपन या पराय राज्यसे चौरदिके
 मयका नाम १ ॥ दृष्ट १ ॥
 महीमुजामहिमयं स्वपसप्रमम
 मयम् ॥ ३० ॥
 अपने सहायकसे मयका नाम १ ॥
 अहिमय १ ॥ ३० ॥
 प्रक्रिया त्वधिकारं स्या-
 कानून खजानेके नाम २ ॥ प्रक्रिया
 १ अधिकार २ ॥
 -धामर तु प्रकीर्णकम् ॥
 धंकरके नाम २ ॥ धामर १ प्रकीर्णक २ ॥
 नृपासनं यत्तद्भ्रासन-
 मणि आदिसे बनी हुई राजगद्दीके नाम
 २ ॥ नृपासन १ भ्रासन २ ॥

-५थं शृङ्खले ॥ अन्दुको

निगडोऽस्त्री स्या-

हाथीकी जजीरके नाम ३ ॥ शृङ्खल

१ अन्दुक २ निगड ३ ॥

-दंकुशोऽस्त्री सृणिः स्त्रियाम् ४१

अकुशके नाम २ ॥ अकुश १

सृणि २ ॥ ४१ ॥

दूष्या कक्ष्या वरत्रा च-

हाथीकी कमर बाधनेकी रस्सीके
नाम ३ ॥ दूष्या १ कक्ष्या २ वरत्रा ३ ॥

-कल्पना सज्जना समे ॥

मालिकके चढनेके वास्ते हाथीको

तैयारकरनेके नाम २ ॥ कल्पना १
सज्जना २ ॥

प्रवेण्यास्तरणं वर्णः परिस्तोमः

कुथो द्वयोः ॥ ४२ ॥

गद्दी वा झूलके नाम ९ ॥ प्रवेणी

१ आस्तरण २ वर्ण ३ परिस्तोम ४

कुथ ९ ॥ ४२ ॥

वीतं त्वसीरं हस्त्यश्वं-

हाथी घोडेका नाम १ ॥ वीत १ ॥

-वारी तु गजवन्धनी ॥

जिस भूमिमें हाथी बाधेजायँ उस-
का नाम १ ॥ वारी १ ॥

घोटके वीतितुरगतुरङ्गाश्वतुर

ङ्गमाः ॥ ४३ ॥ वाजिवाहार्वा

गन्धर्वहयसैन्धवसप्तयः ॥

घोडेके नाम १३ ॥ घोटक १

वीति २ तुरग ३ तुरङ्ग ४ अश्व ५

तुरङ्गम ६ ॥ ४३ ॥ वाजिन् ७ वाह

८ अर्बन् ९ गन्धर्व १० हय ११

सैन्धव १२ सप्ति १३ ॥

आजानेयाः कुलीनाः स्यु-

कुलीन घोडेका नाम १ ॥ आजानेय १ ॥

-विनीताः साधुवाहिनः ॥ ४४ ॥

सांखेद्वये घोडेका नाम १ ॥

विनीत १ ॥ ४४ ॥

वनायुजाः पारसीकाः काम्बो-

जा बाह्लिका हयाः ॥

वनायु देशमें पैदाहुए घोडेका

नाम १ ॥ वनायुज १ ॥

पारसदेशोत्पन्न घोडेका नाम १ ॥

पारसीक १ ॥

काबुली घोडेका नाम १ ॥ बाह्लिक १ ॥

ययुरश्वोऽश्वमेधीयो-

अश्वमेधके श्यामकर्णवाले घोडेका

नाम १ ॥ ययु १ ॥

-जवनस्तु जवाधिकः ॥ ४५ ॥

जल्दी चलनेवाले घोडेका नाम

१ ॥ जवन १ ॥ ४५ ॥

पृष्ठ्यः स्थौरी-

लदनेवाले घोडेके नाम २ ॥ पृष्ठ्य १

स्थौरी

गण्डः कर्णो-	हाथीके छिजारके नीचेका नाम १ ॥
हाथीके गालके नाम २ ॥ गण्ड १	वाहित्य १ ॥
कट १ ॥	प्रतिमानमघोऽस्य यत् ॥
-मदो दानं-	वाहित्यके नीचेका नाम १ ॥ प्रति
हाथीके मदके नाम २ ॥ मद १	मान १ ॥
दान २ ॥	आसन स्कन्धदेशः स्या-
-धमयु कर्णशक्तिः ॥	हाथीके कन्धेका नाम १ ॥ आसन १ ॥
हाथीकी सँभसे पानी निकलनेके	-त्वक्कर्म विन्दुजालकम् ॥ ३९ ॥
नाम २ ॥ धमयु १ कर्णशक्ति २ ॥	हाथीके विन्दुशोका नाम १ ॥ पक्ष
कुम्भौ तु पिण्डौ शिरस-	१ ॥ ३९ ॥
हाथीके मस्तकके मांसका नाम १ ॥	पार्श्वभाग पक्षभागो-
कुम्भ १ ॥	हाथीकी बगलके नाम २ ॥ पार्श्वभाग
-स्वयोमघ्ये विदुः पुमान् ॥ ३७ ॥	१ पक्षभाग २ ॥
दोनों कुम्भोंके मध्यमें जो खाली रहता	-दन्तभागस्तु योऽप्रत ॥
है उसका नाम १ ॥ विदु १ ॥ ३७ ॥	हाथीके आगेके भागका नाम १ ॥
अबमहो छलाट स्या-	दन्तभाग १ ॥
हाथीके छिजारका नाम १ ॥ अबमह १	द्वी पूर्वपश्चात्तन्निदेशी गात्रा
-द्विविका स्वसिकूटकम् ॥	बरे क्रमात् ॥ ४० ॥
उसके नेत्रोंकी गोलाईके नाम २ ॥	हाथीके आगेके जंघादि भागका
द्विविका १ स्वसिकूटक २ ॥	नाम १ ॥ गात्र १ ॥ हाथीके पीछेके
अपांगदेशो निर्माणं-	भागका नाम १ ॥ अकर १ ॥ ४० ॥
उसके निहारनेका नाम १ ॥ निर्माण १ ॥	तोत्रं बैयुक्-
-कणमूलं तु शूलिका ॥ ३८ ॥	चामुककी डडीके नाम २ ॥ तोत्र
हाथीके जरा से कान जमते हैं उस	१ येषुक २ ॥
जगहका नाम १ ॥ शूलिका १ ॥ ३८ ॥	-मालानं बन्धस्तम्भे-
अथ कुम्भस्य वाहित्यं-	हाथीके सूँके नाम १ ॥ मालान १ ॥

न सम-	रथे काम्बलवास्त्राद्याः कम्बालादिभिरावृते ॥ ५४ ॥
॥ पुष्यरथ	कम्बलके परदेवाले रथका नाम १
	॥ काम्बल १ ॥ ५४ ॥
न च समं	त्रिषु द्वैपादयो-
	भाषा-द्वैप आदि शब्द तीनों लिंगो
३॥ कर्णरथ	मे होते हैं ॥
	-रथ्या रथकव्या रथव्रजे ॥
पी स्या-	रथके समूहके नाम २ ॥ रथ्या १
प्रशकट २ ॥	रथकव्या २ ॥
कम् ॥ ५२ ॥	
गन्त्री १ (गान्त्री)	धूःस्त्री क्लीबे यानमुखं-
	-धूरीके नाम २॥ धुर १ यानमुख २॥
यानं स्या-	स्याद्रथाङ्गमपस्करः ॥ ५५ ॥
२ ॥ शिविका १	तागेके नाम २॥ रथाग १ अपस्कर
	२ ॥ ५५ ॥
दिका स्त्रियाम् ॥	चक्रं रथाङ्गं-
के नाम २ ॥ दोळी	पहियेके नाम २ ॥ चक्र १ रथाङ्ग २॥
	-तस्यान्ते नेमिः स्त्रीस्यात्प्रधिः
याधौ द्वीपिचर्मा-	पुमान् ॥
॥	रथकी नेमिके नाम २॥ नेमि १ प्रधि २॥
मडेका परदा हो उसके	पिण्डिका नाभि-
याप्र २ ॥ ५३ ॥	पुटीके नाम २॥ पिण्डिका १ नाभि २॥
दसंवीतः स्यन्दनः	-रक्षायकीलके तु द्वयोरणिः
॥	॥ ५६ ॥
परदेके रथका नाम १॥	कुलावेका नाम १ ॥ अणि १ ॥ ५६ ॥
॥	रथगुप्तिर्वरुथो ना-

-सित' कर्को-	वल्गितं प्लुतम् ॥ ४८ ॥ गतपोऽ
उबले घोडेका नाम १ ॥ कर्क १ ॥	मू' पञ्च धारा-
-रथयो वोढा रथस्य य' ॥	घोडेके पाँच प्रकारकी चालोंके
रथके घोडेका नाम १ ॥ रथ १ ॥	नाम ५ ॥ आस्कन्दित १ घौरितक २
वाल' किशोरो-	रचित ३ वल्गित ४ प्लुत ५ ॥ ४८ ॥
घोडेके बच्चेका नाम १ ॥ किशोर १ ॥	-घोणा तु प्रोथमस्त्रियाम् ॥
-वाम्यम्वा वडवा-	घोडेकी नाकका नाम १ ॥ प्रोथ १ ॥
घोडीके नाम ३ ॥ यामी १	कविका तु खलीनोऽस्त्री-
अम्वा २ वडवा ३ ॥	घोडेकी छागामके नाम २ ॥ कस्कि
-वाडव गण ॥ ४६ ॥	१ खलीन २ ॥
घोडीके स्मूहका नाम १ वाडव १ ॥ ४६ ॥	-शफं क्लीये सुरः पुमान् ॥ ४९ ॥
त्रिष्वाश्वीन यदश्वेन दिनेनैकेन	घोडेके सुरके नाम ३ ॥ शफ १
गम्यते ॥	सुर २ (सुर) ३ ॥ ४९ ॥
घोडेके एक दिन चलने योग्य	पुच्छाञ्जरी छूमलांगूले-
मार्गका नाम १ ॥ आश्वीन १ ॥	पूँजेके नाम ३ ॥ पुच्छ १ छम २ छंगूले ३ ॥
कश्य तु मध्यमश्वानां-	-वालहस्तश्च बालधि ॥
घोडेके मध्यमागका नाम १ ॥ कश्य १ ॥	वालहस्तहित पूँजेके नाम २ ॥ बाल
-हेपा हेपा च निःस्वन' ॥ ४७ ॥	हस्त १ बालधि ३ ॥
घोडेके शब्दका नाम २ ॥ हेपा १	त्रिपुपापृत्तछटिती परावृत्ते
हेपा २ ॥ ४७ ॥	सुमुमुवि ॥ ५० ॥
निगालस्तु गलोद्देशे-	पृथीमे लोटम' नाम २ ॥ उपा
घोडेके गलेका नाम १ ॥ निगाल १ ॥	पृथ १ छटित २ ॥ ५ ॥
-वृन्दे त्वर्थापमाश्वत् ॥	यान चक्रिणि युद्धार्थं शतान्
घोडोंके स्मूहका नाम २ ॥	स्पन्दनो रथः ॥
वृन्दीय १ आश्व २ ॥	युद्धके रथके नाम ३ ॥ शतानि १
आस्कन्दित घौरितकं रेचितं	स्पन्दन २ रथ ३ ॥

वसौ पुष्यरथश्चक्रयानं न सम-
राय यत् ॥ ५१ -

सामान्य रथका नाम १ ॥ पुष्यरथ
१ ॥ ५१ ॥

कर्णीरथः प्रवहणं डयनं च समं
त्रयम् ॥

द्विर्योकी गाडीके नाम ३ ॥ कर्णीरथ
१ प्रवहण २ डयन ३ ॥

ह्रीवेऽनः शकटोऽस्त्री स्या-

लकडेके नाम २ अनस् १ शकट २ ॥

-द्वन्त्री कम्बलिवाह्यकेम् ॥ ५२ ॥

गाडीके नाम २ ॥ गन्त्री १ (गान्त्री)
२ ॥ ५२ ॥

शिविका याप्ययानं स्या-

पालकीके नाम २ ॥ शिविका १
याप्ययान २ ॥

-दोला भ्रखादिका स्त्रियाम् ॥

दोली वा हिढोलेके नाम २ ॥ दोली
१ भ्रखा २ ॥

उभौ तु द्वैपवैयाघ्रौ द्वीपिचर्मा-
वृते रथे ॥ ५३ ॥

जिसमे बघेरके चमडेका परदा हो उसके
नाम २ ॥ द्वैप १ वैयाघ्र २ ॥ ५३ ॥

पाण्डुकम्बलसंवीतः स्यन्दनः
पाण्डुकम्बली ॥

पीले रगवाले परदेके रथका नाम १ ॥
पाण्डुकम्बली १ ॥

रथे काम्बलवास्त्राद्याः कम्बा-
लादिभिरावृते ॥ ५४ ॥

कम्बलके परदेवाले रथका नाम १
॥ काम्बल १ ॥ ५४ ॥

त्रिषु द्वैपादयो-

भाषा-द्वैप आदि शब्द तीनों लिंगों
मे होते हे ॥

-रथ्या रथकव्या रथव्रजे ॥

रथके समूहके नाम २ ॥ रथ्या १
रथकव्या २ ॥

धूःस्त्री ह्रीवे यानमुखं-

-धूरीके नाम २ ॥ धुर १ यानमुख २ ॥
स्याद्रथाङ्गमपस्करः ॥ ५५ ॥

तागेके नाम २ ॥ रथांग १ अपस्कर
२ ॥ ५५ ॥

चक्रं रथाङ्गं-

पहियेके नाम २ ॥ चक्र १ रथाङ्ग २ ॥
-तस्यान्ते नेमिः स्त्रीस्यात्प्रधिः

पुमान् ॥
रथकी नेमिके नाम २ ॥ नेमि १ प्रधि २ ॥

पिण्डिका नाभि-

पुष्टीके नाम २ ॥ पिण्डिका १ नाभि २ ॥
-रक्षाग्रकीलके तु द्वयोरणिः

॥ ५६ ॥
कुलावेका नाम १ ॥ अणि १ ॥ ५६ ॥
रथगुप्तिर्वरूथो ना-

छोहे जडेइये रयके भाषणके नाम २ ॥	निपन्तु १ प्राजित् ४ यन्तु ३ सूत ४
रयगुधि १ वरुध २ ॥	क्षतु ५ सारथि ६ ॥ १९ ॥ सव्य ७
कूबरस्तु युगंधरः ॥	दक्षिणस्य ८ ॥
काठके शुएके बांधनेके स्थानके नाम	रथिनं स्पन्दनारोहा-
२ ॥ कवर १ युगंधर २ ॥	रयके ऊपर चढ़क उठनेवालोंके नाम
अनुकर्षो दावंधःस्त-	२ ॥ रथिन १ स्पन्दनारोह २
सुगनके नाम १ ॥ अनुकर्ष १ ॥	-अम्भारोहास्तु सादिन ॥ ६० ॥
-प्रासङ्गो ना युगाद्युग ॥ ५७ ॥	पुङ्गसभारक नाम २ ॥ अम्भारोह १
शुएके नाम २ ॥ प्रासग १ युग २ ॥ ५७ ॥	सादिन् २ ॥ ६० ॥
सर्वे स्पाटाहर्न यान् युग्मं पत्र	मद्य योधाश्च योद्धार -
घ घोरणम् ॥	उठन्वाळके नाम ३ ॥ मट १
सधारीके नाम ५ ॥ बाहन १ यान	योध २ योद्ध ३ ॥
२ युग्म ३ पत्र ४ घोरण ५	-सेनारक्षास्तु सेनिका ॥
परम्परावाहन यच्छेनीतकम	पहरा देनेवाळके नाम २ ॥ सेनाय १
स्त्रियाम् ॥ ७८ ॥	सेनिक २ ॥
कहार आदि पाहनोका नाम १ ॥	सेनायां समवेता ये सेन्यास्ते
केनितक १ ॥ ५८ ॥	सेनिकाश्च ते ॥ ६१ ॥
आघोरणा हस्तिपक्ता हस्त्या	सम्पूर्ण सेनाके नाम २ ॥ सेन्य १
रोहा निपादिन ॥	सेनिक २ ॥ ६१ ॥
हायीवान् नाम ४ ॥ आघोरण १	घडिनो ये सहस्रेण साहस्रास्ते
हस्तिपक्व २ हस्त्यारोह ३ निपादिन् ४ ॥	सहस्रिणः ॥
निपता प्राजिता यन्ता सूत सत्ता	हजार सिपाहियोंके माञ्जि-त्के नाम २ ॥
च सारथि ॥ ५९ ॥ सव्येष्ट	साहस्र १ सहस्रिन् २ ॥
क्षिणस्यां घ गङ्गारयकुर्मुष्मिन ॥	परिधिम्ब परिचरः-
रथारि क हाहनराके नाम ८ ॥	जो फौज रखानके अर्थ चारोंतरफ
	घम्भादे उतरु नाम २ ॥ परिधिम्ब १
	पारचर २ ॥

—सेनानीर्वाहिनीपतिः ॥ ६२ ॥

सेनाके मालिकके नाम २ ॥
सेनानी १ वाहिनीपति २ ॥ ६२ ॥

कञ्चुको वारबाणोऽस्त्री—

योद्धाओंको युद्धके समय पहरनेके
बख्त्रके नाम २ ॥ कञ्चुक १ वारबाण २ ॥

यत्तु मध्ये सकञ्चुकाः ॥

बध्नाति तत्सारसनमधिकाङ्गो—
इसे पहन कर जो योद्धा पट्टी
बाधते हैं उसके नाम २ ॥ सारसन
१ अधिकांग २ ॥

—ऽथ शीर्षकम् ॥ ६३ ॥ शीर्ष-
ण्यं च शिरस्त्रे—

टोपके नाम ३ ॥ शीर्षक १
॥ ६३ ॥ शीर्षण्य २ शिरस्त्र ३ ॥

—ऽथ तनुत्र वर्म दंशनम् ॥ उर-
श्छदः कङ्कटको जगरः कवचोऽ-
स्त्रियाम् ॥ ६४ ॥

कवचके नाम ७ ॥ तनुत्र १ वर्मन्
२ दशन ३ उरश्छद ४ ककटका ५
जगर ६ कवच ७ ॥ ६४ ॥

आमुक्तः प्रतिमुक्तश्च पिनद्धश्चा-
पिनद्धवत् ॥

—) पहिरेहुए कवचके नाम ४ ॥ आमुक्त
१ प्रतिमुक्त २ पिनद्ध ३ अपिनद्ध ४ ॥

संनद्धो वर्मितः सज्जो दंशितो
व्यूढकङ्कटः ॥ ६५ ॥

मत्रादि कवच धारण किये हुएके
नाम ५ ॥ सनद्ध १ वर्मित २ सज्ज ३
दशित ४ व्यूढककट ५ ॥ ६५ ॥

त्रिष्वामुक्तादयो—

भाषा ॥ आमुक्त आदि शब्द-
तीनों लिंगोंमें होतेहैं ॥

—वर्मभृतां कावचिकं गणे ॥

कवच धारण करनेवालोंके समू-
हका नाम १ ॥ कावचिक १ ॥

पदातिपत्तिपदगपादातिकपदा-
जयः ॥ ६६ ॥ पद्मश्च पदिकश्चा-

पैदलके नाम ७ ॥ पदाति १
पत्ति २ पदग ३ पादातिक ४ पदाजि
५ ॥ ६६ ॥ पद्म ३ पदिक ७ ॥

—ऽथ पादातं पत्तिसंहतिः ॥

पैदलसमूहके नाम २ ॥ पादात १
पत्तिसंहति २ ॥

शस्त्राजीवे काण्डपृष्ठायुधीया
युधिकाः समाः ॥ ६७ ॥

जो हथियार बांधकर जीविका करते
हैं उनके नाम ४ ॥ शस्त्राजीव १ काण्ड-
पृष्ठ २ आयुधीय ३ आयुधिक ४ ॥ ६७ ॥

कृतहस्तः सुप्रयोगविशिखः
कृतपुंखवत् ॥

तीरन्दाजकं नाम ३ ॥ कृतहस्त १
सुप्रयोगविशिख २ कृतपुख ३ ॥

छोहे जडहूये रथक आचरणके नाम २ ॥
रथगुप्ति १ बरुय २ ॥

कूषरस्तु युर्गधर ॥

काठके ऊपरके बाधनके स्थानके नाम
२ ॥ कूषर १ युर्गधर २ ॥

अनुकर्षो दार्विघ्नःस्यो-

सुगनके नाम १ ॥ अनुकर्ष १ ॥

-प्रासङ्गो ना युगाद्युग ॥५७॥

ऊपरके नाम २ ॥ प्रासङ्ग १ युग २ ॥५७॥

सर्वे स्थादाहन यामे युग्यं पत्र
च घोरणम् ॥

सशरीके नाम १ ॥ बाहन १ यान

२ युग्य ३ पत्र ४ घोरण ५

परम्परावाहन यत्तद्वैनीवफम
स्त्रियाम् ॥ ५८ ॥

कहार आदि बाहमोंका नाम १ ॥

वैनीवक १ ॥ ५८ ॥

आधोरणा इस्त्रियका इस्त्या
गोहा निपादिनः ॥

हापीवानके नाम ४ ॥ आधोरण १
इस्त्रियक २ इस्त्यागोह ३ निपादिन ४ ॥

नियंता प्राजिता यन्ता सूतं शप्ता
च सागधि ॥ ५९ ॥ सव्येषुद

क्षिणस्थ्या च साधारथकुटुम्बिन ॥
रथादि ब्रह्मनाथके नाम ८ ॥

निष्पन्तु १ प्राजित ४ यन्त ३ सूत ४
शव ५ सागधि ६ ॥ ५९ ॥ सव्येषु ७
दक्षिणस्थ ८ ॥

रथिनं स्पन्दनारोहा-
रथक ऊपर चढके छडनेवालोंके नाम

१ ॥ रथिन १ स्पन्दनारोह २

-अम्भारोहास्तु सादिन ॥ ६० ॥

पुष्पवारक नाम २ ॥ अम्भारोह १

सादिन २ ॥ ६० ॥

भय योधात्र योद्धार -
छडनेवालोंके नाम ३ ॥ भय १

योध २ योद् ३ ॥

-सेनागक्षास्तु सैनिका ॥

पहरा देनेवालोंके नाम २ ॥ सेनाग १

सैनिक २ ॥

सेनार्या समवेता ये सैन्यास्ते

सैनिकाश्च ये ॥ ६१ ॥

सम्पूर्ण सेनाके नाम २ ॥ सैन्य १

सैनिक २ ॥ ६१ ॥

बलिनो ये सहस्रेण साहस्रास्ते
सहस्रिणः ॥

हजार सियादियोंके मात्तिकके नाम १ ॥
साहस्र १ सहस्रिण २ ॥

परिधिस्थ परिधरः-
जो कौन रथामें ऊपर चढके चारोंतरफ

घूमताहै उसका नाम २ ॥ परिधिस्थ १
परिधर २ ॥

वेगसे चलनेवालेके नाम ६ ॥ तरस्विन्
१ त्वरित २ वेगिन् ३ प्रजविन् ४ जवन ५
जव ६ ॥ ७३ ॥

जय्यो यः शक्यते जेतुं—

जिसे जीतसके उसका नाम १ ॥

जय्य १ ॥

—जयो जेतव्यमात्रके ॥

जीतने लायकका नाम १ ॥ जेय १

जैत्रस्तु जेता—

जो जीतसके उसके नाम २ ॥ जैत्र १

जेतु २ ॥

—यो गच्छत्यलं विद्विषतः प्रति
॥ ७४ ॥ सोऽभ्यमित्रयोऽभ्यमि-
त्रीयोऽप्यभ्यमित्रिणी इत्यपि ॥

सामर्थ्यसे शत्रुओंके समुख जानेवाले
के नाम ३ ॥ ७४ ॥ अभ्यमित्र्य १ अभ्य-
मित्रीय २ अभ्यमित्रीण ३ ॥

ऊर्जस्वलः स्यादूर्जस्वी य ऊर्जा-
तिशयान्वितः ॥ ७५ ॥

पहलवानके नाम ३ ॥ ऊर्जस्वल १
ऊर्जस्विन् २ ऊर्जातिशय ३ ॥ ७५ ॥

स्यादुरस्वानुरसिलो—

बड़ी छातीवालेके नाम २ ॥ उरस्वत् १
उरसिल २ ॥

—रथिनो रथिको रथी ॥

रथके स्वामीके नाम ३ ॥ रथिन १
रथिक ३ रथिन् ३ ॥

कामङ्गाम्यनुकामीनो—

जो अपने मनसे चलता हो उसका
नाम १ ॥ अनुकामीन १ ॥

—ह्यत्यन्तीनस्तथा भृशम् ॥ ७६ ॥

वारम्वार चलनेवालेका नाम १ ॥
अत्यन्तीन १ ॥ ७६ ॥

शूरो वीरश्च विक्रान्तो—

शूरके नाम ३ ॥ शूर १ वीर २
विक्रान्त ३ ॥

—जेता जिष्णुश्च जित्वरः ॥

जीतने वालेके नाम ३ ॥ जेतु १ जिष्णु
जित्वर ३ ॥

सांयुगीनो रणे साधु—

युद्धकुशलका नाम १ ॥ सांयुगीन १ ॥

—शस्त्राजीवादयस्त्रिषु ॥ ७७ ॥

भाषा—शस्त्राजीव आदि शब्द तीनों
लिङ्गों में होते हैं ॥ ७७ ॥

ध्वजिनी बाहिनी सेना पृतनाऽ
नीकिनी चमूः ॥ वरूथिनी बलं
सैन्यं चक्रं चानीकमस्त्रियाम् ॥ ७८ ॥

सेनाके नाम १ ॥ ध्वजिनी १ वाहि-
नी २ सेना ३ पृतना ४ अनीकिनी ५
चमू ६ वरूथिनी ७ बल ८ सैन्य ९ चक्र
१० अनीक ११ ॥ ७८ ॥

व्यूहस्तु बलविन्यासो—

अपराहृष्टपत्कोऽसौ लक्ष्म्याद्य
श्च्युतसायकं ॥ ६८ ॥

त्रिसका तीर निशानेस शूक जाय
उसका नाम ॥ अपराहृष्टपत्क ॥ ६८ ॥

धन्वी धनुष्मान्बाजुष्को निय
अधस्त्री धनुर्धर ॥

धनु वा बाण बांधनेवालेके नाम
६ ॥ धन्विन् १ धनुष्मत् २ धानुष्क
नियोगिन् ३ अधिन् ४ धनुर्धर ६ ॥

स्पात्काण्डबास्तु काण्डीर-
कबल बाण बांधनेवालेके नाम २ ॥

काण्डवत् १ काण्डीर २ ॥

-शाक्तीकःशक्तिहेतिकाः ॥ ६९ ॥
शक्ति आदिके शस्त्रधारिके नाम २ ॥

शाक्तीक १ शक्तिहेतिक २ ॥ ६९ ॥

याष्टीकपारम्भाधिकौ यष्टिपार्श्व
धहेतिकौ ॥

अष्टिया रखनेवालेका नाम १ ॥
याष्टीक १ ॥ फरसा बांधनेवालेका
नाम १ ॥ पारम्भिक १ ॥

नैखिशिकोऽतिहोतिः स्या-
तरवार बांधनेवालेके नाम २ ॥ नैखि
शिक १ अतिहोति २ ॥

-रसमौ प्रामिककौन्तिको ७० ॥
बटुमके बांधनेवालेका नाम १ ॥
प्रामिक १ ॥ मांकेवालेका नाम १ ॥
कौन्तिक १ ॥ ७० ॥

चर्मो फलकपाणि स्या-
ठाल बांधनेवालेके नाम २ ॥ चर्मिन्
१ फलकपाणि २ ॥

-त्पताकी वैजयन्तिक ॥
निशान बांधनेवालेके नाम २ ॥
पताकिन् १ वैजयन्तिक १ ॥
अनुपुब सहायश्चाऽनुचरा-
भिघर समा ॥ ७१ ॥

सहायकके नाम ४ ॥ अनुपुब १
सहाय २ अनुचर ३ अभिघर ४ ॥ ७१ ॥
पुरोगामेसरप्रसामसासरपुर-
सरा ॥ पुरोगमा पुरोगामी-
अप्रगामीके नाम ७ ॥ पुरोग १
अप्रमेस २ प्रस ३ अप्रतस्सर २
पुरस्सर ४ पुरोगम ५ पुरोगामिन् ७ ॥
-मन्दगामी तु मन्यार ॥ ७२ ॥
घरे चकनेवालेके नाम २ ॥
मन्दगामिन् १ मन्यार २ ॥ ७२ ॥
जंघालोऽतिजवस्तुल्पी-
जाद चकनेवालेके नाम २ ॥
जंघाल १ अतिजव २ ॥
जवाकारिकजाधिकौ ॥
जो जवाके बडसे जस्ता हे उसके
नाम २ ॥ जवाकारिक १ जाधिक २ ॥
तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी
अपनो जब ॥ ७३ ॥

वेगसे चलनेवालेके नाम ६ ॥ तरस्विन्
१ त्वरित २ वेगिन् ३ प्रजविन् ४ जवन ५
जव ६ ॥ ७३ ॥

जय्यो यः शक्यते जेतुं-

जिसे जीतसके उसका नाम १ ॥

जय्य १ ॥

-जैयो जेतव्यमात्रके ॥

जीतने लायकका नाम १ ॥ जैय १

जैत्रस्तु जैता-

जो जीतसके उसके नाम २ ॥ जैत्र १

जैतृ २ ॥

-यो गच्छत्यलं विद्विपतः प्रति
॥ ७४ ॥ सोऽभ्यमित्र्योऽभ्यमि-
त्रीयोप्यभ्यमित्रीण इत्यपि ॥

सामर्थ्यसे शत्रुओंके समुख जानेवाले
के नाम ३ ॥ ७४ ॥ अभ्यमित्र्य १ अभ्य-
मित्रीय २ अभ्यमित्रीण ३ ॥

ऊर्जस्वलः स्यादूर्जस्वी य ऊर्जा-
तिशयान्वितः ॥ ७५ ॥

पहलवानके नाम ३ ॥ ऊर्जस्वल १
ऊर्जस्विन् २ ऊर्जातिशय ३ ॥ ७५ ॥

स्यादुरस्वानुरसिलो-

बड़ी छातीवालेके नाम २ ॥ उरस्वत् १
उरसिल २ ॥

-रथिनो रथिको रथी ॥

रथके स्वामीके नाम ३ ॥ रथिन १

रथिक ३ रथिन् ३ ॥

कामङ्गाम्यनुकामीनो-

जो अपने मनसे चलता हो उसका
नाम १ ॥ अनुकामीन १ ॥

-ह्यत्यन्तीनस्तथा भृशम् ॥ ७६ ॥

वारम्बार चलनेवालेका नाम १ ॥
अत्यन्तीन १ ॥ ७६ ॥

शूरो वीरश्च विक्रान्तो-

शूरके नाम ३ ॥ शूर १ वीर २
विक्रान्त ३ ॥

-जैता जिष्णुश्च जित्वरः ॥

जीतने वालेके नाम ३ ॥ जैतृ १ जिष्णु
जित्वर ३ ॥

सांयुगीनो रणे साधु-

युद्धकुशलका नाम १ ॥ सांयुगीन १ ॥
-शशास्त्राजीवादयस्त्रिषु ॥ ७७ ॥

भापा-शस्त्राजीव आदि शब्द तीनों
लिंगों में होते हैं ॥ ७७ ॥

ध्वजिनी बाहिनी सेना पृतनाऽ
नीकिनी चमूः ॥ वरूथिनी वलं
सैन्यं चक्रं चानीकमस्त्रियाम् ॥ ७८ ॥

सेनाके नाम १ १ ॥ ध्वजिनी १ बाहि-
नी २ सेना ३ पृतना ४ अनीकिनी ५
चमू ६ वरूथिनी ७ वल ८ सैन्य ९ चक्र
१० अनीक ११ ॥ ७८ ॥

व्यूहस्तु बलविन्यासो-

अपराद्धपृपत्कोऽसौ लक्ष्याद्य
इच्युतसायक* ॥ ६८ ॥

निसका तीर निशानेस चूफ जाय
उसका नाम ॥ अपराद्धपृपत्क ॥ ६८ ॥

घन्वी घनुष्मान्घानुष्को निप
ङ्गयस्त्री घनुर्धर* ॥

घनु वा घाण बांधनेवालेके नाम
६ ॥ घन्किन् १ घनुष्मत २ घामुष्क
निषंगिन् ४ अस्त्रिन् ५ घनुर्धर ६ ॥

स्यात्काण्डवास्तु काण्डीर*—
कण्ड वाण बांधनेवालेके नाम २ ॥

काण्डक्त् १ काण्डीर २ ॥
—शाक्तीकःशक्तिहेतिका ॥ ६९ ॥

शक्ति आदिके शस्त्रघाटीके नाम २ ॥
शाक्तीक १ शक्तिहेतिक २ ॥ ६९ ॥

याष्टीकपारम्भाधिकौ यष्टिपार्श्व
घहेतिकौ ॥

अठिया रखनेवालेका नाम १ ॥
याष्टीक १ ॥ फरसा बांधनेवालेका

नाम १ ॥ पारम्भिक १ ॥
नैस्त्रिदशिकोऽसिहेति* स्या—

तरवार बाधेहएके नाम २ ॥ नैस्त्रि
दशिक १ असिहेति २ ॥

—स्वमौ प्रासिककौन्तिकौ ७० ॥
स्वमके बांधनेवालेका नाम १ ॥

प्रासिक १ ॥ माछेवालेका नाम १ ॥
कौन्तिक १ ॥ ७० ॥

चर्मो फलकपाणि* स्या—
ढाल बांधनेवालेके नाम २ ॥ चर्मिन्

१ फलकपाणि २ ॥
—त्पर्वकी वैजयन्तिक* ॥

निशान बांधनेवालेके नाम २ ॥
पताकिन् १ वैजयन्तिक १ ॥

अनुप्लव* सहायश्चाऽनुचरोऽ-
भिवर* समाः ॥ ७१ ॥

सहायकेके नाम ४ ॥ अनुप्लव १
सहाय २ अनुचर ३ अभिवर ४ ॥ ७१ ॥

पुरोगामेसरप्रष्टामत्त* सरपुर*—
सरा* ॥ पुरोगमः पुरोगामी—

अप्रगामीके नाम ७ ॥ पुरोग १
अप्रेसर २ प्रष्ट ३ अप्रतस्तर २

पुरस्तर ५ पुरोगम ६ पुरोगामिन् ७ ॥
—मन्दगामी तु मन्द्यर* ॥ ७२ ॥

धीरे चढनेवालेके नाम ९ ॥
मन्दगामिन् १ मन्द्यर १ ॥ ७२ ॥

जवालोऽतिजक्स्तुल्पी—
जादे चढनेवालेके नाम ३ ॥

जवाळ १ अतिजक् २ ॥
जवाकारिकजाधिकौ ॥

जो जवाके बलसे जीता है उसके
नाम २ ॥ जवाकारिक १ जाधिक २ ॥

तरस्वी त्वरितो बेगी प्रगवी
जवनो जव* ॥ ७३ ॥

वेगसे चलनेवालेके नाम ६ ॥ तरस्विन्
१ त्वरित २ वेगिन् ३ प्रजविन् ४ जवन ५
जव ६ ॥ ७३ ॥

जय्यो यः शक्यते जेतुं-

जिते जीतसके उसका नाम १ ॥

जय्य १ ॥

-जैयो जेतव्यमात्रके ॥

जीतने लायकका नाम १ ॥ जैय १

जैत्रस्तु जैता-

जो जीतसके उसके नाम २ ॥ जैत्र १

जैतु २ ॥

-यो गच्छत्यलं विद्विषतः प्रति

॥ ७४ ॥ सोऽभ्यमित्रोऽभ्यमि-

त्रीयोऽभ्यमित्रिण इत्यपि ॥

सामर्थ्यसे शत्रुओंके समुख जानेवाले

के नाम ३ ॥ ७४ ॥ अभ्यमित्र्य १ अभ्य-

मित्रिय २ अभ्यमित्रिण ३ ॥

ऊर्जस्वलः स्यादूर्जस्वी य ऊर्जा-

तिशयान्वितः ॥ ७५ ॥

पहलवानके नाम ३ ॥ ऊर्जस्वल १

ऊर्जस्विन् २ ऊर्जातिशय ३ ॥ ७५ ॥

स्यादुरस्वानुरसिलो-

बढी छातीवालेके नाम २ ॥ उरस्वत् १

उरसिल २ ॥

-रथिनो रथिको रथी ॥

रथके स्वामीके नाम ३ ॥ रथिन १

थिक ३ रथिन् ३ ॥

कामङ्गाम्यनुकामीनो-

जो अपने मनसे चलता हो उसका

नाम १ ॥ अनुकामीन १ ॥

-ह्यत्यन्तीनस्तथा भृशम् ॥ ७६ ॥

वारम्भार चलनेवालेका नाम १ ॥

अत्यन्तीन १ ॥ ७६ ॥

शूरो वीरश्च विक्रान्तो-

शूके नाम ३ ॥ शूर १ वीर २

विक्रान्त ३ ॥

-जैता जिष्णुश्च जित्वरः ॥

जीतने वालेके नाम ३ ॥ जैतु १ जिष्णु

जित्वर ३ ॥

सांयुगीनो रणे साधु-

युद्धकुशलका नाम १ ॥ सांयुगीन १ ॥

--शस्त्राजीवादयस्त्रिषु ॥ ७७ ॥

भाषा-शस्त्राजीव आदि शब्द तीनों

लिङ्गों में होते हैं ॥ ७७ ॥

ध्वजिनी वाहिनी सेना पृतनाऽ

नीकिनी चमूः ॥ वरूथिनी बलं

सैन्यं चक्रं चानीकमस्त्रियाम् ॥ ७८ ॥

सेनाके नाम १ ॥ ध्वजिनी १ वाहि-

नी २ सेना ३ पृतना ४ अनीकिनी ५

चमू ६ वरूथिनी ७ बल ८ सैन्य ९ चक्र

१० अनीक ११ ॥ ७८ ॥

व्यूहस्तु बलविन्यासो-

सेनाका रचनाके नाम २॥ ब्यूह १
ब्रह्मिण्यास २ ॥

-भेदा दण्डादयो युधि ॥

सेनाका रचनाके अनेकभेद १॥ दण्ड
इत्यादि १॥ ये बभ्रु, मयूर, कमल आदिक
ब्यूह हैं.

प्रत्यासारो ब्यूहपाठ्याः-

ब्यूहके पीछेके नामना।प्रत्यासार १
ब्यूहसाहि २ ॥

सैन्यपृष्ठे प्रतिग्रहः ॥ ७९ ॥

सैन्यके पीछेके नाम २ ॥ सैन्यपृष्ठ १
प्रतिग्रह २ ॥ ७९ ॥

एकैकैकरथा व्यक्षा पति पञ्च
पदातिका ॥

जिसमें क्षयी १ रथ १ घोड़े ३ पैदल
९ हों उन सेनाका नाम १॥ पति १॥

पत्त्यङ्गैस्त्रियुणैः सर्वैः क्रमात्
ख्या मयोत्तरम् ॥ ८० ॥ सेना
मुख गुल्मगणौ बाहिनी पृतना
चमूः ॥ अनीकिनी-

क्रमसे त्रिगुने पति (पैदलों)के नाम
७ ॥ ८० ॥ (तीन पति (पैदलों)का
नाम) ॥ सेनामुख १ (तीन सेनामुखका
नाम) गुल्म १ ॥ (तीन गुल्मका नाम)
गण १ ॥ (तीन गणका नाम)
बाहिनी १ ॥ (तीन बाहिनीका नाम)
पृतना १ ॥ (तीन पृतनाका नाम) चमू
१ ॥ (तीन चमूका नाम) अनीकिनी १ ॥

-दक्षानीकिन्यसौहि-

दक्ष अनीकिनीका नाम १ ॥ सही
हिणी १ ॥

असौहिणी आदि सेनाका प्रमाण ।

सेना	पति (पति)	सेना मुख	गुल्म	गण	बाहि नी	पृतना	चमू	अनीकिनी	असौहिणी
बाही १५	१	३	९	२७	८१	२४३	७२९	२१८७	२१८७
बाहि	३	९	२७	८१	२४३	७२९	२१८७	६५६१	६५६१
दक्ष	५	१५	४५	१३५	४०५	१२१५	३६४५	११५३५	११५३५

-व्यय सपदि ॥ ८१ ॥ संपति

श्रीश्व लक्ष्मीश्व-

संपत्तिक नाम ४॥ साव १॥ ८१ ॥

सावि २ भी ३ क्षत्री ४ ॥

-विपत्स्यां विपदापदौ ॥

विपत्तिक नाम ३ ॥ विपति १ विपद

आपद ३ ॥

आयुध क्षु महरणं प्रस्रमस-

हथियारके नाम ४ ॥ आयुध १ प्रह-
रण २ शस्त्र ३ अस्त्र ४ ॥

-मथास्त्रियौ ॥ ८२ ॥ धनुश्चा-
पौ धन्वशरासनकोदण्डकार्मुकम् ॥
इष्वासोऽ-

धनुषके नाम ७ ॥ ८२ ॥ धनुस्
१ चाप २ धन्वन् ३ शरासन ४
कोदण्ड ५ कार्मुक ६ इष्वास ७ ॥

-प्यथ कर्णस्य कालपृष्ठं शरा-
सनम् ॥ ८३ ॥

राजा कर्णके धनुषके नाम १ ॥
कालपृष्ठ २ ॥ ८३ ॥

कपिध्वजस्य गाण्डीवगाण्डिवौ
पुंनपुंसकौ ॥

अर्जुनके धनुषका नाम २ ॥ गा-
ण्डीव १ गाण्डिव २ ॥

कोटिरस्याटनी-

धनुषके दोनों कोनोके नाम २ ॥
कोटि १ अटनी २ ॥

-गोधातले ज्याघातवारणे ८४ ॥

चमडेके दस्तानोंके नाम २ ॥
गोधा १ तल २ ॥ ८४ ॥

लस्तकस्तु धनुर्मध्यं-

धनुषके मध्यभागका नाम १ ॥
लस्तक १ ॥

-मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः ॥

धनुषकी प्रत्यञ्चाके नाम ४ ॥ मौ-
र्वी १ ज्या २ शिञ्जिनी ३ गुण ४ ॥

स्यात्प्रत्यालीढमालीढमित्या-
दि स्थानपञ्चकम् ॥ ८५ ॥

धनुषधारियोंके आसनविशेषके नाम
२ ॥ प्रत्यालीढ १ आलीढ २ ॥ इत्यादि
पांच स्थान ॥ ८५ ॥

लक्षं लक्ष्य व्यं

निशानेके नाम ३ ॥ लक्ष १ लक्ष्य
२ शरव्य ३ ॥

-शराभ्यास उपासनम् ॥

बाणछोडनेके अभ्यासके नाम २ ॥
शराभ्यास १ उपासन २ ॥

पृषत्कबाणविशिखा अजिह्व-
गखगाशुगाः ॥ ८६ ॥ कलम्बमा-
र्गणशराः पत्री रोप इषुर्द्वयोः ॥

बाणके नाम १२ ॥ पृषत्क १ बाण
२ विशिख ३ अजिह्वग ४ खग ५ आशु-
ग ६ ॥ ८६ ॥ कलम्ब ७ मार्गण ७
शर ९ पत्रिन् १० रोप ११ इषु १२ ॥

प्रक्ष्वेडनास्तु नागचाः-

लोहेके तीरके नाम २ ॥ प्रक्ष्वेडन
१ नाराच २ ॥

-पक्षो वाज-

बाणके पक्षके नाम २ ॥ पक्ष १ वाज २ ॥

-स्त्रिषूत्तरे ॥ ८७ ॥

सेनाका रचनाके नाम २॥ व्यूह ॥
बलविन्यास २ ॥

—मेवा दण्डादयो युधि ॥

सेनाको रचनाके अनेकमेव ॥ दण्ड
इत्यादि ॥ ५ चक्र, मयूर, कमल आदिक
व्यूह ई.

प्रत्यासारा व्यूहपरिभाषाः—

व्यूहक पीछेके नाम २॥ प्रत्यासार १
व्यूहपरिभाषा २ ॥

सैन्यपृष्ठे प्रतिप्रह ॥ ७९ ॥

सैन्यके पीछेके नाम २ ॥ सैन्यपृष्ठ १
प्रतिप्रह २ ॥ ७९ ॥

एकेभैकरया व्यश्वा पतिः पञ्च
पदासिका ॥

जिसमें हाथी १ रथ १ घोड़े ३ कैरक
५ हों उस सेनाका नाम २॥ पति १॥

पत्यहैस्त्रिगुणैः सर्वैः क्रमात्वा
ख्या यथोत्तरम् ॥ ८० ॥ सेना
मुखं गुरुमगणौ वाहिनी पृथना
चम् ॥ अनीकिनी—

क्रमसे त्रिगुने पति (पैदजों)के नाम
७ ॥ ८० ॥ (तीन पति (पैदजों)का
नाम) ॥ सेनामुख १ (तीन सेनामुखका
नाम) गुल्म १ ॥ (तीन गुल्मका नाम)
गण १ ॥ (तीन गणका नाम)
वाहिनी १ ॥ (तीन वाहिनीका नाम)
पृथना १ ॥ (तीन पृथनाका नाम) चम्
१ ॥ (तीन चम्का नाम) अनीकिनी १ ॥

—दशानीकिन्यसौहि—

दश अनीकिनीका नाम १ ॥ असी
हिणी १ ॥

असौहिणी आदि सेनाका प्रमाण ।

व्युह	पैदज (पति)	सेना मुख	गुल्म	गण	वाहि नी	पृथना	चम्	अनीकिनी	असीहिणी
सैन्य	१	१	५	२७	२१	२४३	७२९	२१८७	२१८७
सैन्य	१	५	२७	८१	२४३	७२९	२१८७	६५६१	६५६१
सैन्य	५	२५	४५	१३५	८५	१२१५	२६२५	१५३५	१५३५

—व्यय संपदि ॥ ८१ ॥ सपति

श्रीम लक्ष्मीम्—

सपति नाम ४॥ सपदि १॥ ८१ ॥

सपति २ श्री ३ लक्ष्मी ४ ॥

—विपर्या विपदापदी ॥

विपर्याके नाम ३ ॥ विरति १ विपर

२ भाषद् ३ ॥

आमुध तु महरणं इत्यमल—

हथियारके नाम ४ ॥ आयुध १ प्रह-
रण २ शस्त्र ३ अस्त्र ४ ॥

-मथास्त्रियौ ॥ ८२ ॥ धनुश्चा-
पौ धन्वशरासनकोदण्डकार्मुकम् ॥
इष्वासोऽ-

धनुषके नाम ७ ॥ ८२ ॥ धनुस्
१ चाप २ धन्वन् ३ शरासन ४
कोदण्ड ५ कार्मुक ६ इष्वास ७ ॥

-प्यथ कर्णस्य कालपृष्ठं शरा-
सनम् ॥ ८३ ॥

राजा कर्णके धनुषके नाम १ ॥
कालपृष्ठ २ ॥ ८३ ॥

कपिध्वजस्य गाण्डीवगाण्डिवौ
पुंनपुंसकौ ॥

अर्जुनके धनुषका नाम २ ॥ गा-
ण्डीव १ गाण्डिव २ ॥

कोटिरस्याटनी-

धनुषके दोनों कोनोके नाम २ ॥
कोटि १ अटनी २ ॥

-गोधातले ज्याघातवारणे ८४ ॥

चमडेके दस्तानोंके नाम २ ॥
गोधा १ तल २ ॥ ८४ ॥

लस्तकस्तु धनुर्मध्यं-

धनुषके मध्यभागका नाम १ ॥
लस्तक १ ॥

-मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः ॥

धनुषकी प्रत्यञ्चके नाम ४ ॥ मौ-
र्वी १ ज्या २ शिञ्जिनी ३ गुण ४ ॥

स्यात्प्रत्यालीढमालीढमित्या-
दि स्थानपञ्चकम् ॥ ८५ ॥

धनुषधारियोंके आसनविशेषके नाम
२ ॥ प्रत्यालीढ १ आलीढ २ ॥ इत्यादि
पाँच स्थान ॥ ८५ ॥

लक्षं लक्ष्य व्यं

निशानेके नाम ३ ॥ लक्ष १ लक्ष्य
२ शरव्य ३ ॥

-शराभ्यास उपासनम् ॥

बाणछोडनेके अभ्यासके नाम २ ॥
शराभ्यास १ उपासन २ ॥

पृषत्कबाणविशिखा अजिह्व-
गखगाशुगाः ॥ ८६ ॥ कलम्बमा-
र्गणशराः पत्री रोप इषुर्द्वयोः ॥

बाणके नाम १२ ॥ पृषत्क १ बाण
२ विशिख ३ अजिह्वग ४ खग ५ आशु-
ग ६ ॥ ८६ ॥ कलम्ब ७ मार्गण ७
शर ९ पत्रिन् १० रोप ११ इषु १२ ॥

प्रक्ष्वेडनास्तु नागचाः-

लोहेके तीरके नाम २ ॥ प्रक्ष्वेडन
१ नाराच २ ॥

-पक्षो वाज-

बाणके पक्षके नाम २ ॥ पक्ष १ वाज २ ॥

-स्त्रिषूत्तरं ॥ ८७ ॥

अर्थ-लित्तरयत् सश्च शब्द
तीनों क्लिगमें होत है ॥ ८७ ॥

निरस्त प्रहित षाणे-

छोटेद्वये षाणका नाम ॥ निरस्त १ ॥

-विपाक्त दिग्घलित्की ॥

विपयुक्त षाणके नाम ३ ॥ विपाक्त

१ दिग्घ २ क्लिप्तक ३ ॥

तूणोपासद् तूणीरनिर्पंगा इषुधिर्दं

यो ॥ ८८ ॥ तूण्या-

तरक्तस्य नाम ६ ॥ तूण १ तपासग

२ तूर्णार ३ निम्ना ४ इषुधि ५ ॥

॥ ८८ ॥ तूर्णा १ ॥

-खट्वो तु निखिगचन्द्रहासासि

गिष्टय ॥ फीक्षेयको मण्डलामः

करवाल कृपाणवत् ॥ ८९ ॥

तञ्जारेके नाम ६ ॥ खट्व १ निखि

श २ चन्द्रहास ३ अक्षि ४ तिष्ठि ५

फीक्षेयक ६ मण्डलाम ७ करवाल ८

कृपाण ९ ॥ ८९ ॥

तारु सङ्गादिमुर्धे स्या-

तान्बास्मादिपरी मूटका नाम १ ॥ तारु १ ॥

-मखत्वा तन्निय यनम् ॥

तवारय स्थानना नाम २ ॥ मखत्वा १ ॥

पल्लोर्जरी पल्ल यम-

दात्त नाम ३ ॥ पल्ल १ यम

यम २ ॥

-नांमाहा गुह्यम्य य ॥ ९० ॥

दाहकी मूटका नाम १ ॥ लेमाह १ ॥ ९० ॥

वृषणो मुद्गरधनी-

मुद्गरफनाम ३ ॥ वृषण १ मुद्गर १ रघन १ ॥

-स्यादीली करवालिका ॥

गुलीके नाम २ ॥ दीली १ करवालिका २ ॥

मिदिपालः सृगस्तुल्मी-

गोफनक नाम २ ॥ मिदिपाल १ सृग २ ॥

-परिघ परिघातिन् ॥ ९१ ॥

परिघके नाम १ ॥ परिघ १ परि

घातिन् २ ॥ ९१ ॥

द्वयो कुठार स्वधिति पशुम्ब

परम्बधः ॥

कुठारकीके नाम ४ ॥ कुठार १

स्वधिति २ परशु ३ परम्बध ४ ॥

स्याच्छती चासिपुत्री च छुरि

का चासिधेनुका ॥ ९२ ॥

छुरीके नाम ४ ॥ शशी १ अक्षि

पुत्री २ छुरिपा ३ अक्षिधेनुका ४ ॥ ९२ ॥

वा पुसि गल्य संकुना-

पडीके नाम २ ॥ सन्ध १ सन्धु २ ॥

सर्वला सोमरोऽग्निमाम-

गदासके नाम ॥ सर्वजा १ सोमर २ ॥

मातस्तु कुन्त -

मा क नाम २ ॥ मात १ कुन्त २ ॥

-नागन्तु त्रिष पाल्यधि

वाप्य ॥ ९३ ॥

खड्गादिकी नोकके नाम ४॥कोण १

पालि २ अश्रि ३ कोटि ४ ॥ ९३ ॥

सर्वाभिसारः सर्वौघः सर्वसन्न-
हनार्थकः ॥

सेनाकी तैयारीके नाम ३ ॥ सर्वा-
भिसार १ सर्वौघ २ सर्वसनहन ३ ॥

लोहाभिसारोऽस्त्रभृतां राज्ञां
नीराजनाविधिः ॥ ९४ ॥

महानवमीके पहिले लडाईके निमित्त
राजाओंके शस्त्र पूजनेका नाम १ ॥
लोहाभिसार १ ॥ ९४ ॥

यत्सेनयाभिगमनमरौ तदभि-
षेणनम् ॥

शत्रुके ऊपर सेना चढनेका नाम
१ ॥ अभिषेणन १ ॥

यात्रा ब्रज्याऽभिनिर्माणं प्रस्था-
नं गमनं गमः ॥ ९५ ॥

चलनेके नाम ६ ॥ यात्रा १
ब्रज्या २ अभिनिर्माण ३ प्रस्थान ४
गमन ५ गम ६ ॥ ९५ ॥

स्यादासारः प्रसरणं-

सेनाके फैलनके नाम २ ॥ आसार
१ प्रसरण २ ॥

-प्रचक्रं चलितार्थकम् ॥

चलीहुई सेनाके नाम २ ॥ प्रचक्र
१ चलित २ ॥

अहितान्प्रत्यभीतस्य रणे यान-
मभिक्रमः ॥ ९६ ॥

निडर होकर शत्रुपर चढाईका
नाम १ ॥ अभिक्रम १ ॥ ९६ ॥

वैतालिका बोधकरा-

प्रातःकालके राजाके जगानेवा-
लोंके नाम २ ॥ वैतालिक १ बोधकर २ ॥

-श्रक्तिका घाण्टिकाऽर्थकाः ॥

घडियालीके नाम २ ॥ चाक्तिक १
घाण्टिक २ ॥

स्युर्मागधास्तु मगधा-

राजाका वश वर्णन करनेवालाके
नाम २ ॥ मागध १ ॥ मगध २ ॥

-वन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥ ९७ ॥

भाटके नाम २ ॥ वन्दिन् १
स्तुतिपाठक २ ॥ ९७ ॥

संशप्तकास्तु समयात्सङ्ग्रामा-
दनिवर्तिनः ॥

शपथ खाकर युद्धमें पीठ न देने-
वालेका नाम १ ॥ सशप्तक १ ॥

रेणुर्द्वयोः स्त्रियां धूलिः पांसुर्ना-
न द्वयो रजः ॥ ९८ ॥

धूलिके नाम ४ ॥ रेणु १ धूलि २
पासु ३ रजस् ४ ॥ ९८ ॥

चूर्णे क्षोदः-

चूनेके नाम २ ॥ चूर्ण १ क्षोद २ ॥

अथ-उत्तफरयत सब शब्द
तीनों लिंगम होत है ॥ ८७ ॥

निग्स्तं महिते वाणे-
ओष्ठेद्वय वाणका नाम ॥ निग्स्त १ ॥

-विपाके दिग्घलिप्तकौ ॥

विषयुक्त वाणकं नाम ॥ विपाक
१ दिग्घ २ उत्तक ३ ॥

सृणांपासद्भ्रूणीरनिपगा इषुधिर्द
यो ॥ ८८ ॥ सृणां-

शरफसक नाम ६ ॥ सृण १ उपसंग
२ तर्कार ३ निपग ४ इषुधि ५ ॥

॥ ८८ ॥ तर्का १ ॥

-संगे तु निम्बिचन्द्रहासासि
गृष्टय ॥ कीक्षेयको मण्डलाम
करवालं कृपाणवत् ॥ ८९ ॥

संगारक नाम १ ॥ घट्ट १ निधि
श २ चन्द्रहास ३ असा ४ तिष्ठि ५
कीक्षेयक ६ मण्डलाम ७ करवाल ८
कृपाण ९ ॥ ८९ ॥

साक सङ्गादिमुर्धा स्या-
साकारभाषिणो मृत्का नाम १ ॥ साक १ ॥

-मरयन्त क्षत्रियन्धनम् ॥

साक मरयन्त नाम १ ॥ मरयन्त १ ॥

कल्याणार्थी पञ्च नाम-

कल्याणार्थी नाम २ ॥ पञ्च १ ॥

पञ्च १ ॥ ॥

-गमादा गुह्यस्य च ॥ ९० ॥

टाळ्फा मूळका नाम १ ॥ संभाह १ ॥ ९० ॥

दृघणो मुद्गरघनौ-

मुद्गरकनाम १ ॥ दृघण १ मुद्गर १ २ घन १ ॥

-स्यादीली करवालिका ॥

गुत्तीके नाम २ ॥ दीली १ करवालिका २ ॥

भिन्दिपालं सृगस्तुल्यौ-

गोपनक नाम २ ॥ भिन्दिपाल १ सृग २ ॥

-परिघ परिघातिनं ॥ ९१ ॥

परिघक नाम २ ॥ परिघ १ पार-
घातिन २ ॥ ९१ ॥

द्वयो कृत्वा स्वधिति परशुध

परशुध ॥

कृत्वाकीके नाम ४ ॥ कृत्वा १
स्वधिति २ परशु ३ परशुध ४ ॥

स्याच्छ्री ग्रासिपुत्री च मुरि
का घासिधनुका ॥ ९२ ॥

दुर्तिके नाम ४ ॥ शरी १ अति
पुरी २ मुरिका ३ अक्षिधनुका ४ ॥ ९२ ॥

वा पुसि अत्यं शरुना-

पुसिक नाम २ ॥ शरु १ शरु १ ॥
गर्भला क्षामरोडग्रियाम-

गर्भलाके नाम १ ॥ गर्भ १ क्षामरोड १ ॥
माघस्तु तुन्त -

मा के नाम २ ॥ माघ १ तुन्त १ ॥
-कागस्तु विष पाल्याथि

पाल्याथि ॥ ९३ ॥

खड्गादिकी नोकके नाम ४॥कोण १
पालि २ अश्रि ३ कोटि ४ ॥ ९३ ॥

सर्वाभिसारः सर्वौघः सर्वसन्न-
हनार्थकः ॥

सेनाकी तैयारीके नाम ३ ॥ सर्वा-
भिसार १ सर्वौघ २ सर्वसनहन ३ ॥

लोहाभिसारोऽस्त्रभृतां राज्ञां
नीराजनाविधिः ॥ ९४ ॥

महानवमीके पहिले लडाईके निमित्त
राजाओके शस्त्र पूजनेका नाम १ ॥

लोहाभिसार १ ॥ ९४ ॥

यत्सेनयाभिगमनमरौ तदभि-
षेणनम् ॥

शत्रुके ऊपर सेना चढनेका नाम
१ ॥ अभिषेणन १ ॥

यात्रा ब्रज्याऽभिनिर्माणं प्रस्था-
नं गमनं गमः ॥ ९५ ॥

चलनेके नाम ६ ॥ यात्रा १
ब्रज्या २ अभिनिर्माण ३ प्रस्थान ४

गमन ५ गम ६ ॥ ९५ ॥

स्थादासारः प्रसरणं-

सेनाके फैलनके नाम २ ॥ आसार
१ प्रसरण २ ॥

-प्रचक्रं चलितार्थकम् ॥

चलीहुई सेनाके नाम २ ॥ प्रचक्र
१ चलित २ ॥

अहितान्प्रत्यभीतस्य रणे यान-
मभिक्रमः ॥ ९६ ॥

निडर होकर शत्रुपर चढाईका
नाम १ ॥ अभिक्रम १ ॥ ९६ ॥

वैतालिका बोधकरा-

प्रातःकालके राजाके जगानेवा-
ल्लोके नाम २ ॥ वैतालिक १ बोधकर २ ॥

-श्रक्तिका घाण्टिकाऽर्थकाः ॥

घडियालीके नाम २ ॥ चाक्तिक १
घाण्टिक २ ॥

स्युर्मागधास्तु मगधा-

राजाका वश वर्णन करनेवालोंके
नाम २ ॥ मागध १ ॥ मगध २ ॥

-वन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥ ९७ ॥

भाटके नाम २ ॥ वन्दिन् १
स्तुतिपाठक २ ॥ ९७ ॥

संशक्तकास्तु सभयात्सङ्ग्रामा-
दनिवर्तिनः ॥

शपथ खाकर युद्धमें पीठ न देने-
वालेका नाम १ ॥ सशक्त १ ॥

रेणुर्द्वयोः स्त्रियां धूलिः पांसुर्ना
न द्वयो रजः ॥ ९८ ॥

धूलिके नाम ४ ॥ रेणु १ धूलि २
पासु ३ रजस् ४ ॥ ९८ ॥

चूर्णे क्षोदः-

चूनेके नाम २ ॥ चूर्ण १ क्षोद २ ॥

—समुत्पिञ्जपिञ्जली भृक्षमाकुले ॥
 अकुञ्जानेके नाम २ ॥ समुत्पिञ्ज
 १ पिञ्ज २ ॥

पताका वैजयन्ती स्यात्केतन
 ध्वजमालियाम् ॥ ९९ ॥

ध्वजके नाम ४ ॥ पताका १ वैज
 यन्ती २ केतन ३ ध्वज ४ ॥ ९९ ॥

सा वीराक्षसन युद्धभूमिर्याऽ
 तिभयप्रदा ॥

यः युद्धे स्यान्का नाम १ ॥
 वीराक्षसन १ ॥

अह पूर्वमह पूर्वमित्यहपूर्विका
 लिपाम् ॥ १०० ॥

त्रिसरे वीर कई कि, हम पहले
 छडेगे हम पहले छडेगे उस छडाईका
 नाम १ ॥ अहपूर्विका १ ॥ १०० ॥

आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्यात्स
 भावनात्मनि ॥

त्रिसरे वहे कि हम पुरुष ने हमहो
 छडेगे उसका नाम १ ॥ आहोपुरुषिका १ ॥

अहमहमिका तु सा स्यात्परस्पर
 यो भवत्परिकार ॥ १०१ ॥

भाषतक इत् अहमिका कि, हम
 शक ने हम छट गकरे उराका नाम
 १ ॥ अहमहमिका १ ॥ १०१ ॥

श्रविण तरराहोवल्गायाणि

स्याम शुष्म च ॥ शक्ति परा
 क्रमः प्राणो-

पराक्रमके नाम १० ॥ शक्ति १
 तरस् २ सहस् ३ वळ ४ शौर्य ५
 स्यामन् ६ शुष्मन् ७ शक्ति ८ परा
 क्रम ९ प्राण १० ॥

—विक्रमस्त्वतिशक्तिता १०२ ॥
 अतिपराक्रमक नाम २ ॥ विक्रम

१ अतिशक्तिता २ ॥ १०२ ॥
 वीरपानं तु यत्पानं वृषे

भाविनि वा रणे ॥

छडनेके निमित्त पहल वा पीछे नसा
 खान पीनेका नाम १ ॥ वीरपान १ ॥

युद्धमायोधनं जन्य प्रघनं प्रवि
 दारणम् ॥ १०३ ॥ मृधमास्क

न्दन सङ्ख्य ममीकं साम्परा
 यिकम् ॥ अस्त्रियां समरानीक
 रणा कलहविप्रही ॥ १०४ ॥

समहाराभिसपातकलिसंस्फोटसंयु
 गा ॥ अभ्यामर्दसमाधातसं

ग्रामाम्पागमाहवा ॥ १०५ ॥
 समुदाय स्त्रियं सपत्तामित्या

मिसमिशुध ॥
 सुद्ध नाम १ ॥ युद्ध १ आयोधन २
 जन्य ३ प्रघन ४ प्रविदारण ५ ॥ १ ॥ ३ ॥

मृध ६ आसन्दन ७ सपत्य ८ सर्मा ९ ५

सापरायिक १० समर ११ अनीक १२
रण १३ कलह १४ विग्रह १२॥१०४॥
सप्रहार १६ अभिसम्पात १७ कलि १८
सस्फोट १९ संयुग २० अभ्यामर्द २१ समा
घात २२ सग्राम २३ अभ्यागम २४ आहव
२५॥१०५॥समुदाय २६ सयत् २७ स-
मिति २८ आजि २९ समित् ३० युध् ३१ ॥

नियुद्धं बाहुयुद्धे स्या-

भुजाके युद्धके नाम २॥ नियुद्ध १
बाहुयुद्ध २ ॥

तुमुलं रणसंकुले ॥ १०६ ॥

घोरसग्रामका नाम १॥ तुमुल १॥

॥ १०६ ॥

क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्या-

वीरोंके गर्जनेके नाम २॥ क्ष्वेडा १

सिंहनाद २ ॥

त्करिणां घटना घटा ॥

हाथियोंके समूहके नाम २॥ घटना

१ घटा २ ॥

क्रन्दनं योधसंरावो-

युद्धके शब्दका नाम १॥ क्रन्दन १॥

-वृहितं करिगर्जितम् ॥ १०७ ॥

हाथीके शब्दका नाम १॥ वृहित १ ॥

॥ १०७ ॥

विस्फारो धनुषः स्वानः-

धनुषके शब्दका नाम १॥ विस्फार १॥

-पटहाडम्बरौ समौ ॥

नगाडके शब्दके नाम २॥ पटह १

आडवर २ ॥

प्रसभं तु बलात्कारो हठो-

हठके नाम ३॥ प्रसभ १ बलात्कार

२ हठ ३ ॥

-ऽथ स्वलितं छलम् ॥ १०८ ॥

धोखा देनेके नाम २ ॥ स्वलित १

छल २ ॥ १०८ ॥

अजन्यं क्लीवमुत्पात उपसर्गः

समं त्रयम् ॥

उत्पातके नाम ३ ॥ अजन्य १

उत्पात २ उपसर्ग ३ ॥

मूर्च्छा तु कश्मलं मोहो-

मूर्च्छाके नाम ३॥ मूर्च्छा १ कश्मल २

मोह ३ ॥

-प्यवमर्दस्तु पीडनम् ॥ १०९ ॥

देशादिको उपद्रव देनेके नाम २॥

अवमर्द १ पीडन २ ॥ १०९ ॥

अभ्यवस्कन्दनं त्वभ्यासादनं-

धोखेसे दवालेनेके नाम २॥ अभ्यव

स्कन्दन १ अभ्यासादन २ ॥

-विजयो जयः ॥

जीतके नाम २॥ विजय १ जय २॥

वैरशुद्धिः प्रतिकारो वैरनिर्या-

तनं च सा ॥ ११० ॥

-समुत्पिञ्जापिञ्जली शृङ्गमाकुले ॥

अकुलान्के नाम २ ॥ समुत्पिञ्ज
१ पिञ्ज २ ॥

पताका वैजयन्ती स्यात्केतन
ध्वजमस्त्रियाम् ॥ ९९ ॥

शंभके नाम ४ ॥ पताका १ वैज-
यन्ती २ केतन ३ ध्वज ४ ॥ ९९ ॥

सा वीराशंसनं युद्धमूर्ध्याऽ
विमयप्रदा ॥

मर युद्ध स्यान्का नाम १ ॥
वीराशंसन १ ॥

अह पूर्वमह पूर्वमित्पहपूर्विका
स्त्रियाम् ॥ १०० ॥

जिसमें वीर कहें कि हम पहल
छड़ेगे हम पहल छड़ेगे उस अहपूर्विका
नाम १ ॥ अहपूर्विका १ ॥ १० ॥

आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्यात्स
भाषनात्मनि ॥

जिसमें कहें कि हम पुरुष हैं हमही
छड़ेगे उसका नाम १ ॥ आहोपुरुषिका १ ॥

अहमहमिका तु सा स्यात्परस्परं
यो भवत्यर्हकारः ॥ १०१ ॥

आपसके इस कहनेको कि, हम
शक्त हैं हम सब सक्ते उसका नाम
१ ॥ अहमहमिका १ ॥ १ १ ॥

द्रविणं तरन्तहोबलशीयाणि

स्याम शुष्म च ॥ शक्ति परा
क्रमः प्राणो-

पराक्रमके नाम १० ॥ द्रविण १
तरत् २ सहस् ३ बल ४ शीर्ष ५
स्याम् ६ शुष्मन् ७ शक्ति ८ परा-
क्रम ९ प्राण १ ॥

-विक्रमस्त्वतिशक्तिता १०२ ॥
अतिपराक्रमके नाम २ ॥ विक्रम

१ अतिशक्तिता २ ॥ १०२ ॥
वीरपान तु यत्पानं वृष्टे

भाविनि वा रणे ॥
छडनेके निमित्त पहले या पीछे न्ता

साने पीनेका नाम १ ॥ वीरपान १ ॥

युद्धमायोधनं जन्य प्रचन प्रकि-
दारणम् ॥ १०३ ॥ शृङ्गमास्क-

न्दन सकन्दन्य समीक साम्परा
यिकम् ॥ अस्त्रियां समरानीक

रणा कलहविमही ॥ १०४ ॥
समहाराभिसपाठकलिसस्फोत्सद्यु

गा ॥ अभ्यामर्वसमाघातसं
ग्रामाभ्यागमाहवा ॥ १०५ ॥

समुदायः क्षियः समत्सामित्या
जिसामिश्रुषः ॥

युद्धके नाम १ ॥ युद्ध १ आयोधन २
जन्य ३ प्रचन ४ प्रकिदारण ५ ॥ १ ॥ ३ ॥
शृङ्ग ६ आस्कन्दन ७ सकन्य ८ समीक ९

-चिता चित्या चितिः त्रि-
याम् ॥ ११७ ॥

चिताके नाम ३ ॥ चिता १ चित्या
२ चिति ३ ॥ ११७ ॥

कबन्धोऽस्त्री क्रियायुक्तमप-
मूर्धकलेवरम् ॥

शिररहित चंद्रा करनेवाले शरीरका
नाम १ ॥ कबन्ध १ ॥

श्मशानं स्यात्पितृवनं-

श्मशानके नाम २ ॥ श्मशान १
पितृवन २ ॥

-कुणपः शवमस्त्रियाम् ॥ ११८ ॥

मुर्देके नाम २ ॥ कुणप १ शव २ ॥
॥ ११८ ॥

प्रग्रहोपग्रहो बन्ध्यां-

कैदीके नाम ३ ॥ प्रग्रह १ उपग्रह
बन्दी ३ ॥

-कारा स्याद्बन्धनालये ॥

जेहलखानेका नाम १ ॥ कारा १ ॥

पुंसि अक्षयः प्राणाश्चैवं-

प्राण १ ॥ असु १ प्राण २ ॥

धारणम् ॥ ११९ ॥

५ २ ॥ जीव १ असु-

१ ॥

कालो-

१ ॥ आयुम् १ ॥

-ना जीवातुर्जीवनौपधम् ॥

मृतसजीवनी वृटीके नाम २ ॥

जीवातु १ जीवनौपध २ ॥

इति क्षत्रियवर्गः ॥ ८ ॥

अथ वैश्यवर्गः ९.

ऊरव्या ऊरुजा अर्या वैश्या
भूमिस्पृशी विशः ॥

वैश्यके नाम ६ ॥ ऊरव्य १ ऊरुज २
अर्य ३ वैश्य ४ भूमिस्पृक् ५ विश ६ ॥
आजीवो जीविका, वार्ता वृत्तिर्व-
र्तनजीवने ॥ १ ॥

जीविकाके नाम ६ ॥ आजीव १
जीविका २ वार्ता ३ वृत्ति ४ वर्तन
५ जीवन ६ ॥ १ ॥

स्त्रियां कृषिः पाशुपाल्यं वा-
णिज्यं चेति वृत्तयः ॥

जीविकाके भेद ३ ॥ (खेती कर-
नेका नाम) कृषि १ ॥ (पशुपालनका
नाम) पाशुपाल्य २ ॥ (व्यापारका
नाम) वाणिज्य ३ ॥ ये तीनों वैश्य-
वृत्ति हैं ॥

सेवा श्ववृत्ति-

परसेवाके नाम २ ॥ सेवा १
श्ववृत्ति २ ॥

-गृतं कृषि-

केर दूरकरनेके नाम शालेखुदि १
प्रतीकार २ केरनिर्पासन ३ ॥ ११० ॥

प्रदावोद्रावसन्द्रावसन्दावा वि
द्रवो द्रव ॥ अपक्रमोऽपयान घ-

फलयन (भागने) के नाम ८ ॥
प्रदाव १ उद्राव २ सदाव ३ सदाव ४

विद्रव ५ द्रव ६ अपक्रम ७ अपयान ८ ॥
-रणेभङ्ग पराजय ॥ १११ ॥

हारके नाम २ ॥ रणेभङ्ग १ परा-
जय २ ॥ १११ ॥

पराजितपराभूतौ-
हारेणके नाम २ ॥ पराजित १ परा-

भूत २ ॥
-त्रिषु नष्टविरोहितौ ॥

त्रिषेणके नाम २ ॥ नष्ट १ तिरो-
हित २ ॥

प्रमापण निवर्हण निकारण वि
धारणम् ॥ ११२ ॥ प्रवासन प

गसनं निपूदनं निर्हिसनम् ॥ नि-
र्वासनं सहापन निर्मन्थनमपासनम्

॥ ११३ ॥ निस्तर्हणं निहननं
क्षणन परिवजनम् ॥ निवापण

विशसन मारण प्रतिघातनम्
॥ ११४ ॥ उदासनममयनक्रय
नोऽजासनानि घ ॥ अलम्भाविज

विशरघातौन्मायवघा अपि ११५
मारनके नाम ३० ॥ प्रमापण १

निवर्हण २ निकारण ३ विशारण ४ ॥
॥ ११२ ॥ प्रवासन ५ पवासन ६ निपू-

दन ७ निर्हिसन ८ निर्वासन ९ सहा-
पन १० निर्मन्थन ११ अपासन १२ ॥

॥ ११३ ॥ निस्तर्हण १३ निहनन १४
क्षणन १५ परिवजन १६ निवापण

१७ विशसन १८ मारण १९ प्रति-
घातन २० ॥ ११४ ॥ उदासन २१

ममयन २२ क्रयन २३ उजासन २४
भासम्म २५ पिञ्ज २६ विशर २७ ॥

घात २८ उन्माय २९ वध ३० ॥
॥ ११५ ॥

स्यात्पञ्चता कालधर्मो दिष्टान्त
मलयोऽस्त्यम ॥ अन्तो नाशो

द्वयोर्मृत्युर्मरण निधनोऽस्त्रियाम्
॥ ११६ ॥

मृत्युके नाम १० ॥ पञ्चता १ काल-
धर्म २ दिष्टान्त ३ अस्त्यम ४ अस्त्यम ५

अन्त ६ नाश ७ मृत्यु ८ मरण ९
निधन १० ॥ ११६ ॥

परामुप्राप्तपञ्चत्वपरेतमेतसस्थिताः ॥
मृतप्रमीदी त्रिध्वते-

मृत्युको प्राप्तद्वयेके नाम ७ ॥ परामु-
प्राप्तपञ्चत्वपरेत ३ प्राप्त ४ संरिमत
५ मृत ६ प्रमीत ७ ॥

-चिता चित्या चितिः खि-
याम् ॥ ११७ ॥

चिताके नाम ३ ॥ चिता १ चित्या
२ चिति ३ ॥ ११७ ॥

कबन्धोऽस्त्री क्रियायुक्तमप-
मूर्धकलेवरम् ॥

शिररहित चेष्टा करनेवाले शरीरका
नाम १ ॥ कबन्ध १ ॥

श्मशानं स्यात्पितृवनं-

श्मशानके नाम २ ॥ श्मशान १
पितृवन २ ॥

-कुणपः शवमस्त्रियाम् ॥ ११८ ॥

मुर्देके नाम २ ॥ कुणप १ शव २ ॥
॥ ११८ ॥

प्रग्रहोपग्रहो वन्द्यां-

कैदीके नाम ३ ॥ प्रग्रह १ उपग्रह
वन्दी ३ ॥

-कारा स्याद्बन्धनालये ॥

जेहलखानेका नाम १ ॥ कारा १ ॥

पुंसि भूमन्यसवः प्राणाश्चैवं-

प्राणके नाम २ ॥ असु १ प्राण २ ॥

-जीवोऽसुधारणम् ॥ ११९ ॥

जीवके नाम २ ॥ जीव १ असु-
धारण २ ॥ ११९ ॥

आयुर्जीवितकालो-

आयुका नाम १ ॥ आयुम् १ ॥

-ना जीवातुर्जीवनौषधम् ॥

मृतसजीवनी वृटीके नाम २ ॥

जीवातु १ जीवनौषध २ ॥

इति क्षत्रियवर्गः ॥ ८ ॥

अथ वैश्यवर्गः ९.

ऊरव्या ऊरुजा अर्या वैश्या

भूमिस्पृशो विशः ॥

वैश्यके नाम ६ ॥ ऊरव्य १ ऊरुज २

अर्य ३ वैश्य ४ भूमिस्पृक् ५ विश ६ ॥

आजीवो जीविका, वार्ता वृत्तिर्व-
र्तनजीवने ॥ १ ॥

जीविकाके नाम ६ ॥ आजीव १

जीविका २ वार्ता ३ वृत्ति ४ वर्त्तन

५ जीवने ६ ॥ १ ॥

स्त्रियां कृषिः पाशुपाल्यं वा-

णिज्यं चेति वृत्तयः ॥

जीविकाके भेद ३ ॥ (खेती कर-

नेका नाम) कृषि १ ॥ (पशुपालनका

नाम) पाशुपाल्य २ ॥ (व्यापारका

नाम) वाणिज्य ३ ॥ ये तीनों वैश्य-

वृत्ति हैं ॥

सेवा श्ववृत्ति-

परसेवाके नाम २ ॥ सेवा १

श्ववृत्ति २ ॥

-गृत्तं कृषि-

खेतीकेनाम २ ॥ अमृत १ कृषि २ ॥

—रुच्छशिल त्वृतम् ॥ २ ॥

उच्छृष्टिके नाम ३ ॥ उच्छ १
शिल २ शत ३ ॥ २ ॥

द्वे याचितायाचितयोर्घासस्य
मृतामृते ॥

मांगनेस प्रासिद्धे वस्तुका नाम १ ॥
मृत १ ॥ किना मांगे प्रासिद्धे वस्तुका
नाम १ ॥ अमृत १ ॥

सत्यानृतं वणिग्भावः स्या-
व्यापारके नाम २ ॥ सत्यानत १
वणिसमाम २ ॥

—दृणं पर्युद्वानम् ॥ ३ ॥ उद्दारो-
कर्जके नाम ३ ॥ कृण १ पर्युद्वान
२ ॥ ३ ॥ उद्दार ३ ॥

—अर्थप्रयोगस्तु कुसीद वृष्टि
जीविका ॥

ध्याजके नाम ३ ॥ अर्थप्रयोग १
कुसीद २ वृष्टिजीविका ३ ॥

याच्छ्रातं याचितक-
मांगनेस्त्री वस्तुका नाम १ ॥ याचितक १ ॥

—निमयाहापमित्यकम् ॥ ४ ॥
बायदेपर छीहृद् वस्तुका नाम १ ॥

भापमित्यक १ ॥ ४ ॥
उत्तमर्णाधमर्णा द्वौ प्रयोक्तृमा
इकत्रै क्त्वात् ॥

कृण दन्वालेका नाम १ ॥ उत्तमर्णा
१ ॥ कृणकेच्छन्वालेकानाम १ ॥ अधमर्णा १ ॥

कुसीदिको वार्धुपिको वृद्धभाजी
वश्च वार्धुपि ॥ ५ ॥

ध्याजसे जीन्वालेक नाम ४ ॥ कुसी
दिक १ वार्धुपिक २ वृद्धभाजी ३
वार्धुपि ४ ॥ ५ ॥

क्षेत्राजीवः कर्षकश्च कृषिकश्च
कृषीवल ॥

किस्तानके नाम ४ ॥ क्षेत्रा जीव १
कर्षक २ कृषिक ३ कृषीवल ४ ॥

क्षेत्रं ब्रह्मेयदालेयं व्रीहिसाल्युद्
बोचितम् ॥ ६ ॥

व्रीहि होनेके योग्य स्तका नाम
१ ॥ ब्रह्म १ ॥

धानके स्तका नाम १ ॥ दालेय १ ॥ ६ ॥
यव्यं यवकर्म पष्टिकर्म यवादिमवर्न
हि यत् ॥

जीके स्तका नाम १ ॥ यव्य १ ॥ छोटे
जीके स्तका नाम १ ॥ यवस्य १ ॥

साठीके स्तका नाम १ ॥ पष्टिकर्म १ ॥
तिस्य तैलीनवन्मापोमाणुमगा
दिरूपता ॥ ७ ॥

तिस्यके स्तके नाम २ ॥ तिस्य १
तैलीम २ ॥ सरद होनेवालेके नाम २ ॥
माध्य १ मापीण २ ॥ अखसी होनेवालेके

नाम २ ॥ उम्य १ औमीन २ ॥ अणुके
होनेवालेके नाम २ ॥ अणव्य १ आण-
वीन २ ॥ भग (ताग) होनेवालेके
नाम २ ॥ भग्य २ भगीन २ ॥ ७ ॥

मौद्गीनकौद्रवीणादिशेषधान्यो-
द्भवक्षमम् ॥

मृगहोनेवालेका नाम १ ॥ मौद्गीन
१ ॥ कोदो होनेवाले खेतका नाम १ ॥
क्रौद्रवीण १ ॥ चणेहोनेवाले खेतका
नाम १ ॥ चाणकीन १ ॥ गेहू होने-
वालेका नाम १ ॥ गौधुमीन १ इत्यादि ॥

बीजाकृत तूमकृष्टं-

बीज बोनेका नाम १ ॥ बीजाकृत १ ॥
-सीत्यं कृष्टं च हल्यवत् ॥ ८ ॥
जोतेहुये खेतके नाम ३ ॥ सीत्य
१ कृष्ट २ हल्य ३ ॥ ८ ॥

त्रिगुणाकृतं तृतीयाकृतं त्रिहल्यं
त्रिसीत्यमपि तस्मिन् ॥

तीनवार जुतेहुये खेतके नाम ४ ॥
त्रिगुणाकृत १ तृतीयाकृत २ त्रिहल्य
३ त्रिसीत्य ४ ॥

द्विगुणाकृते तु सर्वं पूर्वं शम्बा-
कृतमपीह ॥ ९ ॥

दोवार जुतेहुयेके नाम ४ ॥ द्विगुणाकृत १
द्वितीयाकृत २ द्विहल्य २ द्विसीत्य ४ ॥ ९ ॥

द्रोणाढकादिवापादौ द्रौणि-
काढकिकादयः ॥

जिसमें द्रोण (१०२४) तोला घान-
आदि बोया जाय उस खेतका नाम १ ॥
द्रौणिक १ ॥ आढक (२५६) तोला
भर वालेका नाम १ ॥ आढकिक १ ॥ आदि
खारीवापस्तु खारीक-

जिसमें खारी (४ द्रोण अर्थात्
४०९६) तोला भर अन्न बोया जाय
उसका नाम ॥ १ ॥ खारीक १ ॥

-उत्तमर्णादियस्त्रिषु ॥ १० ॥

उत्तमर्णादि शब्द तीनों लिंगोंमें
होते हे ॥ १० ॥

पुंनपुंसकयोर्वमः केदारः क्षेत्र-
खेतके नाम ३ ॥ वम १ केदार २ क्षेत्र ३ ॥

-मस्य तु ॥ कैदारकं स्यात्कै-
दार्यं क्षेत्रं कैदारिकं गणे ॥ ११ ॥

खेतके समूहके नाम ४ ॥ कैदारक १
कैदार्य २ क्षेत्र ३ कैदारिक ४ ॥ ११ ॥

लोष्टानि लेष्टवः पुंसि-

ढेलेके नाम २ ॥ लोष्ट १ लेष्ट २ ॥
-कोटिशो लोष्टभेदनः ॥

भूगरीके नाम २ ॥ कोटिश १
लोष्टभेदन २ ॥

प्राजनं तोदनं स्तोत्रं-

पैने (लाठी, चाबुक आदि) के नाम
३ ॥ प्राजन १ तोदन २ तोत्र ३ ॥

-खनिप्रमवदारणे ॥ १२ ॥
 बुदाळके नाम २ ॥ खनिप्र १
 भवदारण २ ॥ १२ ॥
 दात्र लवित्र-
 सुरपा फाषडा आदिक नाम २ ॥
 दात्र १ लवित्र २ ॥
 -मायन्धो योत्र योक्र-
 मायक नाम ३ ॥ आबन्ध १ योत्र
 २ योक्र ३ ॥
 -मयो फलम् ॥ निरीक्ष कुटका
 फाला कृपको-
 फाल अर्थात् हलके नीचे लगावरे
 लोहेके नाम १ ॥ फल १ निरीक्ष १
 कुटक ३ फाल ४ कृपको १ ॥
 -लाङ्गल इलम् ॥ १३ ॥
 गोदारण घ सीरो-
 हलके नाम ४ ॥ लाङ्गल १ इल
 २ ॥ १३ ॥ गोदारण ३ सीर ४ ॥
 -ऽय शम्भा स्त्री युगकीलका ॥
 छेड (सिम्ह) के नाम २ ॥
 शम्भा १ युगकीलका २ ॥
 -ईपा लाङ्गलपद्भः स्या-
 हलस हाल) के नाम २ ॥ ईपा
 १ लाङ्गलपद्भ २ ॥
 -स्तीता लाङ्गलपद्भति ॥ १४ ॥
 हलकी रखा (मूढ) के नाम २ ॥
 स्तीता १ लाङ्गलपद्भति २ ॥ १४ ॥

प्रुंसि मेधिः खले दाठ न्यस्तं
 पत्पशुबन्धने ॥
 जाधान्यमर्दनकरनके स्थान अर्थात्
 पैरमें गाढेहुय पशु बांधनक सूत्रे (मूढ)
 क नाम २ ॥ मेधि १ खलदाठ २ ॥
 आशुप्रोहि पाटला स्या-
 सही (घान) के नाम ३ ॥
 आशु १ प्रोहि २ पाटल ३ ॥
 -च्छित्तशूकयवौ समौ ॥ १५ ॥
 जीके नाम २ ॥ शित्तशूक १ यव २ ॥ १५ ॥
 वोकमस्तु तत्र हरिते-
 हरे जीका नाम १ ॥ वोकम १ ॥
 -कलायस्तु सतीनक ॥
 हरेणुवण्डिकौ चास्मिन्-
 मठरके नाम ४ ॥ कलाय १
 स्तीनक २ हरेणु ३ सण्डिक ४ ॥
 -कोरवृपस्तु कोद्रवः ॥ १६ ॥
 कोद्रोके नाम २ ॥ कोरवृप १
 कोद्रव २ ॥ १६ ॥
 मङ्गल्यको मसूरो-
 मसूरके नाम २ ॥ मङ्गल्यक १
 मसूर २ ॥
 -ऽय मकुष्ठकमयुष्ठकौ ॥ वन)
 मुष्टे-
 मोठके नाम ३ ॥ मकुष्ठक १
 मयुष्ठक २ वनमुष्ट ३ ॥

सर्षपे तु द्वौ तन्तुभकदम्बकौ १७

सरसोंके नाम ३॥ सर्षप १ तन्तुभर

कदम्बक ३ ॥ १७ ॥

सिद्धार्थस्त्वेष धवलो-

सफेदसरसोका नाम १॥ सिद्धार्थ १॥

-गोधूमः सुमनः समौ ॥

गेहूँके नाम २॥ गोधूम १ सुमन २॥

स्याद्यावकस्तु कुलमाष-

कुलथीके नाम २॥ यावक १ कुलमाष २॥

-श्रणको हरिमन्थकः ॥ १८ ॥

अरहरे (चने) के नाम २॥ चणक १

हरिमन्थक २ ॥ १८ ॥

द्वौ तिले तिलपेजश्च तिलपि-

ञ्च निष्फले ॥

'फलहीन' 'वाञ्छतिल' 'रान तिल'

के नाम २॥ तिलपेज १ तिलपिज २ ॥

क्षवः क्षुताभिजननो राजिका

कृष्णिकाऽऽसुरी ॥ १९ ॥

राईके नाम ५ ॥ क्षव १ क्षुताभिज-

नन २ राजिका ३ कृष्णिका ४ आसुरी

५ ॥ १९ ॥

त्रियौ कङ्गुप्रियङ्गू द्वे-

कगनीके नाम २॥ कगु १ प्रियङ्गु २॥

-अतसी स्यादुमा क्षुमा ॥

अलसीके नाम ३ ॥ अतसी १ उमा

२ क्षुमा ३ ॥

मातुलानी तु भङ्गायाम्-

भगके नाम २ ॥ मातुलानी १

भगा २ ॥

व्रीहिभेदस्त्वणुः पुमान् ॥ २० ॥

चीनाधान्यका नाम १॥ अणु १॥ २०

किशारुः सस्यशूकं स्या-

जौ इत्यादिके तीखे अग्रभाग

(सीकुर) के नाम २ ॥ किशारु १

सस्यशूक २ ॥

-त्कणिशं सस्यमजरी ॥

धान्यकी बालके नाम २॥ कणिश १

सस्यमजरी २ ॥

धान्यं व्रीहिः स्तम्बकारिः-

धान्यमात्रके नाम ३ ॥ धान्य १

व्रीहि २ स्तम्बकारि ३ ॥

-स्तम्बो गुच्छस्तृणादिनः ॥ २१ ॥

यव आदिकी जडके नाम २॥ स्तम्ब

१ गुच्छ २ ॥ २१ ॥

नाडी नालं च काण्डोऽस्य-

नलुआके नाम २॥ नाडी १ नाल २॥

--पलालोऽस्त्री स निष्फलः ॥

प्यालका नाम १॥ पलाल १ ॥

कडङ्गरो बुसं क्लीवे-

मोटे मुसके नाम २ ॥ कडङ्गर १

बुस १ ॥

--धान्यत्वाचे तुषः पुमान् ॥ २२ ॥

भूसीका नाम १॥ तुष १ ॥ २२ ॥

-खनिप्रमवदारणे ॥ १२ ॥
कुदाउके नाम २ ॥ खनिप्र १
अवदारण २ ॥ १२ ॥

दात्र लविप्र-
सुरपा फाकडा आदिक नाम २ ॥
दात्र १ लविप्र २ ॥

-माषन्धो योत्र योक्र-
माषके नाम ३ ॥ आबन्ध १ योत्र
२ योक्र ३ ॥

-मयो फलम् ॥ निरीश कुटर्क
फालः कृपको-

फाल अर्थात् हलके नीचे लगेहुये
लोहके नाम ५ ॥ फल १ निरीश १
कुटर्क ३ फल ४ कृपक ५ ॥

-लाङ्गुल इलम् ॥ १३ ॥
गोदारण च सीरो-

हलके नाम ४ ॥ लाङ्गुल १ हल
२ ॥ १३ ॥ गोदारण ३ सीर ४ ॥

-ऽय शम्पा स्त्री युगकीलकाः ॥
शम्पा (सिमल) के नाम २ ॥

शम्पा १ युगकीलका २ ॥

-ईपा लाङ्गुलदण्डं स्या-
हलस (हाल) के नाम २ ॥ ईपा
१ लाङ्गुलदण्ड २ ॥

-स्तीवा लाङ्गुलपट्टति ॥ १४ ॥
पट्टकी रेणु (लूट) के नाम २ ॥
मीता १ लाङ्गुलपट्टति २ ॥ १४ ॥

पुंसि मेघिः खले दाह न्यस्तं
पत्पशुबन्धने ॥

मोघान्यमर्दमफरनके स्थान अर्थात्
पेरमें गाहद्वय पशु बांधनेके सूत्रे (मंत्र)

क नाम २ ॥ मेघि १ खलदार २ ॥
आशुर्घोहि पाटल स्या-

सही (भान) क नाम ३ ॥
भाशु १ ग्रीहि २ पाटल ३ ॥

-च्छितशुकयवौ समौ ॥ १५ ॥
जीके नाम २ ॥ शितशुक १ यव २ ॥ १५ ॥

तोकमस्तु तत्र हरिते-
हरे जीका नाम १ ॥ तोकम १ ॥

-कलायस्तु सर्तीनकं ॥
हरेणुखण्डिकौ चास्मिन्-

मटरके नाम ३ ॥ कलाय १
सर्तीनक २ हरेणु ३ खण्डिक ४ ॥

-कोरदृपस्तु कोद्रवा ॥ १६ ॥
कोद्रोके नाम २ ॥ कोरदृप १

कोद्रव २ ॥ १६ ॥

मङ्गल्पको मसूरो-
मसूरके नाम २ ॥ मङ्गल्पक १

मसूर २ ॥
-ऽय मङ्गुलकमयुष्टकौ ॥ मन)

मुष्टे-
मोठक नाम ३ ॥ मङ्गुलक १

मङ्गुलक २ वनमुष्ट ३ ॥

कटकिलिञ्जकौ ॥ २६ ॥

चटाईके नाम २॥ कट १ किलि-

जक २ ॥ २६ ॥

समानौ-

यह समान लिंग है ॥

-रसवत्यां तु पाकस्थानमहा-
नसे ॥

रसोईके स्थानके नाम ३॥ रसवती

१ पाकस्थान २ महानस ३ ॥

पौरोगवस्तदध्यक्षः-

रसोईके अधिकारीके नाम २॥ पौरो-

गव १ तदध्यक्ष (महानसाध्यक्ष) २॥

-सूपकारास्तु बल्लवाः ॥ २७ ॥

आरालिका आन्धसिकाः सूदा

औदनिका गुणाः ॥

रसोइयेके नाम ७ ॥ सूपकार १

बल्लव २ ॥ २७ ॥ आरालिक ३ आन्ध

सिक ४ सूद ५ औदनिक ६ गुण ७ ॥

आपूपिकः कान्दविको भक्ष्य-

कार इमे त्रिषु ॥ २८ ॥

पुआ आदि बनानेवालेके नाम ३ ॥

आपूपिक १ कान्दविक २ भक्ष्यकार ३ ॥

ये शब्द तीनों लिंगोंमें होतेहैं ॥ २८ ॥

अश्मन्तमुद्धानमधिभ्रयणीचु-

ल्लिरन्तिका ॥

चूल्हेके नाम ५ ॥ अश्मन्त १ उद्धान

२ अधिभ्रयणी ३ चुल्लि ४ अन्तिका ५ ॥

अंगारधानिकाऽङ्गारशकट्यपि

हसन्त्यपि ॥ २९ ॥ हसन्त्य-

वरोसी (सिगडीके) नाम ४ ॥

अंगारधानिका १ अंगारशकटी २ हसन्ती

३ ॥ २९ ॥ हसनी ४ ॥

-प्यथ न स्त्री स्यादंगारो-

अंगारेका नाम १ ॥ अंगार १ ॥

-ऽलातमुल्मुकम् ॥

जलतेहुए काष्ठके नाम २ ॥ अलात

१ उल्मुक २ ॥

क्लीवेऽम्बरीषं भ्राष्ट्रो-

भाडके नाम २ ॥ अम्बरीष १ भ्राष्ट्र २ ॥

-ना कन्दुर्वा स्वेदनी खि-

याम् ॥ ३० ॥

कटाईके नाम १ ॥ कन्दु १

स्वेदनी २ ॥ ३० ॥

अलिञ्जरः स्यान्मणिकः-

माठ (बडा घटके) नाम २ ॥

अलिञ्जर १ मणिक २ ॥

-कर्कर्यालुर्गलन्तिका ॥

कठौतीके नाम ३ ॥ कर्करी १

आलु २ गलन्तिका ३ ॥

पिठरः स्थाल्युखाकुण्डं-

वटलोईके नाम ३ ॥ पिठर १

स्थाली २ उखा ३ कुण्ड ४ ॥

-कलशस्तु त्रिषु द्वयोः ॥ ३१ ॥

शूकोज्जी लक्षणतीक्ष्णामे-
यव आदिके विकने और तीक्ष्ण
व्यप्रमाणके नाम २ ॥ शूक १ लक्षण
तीक्ष्णाम २ ॥

-शमी शिम्बा-

मटर आदिका फलीके नाम २ ॥
शमी १ शिम्बा २ ॥

-त्रिपुत्रे ॥

भाग कह हुए सब शब्द तीनों
लिङ्गोंमें होंगे ॥

-शुद्धमाषसित धान्य-

तृण दूर करके पैरमें इकट्ठा करने योग्य
धान्यके नाम २ ॥ शुद्ध १ भाषसित २ ॥

-पूत तु बडुलीकृतम् ॥ २३ ॥

साफ करके इकट्ठा किए हुए धान्यके
नाम २ ॥ पूत १ बडुलीकृत २ ॥ २३ ॥

मापादयः क्षमीधान्ये ॥

फलीके भीतर होनेवाले धान्य माप
आदि हैं ॥

-शुकधान्ये यवादयः ॥

यव आदि शुक धान्य अर्थात्
बाछसे पैदा होनेवाले हैं ॥

शालय कछमाद्याश्च पाष्ठिका-
द्याश्च-

यव आदि और शाही आदि शाकि
धान्य कहलाते हैं ॥

-पुंस्यमी ॥ २४ ॥

माप आदि शब्द पुंसिङ्गमें होत
हैं ॥ २४ ॥

तृणधान्यानि नीवारा-

पशाई आदि मुनियोंके धान्यका
नाम १ ॥ नीवार १ ॥

-क्षी गवेष्टुर्गविष्टुका ॥

जिसका कौफणदशमें कसाब कसा
कहतहैं उस मुनिभक्तके नाम २ ॥
गवष्टु १ ॥ गवष्टुका २ ॥

अपोम भुसलोज्जी स्या-

मूसलके नाम २ ॥ अपोम १
मुसल २ ॥

-शुद्धखलुखलम् ॥ २५ ॥

ओखलीके नाम २ ॥ उदुखल १
उदुखल २ ॥

प्रस्फोटनं शूर्पमल्ली-

छानके नाम २ ॥ प्रस्फोटन १ शूर्प २ ॥

-वालनी तितउः पुमान् ॥

बछनीके नाम २ ॥ वालनी १
तितउ २ ॥

स्यूतप्रसेबो-

बख सग आदिते घने हुए घेलेके
नाम २ ॥ स्यूत १ प्रसेब २ ॥

-कण्डोळपिटी-

शेकरीके नाम २ ॥ कण्डोळ १ पिटी २ ॥

कारवी २ पृथ्वी ३ पृथु ४ काला ५
उपकुञ्चिका ६ ॥

आर्द्रक शृङ्गवेरं स्यां-

अदरखके नाम २ ॥ आर्द्रक १ शृङ्गवेर २ ॥

-दयच्छत्रा वितुन्नकम् ॥ ३७ ॥

कुस्तुम्बुरु च धान्याक-

धनियेके नाम ४ ॥ छत्रा १ वितुन्नक २

॥ ३७ ॥ कुस्तुम्बुरु ३ धान्याक ४ ॥

-मथ शुण्ठी महौषधम् ॥

स्त्रीनपुंसकयोर्विश्वं नागरं विश्वभे-
षजम् ॥ ३८ ॥

सोंठके नाम ५ ॥ शुण्ठी १ महौषध

२ विश्व ३ नागर ४ विश्वभेषज ५ ॥ ३८ ॥

आरनालकसौवीरकुल्माषाभि-
पुतानि च ॥ अवन्तिसोमधान्या-

म्लञ्जलानि च काञ्जिके ॥ ३९ ॥

काञ्जीके नाम ७ आरनालक १

सौवीर २ कुल्माषाभिपुत ३ अवन्तिसोम ४

धान्याम्ल ५ कुञ्जल ६ काञ्जिक ७ ॥ ३९ ॥

सहस्रवेधि जतुकं बाह्लीकं हिगु
रामठम् ॥

ह्रींगके नाम ५ ॥ सहस्रवेधि १ जतुक

२ बाह्लोक ३ हिगु ४ रामठ ५ ॥

तत्पत्री कारवी पृथ्वी वाष्पिका
कवरी पृथुः ॥ ४० ॥

ह्रींगके वृक्षके पत्तेके नाम ५ ॥

कारवी १ पृथ्वी २ वाष्पिका ३ कवरी
४ पृथु ५ ॥ ४० ॥

निशाख्या काञ्चनी पीता
हरिद्रा वरवर्णिनी ॥

हलदीके नाम ५ ॥ निशा १ काञ्चनी
२ पीता ३ हरिद्रा ४ वरवर्णिनी ५ ॥

सामुद्रं यत्तु लवणमक्षीवं
वशिरं च तत् ॥ ४१ ॥

समुद्रज्जागके नाम २ अक्षीव १
वशिर २ ॥ ४१ ॥

सैन्धवोऽस्त्री शीतशिवं माणि-
मन्थञ्च सिन्धुजे ॥

सैन्धेके नाम ४ ॥ सैन्धव १ शीतशिव
२ माणिमन्थ ३ सिन्धुज ४ ॥

रौमकं वसुकं-

सामरके नाम २ ॥ रौमक १ वसुक २ ॥

-पाक्यं विडं च कृतके द्वयम् ४२
खारीके नाम २ ॥ पाक्य १ विड २ ॥ ४२

सौवर्चलेऽक्षरुचके-

सचलखारके नाम ३ ॥ सौवर्चल १
अक्ष २ रुचक ३ ॥

-तिलकं तत्र मेचके ॥

काले सचलखारके नाम २ ॥ तिलक १
मेचक २ ॥

मत्स्यण्डी फाणितं खण्डवि-
कारे-

घट कुटनिपा-

बोडेके नाम ४ ॥ कलश १ ॥

॥ ३१ ॥ घट २ कुट ३ निप ४ ॥

-वस्त्री शरावो वर्धमानक ॥

सरथेके नाम २ ॥ शराव १ वर्ध

मानक २ ॥

ऋजीपं पिष्टपचन-

तथके नाम २ ॥ ऋजीप १ पिष्ट

पचन २ ॥

-कंसोऽस्त्री पानभाजनम् ॥ ३२ ॥

कनोरीके नाम २ ॥ कंस १ पान

भाजन २ ॥ ३२ ॥

कुतूः कृते खेहपात्र-

कुम्भेके नाम १ ॥ कुतू १ ॥

-सैवाल्पा कुतुप पुमान् ॥

कुम्भीका नाम १ ॥ कुतुप १ ॥

सर्वमावपन भाण्ड पात्रामत्र

च भाजनम् ॥ ३३ ॥

घरतनक नाम १ ॥ आपनन १

माण्ड २ पात्र ३ अमत्र ४ भाजन ५ ॥ ३३ ॥

दार्धि कम्भिः खजाका च-

कूर्त्तकीके नाम ३ ॥ दार्धि १ कम्भि २

खजाका ३ ॥

स्यात्तर्द्विहस्तकः ॥

बोदिके नाम २ ॥ तर्द्व १ दाहस्तक २ ॥

अस्त्री शाक हरितक शिशु-

शाकके नाम ३ ॥ शाक १ हरि

तक २ शिशु ३ ॥

-रस्य तु नाडिका ॥ ३४ ॥

कलम्बश्च कलम्बश्च-

शाककी बडीके नाम ३ ॥ नाडिका

१ ॥ ३४ ॥ कलम्ब २ कलम्ब ३ ॥

-वैसवार उपस्कर ॥

मसाळके नाम २ ॥ वैसवार १

उपस्कर २ ॥

तिन्तिडीक च जुक च घृसा-

म्ल-

घूस (अमचूरआदि) के नाम ३ ॥

तिन्तिडीक १ जुक २ घृसाम्ल ३ ॥

-मय वेङ्गजम् ॥ ३५ ॥

मरीच कोलक कृष्णमूषण

धर्मपत्तनम् ॥

मिर्चेके नाम ६ ॥ मरुज १ ॥ ३५ ॥

मरीच २ कोलक ३ कृष्ण ४ उषण ५

धर्मपत्तन ६ ॥

जीरको अरणोऽजाजी कणा-

जीरेके नाम ४ ॥ जीरक १ जण

२ अजाजी ३ कणा ४ ॥

-कृष्णे तु जीरके ॥ ३६ ॥

मुपनी कारबी पृथ्वी पृथुः

कालोपकृषिका ॥

काल जीरके नाम १ ॥ ३६ ॥ मुपनी १

कारवी २ पृथ्वी ३ पृथु ४ काला ५
उपकुञ्चिका ६ ॥

आर्द्रक शृङ्गवेरं स्या-

अदरकके नाम २ ॥ आर्द्रक १ शृङ्गवेर २ ॥

-दयच्छत्रा वितुन्नकम् ॥ ३७ ॥

कुस्तुम्बुरु च धान्याक-

धनियेके नाम ४ ॥ छत्रा १ वितुन्नक २

॥ ३७ ॥ कुस्तुम्बुरु ३ धान्याक ४ ॥

-मथ शुण्ठी महौषधम् ॥

स्त्रीनपुंसकयोर्विश्वं नागरं विश्वभे-
षजम् ॥ ३८ ॥

सोंठके नाम ५ ॥ शुण्ठी १ महौषध

२ विश्व ३ नागर ४ विश्वभेषज ५ ॥ ३८ ॥

आरनालकसौवीरकुलमाषाभि-

पुतानि च ॥ अवन्तिसोमधान्या-

म्लक्षलानि च काञ्जिके ॥ ३९ ॥

काजीके नाम ७ आरनालक १

सौवीर २ कुलमाषाभिपुत ३ अवन्तिसोम ४

धान्याम्ल ५ कुञ्जलक्षकाजिक ७ ॥ ३९ ॥

सहस्रवेधि जतुकं बाह्लीकं हिगु

रामठम् ॥

हींगके नाम ५ ॥ सहस्रवेधिन् १ जतुक

२ बाह्लीक ३ हिगु ४ रामठ ५ ॥

तत्पत्रा कारवी पृथ्वी वाष्पिका

कवरी पृथुः ॥ ४० ॥

हींगके वृक्षके पत्तेके नाम ५ ॥

कारवी १ पृथ्वी २ वाष्पिका ३ कवरी

४ पृथु ५ ॥ ४० ॥

निशाख्या काञ्चनी पीता

हरिद्रा वरवर्णिनी ॥

हलदीके नाम ५ ॥ निशा १ काञ्चनी

२ पीता ३ हरिद्रा ४ वरवर्णिनी ५ ॥

सामुद्रं यत्तु लवणमक्षीवं

वशिरं च तत् ॥ ४१ ॥

समुद्रजागके नाम २ अक्षीव १

वशिर २ ॥ ४१ ॥

सैन्धवोऽस्त्री शीतशिवं माणि-

मन्थञ्च सिन्धुजे ॥

सैन्धेके नाम ४ ॥ सैन्धव १ शीतशिव

२ माणिमन्थ ३ सिन्धुज ४ ॥

रौमकं वसुकं-

सामरके नाम २ ॥ रौमक १ वसुक २ ॥

-पाक्यं विडं च कृतके द्वयम् ४२

खारीके नाम २ ॥ पाक्य १ विड २ ॥ ४२

सौवर्चलेऽक्षरुचके-

सचलखारके नाम ३ ॥ सौवर्चल १

अक्ष २ रुचक ३ ॥

-तिलकं तत्र मेचके ॥

काळे सचलखारके नाम २ ॥ तिलक १

मेचक २ ॥

मत्स्यण्डी फाणितं खण्डवि-

कारे-

रत्नके नाम २ ॥ मत्स्यडी १
फाणित २ ॥

-शर्करा सिता ॥ ४३ ॥

मिश्राके नाम २ ॥ शर्करा १
सिता २ ॥ ४३ ॥

कूर्चिका क्षारविकृति स्या-
माषके नाम १ ॥ कूर्चिका १ क्षीर
विकृति २ ॥

-द्रसाळा तु मार्जिता ॥
धीक्ष्ण्डके नाम २ रसाळा १
मार्जिता २ ॥

स्यासेमनं तु निष्ठान-
वर्तिकाके नाम २ ॥ तेमन १ निष्ठान २ ॥

-त्रिलिङ्गावासिताषवे ॥ ४४ ॥

माया-वासिष्ठापर्यन्त शब्द तीनों
क्षिप्तोमें होतेहैं ॥ ४४ ॥

शूलाकृतं मटिन्नं च शूल्य-
लोहशष्ठाकासे पकायेद्दृष्ट्वा मांसकृत्नाम
१ ॥ शूलाकृत १ मटिन्न २ शूल्य ३ ॥

-मुख्यं तु पेटरम् ॥
यटछोर्निपकाये दृष्ट्वा अन्नादिके नाम
२ ॥ उर्य १ पेटर २ ॥

प्रणीतमुपसेपन्न-
पत्नीर्द्धं रस्यके नाम २ ॥ प्रणीत १
उपसम्पन्न २ ॥

-प्रयत्न स्यात्सुमस्कृतम् ॥ ४५ ॥

घृततेलादिसे घर्नीर्द्धं रसोर्द्धं नाम २
प्रयत्न १ सुसोक्त २ ॥ ४५ ॥

स्यात्पिच्छलं तु विमिल-
पनखे मौजनके नाम २ ॥ पिच्छल १
विमिल २ ॥

-सम्पृष्ट शोषित समे ॥
धीन दृष्ट्वा अन्नके नाम २ ॥ सम्पृष्ट १
शोषित २ ॥

चिक्षणं मसृणं लिङ्घ-
चिक्षणके नाम १ ॥ चिक्षण १
मसृण २ लिङ्घ ३ ॥

-तुल्ये भावित्वासिते ॥ ४६ ॥
शौकीर्द्धं वस्तुके नाम २ ॥ भावित १
भास्ति २ ॥ ४६ ॥

व्यापकं पौलिरभ्युपो-
घृत आदिमें भूनीर्द्धं वस्तुके नाम १ ॥
व्यापक १ पौलि २ अभ्युप ३ ॥

-छाजाः पुंभृष्टि घासता ॥
शीलोका नाम १ ॥ छाज १ ॥
पृथुकः स्यात्पिपटको-

परमलके नाम २ ॥ पृथुक १ पिपि-
टक २ ॥

-घाना भृष्टयवे स्त्रियः ॥ ४७ ॥
मुनेद्दृष्ट्वा जीके नाम २ ॥ घाना १
भृष्टयव २ ॥ ४७ ॥

पृषोऽपृषा पिष्टकं स्या-
पृषकेनाम १ ॥ अपृषा २ पिष्टक ३ ॥

त्करम्भो दधिसक्तवः ॥

दधियुक्त सत्तुओंके नाम २ ॥

करम्म १ दधिसक्तु २ ॥

भिस्ता स्त्री भक्तमन्वोऽन्नमो
दनोऽस्त्री सदीदिविः ॥ ४८ ॥

मातके नाम ६ ॥ भिस्ता १ भक्त
२ अन्धस् ३ अन्न ४ ओदन ५
दीदिवि ६ ॥ ४८ ॥

भिस्तटा दग्धिका-

जलके अन्नके नाम २ ॥ भिस्तटा
दग्धिका २ ॥

-सर्वरसाग्रे मण्डमस्त्रियाम् ॥

माडका नाम १ ॥ मण्ड १ ॥

मासराचामनिस्रावा मण्डे भ-
क्तसमुद्भवे ॥ ४९ ॥

केवल मातके माडके नाम ३ ॥ मासर
१ आचाम २ निस्राव ३ ॥ ४९ ॥

यवागुरुष्णिका श्राणा विलेपी
तरला च सा ॥

पतले मातके नाम ५ ॥ यवागू १
उष्णिका २ श्राणा ३ विलेपी ४ तरला ५ ॥

गव्यं त्रिषु गवां सर्व-

गायसे उत्पन्न वस्तुका भाम १ ॥ गव्य १ ॥

-गोविद् गोययमस्त्रियाम् ५० ॥

गौके गोवरके नाम २ ॥ गोविद्

१ गोम २ ॥ ५०

तत्तु शुष्कं करीपोऽस्त्री-

सूखे द्रुए गोवरका नाम १ ॥ करीष १ ॥

-दुग्धं क्षीरं पयः समम् ॥

दूधके नाम ३ ॥ दुग्ध १ क्षीर २ पयस् ३ ॥

पयस्यमाज्यदध्यादि-

घृत दही आदिका नाम १ ॥ पयस्य १ ॥

-द्रुप्तं दधि घनेतरत् ॥ ५१ ॥

पतले दहीका नाम १ ॥ द्रुप्त १ ॥ ५१ ॥

घृतमाज्यं हविः सर्पि-

धीके नाम ४ ॥ घृत १ आज्य २
हविष् ३ सर्पिष् ४ ॥

-नवनीतं नवोद्धृतम् ॥

मक्खनके नाम २ ॥ नवनीत १
नवोद्धृत ॥

तत्तु हैयङ्गवीनं यद्दद्योगोदोहो-
द्भवं घृतम् ॥ ५२ ॥

नौनीधीका नाम १ ॥ हैयङ्गवीन १ ॥ ५२ ॥

दण्डाहतं कालशेयमरिष्टमपि
गोरसः ॥

मडेके नाम ४ ॥ दण्डाहत १
कालशेय २ अरिष्ट ३ गोरस ४ ॥

तक्रं ह्युदश्विन्मथितं पादान्ब-
धाम्बु निर्जलम् ॥ ५३ ॥

मडेके भेद ३ ॥ तक्र १ उदश्वित
२ मथित ३ ॥ ५३ ॥

मण्डं दधिभवं मस्तु-

रत्नके नाम २ ॥ मास्वयी १
फणित २ ॥

-शकरा सिता ॥ ४३ ॥

मिथीके नाम २ ॥ शर्करा १
सिता २ ॥ ४३ ॥

कूर्धिके क्षारविकृतिः स्या-
मायके नाम ३ ॥ कूर्धिका १ क्षीर
विकृति २ ॥

-द्रसाळा तु मार्जिता ॥

श्रीकण्ठके नाम २ रसाळा १
मार्जिता २ ॥

स्वासेमनं तु निष्ठान-

वर्तीके नाम २ ॥ आत्मनः १ निष्ठान २ ॥

-त्रिलिङ्गनासिठावधे ॥ ४४ ॥

माया-मास्त्रिपस्पन्ता शब्द तीनों
दिगोमें होतहैं ॥ ४४ ॥

शूलाकृत भट्टिभं च शूल्य-

छोहशलाकाये पकायद्वयं मांसकनाम
३ ॥ शूलाकृत १ भट्टिभं २ शूल्य ३ ॥

-मूर्ख्यं तु पेट्टरम् ॥

पेट्टरम् पकाय द्वयं अनादिक नाम
२ ॥ टण्य १ पेट्टरम् २ ॥

प्रणीतमुपमेषल-

वकीद्वयं पण्यके नाम २ ॥ प्र ॥ ४५ ॥
उपसम्पन्न ४ ॥

-पयस्त स्यात्पुष्टसृष्टयम् ॥ ४६ ॥

घृततेलादिसे घनी हुई रसाईके नाम २
प्रयस्ता १ सुसंस्कृत २ ॥ ४५ ॥

स्मा त्पिच्छिलं तु विजिलं-
पनीले भोजनके नाम २ ॥ पिच्छिलं १
विजिलं २ ॥

-सम्पृष्ट शोषित समे ॥
वीने द्वयं अन्नके नाम २ ॥ सम्पृष्ट १
शोषित २ ॥

चिकण मसृण स्निग्धं-
चिकणके नाम ३ ॥ चिकण १
मसृण २ स्निग्ध ३ ॥

-मुल्ये भावितवासिते ॥ ४६ ॥
ऊँसी हुई वस्तुके नाम २ ॥ भावित १
वासित २ ॥ ४६ ॥

आपकं पौलिग्भ्यूपो-
घृत भाविते मूनी हुई वस्तुके नाम ३ ॥
आपक १ पौलि २ अभ्यूप ३ ॥

-लाभाः पुंशुभिः घासता ॥
खीलोंका नाम १ ॥ लाभा १ ॥

पृथुकः स्याद्विपिटको-
परमउके नाम २ ॥ पृथुक १ विपि-
टक २ ॥

-धाना भृष्टपवे स्त्रियः ॥ ४७ ॥
मुनेद्वयं जोक नाम २ ॥ धाना १
भृष्टप २ ॥ ४७ ॥

पृषोष्पुष पिटकं स्या-
प्रयत्नाम ३ ॥ पृष १ अदूर २ पिटक ३ ॥

गया हो उस स्थानका नाम १ ॥ आ-
शितगवीन १ ॥

उक्षा भद्रो वलीवर्द ऋषभो
वृषभो वृषः ॥९९ ॥ अनड्वान्सौ
रभेयो गौ-

वैलके नाम ९॥ उक्षन् १ भद्र २
वलीवर्द ३ ऋषभ ४ वृषम ५ वृष ६ ॥९९ ॥
अनडुह ७ सौरभेय ८ गो ९ ॥

रुक्षणां संहतिरौक्षकम् ॥
वैलोके समूहका नाम १ ॥ औक्षक १ ॥

गव्या गोत्रा गवाम्-
गायोंके समूहके नाम २ ॥ गव्या १
गोत्रा २ ॥

-वत्सधेन्वोर्वात्सकधैनुके ॥६० ॥
वछडोंके समूहका नाम १ ॥ वात्सक
१ धेनुओंके समूहका नाम १ ॥ धे-
नुक १ ॥ ६० ॥

वृषो महान्महोक्षः स्या-
बड़े वैचके नाम १ ॥ महोक्ष ॥

-वृद्धाक्षस्तु जरद्वः ॥
बूढ़े वैलका नाम २ ॥ वृद्धोक्ष १
जरद्व २ ॥

उत्पन्न उक्षा जातोक्षः-
जवान वैलका नाम १ ॥ जातोक्ष १
-सद्याजातस्तु तर्णकः ॥ ६१ ॥
छोटे वछरेका नाम १ ॥ तर्णक १ ॥ ६१ ॥

शकृत्कारिस्तु वत्सः स्या-

वछडेमात्रके नाम २ ॥ शकृत्कारि १
वत्स २ ॥

-द्वम्यवत्सतरौ समौ ॥
थोडे जवान वछडेके नाम २ ॥
द्वम्य १ वत्सतर २ ॥

आर्षभ्यः षण्डतायोग्यः-
बधिया करने लायकका नाम १ ॥
आर्षभ्य १ ॥

-षण्डो गोपतिरिद्रचरः ॥ ६२ ॥
साडके नाम ३ ॥ षण्ड १ गोपति २
इद्रचर ३ ॥ ६२ ॥

स्कन्धदेशे त्वस्य वहः-
वैलके कन्धेका नाम १ ॥ वह १ ॥
सास्त्रा तु गलकम्बलः ॥

गैयोंके गलेमें जो मास लटकता है
उस मासके नाम २ ॥ सास्त्रा १
गलकम्बल २ ॥

स्यान्नस्तितस्तु नस्योतः-
नाथवाले वैलके नाम २ ॥ नस्तित १
नस्योत २ ॥

-प्रष्ठवाड युगपार्श्वगः ॥ ६३ ॥
जिससे गाड़ीमें जातनेके अर्थ वैल
सघाये जायें उस काष्ठके नाम ॥ २ ॥
प्रष्ठवाड १ युगपार्श्वग २ ॥ ६३ ॥
युगादीनां तु वोढारो युग्य-
प्रासङ्ग्यशाकटाः ॥

दहीके पानीका नाम १ ॥ मद्य १ ॥	-फेला मुक्तसमुञ्जितम् ॥ ५६ ॥
-पीयूषोऽभिनव पयः ॥	भोजन करके त्यागी इह वस्तुका
सासका नाम १ ॥ पीयूष १ ॥	नाम १ ॥ फेला १ ॥ ५६ ॥
अशनाया बुभुक्षा धु	काम प्रकामं पर्याप्तं निकामेष्ट
मूखक नाम १ ॥ अशनाया १	ययस्त्वितम् ॥
युष्मा २ क्षुध् ३ ॥	इष्टाके नाम १ ॥ काम १ प्रकाम २
-दमोसस्तु क्वलं पुमान् ॥ ५४ ॥	पर्याप्त ३ निकाम ४ इष्ट ५ ययस्त्वित ६ ॥
मासके नाम २ ॥ मास १	गोपे गोपालगोसंख्यगोधुगा
क्वळ २ ॥ ५४ ॥	भीरबह्वर्षा ॥ ५७ ॥
सपीति स्त्री मुस्यपान-	अहीरक नाम ६ ॥ गोप १ गोपाव
सायपीनेके नाम २ ॥ सपीति १	२ गोसख्य ३ गोदुह ४ आभीर ५
मुस्यपान २ ॥	बहुव ६ ॥ ५७ ॥
-सग्धि' स्त्री सहभोजनम् ॥	गोमहिष्यादिक पादबन्धन-
एकसायभोजन करनेके नाम २ ॥	घरमें बांधने कायक गाय भैंस
सग्धि १ सहभोजन २ ॥	आशिका नाम १ ॥ पादबन्धन १ ॥
उदन्या तु पिपासा वृत्तं तपो-	-द्वी गवीश्वरे ॥ गोमान्गोमा-
त्वासक नाम ४ ॥ उदन्या १	गाय ७ आशिकके नाम १ ॥ गवीश्वर
पिपासा २ वृत्त ३ तप ४ ॥	१ गोमन् २ गोमिन् ३ ॥
-अग्धिस्तु भोजनम् ॥ ५५ ॥	-गोकुर्मं तु गाघन स्याद्गर्वा
जैमन छेद आहारा निघसो न्याद	प्रज ॥ ५८ ॥
इत्यपि ॥	गावोंके समूहके नाम २ ॥ गोउष्ट
भोजनके नाम ७ ॥ अग्धि १ भोजन	१ गोघन २ ॥ ५८ ॥
२ ॥ ५५ ॥ अमन ३ उद ४ आहार	त्रिष्याशितं गवीनं वृत्तावो य
५ निघ्न ६ स्यात् ७ ॥	शाशिकां पुरा ॥ •
मौदित्य तपण वृत्ति -	जदोगवा भाषितो परित्र निजापा
वृत्तिके नाम १ ॥ मौदित्य १ तपण २ वृत्ति ३ ॥	

गया हो उस स्थानका नाम १ ॥ आ-
शितगवीन १ ॥

उक्षा भद्रो वलीवर्द ऋषभो
वृषभो वृषः ॥९९ ॥ अनड्वान्सौ
रभेयो गौ-

बैलके नाम ९॥ उक्षन् १ भद्र २
वलीवर्द ३ ऋषभ ४ वृषभ ५ वृष ६ ॥९९ ॥
अनडुह ७ सौरभेय ८ गो ९ ॥

रुक्षणां संहतिरौक्षकम् ॥
बैलके समूहका नाम १ ॥ औक्षक १ ॥

गव्या गोत्रा गवाम्-
गायोंके समूहके नाम २ ॥ गव्या १
गोत्रा २ ॥

-वत्सधेन्वोर्वात्सकधैनुके ॥६० ॥
बछड़ोंके समूहका नाम १ ॥ वात्सक
१ धेनुओंके समूहका नाम १ ॥ धे-
नुक १ ॥ ६० ॥

वृषो महान्महोक्षः स्या-
बड़े बैलके नाम १ ॥ महोक्ष ॥

-दृद्धाक्षस्तु जरद्रवः ॥
बृटे बैलका नाम २ ॥ वृद्धोक्ष १
जरद्रव २ ॥

उत्पन्न उक्षा जातोक्षः-
जवान बैलका नाम १ ॥ जातोक्ष १

-सद्याजातस्तु तर्णकः ॥ ६१ ॥
छोटे बछड़ेका नाम १ ॥ तर्णक १ ॥ ६१ ॥

शकृत्कारिस्तु वत्सः स्या-

बछड़ेमात्रके नाम २ ॥ शकृत्कारि १
वत्स २ ॥

-दम्यवत्सतरौ समौ ॥
थोड़े जवान बछड़ेके नाम २ ॥
दम्य १ वत्सतर २ ॥

आर्षभ्यः षण्डतायोग्यः-
बधिया करने लायकका नाम १ ॥
आर्षभ्य १ ॥

-षण्डो गोपतिरिट्चरः ॥ ६२ ॥
साढके नाम ३ ॥ षण्ड १ गोपति २
इट्चर ३ ॥ ६२ ॥

स्कन्धदेशे त्वस्य वहः-
बैलके कन्धेका नाम १ ॥ वह १ ॥

सास्त्रा तु गलकम्बलः ॥
गैयोंके गलेमें जो मास लटकता है
उस मासके नाम २ ॥ सास्त्रा १
गलकम्बल २ ॥

स्यान्नस्तितस्तु नस्योतः-
नाथवाले बैलके नाम २ ॥ नस्तित १
नस्योत २ ॥

-प्रष्ठवाड युगपार्श्वगः ॥ ६३ ॥
जिससे गाडीमें जातनेके अर्थ बैल
सधावे जायें उस काष्ठके नाम ॥ २ ॥
प्रष्ठवाड १ युगपार्श्वग २ ॥ ६३ ॥

युगादीनां तु वोढारो युग्य-
मासङ्गचशाकदाः ॥

शुपके उठानेवालेका नाम १ ॥

शुग्य १ ॥ जोड़के उठानेवालेका नाम १ ॥

प्रासङ्ग्य १ ॥ उठानेके उठानेवाले के उठका

नाम १ ॥ शाकट १ ॥

स्वनति तेन उद्योढाऽस्येव
हालिकसीरिकी ॥ ६४ ॥

इसमें उठानेवालेके नाम २ ॥ हालिक

१ सीरिक २ ॥ ६४ ॥

पूर्वहे धुयभीरियधुरीणा
सधुरभरा ॥

बोधा उठानेवालेके उठका नाम ९ ॥

पूर्वहे १ धुर्म २ धीरिय ३ धुरीण ४

धुरम्भर ५ ॥

उभावेके धुरीणिकधुरावेकधु

रावहे ॥ ६५ ॥

एक वासके उठानेवालेके नाम ३ ॥ एक-

धुरीण १ एकधुर २ एकधुरावह ३ ॥ ६५ ॥

स तु सर्वधुरीणं स्याद्यो वे
सर्वधुरावह ॥

जो सब बोधा छे चले उसके नाम

२ ॥ सर्वधुरीण १ सर्वधुरावह २ ॥

माहेयी सीरभेयी गौरुसा

माता च शृगिणी ॥ ६६ ॥

अशुस्यञ्ज्या रोदिणी स्यात्-

गायन नाम ० ॥ माहयी १ सीर हा उस गावक नाम ॥ अरताया १

भयी २ गौ ३ स्यात्साम् ५ शृगिणी सबद्रमा ६ ॥

६ ॥ ६६ ॥ अर्जुनी ७ अण्वा ८

रोदिणी ९ ॥

-शुपमा गोषु नैचिकी ॥

अच्छीगावका नाम ३ ॥ नैचिकी १ ॥

वर्णोदिभेदास्तज्ञा स्युः श्व

खीषवलादयः ॥ ६७ ॥

वित्तकर्तरीका नाम १ ॥ खखी १ ॥

सनेरका नाम १ ॥ खखी १ ॥ ६७ ॥

दिहायनी दिवर्षा गौ-

दो वर्षकी गायक नाम २ ॥ दिहा

यनी १ दिवर्षा २ ॥

-रेकाब्दा त्वेकाहायनी ॥

एकवर्षकीक नाम २ ॥ एकब्दा १

एकहायनी २ ॥

चतुरब्दा चतुर्हाय-

चार वर्षकीके नाम २ ॥ चतुरब्दा १

चतुर्हायणी २ ॥

-प्येवं ध्यब्दा त्रिहायणी ॥ ६८ ॥

तीन वर्षकीक नाम २ ॥ ध्यब्दा १

त्रिहायणी २ ॥ ६८ ॥

वशा वन्ध्या-

वासके नाम २ ॥ वशा १ वन्ध्या २

-ऽवतोका तु सवद्रमा-

त्रिसहा अफम्मात् गर्भ गिराया

हा उस गावक नाम ॥ अरताया १

वशा २ गौ ३ स्यात्साम् ५ शृगिणी सबद्रमा ६ ॥

-थे सन्धिनी ॥

आक्रान्ता वृषभेणा-

बैलके साथ लगाई हुई गायका नाम

१॥ संधिनी १ ॥

-थ वेहद्रभोपघातिनी ॥६९॥

बैलके सयोगसे गर्भको गिरा देने-

वाली गायके नाम २ ॥ वेहत् १ गर्भो-

पघातिनी २ ॥ ६९ ॥

काल्योपसर्या प्रजने-

जिसको गर्भ धारण करनेका समय

हो उसका नाम १ ॥ उपसर्या १ ॥

-प्रष्टौही वालगर्भिणी ॥

पहलौनका नाम १ ॥ प्रष्टौही १॥

स्यादचण्डी तु सुकरा-

सूधी गौके नाम २ ॥ अचण्डी १

सुकरा २ ॥

-बहुसूतिः परेष्टुकाः ॥ ७० ॥

बहुत दफे व्याई हुईके नाम २ ॥

बहुसूति १ परेष्टुका २ ॥ ७० ॥

चिरप्रसूता वष्कयिणी-

वकेन (बहुतदिनोंमें व्यानेवाली)

गायके नाम २ ॥ चिरप्रसूता १ वष्क-

यिणी २ ॥

-धेनुः स्यान्नवसूतिका ॥

नई व्याई हुईके नाम २ ॥ धेनु १

नवसूतिका ॥

सुव्रता सुखसन्दोह्या-

जो सरलतासे दुहोंजाय उस गायके

नाम २ ॥ सुव्रता १ सुखसदोह्या २॥

-पीनोघ्री पीवरस्तनी ॥७१॥

बड़े अयनवालीके नाम २ ॥ पीनोघ्री

१ पीवरस्तनी २ ॥ ७१ ॥

द्रोणक्षीरा द्रोणदुग्धा-

द्रोण १ २ ॥ सेरदूध देनेवालीके नाम

२ ॥ द्रोणक्षीरा १ द्रोणदुग्धा २ ॥

-धेनुष्या बन्धके स्थिता ॥

गिरवी रखी हुईका नाम १ ॥

धेनुष्या १ ॥

समांसमीना सा यैव प्रतिवर्ष

प्रसूयते ॥ ७२ ॥

प्रतिवर्ष व्यानेवाली गौका नाम १ ॥

समासमीना १ ॥ ७२ ॥

ऊधस्तु क्लीवमापान-

अयन (औहडी) के नाम २ ॥ ऊधस्त

१ आपीन २ ॥

--समौ शिवककीलकौ ॥

खूटके नाम २ ॥ शिवक १ कीलक २ ॥

न पुंसि दाम सन्दानं-

दुहनेके समय पाषवाधनेकी रस्सीके

नाम २ ॥ दामन् १ सदान २ ॥

पशुरज्जुस्तु दामनी ॥७३॥

पशु बाधनेकी रस्सीके नाम २ ॥ पशु-

रज्जु १ दामनी २ ७३ ॥

वैशाखमन्यमन्यानमन्यानो
मन्यदण्डके ॥

मयनेका दबा अर्थात् रईके नाम १ ॥

वैशाख १ मन्य २ मन्यान ३ मयिन
४ मन्यदण्डके १ ॥

कुठरो दण्डविष्कम्भो-

जिसमें रई बांधी जाय उस काष्ठके

नाम २ ॥ कुठर १ ॥ दण्डविष्कम्भ २ ॥

मयनी गर्गरी समे ॥ ७४ ॥

मयनेके पात्रके नाम २ मयनी १

गर्गरी २ ॥ ७४ ॥

उष्ट्रे क्रमेत्कमयमहाङ्गाः-

ऊके नाम ४ ॥ उष्ट्र १ क्रमेत्क २

मय ३ महांग ४ ॥

-करमं शिशु ॥

ऊके बच्चेके नाम २ ॥ करम १

शिशु २ ॥

करमा स्युं शूरबलका वार्षी

पादमन्धने ॥ ७२ ॥

बाठम पेरयथ हुर बबका नाम १ ॥

शूरबल १ ॥ ७२ ॥

अजा छागी-

पक्षि नाम २ ॥ अजा १ छागी २ ॥

गुभच्छागयस्तच्छुगलका अजे

इति नाम ॥ गुभ १ छाग

मेत्रोरञ्जोरणोर्णायुमेपवृष्णप प
डके ॥ ७६ ॥

मेडके नाम ७ ॥ मद् १ उज २

तरण ३ ऊर्णायु ४ मय ५ वृष्णि ६

एडके ७ ॥ ७६ ॥

उष्ट्रोरञ्जाजवृन्दे स्यादीष्टकौर
भ्रकाजकम् ॥

ऊटके समूहका नाम १ ॥ औष्टक १ ॥

मेडके समूहका नाम १ ॥ औभ्रक

१ ॥ भ्रके (वक्रके) समूहका नाम १ ॥

भानक १ ॥

चक्रोवन्तस्तु वाखेया रासमा
गदमा खराः ॥ ७७ ॥

गधेक नाम ५ ॥ चक्रोवन्त १ वाख्य

२ रासम ३ गदम ४ खर ५ ॥ ७७ ॥

वेदेहकं साधवाहो नैगमो वाणि

जो वाणिफ ॥ पण्याजीवो ह्याप

णिकं क्रयविक्रयिकश्च स ॥ ७८ ॥

व्यापारीक नाम ८ ॥ वेदेहक १ साध

वाह २ नंगम निगम ३ वाणिज ४

पणित ५ ॥ पण्याजीव ६ व्यापारिक ७

क्रयविक्रयिक ८ ॥ ७८ ॥

विमेता स्याद्विक्रयिकाः-

पामेता इति नाम २ ॥ विमे १

-क्रायिकक्रायिको समौ ॥
मोल लेनेवालेके नाम २ ॥ क्रायिक
१ क्रयिक २ ॥

वाणिज्यं तु वणिज्या स्या-
व्यापारके नाम २ ॥ वाणिज्य १
वणिज्या २ ॥

-मूल्यं वस्त्रोऽप्यवक्रयः ॥७९॥
मोलके नाम ३ ॥ मूल्य १ वस्त्र २
अवक्रय ३ ॥ ७९ ॥

नीवी परिपणो मूलधनं-
मूलधनके नाम ३ ॥ नीवी १ परि-
पण २ मूलधन ३ ॥

-लामोऽधिकं फलम् ॥
नफेके नाम ३ ॥ लाम १ अधिक २ फल ३

परिदानं परीवर्तो नैमेयनिम-
यावपि ॥ ८० ॥

अदले बदलेके नाम ४ ॥ परिदान १
परीवर्त्त २ नैमेय ३ निमय ४ ॥ ८० ॥

पुमानुपनिधिर्न्यासः-
धरोहरके नाम २ ॥ उपनिधि १ न्यास २ ॥

-प्रतिदानं तदर्पणम् ॥

धरोहर लौटा देनेके नाम २ ॥ प्रति-
दान १ तदर्पण २ ॥

क्रये प्रसारितं क्रय्यं-

बेचनेके अर्थ दुकानमें रक्खी हुई
वस्तुका नाम १ ॥ क्रय्य १ ॥

क्रयं क्रेतव्यमात्रके ॥ ८१ ॥
दुकानपर रखने योग्य वस्तुका नाम
१ ॥ क्रय १ ॥ ८१ ॥

विक्रेयं पणितव्यं च पण्यं-
बेचनेयोग्य वस्तुके नाम ३ ॥ विक्रेय
१ पणितव्य २ पण्य ३ ॥

-क्रय्यादयस्त्रिषु ॥
भाषा-क्रय्य आदि शब्द तीनों
लिंगोंमें होते हैं ॥

क्लीवे सत्यापनं सत्यङ्कारः स-
त्याकृतिः स्त्रियाम् ॥ ८२ ॥

साई अर्थात् बयानेके नाम ३ ॥ सत्या-
पन १ सत्यङ्कार २ सत्याकृति ३ ॥ ८२ ॥

विपणो विक्रयः-
बेचनेके नाम २ ॥ विपण १ विक्रय २ ॥

-संख्याः संख्येये ह्यादश त्रिषु ॥
एकसे अष्टादश पर्यंत संख्या गिनने

योग्य वस्तुमें रहती है और वह सख्याशब्द
संख्येय शब्दवत् तीनों लिंगोंमें होते हैं ॥

विंशत्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः
संख्येयसंख्ययोः ॥ ८३ ॥

विंशति (बीस) आदि सपूर्ण सख्या
(गिनती) और सख्येय अर्थात् गिनने-

योग्य वस्तुमें रहती है और विंशति आदि
शब्द सदा एकवचन होते हैं ॥ ८३ ॥

संख्यार्थं द्विवहुत्वे स्त-

क.कल निन्ती अर्थवाले विंशति आदि
शब्द शिषचन और बहुवचनमें होत है ॥

—स्वासु चानवते स्त्रिय ॥

विंशति आदि नवतिपर्यंत शब्द
स्त्रीलिङ्ग होत हैं ॥

पक्ते शतसहस्रादि क्रमाद्
शतशुणोत्तरम् ॥ ८४ ॥

दश संख्याका क्रमसे उत्तरोत्तर दश
गुण शत सहस्र आदि संख्याएँ होती
हैं ॥ ८४ ॥

यौतव वृष्य पाय्यमिति
मानार्थकं त्रयम् ॥

सोच्छेके नाम ३ ॥ यौतव १ वृष्य
२ पाय्य ३ ॥

मानं तुलांशुभिप्रस्यै-

(सोछ तीन प्रकारकी है) तुलामान
१ अंगुलिमान २ प्रस्यमान ३ ॥

—शुभ्राः पञ्चाद्यमायक ॥ ८५ ॥

पाँच रसीका शास्त्रोक्त मापा
मासा होता है ॥ ८५ ॥

ते पौडशासः कर्पोऽस्त्री-

सोच्छमासका एक अक्ष होता है
उसको ही कर्प कहते हैं ॥

—पठं कर्पचतुष्टयम् ॥

चार कर्पका एक पठ होता है ॥

सुवणविस्तौ हेम्रोक्षे-

कपमर सुवर्णके नाम २ ॥ सुवर्ण १
विस्त २ ॥

—कुम्बिस्त्वस्तु वत्पले ॥ ८६ ॥

पठमर सुवर्णका नाम १ ॥ कुम्ब-
विस्त १ ॥ ८६ ॥

तुला स्त्रियां पठशत-

सी पठका नाम १ ॥ तुला १ ॥

—भार स्मार्दिश्रुतिस्तुला ॥

धीत तुलाका नाम १ ॥ भार १ ॥

आचितो दश माराः स्युः-

दशमारका नाम १ ॥ आक्षि १ ॥

—शाक्यो भार आचित ॥ ८७ ॥

शाक्यमर मारका नाम १ ॥ आक्षि
१ ॥ ८७ ॥

कापापणं कार्षिकं स्या-

चादीक स्ययके नाम २ ॥ कार्षा-
पण १ कार्षिक २ ॥

—त्कार्षिके चात्रिके पणः ॥

तामेका कार्षापण अर्थात् पैसका
नाम पण १ ॥

अस्त्रियामाढकद्रोणौ खारी

वाहो निकुञ्चकः ॥ ८८ ॥

कुम्ब प्रस्य इत्याद्याः परि

माणार्थकं पृथक् ॥

(चार रसका नाम) भाटक १

(भाट आढकका नाम) द्रोण १ ॥

(तीन द्रोणका नाम) खारी १ ॥ (आठ द्रोणका नाम) वाह १ ॥ (सुट्टीभरका नाम) निकुचक १ ॥ ८८ ॥ (पावभरका नाम) कुडव १ ॥ (सेरभरका नाम) प्रस्य १ ॥ इत्यादि अलग २ तोलके नाम हैं ॥

पादस्तुरीयो भागः स्या-

चौथे भागका नाम १ ॥ पाद १ ॥

-दंशभागौ तु वण्टके ॥ ८९ ॥

बाट अर्थात् भागके नाम ३ ॥ अश १ भाग २ घटक ३ ॥ ८९ ॥

द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्थमृक्थं धनं वसु ॥ हिरण्यं द्रविणं द्युम्नमर्थैरेविभवा अपि ॥ ९० ॥

धनके नाम १३ ॥ द्रव्य १ वित्त २ स्वापतेय ३ रिक्थ ४ ऋक्थ ५ धन ६ वसु ७ हिरण्य ८ द्रविण ९ द्युम्न १० अर्थ ११ १२ विभव १३ ॥ ९० ॥

स्यात्कोषश्च हिरण्यं च हेमरूप्ये कृताकृते ॥

गढे वा नहीं गढे हुए सोने वा चांदीके नाम २ ॥ हिरण्य १ कोष २ ॥

ताभ्यां यदन्यत्तत्कुप्यं-

सोने चांदीसे अन्य ताम्रादि धातुका नाम १ ॥ कुप्य १ ॥

-रूप्य तद्व्यमाहतम् ॥ ११ ॥

तावा और चांदीके मिलाये हुएका नाम १ ॥ रूप्य १ ॥ ९१ ॥

गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भं हरिन्मणिः ॥

मरकतमणिके नाम ४ ॥ गारुत्मत १ मरकत २ अश्मगर्भ ३ हरिन्मणि ४ ॥

शोणरत्नं लोहितकः पद्मरागो-
पद्मरागमणिके नाम ३ ॥ शोणरत्न १ लोहितक २ पद्मराग ३ ॥

-ऽथ मौक्तिकम् ॥ ९२ ॥

मुक्ता-

मोतीके नाम २ ॥ मौक्तिक १ ॥ ९२ ॥
मुक्ता २ ॥

-ऽअथ विद्रुमः पुंसि प्रवालं

पुंनपुंसकम् ॥
मूंगके नाम २ ॥ विद्रुम १ प्रवाल २ ॥

रत्नं मणिर्द्वयोरश्मजातौ मुक्ता-
दिकेपि च ॥ ९३ ॥

पद्मराग आदि पापाण जाति और मुक्ताफल आदिके नाम २ ॥ रत्न १ मणि २ ॥ ९३ ॥

स्वर्णं सुवर्णं कनकं हिरण्यं हेम

हाटकम् ॥ तपनीयं शातकुम्भं गांगेयं भर्म कर्तुरम् ॥ ९४ ॥

चामीकरं जातरूपं महारजतं काञ्चने ॥ रुक्मं कार्तरवरं जा-

म्बूनदमष्टापदोजस्त्रियाम् ॥ ९५ ॥

सुवर्णक नाम १९।स्वर्ण १ सुवर्ण २
कनक ३ हिरण्य ४ इमन् ५ हाटक ६ तप
नीय ७ शातकुन्म ८ गोगिय ९ मर्मन् १०
कर्तुर ११ ॥ ९४ ॥ चामीकर १२
जातरूप १३ महारजत १४ काचन १५
रुक्म १६ कार्ष्णिक १७ जङ्गुनद १८
भाष्टापद १९ ॥ ९५ ॥

अलकारसुवर्णं यच्चद्वितीयक-
मित्यद् ॥

सुवर्णके गहनेका नाम १।प्रागीकनक १॥
दुर्वर्ण रजस रूप्य खर्वुरं श्वेतमि-
त्यपि ॥ ९६ ॥

चादीक नाम ९।दुर्वर्ण १ रजस २
रूप्य ३ खर्वुर ४ इक ५ ॥ ९६ ॥

रीति स्त्रियामारकूटो न स्त्रि-
या-

पीतक नाम २।रीति १ आरकूट २ ॥
-मश ताम्रकम् ॥ शुल्ब म्ले

च्छमुजब्यष्टवरिष्टोदुम्बराणि
घ ॥ ९७ ॥

ताम्रक नाम ३।ताम्रक १ तुम्ब २
उष्णमुम १ उष्ण ३ वरिष्ट ४ उदुपर ५
॥ ९७ ॥

लोहोष्ठी शस्त्रकं तीक्ष्ण
पिण्डं काण्यगयायसी ॥
अशमगागे-

लोहके नाम ७ ॥ लोह १ शस्त्रकर
तीक्ष्ण ३ पिण्ड ४ काण्यगयायसी
अस्मसार ७ ॥

-ऽय मण्डूर सिंहाणमपि
तन्मले ॥ ९८ ॥

लोहकं मळ अर्थात् मण्डूरके नाम २ ॥
मण्डूर १ सिंहाण २ ॥ ९८ ॥

सर्वं च तेजसं लोह-
चादी सोना लोहादि सर्ववातुभोका
नाम १ ॥ लोह १ ॥

-विकारस्त्वयसं कुशी ॥
लोहके फाल्का नाम १ ॥ कुशी १ ॥

क्षारः काचो-
काचक नाम २ ॥ क्षार १ काच २ ॥

-ऽय चपलो रसं सूच्य
पारदे ॥ ९९ ॥

पारक नाम ४ ॥ चपल १ रस २
सूत ३ पारद ४ ॥ ९९ ॥

गवलं माह्विप शृग-
मसेक सीगका नाम १ ॥ गफ्त १ ॥

-मम्रक गिरिजामलं ॥
अमरकके नाम ३।मम्रक १ गिरिज २
अमउ ३ ॥

स्रोतोधनं तु सौधीर कापा
ताम्रनयामुने ॥ १०० ॥

मुगके नाम ३।स्रोतोधन १ सौधीर
रकापोतावन ३ यामुन ४ ॥ १० ॥

तुत्याञ्जनं शिखिप्रीव वितुन्न-
कमयूरके ॥

तूतिया (नीलाथोथा) के नाम ४ ॥
तुत्याञ्जन १ शिखिप्रीव २ वितुन्नक ३
मयूरक ४ ॥

कर्परी दाविका काथोद्भवं तुत्यं-
तूतियाके भेद ३ ॥ कर्परी १ दाविका
२ तुत्य ३ ॥

-रसाञ्जनम् ॥ १०१ ॥

रसगर्भं तार्क्ष्यशैलं-

रसोतके नाम ३ ॥ रसाञ्जन १ ॥ १०१ ॥
रसगर्भ २ तार्क्ष्यशैल ३ ॥

-गन्धाश्मनि तु गन्धिक. ॥

सौगन्धिकश्च-

गन्धिकके नाम ३ ॥ गन्धाश्मन् १
गन्धिक २ सौगन्धिक ३ ॥

-चक्षुष्याकुलाल्यौ तु कुल-
त्थिका ॥ १०२ ॥

काले सुमेके नाम ३ ॥ चक्षुष्या १
कुलाली २ कुलत्थिका ३ ॥ १०२ ॥

रीतिपुष्पं पुष्पकेतु पौष्पकं
कुसुमाञ्जनम् ॥

पीतलको तपाके विसनेसे जो अजन
वने उसके नाम ४ ॥ रीतिपुष्प १ पुष्प
केतु २ पौष्पक ३ कुसुमाञ्जन ४ ॥

पिञ्जरं पातिनं तालमालं च-

-हरितालके ॥ १०३ ॥

हरितालके नाम ५ ॥ पिञ्जर १
पीतन २ ताल ३ आल ४ हरिता-
लक ५ ॥ १०३ ॥

गैरेयमथ्यं गिरिजमश्मजं च
शिलाजतु ॥

शिलाजीतके नाम ५ ॥ गैरेय १ अथ्य
२ गिरिज ३ अश्मज ४ शिलाजतु ५ ॥

बोलगन्धरसप्राणपिण्डगोप-
रसाः समाः १०४ ॥

गन्धरसके नाम ५ ॥ बोल १ गन्धरस
२ प्राण ३ पिण्ड ४ गोपरस ५ ॥ १०४ ॥

डिण्डीरोऽब्धिकफः फेनः-

समुदरझागके नाम ३ ॥ डिंडीर १
अब्धिकफ २ फेन ३ ॥

-सिन्दूरं नागसंभवम् ॥

सिन्दूरके नाम २ ॥ सिदूर १ नाग
सम्भव २ ॥

नागसीसकयोगेष्टवप्राणि-

सीसेके नाम ४ ॥ नाग १ सीसक २
योगेष्ट ३ वप्र ४ ॥

-त्रपु पिच्चटम् ॥ १०५ ॥

रङ्गवङ्गे-

रागके नाम ४ ॥ त्रपु १ पिच्चट २
॥ १०५ ॥ रग ३ वग ४ ॥

-अथ पिचुस्तूलो-

रुक्मि नाम २ ॥ पिचु १ सूख २ ॥	जयाखारक नाम ३ ॥ पक्काश १
-ऽथ कमलोत्तरम् ॥ स्यात्कुसु	यवाम्रज २ ॥ १०८ ॥ पाक्य ३ ॥
म्भ षड्विंशति महारजनमि	-ऽथ सर्जिकाक्षारः कापोतः
त्यापि ॥ १०६ ॥	सुखवधक ॥ सौवर्चल स्या-
कुसुम्भके नाम ४ कमलोत्तर १ कुसुम्भ	द्रुचक-
२ षड्विंशति ३ महारजन ४ ॥ १०६ ॥	सर्जिके नाम ५ ॥ सर्जिकाक्षार १ कापोत
मेपकम्बल ऊर्णायुः-	२ सुखवधक ३ सौवर्चल ४ रुचक ५ ॥
ऊनी कम्बलके नाम २ ॥ मेपकम्बल	-त्वक्क्षीरी वशरोचना ॥ १०९ ॥
१ ऊर्णायु ० ॥	वशलोचनक नाम १ ॥ त्वक्क्षीरी
-शशोर्ण शशलोमाने ॥	१ वशरोचना २ ॥ १०९ ॥
वरगोसकी उनके नाम २ ॥ शशोर्ण १	शिप्रज श्वेतमरिच-
शशलोमान २ ॥	'सफेदमिर्चके नाम २ ॥ शिप्रज १
मधु क्षौद्र माक्षिकादि-	रक्तमरिच २ ॥
शहदक नाम २ ॥ मधु १ क्षौद्र २	-मोरटं मूलमैक्षवम् ॥
माक्षिक ३ ॥	इक्षुकी अडका नाम १ ॥ मोरट १ ॥
मधुच्छिष्ट तु सिक्वकम् ॥ १०७ ॥	अन्थिक पिप्पलीमूलं चटका
मोमके नाम २ ॥ मधुच्छिष्ट १ सिक्वक	शिर इत्यपि ॥ ११० ॥
२ ॥ १ ० ॥	पीपलामूलके नाम ३ ॥ अन्थिक १
मनशिला मनोगुप्ता मनोहा	पिप्पलीमूल २ चटकाशिरस ३ ॥ ११ ॥
नागजिह्विका ॥ नैपाली कुन्ती	गोलोमी मूतकेशो ना-
गोला-	जटामांसीके नाम २ ॥ गोलोमी १
मैतिलिक नाम ७ ॥ मनशिला १	मूतकेश २ ॥
मनोगुप्ता २ मनोहा ३ नागजिह्विका	-पत्राङ्ग रक्तचन्दनम् ॥
४ नैपाली ५ कुन्ती ६ गोला ७ ॥	पतंगके नाम २ ॥ पत्राङ्ग १
-यवसारो यवाम्रजः ॥ १०८ ॥	रक्तचन्दन २ ॥
पाक्यो-	त्रिकटु श्यूपर्ण ध्योर्ष-

सौंठ पीपल मिर्च इन तीनोंके समूहके
नाम ३॥ त्रिकटु १ श्यूषण २ व्योष ३॥

-त्रिफला तु फलत्रिकम् ॥१११॥

आत्रला हरड - वहेडा इन तीनोंके
समूहके नाम २ ॥ त्रिफला १ फलत्रिक
२ ॥ १११ ॥

इति वैश्यवर्गः ॥ ९ ॥

अथ शूद्रवर्गः १०.

शूद्राश्चावरवर्णाश्च वृषलाश्च
जघन्यजाः ॥

शूद्रके नाम ४ ॥ शूद्र १ अवरवर्ण २
वृषल ३ जघन्यज ४ ॥

आचण्डालात्तु सङ्कीर्णा अम्बष्ठ
करणादयः ॥ १ ॥

(ब्राह्मणीमें शूद्रसे उत्पन्न हो उसका
नाम) चण्डाल १ ॥ चण्डालसे ले अम्बष्ठ
करण आदिकोंका नाम १ ॥ सर्कार्ण १ ॥ १ ॥

शूद्राविशोस्तु करणो-

शूद्रामें वैश्यसे उत्पन्नहुएका नाम १ ॥
करण १ ॥

-ऽम्बष्ठो वैश्याद्विजन्मनोः ॥

वनैनीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न हो तो
उसका नाम १ ॥ अम्बष्ठ १ ॥

शूद्राक्षत्रिययोरुयो-

शूद्रामें क्षत्रियसे उत्पन्नहुएका नाम
१ ॥ उग्र १ ॥

-मागधः क्षत्रियाविशोः ॥२॥

क्षत्रियाणीमें वैश्यसे उत्पन्नहुएका

नाम १ ॥ मागध १ ॥ २ ॥

माहिष्योर्याक्षत्रिययोः-

वनैनीमें क्षत्रियसे उत्पन्नहुएका

नाम १ ॥ माहिष्य १ ॥

-क्षत्ताऽर्याशूद्रयोः सुतः ॥

वनैनीमें शूद्रसे उत्पन्नहुएका नाम

१ ॥ क्षत्तु १ ॥

ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूत-

ब्राह्मणीमें क्षत्रियसे उत्पन्न हुएका

नाम १ ॥ सूत १ ॥

-स्तस्यां वैदेहको विशः ॥ ३ ॥

ब्राह्मणीमें वैश्यसे उत्पन्नहुएका नाम

१ ॥ वैदेहक १ ॥ ३ ॥

रथकारस्तु माहिष्यात्करण्यां
यस्य संभवः ॥

करणोंमें माहिष्यसे उत्पन्न हुएका

नाम १ ॥ रथकार १ ॥

स्याच्चण्डालस्तु जनितो ब्राह्म-

ण्यां वृषलेन यः ॥ ४ ॥

ब्राह्मणीमें शूद्रसे उत्पन्न हुएका

नाम १ ॥ चण्डाल १ ॥ ४ ॥

कारुः शिल्पी-

कारीगरोके नाम २ ॥ कारु १

शिल्पिन् २ ॥

—सहस्रैस्तेद्वयोः श्रेणिं सजा
तिभिः ॥

कारीगरोंके समूहका नाम १ ॥ श्रेणि १ ॥

कुलकं स्यात्कुलश्रेणी-

कारीगरोंके अफसर अर्थात् मिस्तरोंके नाम २ ॥ कुलक १ कुलश्रेणी २ ॥

—मालाकारस्तु मालिकं ॥ ५ ॥

माळीके नाम २ ॥ मालाकार १
मालिक २ ॥ ५ ॥

कुम्भकार कुलालं स्या-

कुम्भारके नाम २ ॥ कुम्भकार १
कुलाल २ ॥

—त्पलगण्डस्तु लेपकं ॥

कलमारके नाम २ ॥ पलगण्ड १
लेपक २ ॥

तन्तुवापं कुविन्दः स्या-

शुलाहके नाम २ ॥ तन्तुवाप १
कुविन्द २ ॥

—तुन्नवायस्तु सौधिकं ॥ ६ ॥

दरजीके नाम २ ॥ तुन्नवाप १
कुविन्द २ ॥ ६ ॥

रङ्गाजीवधिप्रकर -

चित्रकारके नाम २ ॥ रङ्गाजीव १
चित्रकर २ ॥

—शस्त्रमार्जोऽसिधावकं ॥

शिक्षिजीगरके नाम २ ॥ शस्त्रमार्ज
१ असिधावक २ ॥

पादुकृच्चर्मकार स्या-

चमारके नाम २ ॥ पादुकृत् १ चर्मकार २ ॥

—दधोकारो लोहकारकः ॥ ७ ॥

लोहारके नाम २ ॥ ७ ॥ लोहकारक २ ॥ ७ ॥

नाडिधमं स्वर्णकार कलादो

रुक्मकारकं ॥

सुनारके नाम ४ ॥ नाडिधम १
स्वर्णकार २ कलाद ३ रुक्मकारक ४ ॥

स्याच्छाङ्गुखिकं काम्बविक-

मन्डारके नाम २ ॥ शम्भिक १
काम्बविक २ ॥

—शौल्बिकस्तान्नफुटकं ॥ ८ ॥

ठेलेके नाम २ ॥ शौल्बिक १
तान्नफुटक २ ॥ ८ ॥

षष्ठा तु वर्धकिस्त्वष्टा रथका

रस्तु काष्ठतट ॥

कटके नाम ९ ॥ तक्षन् १ वर्धकि
२ तट ३ रथकार ४ काष्ठतट ५ ॥

ग्रामाधीनो ग्रामतक्ष-

गोंवके कटके नाम ९-॥ ग्रामा
धीन १ ग्रामतक्ष २ ॥

—कौटवसोऽग्नीधिनकः ॥ ९ ॥

स्वतन्त्रकटके नाम १ ॥ कौटवस
१ ॥ ९ ॥

धुरी मुण्डी दिवाकीर्तिनापि

तान्त्रावसायिनः ॥

नाईके नाम ५ ॥ क्षुरिन् १ मुडिन् २
दिवाकीर्ति ३ नापित ४ अन्तावसायिन् ५ ॥

निर्णेजकः स्याद्रजकः-

धोवीके नाम २ ॥ निर्णेजक १
रजक २ ॥

-शौण्डिको मण्डहारकः ॥ १० ॥

कलालके नाम २ ॥ शौण्डिक १

मण्डहारक २ ॥ १० ॥

जावालः स्यादजाजीवो-

गढरियेके नाम २ ॥ जावाल १

अजाजीव २ ॥

देवाजीवस्तु देवलः ॥

पण्डाके नाम २ ॥ देवाजीव १ ॥

देवल २ ॥

स्यान्माया शाम्बरी-

इन्द्रजालके नाम २ ॥ माया १

शाम्बरी २ ॥

मायाकारस्तु प्रतिहारकः ॥ ११ ॥

इन्द्रजाली अर्थात् बार्जागरके नाम २

मायाकार १ प्रतिहारक २ ॥ ११ ॥

शैलालिनस्तु शैलूषा जाया

जीवाः कृशाश्विनः ॥ भरता इत्यपि

नटा-

नटके नाम ६ ॥ शैलालिन् १ शै-

लूष २ जायाजीव ३ कृशाश्विन् ४

भरत ५ नट ६ ॥

श्रारणास्तु कुशीलवाः ॥ १२ ॥

कत्यकके नाम २ ॥ चारण १ कुशी-

लव २ ॥ १२ ॥

मार्दङ्गिका मौरजिकाः-

मृदगके वजानेवालेके नाम २ ॥

मार्दङ्गिक १ मौरजिक २ ॥

-पाणिवादास्तु पाणिघाः ॥

ताली वजानेवालेके नाम २ ॥ पा-

णिवाद १ पाणिघ २ ॥

वेणुध्माः स्युर्वैणविका-

वांसुरी वजानेवालेके नाम ॥ २ ॥

वेणुध्मा १ वैणविक २ ॥

वे -वीणावादास्तु वैणिकाः १३ ॥

वीणा वजानेवालेके नाम २ ॥ वीणा-

वाद १ वैणिक २ ॥ १३ ॥

जीवान्तकः शाकुनिको-

चिडीमारके नाम २ ॥ जीवान्तक

१ शाकुनिक २ ॥

-द्वौ वागुरिकजालिकौ ॥

व्याधके नाम २ ॥ वागुरिक १

जालिक २ ॥

वैतंसिकः कौटिकश्च मांसि-

कश्च समं त्रयम् ॥ १४ ॥

कसाईके नाम ३ ॥ वैतंसिक १

कौटिक २ मांसिक ३ ॥ १४ ॥

भृतको भृतिभुक्कर्मकरो वैत-

निकोऽपि सः ॥

मन्त्रके नाम ४ ॥ मृतक १ मृत्तिसु
ज् २ कर्मकर ३ भैतनिक ४ ॥

वार्तावहो वैवाधिको-

दूतके नाम २ ॥ वार्तावह १ वैव-
धिक २ ॥

-भारवाहस्तु भारिकः ॥ १५ ॥

बोधा उठनेवालेके नाम २ ॥

मारवाह १ भारिक २ ॥ १५ ॥

षिवर्ण पामरो नीच प्राकृ

पृथग्जनः ॥ निहीनोऽ-

पसदो जाल्मः क्षुद्रकश्चेत्तर
श्च मः ॥ १६ ॥

नीचके नाम १० ॥ षिवर्ण १ पामर २
नीच ३ प्राकृत ४ पृथग्जन ५ नि
हीन ६ अपसद ७ जाल्म ८ क्षुद्रक ९
इतर १० ॥ १६ ॥

भृत्ये दासेरदासेयदासगो
प्यकचेटकाः ॥ नियोज्य

किंकरमैष्यमुजिष्यपरिचारकाः १७

दास वा टडसुत्रके नाम १ ॥ मृत्य १

दासेर २ दासेय ३ दास ४ गोप्यक ५

चेटक ६ नियोज्य ७ किंकर ८ मैष्य ९

मुजिष्य १ परिचारक ११ ॥ १७ ॥

परायितपरिस्कन्दपरमातपरे

यिता ॥

जो दूसरेसे पाठाजाय उसके अयात्

रदुष्कारके नाम ४ ॥ परायित १ परिस्कन्द

२ परजात ३ परीयित ४ ॥

-मन्दस्तुन्दपरिमृज आलस्यः

शीतकोष्ठसोऽनुष्णः ॥ १८ ॥

आलसीके नाम ६ ॥ मंद १ तुन्दप

रिमृज २ आलस्य ३ शीतक ४ अलस ५

अनुष्ण ६ ॥ १८ ॥

दक्षे तु चतुरपेशलपटवः सु

स्थान उष्णश्च ॥

चतुरके नाम ६ ॥ दक्ष १ चतुर २

पेशल ३ पटु ४ सुस्थान ५ उष्ण ६ ॥

चण्डालप्लवमातङ्गदिवाकीर्ति

जनंगमा ॥ १९ ॥ निषाद्

शपचावन्तेवासिचाण्डालपुङ्गवाः ॥

चाण्डालके नाम १० ॥ चण्डाल १

प्लव २ मातङ्ग ३ दिवाकीर्ति ४ जनंगम

५ ॥ १९ ॥ निषाद् ६ शपच ७ अन्त

वासिन् ८ चाण्डाल ९ पुङ्गवा १० ॥

भेदाः किरातशयरपुलिन्दा म्हे

च्छजातयः ॥ २० ॥

म्हेच्छनातिके मेद जगदी गोर्मास

एानेराठ हेन्दुभादिके नाम ३ ॥ किरात

१ शबर २ पुन्दि ३ ॥ २० ॥

भ्याधा मृगवधामीवो मृग

युद्धवकाऽपि रा ॥

मृग पकडनेवालेके नाम ४ ॥ व्याध १

मृगवधाजीव २ मृगशु ३ लुब्धक ४ ॥

कौलेयकः सारमेयः कुक्कुरो

मृगदंशकः ॥ २१ ॥ शुनको

भषकः श्वा स्या-

कुत्तेके नाम ७ ॥ कौलेयक १

सारमेय २ कुक्कुर ३ मृगदशक ४ ॥ २१ ॥

शुनक ५ भषक ६ श्वन् ७ ॥

दलर्कस्तु स योगितः ॥

प्रयोगसे उन्मत्त ह्रए कुत्तेका नाम

१ ॥ अलर्क १ ॥

श्वा विश्वकद्रुर्मृगयाकुशलः-

शिकारी कुत्तेका नाम १ ॥ विश्व-

कद्रु १ ॥

-सरमा शुनी ॥ २२ ॥

कुतियाके नाम २ ॥ सरमा १ शुनी २ ॥ २२ ॥

विद्वचरः सूकरो ग्रास्यो-

गावके सूकरका नाम १ ॥ विद्वचर १ ॥

-वर्करस्तरुणः पशुः ॥

तरुणपशुका नाम १ ॥ वर्कर १ ॥

आच्छोदनं मृगव्यं स्यादाखेटो

मृगया स्त्रियाम् ॥ २३ ॥

शिकारके नाम ४ ॥ आच्छोदन १

मृगव्य २ आखेट ३ मृगया ४ ॥ २३ ॥

दक्षिणारुर्लुब्धयोगादक्षिणेर्मा

कुरङ्गकः ॥

व्याधने जिस मृगके दहिने अंगमे

मारा हो उसका नाम १ ॥ दक्षिणेर्मन् १ ॥

चौरैकागारिकस्तेनदस्युतस्क-

रमोपकाः ॥ २४ ॥ प्रतिरोधि-

परास्कान्दिपाटञ्चरमलिम्लुचाः ॥

चोरके नाम १० ॥ चोर १ एका-

गारिक २ स्तेन ३ दस्यु ४ तस्कर ५

मोपक ६ ॥ २४ ॥ प्रतिरोधिन् ७ परा-

स्कान्दिन् ८ पाटञ्चर ९ मलिम्लुच १० ॥

चौरिका स्तेन्यचौर्ये च स्तेयं-

चोरिके नाम ४ ॥ चौरिका १

स्तेन्य २ चौर्य ३ स्तेय ४ ॥

लोप्त्रं तु तद्धने ॥ २५ ॥

चौरीके मालका नाम १ ॥ लोप्त्र १ ॥ २५ ॥

वीतंसस्तूपकरणं बन्धने मृग-

पक्षिणाम् ॥

पक्षी वा मृगोंके पकडनेकी सामग्री

अर्थात् जालादिका नाम १ ॥ वीतंस १ ॥

उन्मायः कूटयन्त्रं स्या-

कावकपीजरे आदिके नाम २ ॥

उन्माय १ कूटयन्त्र २ ॥

-द्वागुरा मृगबन्धनी ॥ २६ ॥

जालके नाम २ ॥ वागुरा १

मृगबन्धनी २ ॥ २६ ॥

शुल्बं वराटकं स्त्री तु रज्जु-

स्त्रिषु वटी गुणः ॥

रस्तीके नाम १ ॥ झुल्य १ वरा
टक २ रम्भु ३ घटी ४ गुण ५ ॥
उट्टाटन घटीयन्त्र सलिलो
द्राह्न महेः ॥ २७ ॥
भरहटके नाम २ ॥ उट्टाटन १
घनीयन्त्र २ ॥ २७ ॥

पुसि वेमा वायदण्ड-
शुलाहेके कपडा धुननेके औजारके
नाम २ ॥ वेमन् १ वायदण्ड २ ॥
-सूत्राणि नरि सन्तवा-
सूत्रके नाम २ ॥ सूत्र १ सन्तु २ ॥
-वाणिल्युति* स्त्रियौ तुल्ये
कपडे आदिके धुननेके नाम २ ॥
वाणि १ व्युति २ ॥

-पुस्त लेप्यादिकर्मणि ॥ २८ ॥
मिट्टी आदिसे सीपने पोतनेका
नाम १ ॥ पुस्त १ ॥ २८ ॥
पाञ्चालिका पुत्रिका स्याद्
खदन्तादिभिः कृता ॥
गुहियाँ अर्थात् बखरकी पत्ताई
हई पुतलीके नाम २ ॥ पाञ्चालिका
१ पुत्रिका २ ॥
जतुप्रपुत्रिकारे तु जातुपं
प्रापुपं त्रिपु ॥
छाटक प्रकारका नाम १ ॥ जातुपं
पंगरु प्रकारका नाम १ ॥ प्रापुपं १ ॥

पिटक पेटक* पेटा मञ्जूषा-
पिटारेके नाम ४ ॥ पिटक १
पेटक २ पेटा ३ मञ्जूषा ४ ॥

5-य विद्वत्त्रिका ॥ २९ ॥
-भारयाष्टि-

बहमी (खैनी) के नाम २ ॥ मिह
गिका १ ॥ २९ ॥ भारयाष्टि २ ॥
स्तवालम्बि शिख्य काचो-
बहमीके छीकेके नाम २ ॥ शिख्य
१ काच २ ॥

-श्य पादुका ॥ पावूठपानत्स्त्री-
ज्याक नाम ३ ॥ पादुका १ पादूर
उपानत् ३ ॥

-सैवानुपदीना पदायता ॥ ३० ॥
मोजेके नाम १ ॥ अनुपदीना २ ॥ ३० ॥
नधी बधी वरत्रा स्या
चमरकी रस्तीके नाम ३ ॥ नधी १
बधी २ वरत्रा ३ ॥

-दग्धादेस्ताडनी कशा ॥
कोडका नाम १ ॥ कशा १ ॥
घण्डालिका तु कण्डोलकी-
णा घण्डालमलकी ॥ ३१ ॥
किन्तारीबाजोंके नाम ३ ॥ बाण्डा
डिका १ कण्डोलकीणा २ घण्डाल
मलकी ३ ॥ ३१ ॥

नाराची स्यादेषणिका—

काटा अर्थात् सोना आदि तोलनेकी तराजूके नाम २॥ नाराची १ एषणिका २॥

—शाणस्तु निकषः कषः ॥

कसौटीके नाम ३ ॥ शाण १
१ निकष २ कष ३ ॥

ब्रश्चना पत्रपरशु—

रेतीके नाम २॥ ब्रश्चना १ पत्रपरशु २॥

—रीषिका तूलिका समे ॥ ३२ ॥

सलाईके नाम २ ॥ ईपिका १
तूलिका २ ॥ ३२ ॥

तैजसा वर्तनी मूपा—

सुवर्ण इत्यादि धातु गलानेकी धरियाके नाम ३॥ तैजसा १ वर्तनी २ मूपा ३॥

—भस्त्रा चर्मप्रसेविका ॥

फूकनीके नाम २ ॥ भस्त्रा १ चर्म-
प्रसेविका २ ॥

आस्फोटनी वेधनिका—

वर्मेके नाम २ ॥ आस्फोटनी १
वेधनिका २ ॥

—कृपाणी कर्तरी समे ॥ ३३ ॥

एक प्रकारकी कैंचीके नाम २ ॥
कृपाणी १ कर्तरी २ ॥ ३३ ॥

वृक्षादनी वृक्षभेदी—

वसूले आदिके नाम २ ॥ वृक्षादनी
१ वृक्षभेदी २ ॥

—टंकः पाषाणदारणः ॥

टाकी अर्थात् पत्थरफोडनेके हथि-
यारके नाम २॥ टङ्क १ पाषाणदारण २॥

ऋकचोऽस्त्री करपत्र—

आरेके नाम २॥ ऋकच १ करपत्र २॥

—मारा चर्मप्रभेदिका ॥ ३४ ॥

आरीके नाम २॥ आरा १ चर्मप्र-
भेदिका २ ॥ ३४ ॥

सूर्मी स्थूणाऽयःप्रतिमा—

लोहेकी मूर्तिके नाम ३॥ सूर्मी १

स्थूणा २ अयःप्रतिमा ३ ॥

—शिल्पं कर्म कलादिकम् ॥

कारीगरीका नाम १ ॥ शिल्प १ ॥

प्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रति-

माप्रतियातना प्रतिच्छाया

॥ ३५ ॥ प्रतिकृतिरर्चा पुंसि

प्रतिनिधि—

प्रतिमा अर्थात् तसवीरके नाम ८॥

प्रतिमान १ प्रतिबिम्ब २ प्रतिमा ३

प्रतियातना ४ प्रतिच्छाया ५ ॥ ३५ ॥

प्रतिकृति ६ अर्चा ७ प्रतिनिधि ८ ॥

—रूपमोपमानं स्यात् ॥

मिसाल और जिसकी मिसाल दी

जाय उसके नाम २॥ उपमा १ उपमान २॥

वाच्यलिङ्गाः समस्तुल्यः स-

दृक्षः सदृशः सदृक् ॥ ३६ ॥

साधारणः समानश्च—

वराबरके नाम ७ ॥ सम १ तुल्य २

सदृश ३ सदृश ४ सदृश ५ ॥ ३६ ॥

साधारण ६ समान ७ ॥

-स्युरुत्तरपदे स्वमी ॥ निभस
काशनीकाशप्रतीकाशोपमाद
य ॥ ३७ ॥

समानक नाम ९ ॥ निभ १ सकाश २
नीकाश ३ प्रतीकाश ४ उपमा ५ ॥ ३७ ॥

कर्मण्या तु विद्या भृत्स्या भृतयो
भर्म वेतनम् ॥ भरण्य भरण मूल्य
निर्वेशः पण इत्यपि ॥ ३८ ॥

मञ्जरीक नाम ११ ॥ कर्मण्या १
विना २ भृत्या ३ भृति ४ भर्मन् ५ वेतन
६ भरण्य ७ भरण ८ मूल्य ९ निर्वेश
१० पण ११ ॥ ३८ ॥

सुरा इलिमिया हाळा परिसु
डरुणात्मजा ॥ गन्धोत्तमाप्रसन्ने
राकादम्बर्य परिसुता ॥ ३९ ॥
मदिरा फश्यमद्ये चा-

मदिरा अथात् शरावक नाम १३ ॥
सुरा १ इलिमिया २ हाळा ३ परिसुत ४
पक्षणात्मजा ५ गन्धोत्तमा ६ प्रसन्ना ७
इरा ८ फादम्बरी ९ परिसुता १ ॥ ३९ ॥

मदिरा ११ फश्य १२ मद्य १३ ॥

-यवदुस्तु भक्षणम् ॥

मद्यपानकी रुचि उत्पन्न करनेके
उपयुक्त नूना अना इत्यादिक पानक नाम
१ ॥ अक्षरश १ ॥

शुष्कापान मदस्थान-

मदिरा पीनेके स्थानके नाम २ ॥

शुष्कापान १ मदस्थान २ ॥

-मधुबारा मधुक्रमा ॥ ४० ॥

मदिरा पीनेके सम्मक नाम २ ॥ मधु
वार १ मधुक्रम २ ॥ ४० ॥

मध्वासवो माघवको मधु
माध्विकमद्यो ॥

मध्वासे उत्पन्न मदिराके नाम ३ ॥
मध्वासव १ माघवक २ मधु ३ माध्विक ४ ॥

मैरियमासव सीधु-

गुडसीराकी मदिराके नाम ३ ॥ मैरि
१ आसव २ सीधु ३ ॥

-मैदको अगल समौ ॥ ४१ ॥

मदिराकी कोकसके नाम २ ॥
अगल २ ॥ ४१ ॥

सधान स्मादभिषव -

मदिराकत्तनेर नाम २ ॥ सधान १
अभिषव २ ॥

-किष्वं पुंसि तु नमह ॥

संतुहादि द्रव्यस्य बन्धनमप्ये
नाम २ ॥ किष्व १ नमह २ ॥

कारोत्तरः सुरामण्ड-

मदिराक मण्डके नाम २ ॥ कारोत्तर
१ सुरामण्ड २ ॥

-आपान पानगोष्ठिका ॥ ४२ ॥

दारुपीनकी समाक नाम २ ॥ आपान
१ पानगोष्ठिका २ ॥ ४२ ॥

चषकोऽस्त्री पानपात्रं—

दारू पीनेके बर्तन (प्याले)के नाम

२ ॥ चपक १ पानपात्र २ ॥

—सरकोऽत्यनुतर्षणम् ॥

मदिरा पीनेके नाम २ ॥ सरक १
अनुतर्षण २ ॥

धूर्तोऽक्षदेवी कितवोऽक्षधूर्तो
द्यूतकृतसमाः ॥ ४३ ॥

जुआरीके नाम ५ ॥ धूर्त १ अक्ष-
देविन् २ कितव ३ अक्षधूर्त ४ द्यूतकृत ५
॥ ४३ ॥

स्युर्लभकाः प्रतिभुवः—

जामिनके नाम २ ॥ लभक १ प्रतिभू २ ॥

—सभिका द्यूतकारकाः ॥

जुआ खिलानेवा ठेके नाम २ ॥ सभिक
१ द्यूतकारक २ ॥

द्यूतोऽस्त्रियामक्षवती कैतवं पण
इत्यपि ॥ ४४ ॥

जूपके नाम ४ ॥ द्यूत १ अक्षवती
२ कैतव ३ पण ४ ॥ ४४ ॥

पणोऽक्षेणु ग्लहो—

वार्जा लगानेके नाम २ ॥ पण १ ग्लह २ ॥

—ऽक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते ।

पासेके नाम ३ ॥ अक्ष १ देवन २
पाशक ३ ॥

परिणायस्तु शारीणां समन्ता-
न्नयनेऽस्त्रियाम् ॥ ४५ ॥

सारक डधर उधर फेरनेका नाम १ ॥

परिणाय १ ॥ ४५ ॥

अष्टापदं शारिफलं—

विसायती (चौपड) के नाम २ ॥

अष्टापद १ शारिफल २ ॥

—प्राणिद्यूतं समाह्वयः ॥

मुरगा आदि जीवोंकी लडाईरूप द्यूतके
नाम २ ॥ प्राणिद्यूत १ समाह्वय २ ॥

उक्ता भूरिप्रयोगत्वादेकस्मि-
न्येव यौगिकाः ॥ ४६ ॥ तादृ-
म्यादन्यतो वृत्तावूह्या लिङ्गा-
न्तरेऽपि ते ॥

भाषा—इसवर्गमें जो यौगिक मालाका-
रमार्दङ्गिक वैणविक आदि शब्द काव्या-
दिकोंके अधिक प्रयोगके अनुसार केवल
पुंलिंगहीमे कहें हैं वह शब्द व्याकरणके
नियमानुसार स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगमेंभी
होते हैं जैसे मालाकारकी स्त्री मालाकारी
और मालाकारका कुल मालाकार इसी
प्रकार सर्वत्र जानना ॥ ४६ ॥

इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानु-
शासने ॥ भूम्यादिकाण्डो द्वितीयः
सांग एव समर्थितः ॥ ४७ ॥

इति श्रीमदमरसिंहविरचितामरकोशे

ज्वालाप्रसादकृतभाषाटीकाया

द्वितीयः काण्डः समाप्तः ॥ २ ॥

इति द्वितीयः काण्डः ॥ २ ॥

॥ श्री ॥

अथ तृतीयकाण्डः ३



अथ विशेष्यनिम्नवर्गः १
विशेष्यनिम्ने सकीर्णानाना
धरुष्यपरिपि ॥ लिङ्गादिसंघ
हेर्बर्गा सामान्ये वर्गसश्रया ॥ १ ॥

भाषा—इस सामान्य तृतीयकाण्डमें
स्वर्गादि वर्गोंके आश्रित शब्द विशेष्य-
निम्नवर्ग सकीर्णवर्ग मानार्थवर्ग अव्ययवर्ग
और स्त्रीलिङ्गादिसमूहवर्गके द्वारा कहेंगे १

स्त्रीदाराधैर्यविशेष्यं यादृशै
प्रस्तुत पदै ॥ गुणद्रव्यक्रियाश
ब्दास्तथा स्युस्तस्य भेदका ॥ २ ॥

भाषा—स्त्री दार आदि विशेष्यभूत
पोंमें जो लिङ्ग और सम्बन्ध हो बहो उँचा
और सम्बन्ध गण और द्रव्य तथा क्रिया
पाचकशब्दोंमें होनेसे तार स्त्री आदि
शब्दोंके गुण द्रव्य क्रिया पाचक छन्द
निरागण हा सक है जैसे 'मृत्तिनी स्त्री,
मृत्तिनी तारा मृत्ति पत्रम् ।
दण्डिनी स्त्री दण्डिनी दारा दण्डि
पत्रम् । वाचिका स्त्री वाचका दारा
वाचक कउत्रम् ॥ ॥

मुकृती पुण्यवान् धन्यो-
माग्यवान् पुरुषके नाम १ ॥
सुकृतिन् १ पुण्यवत् २ धन्य ३ ॥
—महेच्छस्तु महाशय ॥

उदारचित्तपुरुषके नाम १ ॥ महच्छ
१ महाशय २ ॥

हृदयालुः सुहृदयो-
सुदचित्तपुरुषके नाम २ ॥ हृदयालु
१ सुहृदय २ ॥

—महात्साहो महोद्यम ॥ ३ ॥
बहुत उद्यम करनेवाले पुरुषके नाम
॥ २ महोसाह १ महाद्यम २ ॥ ३ ॥

प्रवीणे निपुणाभिज्ञविज्ञानि
प्यातशिक्षिता ॥ वैज्ञानिक
कृतमुख १ कृती कुशल
इत्यपि ॥ ४ ॥

चतुरपुरुषके नाम १० ॥ प्रवीण १
निपुण २ अभिज्ञ ३ विज्ञ ४ निष्णात ५
शिक्षित ६ वैज्ञानिक ७ कृतमुख ८
कृतिन् ९ कुशल १० ॥ ४ ॥

पूज्यं प्रतीक्ष्य-
माग्यपुरुषके नाम १० ॥ पूज्य १ प्रतीक्ष्य २ ॥

सांशयिकः संशयापन्नमानसः॥

सशय करानेवाली वस्तुके नाम २ ॥

साशयिक १ सशयापन्नमानस २ ॥

दक्षिणीयो दक्षिणार्हस्तत्र दक्षि-
ण्य इत्यपि ॥ ५ ॥

दक्षिणाके योग्यपुरुषके नाम ३ ॥ द-

क्षिणीय १ दक्षिणार्ह २ दक्षिण्य ३ ॥ ५ ॥

स्युर्वदान्यस्थूललक्ष्यदानशौण्डा
बहुप्रदे ॥

अतिदानी पुरुषके नाम ४ ॥ वदान्य

१ स्थूललक्ष्य २ दानशौण्ड ३ बहुप्रद ४ ॥

जैवातृकः स्यादायुष्मा-

दीर्वायु पुरुषके नाम २ ॥ जैवातृक

१ आयुष्मत् २ ॥

-नन्तर्वाणिस्तु शास्त्रवित् ॥ ६ ॥

शास्त्रीके नाम २ ॥ अन्तर्वाणि १

शास्त्रविद् २ ॥ ६ ॥

परीक्षकः कारणिको-

परीक्षकके नाम २ ॥ परीक्षक १ कारणिक २

-वरदस्तु समर्थकः ॥

वरदान देनेवालेके नाम २ ॥ वरद १
सर्थक २ ॥

हर्षमाणो विकुर्वाणः प्रमना
हृष्टमानसः ॥ ७ ॥

प्रसन्नके नाम ४ ॥ हर्षमाण १ विकुर्वा-

ण २ प्रमनस् ३ हृष्टमानस ४ ॥ ७ ॥

दुर्मना विमवा अन्तर्मनाः-

उदास पुरुषके नाम ३ ॥ दुर्मनस् १

विमनस् २ अन्तर्मनस् ३ ॥

-स्यादुत्क उन्मनाः ॥

उत्कण्ठायुक्त पुरुषके नाम २ ॥

उत्क १ उन्मनस् २ ॥

दक्षिणे सरलोदारौ-

सीधे पुरुषके नाम ३ ॥ दक्षिण १

सरल २ उदार ३ ॥

-सुकलो दातृभोक्तारि ॥ ८ ॥

दानी और भोगीपुरुषका नाम १

सुकल १ ॥ ८ ॥

तत्परे प्रसितासक्ता-

कार्यविशेषमें चित्त लगानेवाले पुरुष-

के नाम ३ ॥ तत्पर १ प्रसित २ आसक्त ३ ॥

-विष्टार्थोद्युक्त उत्सुकः ॥

अभीष्टवस्तुके प्राप्त करनेमें तत्पर

पुरुषके नाम २ ॥ इष्टार्थोद्युक्त १ उत्सुक २ ॥

प्रतीते प्रथितख्यातवित्तविज्ञा-

तविश्रुताः ॥ ९ ॥

प्रसिद्ध पुरुषके नाम ६ ॥ प्रतीत १

प्रथित २ ख्यात ३ वित्त ४ विज्ञात ५

विश्रुत ६ ॥ ९ ॥

गुणैः प्रतीते तु कृतलक्षणाहि-

तलक्षणौ ॥

गुणोंसे प्रसिद्ध पुरुषके नाम २ ॥ कृत-

लक्षण १ आहितलक्षण २ ॥

इभ्य आढयो घनी-

घनी पुरुषके नाम ३ ॥ इभ्य १

आढष २ घनिन् ३ ॥

-स्वामी त्वीश्वर पतिरीशिता

॥ १० ॥ अधिभूनायको नेवा प्रमु
परिवृढोऽधिपः ॥

स्वामीके नाम १० ॥ स्वामिन् १

इश्वर २ पति ३ ईशित ४ ॥ १ ॥

अधिमू ९ नायक इनेत् ७ प्रमु ८ परि
वृढ ९ अधिप १ ॥

अधिकर्दि समृद्ध स्या-

सम्पत्तिमान् पुरुषके नाम २ ॥

अधिकर्दि १ समृद्ध २ ॥

-कुटुम्बव्यापृतस्तु य ॥ ११ ॥

स्यादभ्यागारिकत्वस्मिन्नुपा

धिष्य पुमानयम् ॥

कुटुम्बके पाठमकरनेमें तत्परपुरुषके
नाम ३ ॥ कुटुम्बव्यापृत १ ॥ ११ ॥

अभ्यागारिक २ उपाधि ३ ॥

वराङ्गरूपोपेतो य सिहसं
हननो हि स ॥ १२ ॥

भंग भोर रूपसे अतिश्रेष्ठ पुरुषका
नाम १ ॥ सिहसहनन १ ॥ १२ ॥

निर्वाय कायकर्ता य स
म्पत्तः सत्त्वसम्पदा ॥

जो दुःखमेंमी प्रसन्नताके साथ काय

किया करताहै उस पुरुषका नाम १ ॥

निर्वाय १ ॥

अवाचि मूको-

गूगे पुरुषके नाम २ ॥ मवाच् १ मूक २ ॥

-ऽय मनोजवस पितृस

भिन्म ॥ १३ ॥

जो पुरुष पिताके समान माना जाय

उस पुरुषके नाम २ ॥ मनोजवस १ पितृ

सन्निम्न २ ॥ १३ ॥

सत्कृत्यालकृता कन्यां यो

ददाति स कूकुद ॥

जो बरको आदरपूर्वक कज्रमूर्च्छ

सहित कन्यादान द उस पुरुषका नाम

१ ॥ कूकुद १ ॥

लक्ष्मीर्बोद्धमणः श्रील

श्रीमा-

शोभावान्के नाम ३ ॥ लक्ष्मीवत् १

लक्ष्मण २ श्रील ३ श्रीमत् ४ ॥

निस्निग्धस्तु वत्सल ॥ १४ ॥

स्नेही पुरुषके नाम २ ॥ निस्निग्ध १

वत्सल २ ॥ १४ ॥

स्याद्व्याहः कारुणिक कृ

पाह्य सूरत समा ॥

दयाशूरपुरुषके नाम ४ ॥ दवाह्य १

कारुणिक २ व्याह्य ३ सूरत ४ ॥

स्वतन्त्रोऽपावृतः स्वैरी स्व-
च्छन्दो निरवग्रहः ॥ १५ ॥

स्वतन्त्र पुरुषके नाम ५ ॥ स्वतन्त्र १
अपावृत २ स्वैरिन् ३ स्वच्छन्द ४
निरवग्रह ५ ॥ १५ ॥

परतन्त्रः पराधीनः परवान्ना-
थवानापि ॥

पाग्धीनपुरुषके नाम ४ ॥ परतन्त्र १
पराधीन २ परवत् ३ नाथवत् ४ ॥
अधीनो निघ्न आयत्तोऽस्वच्छन्दो
गृह्यकोऽप्यसौ ॥ १६ ॥

अधीनके नाम ५ ॥ अवीन १ निघ्न २
आयत्त ३ अस्वच्छन्द ४ गृह्यक ५ ॥ १६ ॥

खलपूः स्याद्बहुकरो-

बुहारने ज्ञारनेवाले मनुष्यके नाम २ ॥
खलपू १ बहुकर २ ॥

-दीर्घसूत्रश्चिरक्रियः ॥

दीर्घसूत्र (थोड़ी देरके कामको
बहुत देरमे करनेवालों) के नाम २ ॥
दीर्घसूत्र १ चिरक्रिय २ ॥

-जाल्मोऽसमीक्ष्यकारी स्या-

विना विचारे कार्यकरनेवाले पुरुषके
नाम २ ॥ जाल्म १ असमीक्ष्यकारिन् २

-कुण्ठो मन्दः क्रियासु यः ॥ १७ ॥

आलसी वा मूढ पुरुषका नाम १ ॥
कुण्ठ १ ॥ १७ ॥

कर्मक्षमोऽलंकर्मिणः-

कार्यकरनेमें समर्थपुरुषके नाम २ ॥

कर्मक्षम १ अलंकर्मिण २ ॥

-क्रियावान्कर्मसूद्यतः ॥

कार्यकरनेमें तत्पर पुरुषका नाम १ ॥

क्रियावत् १ ॥

स कर्मः कर्मशीलो यः-

जो नित्यकाममें लगारहै उस पुरुषके

नाम २ ॥ कर्म १ कर्मशील २ ॥

-कर्मशूरस्तु कर्मठः ॥ १८ ॥

प्रयत्नपूर्वक जो कार्यको समाप्त

करै उस पुरुषके नाम २ ॥ कर्मशूर १

कर्मठ २ ॥ १८ ॥

भरण्यभुक्कर्मकरः-

मजदूरके नाम २ ॥ भरण्यभुज् १
कर्मकर २ ॥

-कर्मकारस्तु तत्क्रियः ॥

विना मजूरीके भी जो कार्य करदेय
उस पुरुषका नाम १ ॥ कर्मकार १ ॥

अपस्नातो मृतस्नात-

किसीके मरनेके अनन्तर स्नान किये
हुये पुरुषके नाम २ ॥ अपस्नात १
मृतस्नात २ ॥

-आमिपाशी तु शौष्कुलः १९ ॥

मास खानेवाले पुरुषके नाम २ ॥

आमिपाशिन् १ शौष्कुल २ ॥ १९ ॥

धुमुक्षित' स्यात्धुधियो जि
घत्सुरशनायितः ॥

भूखे पुरुषके नाम ४ ॥ धुमुक्षित १
धुधित २ जिक्सु ३ अशनायित ४ ॥

पराश्र' परापिष्ठादो-

जो पराय ही अन्नसे जीता हो उस
पुरुषके नाम २ ॥ पराश्र १ परपिष्ठाद २ ॥

-भक्षको घस्मरोऽन्नर' ॥ २० ॥

खानेवालेके नाम १ ॥ भक्षक १ घस्मर
२ अन्नर ३ ॥ २० ॥

आघून' स्यादौदारिको वि
जिगीषाविवर्जिते ॥

असम्बन्धी भूखे पुरुषके नाम २ ॥
आघून १ औदारिक २ ॥

उभौ त्वात्मभरि' कुक्षिभरि'
स्वोदरपूरके ॥ २१ ॥

पेटको ही मरनेवाले पुरुषके नाम २ ॥
आत्मभरि १ कुक्षिभरि २ ॥ २१ ॥

सर्वासीनस्तु सर्वाभमोजी-

जो सब बर्गोंका अन्न मोजन करलेता
हो उस पुरुषके नाम २ ॥ सर्वासीन १

सर्वाभमोजिन् २ ॥

-गृध्रस्तु गर्धन' ॥

हृन्धोऽमिलापुकस्तृष्णाक-

छोमी पुरुषके नाम ९ ॥ गृध्र १
गर्धन २ हृन्ध ३ अमिलापुक ४ तृष्णाक ५ ॥

-समी लोह्यपलोद्भू ॥ २२ ॥
असिलोमीके नाम २ ॥ लोह्य १

लोद्भू २ ॥ २२ ॥

सोन्मादस्तून्मदिप्यु' स्या-
उन्मत्तपुरुषके नाम २ ॥ उन्माद १

उन्मदिप्यु २ ॥

-द्विनीत समुद्धतः ॥

अन्यायी पुरुषके नाम २ ॥ द्विनीत १
समुद्धत २ ॥

मत्ते शौण्डोत्कटक्षीषा'-

मत्तवालेके नाम ४ ॥ मत्त १ शौण्ड
२ उत्कट ३ क्षीष ४ ॥

-कामुके कमिताऽनुकः ॥ २३ ॥
काम्र' कामयिताऽमीक' कमन

कामनोऽमिकः ॥

कामीके नाम १ ॥ कामुक १ कमित २
अनुक ३ ॥ २३ ॥ काम्र ४ कामयित

५ अमीक ६ कमन ७ कामन ८ अमिक ९
विधेयो विनयप्राही बचने

स्थित आश्रय' ॥ २४ ॥

बचनप्रवृत्त करनेवाले पुरुषके नाम ४
विधेय १ विनयप्राहिन् २ बचनस्थित ३

आश्रय ४ ॥ २४ ॥

वश्य' प्रणेयो-

वशीभूतके नाम २ ॥ वश्य १ प्रणेय २ ॥
-निमृत्वविनीतप्रश्रिताः समाः ॥

नम्रपुरुषके नाम ३ ॥ निभृत १
विनीत २ प्रश्रित ३ ॥

धृष्टे धृष्णग्वियातश्च-

धीठ पुरुषके नाम ३ ॥ धृष्ट १
धृष्णञ् २ वियात ३ ॥

-प्रगल्भः प्रतिभान्विते ॥२५॥

अतिधीठ निर्भय पुरुषके नाम २ ॥
प्रगल्भ १ प्रतिभान्वित २ ॥ २५ ॥

स्यादधृष्टे तु शालीनो-

लज्जावान् पुरुषके नाम २ ॥ अधृष्ट
१ शालीन २ ॥

-विलक्षो विस्मयान्विते ॥

अचम्भेमें पडेहुए पुरुषके नाम २ ॥
विलक्ष १ विस्मयान्वित २ ॥

अधीरे कातर-

व्याकुलहुए पुरुषके नाम २ ॥ अधीर
१ कातर २ ॥

-स्रस्ते भीरुभीरुकभीलुकाः ॥२६॥

हरपोकके नाम ४ ॥ त्रस्त १ भीरु
भीरुक ३ भीलुक ४ ॥ २६ ॥

आशंसुराशंसितरि-

इष्ट अर्थप्राप्तिकी इच्छावाले पुरुषके
नाम २ ॥ आशसु १ आशसित २ ॥

-गृह्यालुर्ग्रहीतरि ॥

लेनेके स्वभाववाले पुरुषके नाम २ ॥
गृह्यालु १ प्रहीत २ ॥

श्रद्धालुः श्रद्धया युक्ते-

श्रद्धायुक्त स्वभाववाले पुरुषका नाम
१ ॥ श्रद्धालु १ ॥

-पतयालुस्तु पातुके ॥ २७ ॥

गिरनेके स्वभाववाले पुरुषके नाम २ ॥
पतयालु १ पातुक २ ॥ २७ ॥

लज्जाशीलेऽपत्रपिष्णु-

लज्जाशील पुरुषके नाम २ ॥ लज्जा-
शील १ अपत्रपिष्णु २ ॥

-वन्दारुरभिवादके ॥

वन्दना करनेके स्वभाववाले पुरुषके
नाम २ ॥ वन्दारु १ अभिवादक २ ॥

शरारुर्घातुको हिंसः-

हिंसा करनेके स्वभाववाले पुरुषके
नाम ३ ॥ शरारु १ घातुक २ हिंस ३ ॥

-स्याद्वर्द्धिष्णुस्तु वर्धनः ॥२८॥

बढनेके स्वभाववाले पुरुषके नाम २ ॥
वर्द्धिष्णु १ वर्धन २ ॥ २८ ॥

उत्पतिष्णुस्तुत्पतिता-

कूदनेके स्वभाववालेके नाम २ ॥ उत्प-
तिष्णु १ उत्पतित २ ॥

-ऽलंकारिष्णुस्तु मण्डनः ॥

भूषण आदि पहरनेके स्वभाववालेके
नाम २ ॥ अलंकारिष्णु १ मण्डन २ ॥

भूष्णुर्भविष्णुर्भविता-

होनेके स्वभाववालेके नाम ३ ॥
भूष्णु १ भविष्णु २ भवित ३ ॥

—वर्तिष्णुर्वर्तनः समी ॥ २९ ॥	क्रोधके स्वभाववालेके नाम ३ ॥
वर्षाव करनेके स्वभाववालेके नाम	क्रोधन १ अमर्षण २ क्रोधिन् ३ ॥
२ ॥ वर्तिष्णु १ वर्तन २ ॥ २९ ॥	—चण्डस्त्वत्यन्तक्रोपन ॥
निराकारिष्णुः सिष्णुः स्या-	अत्यन्त क्रोधक स्वभाववालेके नाम
तिरस्कार करनेके स्वभाववालेके	२ ॥ चण्ड १ अत्यन्तक्रोपन २ ॥
नाम २ ॥ निराकारिष्णु १ सिष्णु २ ॥	जागरूको जागरिता-
—त्सान्द्रस्त्रिग्वस्तु मेदुर ॥	जागनेके स्वभाववालेके नाम २ ॥
सपन और चिकनेका नाम १ ॥	जागरूक १ जागरितृ २ ॥
मेदुर ॥ १ ॥	—घूर्णित प्रचलापित ॥ ३२ ॥
शाठा तु विदुरो विन्दु-	घूर्नेवालेके नाम २ ॥ घूर्णित १
जाननेके स्वभाववालेके नाम ३ ॥	प्रचलापित २ ॥ ३२ ॥
शातृ १ विदुर २ विन्दु ३ ॥	स्वप्रकृष्याहार्निद्राह-
—र्विकासी तु विकस्वर ॥ ३० ॥	निद्राहके नाम ३ ॥ स्वप्रज्ञ १
खिलनेके स्वभाववालेके नाम २ ॥	शयाह २ निद्राह ३ ॥
विकसिन् १ विकस्वर २ ॥ ३ ॥	—निद्राणशयिती समी ॥
बिसृस्वरो बिसृमर प्रसारी घ	शयन करनेवालेके नाम २ ॥ निद्राण
विसारिणि ॥	१ शयित २ ॥
फटनेके स्वभाववालेके नाम ४ ॥	पराङ्मुख पराचीन-
बिसृमर १ बिसृमर २ प्रसारिन् ३	विमुखके नाम २ ॥ पराङ्मुख १
विमारिन् ४ ॥	पराचीन २ ॥
सहिष्णु सहन क्षन्ता तितिक्षुः	—स्मादवाङ्म्यधोमुख ॥ ३३ ॥
क्षमिता क्षमा ॥ ३१ ॥	नीधिका मुख करनेवालेके नाम २ ॥
सहनशीलवालेके नाम १ ॥ सहिष्णु १	अवाङ् १ अधोमुख २ ॥ ३३ ॥
सहन २ क्षन्त ३ तितिक्षु ४ क्षमिता ५	देवान्धाति देवयज्ञ-
क्षमिन् ६ ॥ ३१ ॥	देवान्धाति पूजा करनेवाला
प्रोघनाऽमयण सर्पा-	नाम १ ॥ अमयन् ॥ १ ॥

-विष्वद्यद् विष्वगञ्चति ॥

सब ओर जानेवालेका नाम १ ॥

विष्वद्यच् १ ॥

यः सहाञ्चति सध्यद् सः-

साथ रहनेवालेका नाम १ ॥ सध्यच् १ ॥

-स तिर्यद् य स्तिरोऽञ्चति ॥ ३४ ॥

टढे चलनेवालेका नाम १ ॥ तिर्यच्
१ ॥ ३४ ॥

वदो वदावदो वक्ता-

वक्ताके नाम ३ ॥ वद १ वदावद २ वक्तृ ३ ॥

-वागीशो वाक्पतिः समौ ॥

चातुर्ययुक्त बोलनेवालेके नाम २ ॥

वागीश १ वाक्पति २ ॥

वाचोयुक्तिपटुर्वाग्मी वाव-
दूकोऽतिवक्त्रि ॥ ३५ ॥

शास्त्रानुसार अत्यन्त बोलनेवालेके
नाम ४ ॥ वाचोयुक्तिपटु १ वाग्मिन् २
वावदूक २ अतिवक्तृ ४ ॥ ३५ ॥

स्याज्जलपाकस्तु वाचालो
वाचाटो बहुगर्हवाक् ॥

अतिनिन्दित भाषण करनेवालेके
नाम ४ ॥ जत्पाक ६ वाचाल २ वाचाट ३
बहुगर्हवाच् ॥ ४ ॥

दुर्मुखे मुखरावद्धमुखौ-

अप्रियबोलनेवालेके नाम ३ ॥

दुर्मुख १ मुखर २ भवद्धमुख ३ ॥

-शक्लः प्रियंवदे ॥ ३६ ॥

प्रिय बोलनेवालेके नाम २ ॥ शक्ल १

प्रियवट २ ॥ ३६ ॥

लोहलः स्यादस्फुटवा-

जो स्फुट न बोलता हो उस पुरुषके

नाम २ ॥ लोहल १ अस्फुटवाच् २ ॥

-गर्हवादी तु कद्वदः ॥

निन्दितवाक्य बोलनेवाले पुरुषके
नाम २ ॥ गर्हवादिन् १ कद्वद २ ॥

समौ कुवादकुचरौ-

बुराईकहनेवालेके नाम २ कुवाद १
कुचर २ ॥

स्यादसौम्यस्वरोऽस्वरः ॥ ३७ ॥

रूखे स्वरवालेके नाम २ असौम्य-
स्वर १ अस्वर २ ॥ ३७ ॥

रवणः शब्दनो-

चिह्णानेवालेके नाम २ ॥ रवण १
शब्दन २ ॥

-नान्दीवादी नान्दीकरः समौ ॥

नान्दीवादी अर्थात् नाटकके आर-
भमे स्तुतिविशेष करनेवालेके नाम २ ॥
नान्दीवादिन् १ नान्दीकर २ ॥

जडोऽज्ञ-

महामूर्खके नाम २ ॥ जड १ अज्ञ २ ॥

-एडमूकस्तु वक्तुं श्रोतुम-

शिक्षिते ॥ ३८ ॥

जो गूगा बहिरा दोनों हो उसका
नाम १ ॥ एषमूक १ ॥ ३८ ॥

सूर्णोशीलस्तु सूर्णिको-
मौनरहनेशब्द पुरुषके नाम २ ॥ तू
ष्णीशील १ सूर्णिक २ ॥

-नमोऽवासा दिगम्बरे ॥
नमपुरुषके नाम ३ ॥ नम १ अवास्त
२ दिगम्बर ३ ॥

निष्कासितोऽवकृष्ट स्या-
निकालेट्टएके नाम २ ॥ निष्कास्ति
१ अवकृष्ट २ ॥

-वपध्वस्तस्तु धिक्कृत* ॥ ३९ ॥
विष्कार दियेहुये पुरुषके नाम २ ॥
वपध्वस्त १ धिक्कृत २ ॥ ३९ ॥

आप्तगर्वोऽभिमूढ* स्या-
तिरस्कारको प्राप्तहुय पुरुषके नाम २
आप्तगर्व १ अभिमूढ २ ॥

-हापितः साधित* समौ ॥
घनादि दिवाकर बशमें कियेहुए पुरु-
षके नाम २ ॥ हापित १ साधित २ ॥

प्रत्यादिष्टो निरस्त स्यात्प्र
त्याख्यातो निराकृतः ॥ ४० ॥
निरादरका प्राप्तहुए पुरुषके नाम ४ ॥
प्रत्यादिष्ट १ निरस्त २ प्रत्याख्यात ३
निराकृत ४ ॥ ४० ॥

निहृत* स्याद्विमृष्टो-
मोरूपभाडेके नाम २ ॥ निहृत १
विमृष्ट २ ॥

मोरूपभाडेके नाम २ ॥ निहृत १
विमृष्ट २ ॥

-विमलम्बस्तु वञ्चित* ॥
ज्योत्स्ये पुरुषके नाम २ ॥ विमलम्ब १
वञ्चित २ ॥

मनोहृत* प्रतिहृत* प्रतिवद्धो
हृतश्च स* ॥ ४१ ॥
मनोहृतपुरुषके नाम ४ ॥ मनोहृत १
प्रतिहृत २ प्रतिवद्ध ३ हृत ४ ॥ ४१ ॥

अधिक्षित* प्रविक्षितो-
निसके ऊपर आक्षेप किया गया
हो उस पुरुषके नाम २ ॥ अधिक्षित १
प्रविक्षित २ ॥

-वद्धे कीलितसंयतौ ॥
बन्धेहुएके नाम ३ ॥ वद्ध १ कीलित २
संयत ३ ॥

आपन्न आपत्प्राप्त* स्या-
आपत्तिको प्राप्तहुए पुरुषके नाम २
आपन्न १ आपत्प्राप्त २ ॥

त्कांदिशीको भयद्वस्त* ॥ ४० ॥
भयसं भागेहुयेके नाम २ ॥ कांदि
शीक १ भयद्वस्त २ ॥ ४० ॥

आक्षारित क्षारितोऽभिशस्तै-
मैयुनके निमित्त कृपा दोष उग्राय हुए
पुरुषके नाम ३ ॥ आक्षारित १ क्षारित
२ अभिशस्त ३ ॥

मैयुनके निमित्त कृपा दोष उग्राय हुए
पुरुषके नाम ३ ॥ आक्षारित १ क्षारित
२ अभिशस्त ३ ॥

<p>—संकसुकोऽस्थिरे ॥</p>	<p>शिरकाटने योग्यके नाम २ ॥ वध्य १</p>
<p>चचलस्यमावत्राले पुरुषके नाम २ ॥</p>	<p>शीर्षिच्छेद्य २ ॥</p>
<p>सकसुक १ अस्थिर २ ॥</p>	<p>विष्यो विषेण यो वध्यो—</p>
<p>व्यसनार्तोपरक्तौ द्वौ—</p>	<p>विपकरके मारने योग्यका नाम १ ॥</p>
<p>दैवी और मानुषी पीडासे युक्त पुरुषके</p>	<p>विष्य १ ॥</p>
<p>नाम २ ॥ व्यसनार्त्त १ उपरक्त २ ॥</p>	<p>—मुसल्यो मुसलेन यः ॥४५॥</p>
<p>—विहस्तव्याकुलौ समौ ॥४३॥</p>	<p>मुसलसे मारने योग्यका नाम १ ॥</p>
<p>शोकादिसे व्याकुलपुरुषके नाम २ ॥</p>	<p>मुसल्य १ ॥ ४५ ॥</p>
<p>विहस्त १ व्याकुल २ ॥ ४३ ॥</p>	<p>शिश्विदानोऽकृष्णकर्मा—</p>
<p>—विक्लवो विह्वलः—</p>	<p>पापकर्म न करनेवाले पुरुषके नाम</p>
<p>विकल्पपुरुषके नाम २ ॥ विक्लव १</p>	<p>२ ॥ शिश्विदान १ अकृष्णकर्मन् २ ॥</p>
<p>विह्वल २ ॥</p>	<p>—चपलश्चिकुरः समौ ॥</p>
<p>—स्यात्तु विवशोऽरिष्टदुष्टधीः ॥</p>	<p>विना दोष विचारे मारनेवालेके नाम</p>
<p>मरणके समीप आनेसे जिसकी</p>	<p>२ ॥ चपल १ चिकुर २ ॥</p>
<p>बुद्धि विपरीत होजाय उस पुरुषके नाम</p>	<p>दोषैकदृक्पुरोभागी—</p>
<p>२ ॥ विवश १ अरिष्टदुष्टधी २ ॥</p>	<p>केवल दोषकी ही दृष्टि करनेवालेके</p>
<p>कश्यः कशार्हे—</p>	<p>नाम २ ॥ दोषैकदृश १ पुरोभागिन् २ ॥</p>
<p>बेतमारने योग्यके नाम २ ॥ कश्य</p>	<p>—निकृतस्त्वनृजुः शठः ॥४६॥</p>
<p>१ कशार्ह २ ॥</p>	<p>कुटिलहृदयके नाम ३ ॥ निकृत १</p>
<p>—सन्नद्धे त्वाततायी वधोद्यते ॥४४॥</p>	<p>अनृजु २ शठ ३ ॥ ४६ ॥</p>
<p>मारनेयोग्यका नाम १ ॥ आत-</p>	<p>कर्णेजपः सूचकः स्या—</p>
<p>तायिन् १ ॥ ४४ ॥</p>	<p>चुगलखोरके नाम २ ॥ कर्णेजप १</p>
<p>द्वेष्ये त्वक्षिगतो—</p>	<p>सूचक २ ॥</p>
<p>द्वेष करने लायकके नाम २ ॥</p>	<p>—त्पिशुनो दुर्जनः खलः ॥</p>
<p>द्वेष्य १ अक्षिगत २ ॥</p>	<p>आपसमें भेद करानेवालेके नाम ३ ॥</p>
<p>—वध्यः शीर्षिच्छेद्य इमौ समौ ॥</p>	<p>पिशुन १ दुर्जन २ खल ३ ॥</p>

जो गूंगा घहिरा दोनों हो उसका
 नाम १ ॥ एषमूक १ ॥ ३८ ॥
 तूष्णीशीलस्तु तूष्णीको-
 मोनरहननाथ पुरुषके नाम २ ॥ तू-
 ष्णीशील १ तूष्णीक २ ॥ /
 -नम्रोऽवासा दिगम्बरे ॥
 नमपुरुषके नाम ३ ॥ निम १ अवास्त
 २ दिगम्बर ३ ॥
 निष्कासितोऽवकृष्ट स्या-
 तिकाछेदके नाम २ ॥ निष्कासित
 १ अवकृष्ट २ ॥
 -दपध्वस्तस्तु धिक्कृत* ॥ ३९ ॥
 धिक्कार द्वियद्वय पुरुषके नाम २ ॥
 अपध्वस्त १ धिक्कृत २ ॥ ३९ ॥
 आसगर्बोऽभिमूत* स्या-
 तिरस्कारको प्राप्तद्वय पुरुषके नाम २
 आसगर्ब १ अभिमूत २ ॥
 -हापितः साधित समौ ॥
 घनादि दिनाकर वधमें किये हुए पुरु-
 षके नाम २ ॥ दासित १ साधित २ ॥
 प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्यात्प्र-
 त्याख्यातो निगकृत ॥ ४० ॥
 निरादरका प्राप्त हुए पुरुषके नाम ३ ॥
 प्रत्यादिष्ट १ निरस्त २ प्रत्याख्यात ३
 निरादर ४ ॥ ४ ॥
 निक्कृत* स्यादिमकृतो-

सुरेहपवालेके नाम २ ॥ निक्कृत १
 मिक्कृत २ ॥
 -विमलम्बस्तु वञ्चित* ॥
 ठोडुय पुरुषके नाम २ ॥ विमलम्ब १
 वञ्चित २ ॥
 मनोहृत* प्रतिहृत* प्रतिवहो
 हृतश्च स* ॥ ४१ ॥
 मनोहृतपुरुषके नाम ३ ॥ मनोहृत १
 प्रतिहृत २ प्रतिवह ३ हृत ४ ॥ ४१ ॥
 अधिक्षित* प्रतिक्षितो-
 निस्के ऊपर आक्षेप किया गया
 हो उस पुरुषके नाम २ ॥ अधिक्षित १
 प्रतिक्षित २ ॥
 -बद्धे कीलितसंयतो ॥
 बांध हुएके नाम ३ ॥ बद्ध १ कीलित २
 संयत ३ ॥
 आपन्न आपत्प्राप्त* स्या-
 आपन्नको प्राप्त हुए पुरुषके नाम २
 आपन्न १ आपत्प्राप्त २ ॥
 त्कादिशिको मयद्वुत* ॥ ४२ ॥
 मयसे मागेद्वयेके नाम २ ॥ कादि-
 शिक १ मयद्वुत २ ॥ ४२ ॥
 आक्षारितः क्षारितोऽभिज्ञस्त-
 मेयुनके निमित्त कृपा दीये अगाये हुए
 पुरुषके नाम ३ ॥ आक्षारित १ क्षारित
 २ अभिज्ञस्त ३ ॥

-संकसुकोऽस्थिरे ॥	शिरकाटने योग्यके नाम २ ॥ वध्य १
चचलस्वभाववाले पुरुषके नाम २ ॥	शीर्षच्छेद्य २ ॥
सकसुक १ अस्थिर २ ॥	विष्यो विषेण यो वध्यो-
व्यसनार्तोपरक्तौ द्वौ-	विपकरके मारने योग्यका नाम १ ॥
दैवी और मानुषी पीडासे युक्त पुरुषके	विष्य १ ॥
नाम २ ॥ व्यसनार्त्त १ उपरक्त २ ॥	-मुसल्यो मुसलेन यः ॥४५॥
-विहस्तव्याकुलौ समौ ॥४३॥	मुसलसे मारने योग्यका नाम १ ॥
शोकादिसे व्याकुलपुरुषके नाम २ ॥	मुसल्य १ ॥ ४५ ॥
विहस्त १ व्याकुल २ ॥ ४३ ॥	शिश्विदानोऽकृष्णकर्मा-
-विक्लवो विह्वलः-	पापकर्म न करनेवाले पुरुषके नाम
विकलपुरुषके नाम २ ॥ विक्लव १	२ ॥ शिश्विदान १ अकृष्णकर्मन् २ ॥
विह्वल २ ॥	-चपलश्चिकुरः समौ ॥
-स्यात्तु विवशोऽरिष्टदुष्टधीः ॥	विना दोष विचारे मारनेवालेके नाम
मरणके समीप आनेसे जिसकी	२ ॥ चपल १ चिकुर २ ॥
बुद्धि विपरीत होजाय उस पुरुषके नाम	दोषैकदृक्पुरोभागी-
२ ॥ विवश १ अरिष्टदुष्टधी २ ॥	केवल दोषकी ही दृष्टि करनेवालेके
कश्यः कशार्ह-	नाम २ ॥ दोषैकदृक् १ पुरोभागिन् २ ॥
बेतमारने योग्यके नाम २ ॥ कश्य	-निकृतस्त्वनृजुः शठः ॥४६॥
१ कशार्ह २ ॥	कुटिलहृदयके नाम ३ ॥ निकृत १
-सन्नद्धे त्वाततायी वधोद्यते ॥४४॥	अनृजु २ शठ ३ ॥ ४६ ॥
मारनेयोग्यका नाम १ ॥ आत-	कर्णेजपः सूचकः स्या-
तायिन् १ ॥ ४४ ॥	चुगलखोरके नाम २ ॥ कर्णेजप १
द्वेष्ये त्वक्षिगतो-	सूचक २ ॥
द्वेष करने लायकके नाम २ ॥	-त्पिशुनो दुर्जनः खलः ॥
द्वेष्य १ अक्षिगत २ ॥	आपसमें भेद करानेवालेके नाम ३ ॥
-वध्यः शीर्षच्छेद्य इमौ समौ ॥	पिशुन १ दुर्जन २ खल ३ ॥

नृशंसो घातुक' शूर' पापो-
 घातक अथवा फठोरपुरुषके नाम ४
 नृशंस १ घातुक २ शूर ३ पाप ४ ॥
 -पूर्वस्तु वञ्चक' ॥ ४७ ॥
 व्याके नाम २ ॥ घूर्त १ वञ्चक २ ॥ ४७ ॥
 अज्ञे मूढयथाजातमूर्खवैधियथा
 लिशा' ॥
 मूर्खके नाम ६ ॥ अज्ञ १ मूढ २
 यथाजात ३ मूर्ख ४ वैधियथाजात ५ ॥
 कर्दर्ये कृपणसुवार्किपचानमित
 पचाः ॥ ४८ ॥
 कृपणके नाम ९ ॥ कर्दर्य १ कृपण २
 सुव ३ किपचान ४ मितम्पण ५ ॥ ४८ ॥
 निःस्वस्तु दुर्विधो दीनो वरि
 द्रो दुर्गतोऽपि सः ॥
 दरिद्रपुरुषके नाम ६ ॥ निःस्व १ दुर्विध
 २ दीन ३ वरिद्र ४ दुर्गत ५ ॥
 वनीपको याचनका मागणो
 याचकार्षिणौ ॥ ४९ ॥
 मागनशब्दके नाम ९ ॥ वनीपक १
 याचनक २ मागण ३ याचक ४ अर्षिन्
 ५ ॥ ४९ ॥
 अहकारवानहयु'-
 अहकारपुत्र पुत्रके नाम ९ ॥ अह-
 कारवन् १ अहयु २ ॥
 -शुभयुस्तु शुभान्वित' ॥

शुभयुक्त पुरुषके नाम २ ॥ शुभयु १
 शुभान्वित २ ॥
 दिव्योपपादुका देवा-
 देवताओंका नाम १ ॥ दिव्योपपा
 दुका १ ॥
 -नृगवाथा जरायुना ॥ ५० ॥
 मनुष्य, गौ आदि 'जरायुज' कष्ट
 तेहें ॥ ५० ॥
 स्वेदनाः कृमिर्दशायाः-
 क्रीडा और बांस आदि 'स्वेदज'
 कहलाते हैं ॥
 -पक्षिसर्पादयोऽण्डजा ॥
 पक्षी, सर्प आदि 'अण्डज' कहलाते
 हैं ॥
 (इति प्राणिवर्ग)
 उद्भिद्वस्तकगुल्माद्या-
 वृक्ष, बेल, घास आदि 'उद्भिद्'
 कहलाते हैं ॥
 -उद्भिदुद्भिज्जमुद्भिदम् ॥ ५१ ॥
 उद्भिदके नाम ३ ॥ उद्भिद् १
 उद्भिज २ उद्भिद ३ ॥ ५१ ॥
 सुन्दरं रुचिरं चारु मुपम सा
 धु शोभनम् ॥ कान्तं मनोरम
 रुच्य मनोज्ञ मञ्जु मञ्जुलम् ॥
 ॥ ५२ ॥
 सुन्दरके नाम १ २ ॥ सुन्दर १ रुचिर २

चारु ३ सुपम ४ साधु ५ शोभन ६
कान्त ७ मनोरम ८ रुच्य ९ मनोज्ञ १०
मञ्जु ११ मंजुल १२ ॥ ५२ ॥

तदासेचनकं तृप्तेर्नास्त्यन्तो
यस्य दर्शनात् ॥

जिसके देखनेसे तृप्तिके अन्तको प्राप्त न
हो उसका नाम १ ॥ आसेचनक १ ॥

अभीष्टेऽभीप्सितं हृद्यं दयितं
वल्लभं प्रियम् ॥ ५३ ॥

प्रियके नाम ६ ॥ अभीष्ट १ अभी-
प्सित २ हृद्य ३ दयित ४ वल्लभ ५
प्रिय ६ ॥ ५३ ॥

निकृष्टप्रतिकृष्टार्वरेफयाप्याव-
माधमाः ॥ कुपूयकुत्सिताव-
द्यखेटगर्हाणकाः समाः ॥ ५४ ॥

अधमके नाम १३ ॥ निकृष्ट १ प्रति-
कृष्ट २ अर्वन् ३ रेफ ४ याप्य ५ अवम
६ अधम ७ कुपूय ८ कुत्सित ९ अवद्य
१० खेट ११ गर्ह्य १२ अणक १३
॥ ५४ ॥

मलीमसं तु मलिनं कच्चरं मल-
दूषितम् ॥

मलिनके नाम ४ ॥ मलीमस १ मलि-
न २ कच्चर ३ मलदूषित ४

पूतं पवित्रं मेध्यं च-

पवित्रके नाम ३ ॥ पूत १ पवित्र २ मेध्य ३ ॥

—वीध्रं तु विमलार्थकम् ॥ ५५ ॥
स्वभावसे निर्मलके नाम २ ॥ वीध्र १
विमलार्थक २ ॥ ५५ ॥

निर्णिक्तं शोधितं मृष्टं निःशो-
ध्यमनवस्करम् ॥

शुद्ध कियेहुएके नाम ५ ॥ निर्णिक्त १
शोधित २ मृष्ट ३ निःशोध्य ४ अन
वस्कर ५ ॥

असारं फल्गु-

असारवस्तुके नाम २ ॥ असार १ फल्गु २ ॥

—शून्यं तु वशिकं तुच्छरिक्त-
के ॥ ५६ ॥

शून्यके नाम ४ ॥ शून्य १ वशिक २
तुच्छ ३ रिक्तक ४ ॥ ५६ ॥

क्लीबे प्रधानं प्रमुखप्रवेकानुत्त-
मोत्तमाः ॥ मुख्यवर्यवरेण्याश्च
प्रवर्होऽनवराध्ववत् ॥ ५७ ॥

पराध्व्याग्रप्राग्रहरप्राग्र्याग्र्या-
ग्रीयमग्रियम् ॥

प्रधानके नाम १७ ॥ प्रधान १ प्रमुख २
प्रवेक ३ अनुत्तम ४ उत्तम ५ मुख्य ६
वर्य ७ वरेण्य ८ प्रवर्ह ९ अनवराध्व १०

॥ ५७ ॥ पराध्व्य १ १ अग्र १ २ प्राग्रहर १ ३
प्राग्र्य १ ४ अग्र्य १ ५ अग्रीय १ ६ अग्रिय १ ७

श्रेयान् श्रेष्ठः पुष्कलः स्यात्सत्त
मश्चातिशोभने ॥ ५८ ॥

अतिसुदरके नाम १ ॥ धेयस १
धेष्ठ २ पुष्कल ३ सत्तम ४ अतिशोमन
१ ॥ १८ ॥

स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपुंगवपभक्तु
क्षरा ॥ सिंहशाबूलनागाद्या
प्राप्ते श्रेष्ठाथगोचरा ॥ १९ ॥

व्याघ्र, पुंगव, ऋषय, कुन्वर,
सिंह, शार्दूल, नागादि शब्दोंके उत्तर
आनेसे धेष्ठ अर्थके वाचक होत हैं जैसे
पुरुषम्याघ्र, दिव्यपुङ्गव इत्यादि ॥ १९ ॥

अप्राप्यं द्रव्यनि द्वे अप्र
धानोपसर्जने ॥

अप्रधानक नाम ३ ॥ अप्राप्य १ अप्र-
धान २ उपसर्जन ३ ॥

विशङ्कटं पृथु वृद्धिशाल पृथुल
महत् ॥ ६० ॥ बङ्गोरुविपुलं-

शौर्के नाम ९ ॥ विशङ्कट १ पृथु
२ पृहत् ३ विशाल ४ पृथुल ५ महत् ६
॥ ६ ॥ वङ् ७ उरु ८ विपुल ९ ॥

-पीनपीप्ती तु स्थूलपीवरे ॥
मोटेके नाम ४ ॥ पीम १ पीवन् २

स्थूळ ३ पीवर ४ ॥
स्तोकाल्पक्षुडका सुक्ष्मं कृष्ण

दर्शं कृष्णं तनु ॥ ६१ ॥ स्त्रियां
माप्राश्रुतिं पुगि लबलंशक

णाणव ॥

घोटेके नाम १४ ॥ स्तोक १ अल्प १
क्षुडक २ सूक्ष्म ३ कृष्ण ४ दम ५ कृष्ण
७ तनु ८ ॥ ६१ ॥ माप्राश्रुति १०

लव ११ लेश १२ कण १३ अणु १४ ॥
अल्पवपेऽल्पिष्ठमल्पीयं क्ली

योणीय इत्यपि ॥ ६२ ॥
अतिअल्पके नाम ४ ॥ अल्पिष्ठ १

अल्पीयसू २ क्लीयसू ३ अणीयसू ४ ॥ ६२ ॥
प्रमूत प्रचुर प्राज्यमदर्शं बहुल

बहु ॥ पुरुहूः पुरु भूमिष्ठं स्फारं
भूयश्च मूरि च ॥ ६३ ॥

वहुतके नाम १२ ॥ प्रमूत १ प्रचुर २
प्राज्य ३ अदर्श ४ बहुल ५ बहु ६ प्रसू ७

पुरु ८ भूमिष्ठ ९ स्फार १ भूयस ११
मूरि १२ ॥ ६३ ॥

परःशताद्यास्ते येया परा सं
ख्या शतादिकात् ॥

बिनकी संख्या शतस अर्थात् सहास
दिते अधिक हो वह पर शत भाषि

कहाते ह ॥
गणनीये तु गणेर्य-

गिननयोग्य वस्तुके नाम २ ॥ गण
नीय १ गणय २ ॥

-संख्याते गणित-

गिनहरने नाम २ ॥ संयान १
गणित २ ॥

मथ समं सर्वम् ॥ ६४ ॥

विश्वमशेषं कृत्स्नं समस्तानि-
खिलाखिलानि निःशेषम् ॥

समग्रं सकलं पूर्णमखण्डं स्याद-
नूनके ॥ ६५ ॥

सम्पूर्णके नाम १४ ॥ सम १ सर्व २
॥ ६४ ॥ विश्व ३ अशेष ४ कृत्स्न ५
समस्त ६ निखिल ७ अखिल ८ निःशेष
९ समग्र १० सकल ११ पूर्ण १२
अखण्ड १३ अनूनक १४ ॥ ६५ ॥

घनं निरन्तरं सान्द्रं-

घनेके नाम ३ ॥ घन १ निरन्तर २ साद्र ३ ॥

-पेलवं विरलं तनु ॥

छितरे (छीदे) के नाम ३ ॥ पेलव
१ विरल २ तनु ३ ॥

समीपे निकटासन्नसन्निकृष्टस-
नीडवत् ॥ ६६ ॥ सदेशाभ्या-

शसविधसमर्यादसवेशवत् ॥

उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्राअ
प्यभितोऽव्ययम् ॥ ६७ ॥

समीपके नाम १५ ॥ समीप १
निकट २ आसन्न ३ सन्निकृष्ट ४ सनीड
५ ॥ ६६ ॥ सदेश ६ अभ्याश ७ सविध
८ समर्याद ९ सवेश १० उपकण्ठ ११
अन्तिक १२ अभ्यर्ण १३ अभ्यग्रा १५
अभितः १५ ॥ ६७ ॥

संसक्ते त्वव्यवहितमपदान्तर-
मित्यपि ॥

मिलेद्वएके नाम ३ ॥ संसक्त १ अव्य
वहित २ अपदान्तर ३ ॥

नेदिष्ठमन्तिकतमं-

अतिसमीपके नाम २ ॥ नेदिष्ठ १
अन्तिकतम २ ॥

-स्यादूरं विप्रकृष्टकम् ॥ ६८ ॥

दूरके नाम २ ॥ दूर १ विप्रकृष्ट २ ॥ ६८

दवीयश्च दविष्ठं च सुदूरे-

अत्यन्तदूरिके नाम ३ ॥ दवीयसू १
दविष्ठ २ सुदूर ३ ॥

-दीर्घमायतम् ॥

लम्बेके नाम २ ॥ दीर्घ १ आयत २ ॥

वर्तुलं निस्तलं वृत्तं-

गोलके नाम ३ ॥ वर्तुल १ निस्तल २
वृत्त ॥

-बन्धुरं तून्नतानतम् ॥ ६९ ॥

ऊंचेनीचेके नाम २ ॥ बन्धुर १ उन्न
तानत २ ॥ ६९ ॥

उच्चप्रांशून्नतोदयोच्छितास्तुङ्गे-

ऊंचके नाम ६ ॥ उच्च १ प्राशु २
उन्नत ३ उदग्र ४ उच्छ्रित ५ तुङ्ग ६ ॥

--ऽथ वामने ॥

न्यङ्नीचखर्वहस्वाः स्यु-

वौने पुरुषके नाम ५ ॥ वामन १
न्यक् २ नीच ३ खर्व ४ हस्व ५ ॥

—स्वामेऽवनतानसम् ॥ ७० ॥
नमेऽएके नाम ३॥ अनाम १ अ-
न्त २ आनत ३ ॥ ७० ॥

अराळ वृजिनं जिह्वमूर्धिमत्कु-
ञ्चित नतम् । आविद्धं कुट्टिलं
मुम वेष्टितं वक्रमित्यपि ७१
द्वेष्ट नाम ११ अराळ १ वृजिन २
जिह्व ३ अर्धिमत् ४ कुञ्चित ५ नत ६
आविद्ध ७ कुट्टिल ८ मुम ९ वेष्टित
१ वक्र ११ ॥ ७१ ॥

ऋभाबाजिह्वप्रगुणौ—
सीधेके नाम ३॥ ऋभु १ अजिह्व
२ प्रगुण ३ ॥

—व्यस्ते त्वमगुणाकुली ॥
व्याकुलके नाम ३॥ व्यस्त १ अम-
गुण २ अकुल ३ ॥

शाश्वतसु ध्रुवो नित्यसदातनस-
नातनाः ॥ ७२ ॥

नित्यके नाम ८॥ शाश्वत १ ध्रुव २
नित्य ३ सदातन ४ सनातन ५ ॥ ७२ ॥
स्यास्तु स्थिरतरं स्थेया
अतिस्थिरक नाम ३॥ स्यास्तु १
स्थिरतर २ स्थेय ३ ॥

—नेकरूपतया तु यं ॥
कान्तव्यापी स कृतस्य
निधत एतेनाका नाम १॥ कृतस्य

—स्वावरो जङ्गमेतर ॥ ७३ ॥
वृक्षादिके नाम २ स्वावर १ जङ्ग-
मेतर २ ॥ ७३ ॥

घरिष्णु जङ्गमचरं व्रसमिद्धं
चराचरम् ॥

घळनेबाळेके नाम ६ ॥ घरिष्णु १
व्रसम २ चर ३ व्रस ४ इग ५ घा
पर ६ ॥

चलन कम्पनं कम्प चल लोट
चलाचलम् ॥ ७४ ॥ चञ्चल
तरळं चैव पारिष्णुवपरिष्णुवे ॥

कापमेके नामे १० ॥ चञ्चल कम्पन
२ कम्प ३ चल ४ लोट ५ घला
चल ६ ॥ ७४ ॥ चञ्चल ७ तरळ ८
पारिष्णुव ९ परिष्णुव १० ॥

अतिरिक्तं समाधिको—
अधिकने नाम २॥ अतिरिक्त १ सम्-
रिक्त २ ॥

—दृन्संधिस्तु संहत ॥ ७५ ॥
मिजापक नाम २॥ दृत्संधि १ संहत
२ ॥ ७५ ॥

ककर्ज कठिनं कूरं कटोर निष्टुरं
दृढम् ॥ जठर मूर्तिमन्मूर्ध-
कटिनर नाम १॥ कर्कश १ कठिन २
कूर ३ कटोर ४ निष्टुर ५ दृढ ६
जठर ७ मूर्तिमन् ८ मूर्ध ९ ॥

-प्रवृद्धं प्रौढमेधितम् ॥ ७६ ॥

वढेहुएके नाम ३ ॥ प्रवृद्ध १ प्रौढ, २
एधित ३ ॥ ७६ ॥

पुराणे प्रतनप्रत्नपुरातनचि-
रंतनाः ॥

पुरानेके नाम ५ ॥ पुराण १ प्रतन
२ प्रत्न ३ पुरातन, ४ चिरन्तन ५ ॥

प्रत्यग्रोऽभिनवो नव्यो नवीनो
नूतनो नवः ॥ ७७ ॥ नूतनश्च-

नयेके नाम ७ ॥ प्रत्यग्र १ अभिनव
२ नव्य ३ ॥ नवीन ४ नूतन ५ नव ६
॥ ७७ ॥ नूतन ७ ॥

-सुकुमारं तु कोमलं मृदुलं मृदु ॥

सुकुमारके नाम ४ ॥ सुकुमार १ कोमल
२ मृदुल ३ मृदु ४ ॥

अन्वगन्वक्षमनुगेऽनुपदं क्ली-
वमव्ययम् ॥ ७८ ॥

पिछेके नाम २ ॥ अन्व १ अन्वक्ष २
अनुग ३ अनुपद ४ ॥ ७८ ॥

प्रत्यक्षं स्यादैन्द्रियक-

प्रत्यक्षके नाम २ ॥ प्रत्यक्ष १ ऐन्द्रियक २ ॥

-प्रत्यक्षमतीन्द्रियम् ॥

जो न दीखे उसके नाम २ ॥ अप्रत्यक्ष
१ अतीन्द्रिय २ ॥

एकतानोऽनन्यवृत्तिरेकाग्रै-
कायनावपि ॥ ७९ ॥ अप्ये-

कसर्गएकाग्रयोऽप्येकायनग-
तोऽपि सः ॥

एकाग्रके नाम ७ ॥ एकतान १
अनन्यवृत्ति २ एकाग्र ३ एकायन ४ ॥ ७९ ॥
एकसर्ग ५ एकाग्र्य ६ एकायनगत ७ ॥

पुंस्यादिः पूर्वपौरस्त्यप्रथ-
माद्या-

पहिलेके नाम ५ ॥ आदि १ पूर्व २
पौरस्त्य ३ प्रथम ४ आद्य ५ ॥

-अथास्त्रियाम् ॥ ८० ॥

अन्तो जघन्यं चरममन्त्यपाश्चा-
त्यपश्चिमाः ॥

पिछलेके नाम ६ ॥ ८० ॥ अन्त १
जघन्य २ चरम ३ अन्त्य ४ पाश्चात्य ५
पश्चिम ६ ॥

मोघं निरर्थकं-

व्यर्थके नाम २ ॥ मोघ १ निरर्थक २ ॥

-स्पष्टं स्फुटं प्रव्यक्तमुल्ब-
णम् ॥ ८१ ॥

स्पष्टके नाम ४ ॥ स्पष्ट १ स्फुट २
प्रव्यक्त ३ उल्बण ४ ॥ ८१ ॥

साधारणं तु सामान्य-

सामान्यके नाम २ ॥ साधारण १
सामान्य २ ॥

-मेकाकी त्वेक एककः ॥

अकेलेके नाम ३ ॥ एकाकिन १ एक
२ एकक ३ ॥

मिन्नायका अन्यतर एकस्त्वोऽ-
न्यतरावपि ॥ ८२ ॥

अन्यके नाम १॥मिन् १ अन्यतर २
एक ३ त्व ४ अन्य ५ इतर ६॥८२॥

उच्चावच नैकमेद-
अनरुप्रकारके नाम २॥ उच्चावच १
नैकमेद २ ॥

-मुञ्चण्डमविलम्बितम् ॥
धीप्रके नाम २ ॥ उच्चण्ड १ अवि-
लम्बित २ ॥

अरुतुवस्तु ममसृ-
मर्ममेदफक्त नाम २ ॥ अरुतुद १
ममसृष्ट २ ॥

गवार्ध तु निरगलम् ॥ ८३ ॥
जिस्के काई बाधा न हो ससने नाम
२॥ अगवार्ध १ निरगल २ ॥ ८३ ॥

प्रसद्यं प्रतिकूलं स्यादपसंख्यम
पण्डु च ॥

विपरितके नाम ४ ॥ प्रसम्य १ प्रति-
कूल २ अपसम्य ३ अपण्डु ४ ॥

वाम शरीर सद्व्यं स्या-
बाय भगका नाम १ ॥ मिय १ ॥

-द्वसद्यं तु दक्षिणम् ॥ ८४ ॥
दरिन भगका नाम १ ॥ अपसद्य
१ ॥ ८४ ॥

सकट ना तु सबाय -

सकट (मीठ भागआदि)के नाम २
सकट १ सबाय २ ॥

-कलिलं गहनं समे ॥
जो बड़ी दुःखसे प्राप्त होनेके योग्य
हा उसके नाम २ ॥ कलिल १ गहन २ ॥
सकीर्णं संकुलाकीर्णं-

नाना जातिके छोगोंके एकत्र घेजनेके
नाम ३ ॥ सकीर्ण १ संकुल २ आकीर्ण ३ ॥

-मुण्डितं परिवापितम् ॥ ८५ ॥
मुण्डेदुएके नाम २ ॥ मुण्डित १ परि-
वापित २ ॥ ८५ ॥

प्रन्थितं सन्धितं दृष्यं-
गण्डेदुएके नाम ३ ॥ प्रन्थित १
सन्धित २ दृष्य ३ ॥

-विस्तृतं विस्तृतं तवम् ॥
कैलदुएके नाम ३ ॥ विस्तृत १
विस्तृत २ तव ३ ॥

अन्तर्गतं विस्मृतं स्या-
भूलेदुएके नाम २ ॥ अन्तर्गत १
विस्मृत २ ॥

-स्त्राप्तमणिदत्ते समे ॥ ८६ ॥
रत्नेदुएके नाम २ ॥ प्राप्त १ मणि-
दत्त २ ॥ ८६ ॥

वेदितमेष्विवाधृतचरिताक
मिवाधृत ॥
घोषा कान्त दुएके नाम ६ ॥ वेदित १

प्रेखित २ आधूत ३ चलित ४ आक-
पित ५ धुत ६ ॥

नुचनुन्नास्तनिष्ठ्यूताविद्धक्षि-
त्तेरिताः समाः ॥ ८७ ॥

प्रेरितके नाम ७ ॥ नुत्त १ नुन्न २
अस्त ३ निष्ठ्यूत ४ आविद्ध ५ क्षित ६
ईरित ७ ॥ ८७ ॥

परिक्षिप्तं तु निवृत्तं-

धेरेहुएके नाम २ ॥ परिक्षिप्त १
निवृत्त २ ॥

-मूपितं मुषितार्थकम् ॥

चुरायेहुयेके नाम २ ॥ मूपित १
मुषित २ ॥

प्रवृद्धप्रसृते-

फैलनेके नाम २ ॥ प्रवृद्ध १ प्रसृत २ ॥

-न्यस्तानिसृष्टे-

फेंकेहुएके नाम २ ॥ न्यस्त १
निसृष्ट २ ॥

-गुणिताहते ॥ ८८ ॥

गुणेहुएके नाम २ ॥ गुणित १ आहत
२ ॥ ८८ ॥

निदिग्धोपचिते-

बढेहुएके नाम २ ॥ निदिग्ध १
उपचित २ ॥

-गूढगुप्ते-

छिपेहुएके नाम २ ॥ गूढ १ गुप्त २ ॥

-गुण्ठितरूपिते ॥

धूलिसे सनेहुएके नाम २ ॥ गुण्ठित

१ रूपित २ ॥

द्रुतावदीर्णे-

द्रवीभूतके नाम २ ॥ द्रुत १ अव-
दीर्ण २ ॥

-उदूर्णोद्यते-

मारनेको उठायेहुए शस्त्रादिके नाम
२ ॥ उदूर्ण १ उद्यत २ ॥

-काचितशिवियते ॥ ८९ ॥

छीकेपै धरी हुई वस्तुके नाम २ ॥
काचित १ ॥ शिवियत २ ॥ ८९ ॥

घ्राणघ्राते-

सूधेहुएके नाम २ ॥ घ्राण १ घ्रात २

-दिग्धलिप्ते-

लीपेहुएके नाम २ ॥ दिग्ध १ लिप्त २ ॥

-समुदक्तोद्धृते-

कपादिसे निकालेहुए जलादिके नाम
२ ॥ समुदक्त १ उद्धृत २ ॥

-समे ॥

उपरोक्तशब्द समानलिंग होते हैं ॥

वेष्टितं स्याद्वलयितं संवीतं रु-

द्धमावृतम् ॥ ९० ॥

नदी आदिसे धेरेहुएके नाम ९ ॥
वेष्टित १ वलयित २ संवीत ३ रुद्ध ४

आवृत ५ ॥ ९० ॥

रुग्णं मुग्धे-

दृष्टेद्वयेके नाम २ ॥ रुग्ण १ मुग्ध २ ॥

-ऽय निश्चितदृष्टुवशात्तानि ते
जिते ॥

तेन किये द्वयेके नाम ४ ॥ निश्चित १
दृष्टुव २ शात ३ तेजित ४ ॥

स्याद्दिनाशोन्मुखं पक्क-

पकड्डए भरनेवा काटनेके योग्य कस्तूर
क नाम २ ॥ निमाशो मुख १ पक २ ॥

-हीणहीतौ तु छजिते ॥ ९१ ॥

छज्यायुक्तक नाम ३ ॥ हीण १ हीत २
छजित ३ ॥ ९१ ॥

धृष्टे तु धृतध्याधृत्तौ-

वरण कियेद्वयेके नाम ३ ॥ धृष्ट १ धृत २
ध्याधृत्त ३ ॥

-संयोजित उपाहित ॥

मिजाये हणके नाम २ ॥ संयोजित
१ उपाहित २ ॥

प्राप्य गम्यं समासाद्य-

प्राप्तफरनेक योग्यक नाम ३ ॥ प्राप्य
१ गम्य २ समासाद्य ३ ॥

-स्पन्न रीण स्नुत स्तुतम् ॥ ९२ ॥

यहते हएके नाम ४ ॥ स्पन्न १ रीण
२ स्नुत ३ स्तुत ४ ॥ ९२ ॥

गगुर्दं स्यात्सकलितो-

गोडट्टण अकारिण नाम ॥ स्पगुड
१ मकलित २ ॥

-ऽवगीतं स्यात्तर्गणं ॥

निन्दितके नाम २ ॥ अवगीत १

स्यात्तर्गण २ ॥

विविधं स्याद्बहुविधो नाना

रूपः पृथग्बिधं ॥ ९३ ॥

विविधप्रकारके नाम ४ ॥ विविध १ पृथग्
विध २ नानारूप ३ पृथग्बिध ४ ॥ ९३ ॥

अवरीणो धिक्कृतश्चा-

धिक्कार हएके नाम २ ॥ अवरीण १
धिक्कृत २ ॥

-ऽप्यवध्यस्तोऽवचूर्णितः ॥

चूर्ण किय गयके नाम २ ॥ अवध्यस्त
१ अवचूर्णित २ ॥

अनायासकृतं पाण्ड-

अनयासत किये कयका नाम १ ॥
पाण्ड १ ॥

-स्वनित ध्वनित समे ॥ ९४ ॥

जिसने शब्द किया हो उसके नाम २ ॥
स्वनित १ ध्वनित २ ॥ ९४ ॥

यद्दे सदानितं मृतमुहितं सदि
धं सितम् ॥

बन्धेद्वएक नाम ६ ॥ यद्दे १ सदानित
२ मृत ३ मुहित ४ सदिध ५ सित ६ ॥

निष्पद्ये कथित

अग्नी तरह पकायद्वए कान् आदिवे
नाम २ ॥ निष्पद्य १ कथित २ ॥

पाके क्षीराज्यहविषां गृतम् ॥ ९५ ॥ पकेहुये घृत दुग्धादिका नाम १ ॥ शृत १ ॥ ९५ ॥ निर्वाणोमुनिवद्दद्यादौ— मुनि अग्नि आदिके मुक्तहोनेकानाम १ ॥ निर्वाण १ ॥ —निर्वातस्तु गतेऽनिले ॥ जत्र वायु न चलता होउस समयका नाम १ ॥ निर्वात १ ॥ पक्कं परिणते— पकेहुयेके नाम २ ॥ पक्क १ परि- णत २ ॥ —गूनं हन्ने— हगेहुयेके नाम २ ॥ गून १ हन्न २ ॥ —मीढं तु मूत्रिते ॥ ९६ ॥ मूतेहुयेकेनाम २ ॥ मीढ १ मूत्रित ॥ ९६ पुष्टे तु पुषितं— पोषणकियेके नाम २ ॥ पुष्ट १ पुषित २ ॥ —सोढे क्षान्त— सहेहुयेके नाम २ ॥ सोढ १ क्षान्त २ मुद्धान्तमुद्घते ॥ डाके हुये अन्नादिकेनाम २ ॥ उद्धान्त १ उद्घत २ ॥ दान्तस्तु दमिते—	दमनकिये वृषम आदिके नाम २ ॥ दान्त १ दमित ॥ २ ॥ शान्तः शमिते— शमनको प्राप्त हुयेके नाम २ ॥ शान्त १ शमित २ १ —प्रार्थितेऽर्दितः ॥ ९७ ॥ मागेहुयेके नाम २ ॥ प्रार्थित १ अर्दित २ ॥ ९७ ॥ ज्ञप्तस्तु ज्ञापिते— जानेहुयेके नाम २ ॥ ज्ञप्त १ ज्ञापित २ ॥ —छन्नश्छादिते— छायेके नाम २ ॥ छन्न १ छादित २ ॥ पूजितेऽञ्चितः ॥ पूजाकियेगयेके नाम २ ॥ पूजित १ अञ्चित २ ॥ पूर्णस्तु पूरिते— पूरेके नाम २ ॥ पूर्ण १ पूरित २ ॥ —क्लिष्टः क्लिशिते— क्लेशितकेनाम २ ॥ क्लिष्ट १ क्लिशित २ ॥ —वसिते सितः ॥ ९८ ॥ समाप्तके नाम २ अवसित १ सित २ ॥ ९८ ॥ पुष्टप्लुष्टोषिता दग्धे— जलेहुयेके नाम ४ ॥ पुष्ट १ प्लुष्ट २ उषित ३ दग्ध ४ तष्टत्वष्टौ तनूकृते ॥
---	--

सूक्ष्मकिये गयेके नाम ३ ॥ तट १
 तट २ तनुकृत ३ ॥
 वेधितच्छिद्रितौ विद्धे—
 छेदयेके नाम ३ ॥ वधित १ छिद्रित
 २ विद्ध ३ ॥
 -विभ्रविशौ विचारिते ॥ ९९ ॥
 विचारेके नाम ३ ॥ विभ्र १ विच
 २ विचारित ३ ॥ ९९ ॥
 निष्प्रमे विगतारोकौ—
 तेनरहितके नाम ३ ॥ निष्प्रम १
 विगत २ अरोक ३ ॥
 -विलीने विवृतवृत्तौ ॥
 विषल जानक नाम ३ ॥ विलीन १
 विवृत २ वृत्त ३ ॥
 सिद्धे निवृत्तनिष्पक्षौ—
 सिद्धके नाम ३ ॥ सिद्ध १ निवृत्त २
 निष्पक्ष ३ ॥
 -दारित्ते भिन्नभेदितौ ॥ १०० ॥
 धीरेके नाम ३ ॥ दारिद्र्य १ भिन्न
 २ भेदित ३ ॥ १०० ॥
 ऊवं स्यूतमुतं चेति त्रितय
 तन्तुसतते ॥
 तनुक निस्तारक नाम ३ ॥ ऊन १
 स्यूत २ उत ३ ॥
 स्वादाह्विते नमस्वितं नम
 गितमपचायिताधिंतापड
 धितम् ॥ १०१ ॥

पूजितके नाम ३ ॥ आर्हित १ म्
 न्यित २ नमस्वि ३ अपचायित ४ आर्हित
 ५ अपधित ६ ॥ १०१ ॥
 वरिवसिते वरिवस्वितमुपासि
 तं घोषधरित च ॥
 सेमाकियोगयेके नाम ३ ॥ त्रिवस्वित १
 वरिवस्वित २ उपासित ३ उपधरित ४ ॥
 सतापितसततौ धूपितधूपयि
 तौ च दूनम् ॥ १०२ ॥
 तपायके नाम ९ ॥ सतापित १
 सत्तप्त २ धूपित ३ धूपायित ४ दून ५ १०२
 हृष्टे मत्तस्वत्तं प्रहृष्टं प्रमुदितं
 प्रीतं ॥
 हर्षितके नाम ३ ॥ हृष्ट १ मत्त २
 तृप्त ३ प्रहृष्ट ४ प्रमुदित ५ प्रीत ६ ॥
 छिन्नं छातं सूतं कृत्तदात दित
 छित्त वृक्कणम् ॥ १०३ ॥
 काठयेके नाम ८ ॥ छिन्न १ छात २
 सूत ३ कृत्त ४ दात ५ दित ६ छित
 ७ वृक्कण ८ ॥ १०३ ॥
 स्रस्त ध्वस्तं भ्रष्ट स्वस्त पस्त
 च्युतं गालितम् ॥
 सुपटके नाम ७ ॥ स्रस्त १ ध्वस्त २
 भ्रष्ट ३ स्वस्त ४ पस्त ५ च्युत ६ गालित ७ ॥
 लब्ध प्राप्त विभ्र भावितमा-
 सादित च मृत च ॥ १०४ ॥

पायेद्दुएके नाम ६ ॥ लब्ध १ प्राप्त
२ विन्न ३ भाषित ४ आसादित ५ भूत
६ ॥ १०४ ॥

अन्वेषितं गवेषितमन्विष्टं मा-
र्गितं मृगितम् ॥

दूढेद्दुएके नाम ५ ॥ अन्वेषित १ गवे-
षित २ अन्विष्ट ३ मार्गित ४ मृगित ५ ॥

आर्द्रं सार्द्रं क्लिन्नं तिमितं स्ति-
मितं समुन्नमुत्तं च ॥ १०५ ॥

भीजेद्दुएके नाम ७ ॥ आर्द्र १ सार्द्र
२ क्लिन्न ३ तिमित ४ स्तिमित ५ समुन्न
६ उत्त ७ ॥ १०५ ॥

त्रातं त्राणं रक्षितमविव्र गोपा-
यितं च गुप्तं च ॥

रक्षाकिये गयेके नाम ६ ॥ त्राण १
त्रात २ रक्षित ३ अविव्र ४ गोपायित ५
गुप्त ॥ ६ ॥

अवगणितमवमतावज्ञातेऽवमा-
नितं परिभूते ॥ १०६ ॥

अपमानकिये गयेके नाम ५ ॥ अवग-
णित १ अवमत २ अवज्ञात ३ अव-
मानित ४ परिभूत ५ ॥ १०६ ॥

त्यक्तं हीनं विधुतं समुज्झितं
धूतमुत्सृष्टे ॥

त्यागेद्दुयेके नाम ६ ॥ त्यक्त १ हीन २
विधुत ३ समुज्झित ४ धूत ५ उत्सृष्ट ६ ॥

उक्तं भाषितमुदितं जल्पितमा-
ख्यातमभिहितं लपितम् १०७

कहेद्दुयेके नाम ७ ॥ उक्त १ भाषित
२ उदित ३ जल्पित ४ आख्यात ५
अभिहित ६ लपित ७ ॥ १०७ ॥

बुद्धं बुधितं मनितं विदितं प्र-
तिपन्नमवसितावगते ॥

जानेगयेके नाम ७ ॥ बुद्ध १ बुधित
२ मनित ३ विदित ४ प्रतिपन्न ५ अव-
सित ६ अवगत ७ ॥

ऊरीकृतमुररीकृतमंगीकृतमा-
श्रुतं प्रतिज्ञातम् ॥ १०८ ॥

संगीर्णविदितसंश्रुतसमाहितो
पश्रुतोपगतम् ॥

अगीकारकिये गयेके नाम ११ ॥ ऊरी-
कृत १ उररीकृत २ अगीकृत ३
आश्रुत ४ प्रतिज्ञात ५ ॥ १०८ ॥
संगीर्ण ६ विदित ७ संश्रुत ८ समाहित
९ उपश्रुत १० उपगत ११ ॥

ईलितशस्तपणायितपनायित-
प्रणुतपणितपनितानि ॥ १०९ ॥
अवगीर्णवर्णिताभिष्टुतेडिता-
नि स्तुतार्थानि ॥

स्तुति किये गयेके नाम १२ ॥ ईलित
१ शस्त २ पणायित ३ पनायित ४
प्रणुत ५ पणित ६ पनित ७ ॥ १०९ ॥
अवगीर्ण ८ वर्णित ९ अभिष्टुत १०
ईडित ११ स्तुत १२ ॥

भक्षितचर्वितलीढप्रत्यवसित-
गिलितखादितप्सातम् ११० ॥
अभ्यवहृताभजग्धप्रस्तग्लस्ता
शित्त मुक्ते ॥

खायगयेके नाम १४ ॥ भक्षित १
चर्वित २ लीढ ३ प्रत्यवसित ४ गिलित
५ खादित ६ प्सात ७ ॥ ११० ॥
अभ्यवहृत ८ अभ ९ जग्ध १० प्रस्त
११ ग्लस्त १२ अशित १३ मुक्त १४

क्षेपिष्ठसोदिष्ठप्रेष्ठवरिष्ठस्यवि
ष्टवंहिष्ठा ॥ १११ ॥ सिमधुव्रा
मीप्सितपृथुपीवरवडुलप्रकर्षा-
या ॥

भाषा—(अतिशय करके त्वरितका
नाम) क्षेपिष्ठ १ ॥ (अतिशय क्षुद्रका
नाम) सोदिष्ठ १ ॥ (अतिशय अमी
ग्लितका नाम) प्रेष्ठ १ ॥ अतिशय
पृथुका नाम) वरिष्ठ १ ॥ (अतिशय
स्यूका नाम) स्यविष्ठ १ ॥ अतिशय
वडुलका नाम) वहिष्ठ १ ॥ १११ ॥

साधिष्ठव्राधिष्ठस्फेष्ठगरिष्ठहसि
ष्ठवृन्दिष्ठाः ॥ ११२ ॥

बाढव्यापवबडुयुरुबामन
वृन्दारिकाविश्वे ॥

भाषा—(अतिशय बाढका नाम)
साधिष्ठ १ ॥ (अतिशय दीर्घका नाम)

व्राधिष्ठ १ ॥ अतिशय स्फिरका नाम)
स्फेष्ठ १ ॥ (अतिशयका गुस्का नाम)
गरिष्ठ १ ॥ (अतिशय हृत्त्वका नाम) हसिष्ठ
१ ॥ (अतिशय वृन्दारकका नाम)
वृन्दिष्ठ ॥ ११२ ॥

इति विशेष्यनिवर्गः ॥ १ ॥

अथ संकीर्णवर्ग २

प्रकृतिप्रत्यायाँचै सकीर्णे
लिङ्गमुभयेत् ॥

भाषा—प्रकृतिप्रत्यय आदिके अर्थके
द्वारा संकीर्णवर्गमें लिङ्ग जानने ॥

कर्म क्रिया—

क्रियाके नाम २ ॥ कर्मन् १ क्रिमा २ ॥

—सत्सातत्पे गम्ये स्युरपर-
स्परा ॥ १ ॥

अपरस्परोंके निरन्तर बचनेका नाम
॥ १ ॥ अपरस्पर १ ॥ १ ॥

साकस्यासगवचने पारायणप-
रायणे ॥

साकस्यके बचनका नाम १ ॥ पारा
यण १ ॥ आसंगके बचनका नाम १ ॥

परायण १ ॥

यदृच्छा स्वैरिता—

एतन्नृताके नाम २ ॥ यदृच्छा १

स्वैरिता ॥ २ ॥

—हेतुशून्या त्वास्या विल-

क्षणम् ॥ २ ॥

विना कारणकी स्थितिका नाम १ ॥
विलक्षण १ ॥ २ ॥

शमथस्तु शमः शान्ति-

शातिके नाम ३ ॥ शमथ १ शम २
शान्ति ३ ॥

-दान्तिस्तु दमथो दमः ॥

इन्द्रियोंके रोकनेके नाम ३ ॥ दाति
१ दमथ २ दम ३ ॥

अवदानं कर्मवृत्तं-

अच्छेकर्मके नाम २ ॥ अवदान १
कर्मवृत्त २ ॥

-काम्यदानं प्रवारणम् ॥ ३ ॥

कामनाकरके दान देनेके नाम २ ॥
काम्यदान १ प्रवारण २ ॥ ३ ॥

वशक्रिया संवननं-

वशीकरणके नाम २ ॥ वशक्रिया १
सवनन २ ॥

-मूलकर्म तु कार्मणम् ॥

औषधीकी जड़ आदिसे उच्चाटनके
नाम २ ॥ मूलकर्म १ कार्मण २ ॥

विधूननं विधुवनं-

कांपनेके नाम २ ॥ विधूनन १
विधुवन २ ॥

-तर्पणं प्रीणनावनम् ॥ ४ ॥

तृप्तिके नाम ३ ॥ तर्पण १ प्रीणन २
अवन ३ ॥ ४ ॥

पर्याप्तिः स्यात्परित्राणं हस्त-
धारणमित्यापि ॥

कोई किसीको मारता हो उसके रोक
लेनेके अर्थ हाथ पकड़ लेनेके नाम ३ ॥
पर्याप्ति १ परित्राण २ हस्तधारण ३ ॥

सेवनं सीवनं स्यूति-

सीनेके नाम ३ ॥ सेवन १ सीवन २
स्यूति ३ ॥

-विट्ठरः स्फुटनं भिदा ॥ ५ ॥

फूटनेके नाम ३ ॥ विट्ठर १ स्फुटन २
भिदा ३ ॥ ५ ॥

आक्रोशनमभीषङ्गः-

गरियानेके नाम २ ॥ आक्रोशन १
अभीषङ्ग २ ॥

-सवेदो वेदना न ना ॥

अनुभवज्ञानके नाम २ ॥ सवेद १
वेदना २ ॥

संमूर्च्छनमभिव्याप्ति-

सत्र ओरसे व्याप्तिके नाम २ ॥ संमू-
र्च्छन १ अभिव्याप्ति २ ॥

-र्याच्चा भिक्षार्थनार्दना ॥ ६ ॥

मीखके नाम ४ ॥ र्याच्चा १ भिक्षा २
अर्थना ३ अर्दना ४ ॥ ६ ॥

वर्धनं छेदनं-

काटनेके नाम २ ॥ वर्धन १ छेदन २ ॥

-ऽथ द्वे ध्यानन्दनसम्भोजने ॥

भक्षितचर्कितलीटप्रत्यवसित-
गिलितखादितप्सातम् ११० ॥
अभ्यन्वहुसाभजग्धमस्त्वग्लस्ता
शित मुक्ते ॥

खायेगयेके नाम १४॥ भक्षित १
चर्कित २ लीट ३ प्रत्यवसित ४ गिलित
५ खादित ६ प्सात ७ ॥ ११० ॥
अभ्यन्वहुसा ८ अभ ९ जग्ध १० मस्त
११ ग्लस्त १२ अशित १३ मुक्ते १४

क्षेपिष्ठसोदिष्ठमेष्ठवरिष्ठस्थवि
ष्ठर्षहिष्ठा ॥ १११ ॥ सिमधुद्रा
भीप्सितपृथुपीवरबहुलप्रकर्पा-
था ॥

भाषा—(अतिशय करक स्वरितका
नाम) क्षेपिष्ठ १ ॥ (अतिशय क्षुद्रका
नाम) सोदिष्ठ १ ॥ (अतिशय अभी
प्सितका नाम) मेष्ठ १ ॥ (अतिशय
पृथुका नाम) वरिष्ठ १ ॥ (अतिशय
स्थूटका नाम) स्थविष्ठ १ ॥ (अतिशय
बहुलका नाम) भीष्ठा १ ॥ १११ ॥

साधिष्ठद्राधिष्ठस्फेष्ठगरिष्ठहसि
ष्ठवृन्दिष्ठा ॥ ११२ ॥
माडव्यापयवदुगुरुबामन
वृन्दारिकातिशये ॥

भाषा—(अतिशय माटका नाम)
साधिष्ठ १ ॥ (अतिशय दीर्घका नाम)

द्राधिष्ठ १ ॥ अतिशय स्फिरका नाम ;
स्फेष्ठ १ ॥ (अतिशयका गुस्का नाम ;
गरिष्ठ १ ॥ (अतिशय हृत्स्का नाम) हृत्तिष्ठ
१ ॥ (अतिशय वृन्दारका नाम)
वृन्दिष्ठ ॥ ११२ ॥

इति क्लिष्टनिर्गर्ग ॥ १ ॥

अथ संकीर्णवर्ग २
प्रकृतिप्रत्ययादी संकीर्णे
लिङ्गमुञ्जयेत् ॥

भाषा—प्रकृतिप्रत्यय आदिके अर्थोंके
द्वारा संकीर्णवर्गमें किंग जानने ॥

कर्म क्रिया—

क्रियाके नाम २ ॥ कर्मन् १ क्रिया २ ॥
—तत्सावत्ये गम्ये स्युरपर-
स्परा ॥ १ ॥

अपरस्परके निरन्तर चञ्चनका नाम
१ ॥ अपरस्पर १ ॥ १ ॥

साकस्यातगबचने पारायणप-
रायणे ॥

साकस्यके बचनका नाम १ ॥ पारा
यण १ ॥ आसृगके बचनका नाम १ ॥
परायण १ ॥

यदृच्छा स्वेरिता—
एतन्न्रताके नाम २ ॥ यदृच्छा १
स्वेरिता ॥ २ ॥

—हेतुशून्या त्वास्या विड-
क्षणम् ॥ २ ॥

विना कारणकी स्थितिका नाम १ ॥
विलक्षण १ ॥ २ ॥

शमथस्तु शमः शान्ति-

शातिके नाम ३ ॥ शमथ १ शम २

शान्ति ३ ॥

-दान्तिस्तु दमथो दमः ॥

इन्द्रियोंके रोकनेके नाम ३ ॥ दाति

१ दमथ २ दम ३ ॥

अवदानं कर्मवृत्तं-

अच्छेकर्मके नाम २ ॥ अवदान १
कर्मवृत्त २ ॥

-काम्यदानं प्रवारणम् ॥ ३ ॥

कामनाकरके दान देनेके नाम २ ॥

काम्यदान १ प्रवारण २ ॥ ३ ॥

वशक्रिया संवननं-

वशीकरणके नाम २ ॥ वशक्रिया १
सवनन २ ॥

-मूलकर्म तु कार्मणम् ॥

औपधीकी जह आदिसे उच्चाटनके
नाम २ ॥ मूलकर्म १ कार्मण २ ॥

विधूननं विधुवनं-

कापनेके नाम २ ॥ विधूनन १
विधुवन २ ॥

-तर्पणं प्रीणनावनम् ॥ ४ ॥

तृप्तिके नाम ३ ॥ तर्पण १ प्रीणन २
अवन ३ ॥ ४ ॥

पर्याप्तिः स्यात्परित्राणं हस्त-
धारणमित्यापि ॥

कोई किसीको मारता हो उसके रोक
लेनेके अर्थ हाथ पकड लेनेके नाम ३ ॥

पर्याप्ति १ परित्राण २ हस्तधारण ३ ॥

सेवनं सीवनं स्यूति-

सीनेके नाम ३ ॥ सेवन १ सीवन २
स्यूति ३ ॥

-विदरः स्फुटनं भिदा ॥ ५ ॥

फूटनेके नाम ३ ॥ विदर १ स्फुटन २
भिदा ३ ॥ ५ ॥

आक्रोशनमभीषङ्गः-

गिरियानेके नाम २ ॥ आक्रोशन १
अभीषङ्ग २ ॥

-संवेदो वेदना न ना ॥

अनुभवज्ञानके नाम २ ॥ संवेद १
वेदना २ ॥

संमूर्च्छनमभिव्याप्ति-

सब ओरसे व्याप्तिके नाम २ ॥ संमूर्-
च्छन १ अभिव्याप्ति २ ॥

-र्याच्चा भिक्षार्थनार्दना ॥ ६ ॥

भीखके नाम ४ ॥ र्याच्चा १ भिक्षा २
अर्थना ३ अर्दना ४ ॥ ६ ॥

वर्धनं छेदनं-

काटनेके नाम २ ॥ वर्धन १ छेदन २ ॥
-ऽथ द्वे श्रानन्दनसम्भोजने ॥

आप्रच्छन्न-

कुशल प्रश्न पूछनेसे उत्पन्न हुए ध्यान
न्द्रक नाम १ ॥ आमन्दन १ समाजन
२ आप्रच्छन्न १ ॥

-भषाम्नाय' समदाय'-

गुरुके उत्तम परम्परा उपदेश कर
नेक नाम १।।भाषाय १ समदाय २ ॥

-क्षये क्षिया ॥ ७ ॥

क्षय होनेके नाम २ ॥ क्षय १
क्षिया २ ॥ ७ ॥

महे माहो-

छेनेके नाम २ ॥ मह १ माह २ ॥

-वश' कान्तौ-

इच्छाके नाम २ ॥ वश १ कान्ति २ ॥

-रक्षणानाणे -

रक्षाक नाम २।।रक्षण १ प्राण २ ॥

-रण' कणे ॥

शब्दकालके नाम २ ॥ रण १ कण २ ॥

व्ययो वेधे-

उद्देनेके नाम २ ॥ व्यय १ वेध २ ॥

-पथा पाके-

भस्त्रादि पथानैक नाम २ ॥ पथा १
पाक २ ॥

-हवा हृती-

पुत्रानक नाम २ ॥ हव १ हृति २ ॥

बगे हृती ५ ८ ॥

शरदानके नाम २ ॥ शर १ हृति २ ॥ ८

ओष' ध्राये-

ज्वरानके नाम २ ॥ ओष १ ध्राये २ ॥

-नयो नाये-

नीतिक नाम २ ॥ नय १ नाय २ ॥

-ज्यानिर्जीर्णो-

जोर्णताके नाम २ ॥ ज्यानि १

जर्णि २ ॥

अमो अमो ॥

अमके नाम १ ॥ अम १ अमि २ ॥

स्फातिर्वृद्धौ-

वृद्धीके नाम १ ॥ स्फाति १ वृद्धि २ ॥

-प्रया रूपान्तौ-

प्रसिद्धताके नाम २ ॥ प्रया १

रूपाति २ ॥

स्पृष्टि' पुक्तौ-

छूनेके नाम २ ॥ स्पृष्टि १ पुक्ति २ ॥

स्नवः स्नवे ॥ ९ ॥

शरत्ताके नाम २ ॥ शर १ सर २ ॥ ९

पथा समृद्धौ-

वृद्धिके नाम २ ॥ पथा १ समृद्धि २ ॥

-स्फुरणे स्फुरणा-

कडकमके नाम २ ॥ स्फुरण १ स्फुरण २ ॥

-प्रमिती पमा ॥

पयापकानक नाम २ ॥ प्रमिति १

पमा २ ॥

प्रसूतिः प्रसवे-

जन्महोनेके नाम २ ॥ प्रसूति १

प्रसव २ ॥

-च्योते प्राधारः-

घृतादिके चुअनेके नाम २ ॥ च्योत १

प्राधार २ ॥

-क्लमथः क्लमे ॥ १० ॥

ग्लानिके नाम २ ॥ क्लमथ १ क्लम
२ ॥ १० ॥

उत्कर्षोऽतिशये-

प्रकर्षके नाम २ ॥ उत्कर्ष १ अति-
शय २ ॥

-संधिः श्लेषे-

मिलापके नाम २ ॥ संधि १ श्लेष २

-विषय आश्रये ॥

आश्रयके नाम २ ॥ विषय १
आश्रय २ ॥

क्षिपायां क्षेपणं-

फेंकने (प्रेरणे) के नाम २ ॥ क्षिपा
१ क्षेपण २ ॥

-गीर्णिगिरौ

लीलने (निगलने) के नाम २ ॥
गीर्णि १ गिरि २ ॥

-गुरणमुद्यमे ॥ ११ ॥

उद्यमके नाम २ ॥ गुरण १ उद्यम २
॥ ११ ॥

उन्नाय उन्नये-

ऊपरको लेजानेके नाम २ ॥ उन्नाय
१ उन्नय २ ॥

-श्रायः श्रयणे-

सेवाके नाम २ ॥ श्राय १ श्रयण २ ॥

जयने जयः ॥

जीतके नाम २ ॥ जयन १ जय २ ॥

निगादो निगदे-

कहनेके नाम २ ॥ निगाद १ निगद २ ॥

-मादो मद-

हर्षके नाम २ ॥ माद १ मद २ ॥

-उद्देग उद्दमे ॥ १२ ॥

घबरानेके नाम २ ॥ उद्देग १ उद्दम
२ ॥ १२ ॥

विमर्दनं परिमले-

कुकुमआदि मर्दनके नाम २ ॥ विमर्दन
१ परिमल २ ॥

-ऽभ्युपपत्तिरनुग्रहः ॥

हितकरने अनहितहटानेकी प्रवृत्तिके
नाम २ ॥ अभ्युपपत्ति १ अनुग्रह २ ॥

निग्रहस्तद्विरुद्धः स्या-

अनुग्रहसे विपरीतका नाम १ ॥
निग्रह १ ॥

-दभियोगस्त्वभिग्रहः ॥ १३ ॥

लडाईमें ललकारके नाम २ ॥ अभि
योग १ अभिग्रह ॥ १३ ॥

मुष्टियन्वस्तु संप्राहो-

मूठीकेद्वयपकबनेकेनाम २। मुष्टियन्व

१ संप्राह १ ॥

-डिम्बे डमरविप्लवौ ॥

मनुष्योके छन्देके नाम १ ॥ डिम्ब १

डमर २ स्थित ३ ॥

बन्धन प्रसितिभारः-

बाधनेके नाम ३ ॥ बन्धन १ प्रसिति

२ भार ३ ॥

-स्पर्शे स्पष्टोपसहार ॥ १४ ॥

स्पर्शपक्षो प्राप्तद्वये पुरुषकेनाम ३ ॥

स्पर्श १ स्पष्ट २ उपस ३ ॥ १४ ॥

निकारो विकारः स्या-

अपकारके नाम २ ॥ निकार १ विप्र

कार २ ॥

-वाकारस्विङ्ग इङ्गितम् ॥

अभिप्रायक अनुसार घेष्टकेनाम ३ ॥

वाकार १ इङ्ग २ इङ्गित ३ ॥

परिणामो विकारो द्वे समे वि

कृताधिक्रिये ॥ १५ ॥

प्रकृषी मदलजानेके नाम ४ ॥ परि

णाम १ विकार २ विकृति ३ विक्रिय ४

॥ १५ ॥

अपहारस्त्वपचय-

अपहरणके नाम २ ॥ अपहार १

अपचय २ ॥

समाहार समुच्चयः ॥

बटोरनकनाम २ ॥ समाहार १ समुच्चय २ ॥

प्रत्याहार उपादान-

इद्रियोके स्त्रीचनेके नाम १ ॥ प्रत्या

हार १ उपादान २ ॥

-विहारस्तु परिक्रम ॥ १६ ॥

खलनमें पैदल खलनेके नाम २ ॥

विहार १ परिक्रम २ ॥ १६ ॥

अभिहारोऽभिमहण-

चोरीकरनेके नाम २ ॥ अभिहार १

अभिमहण २ ॥

निहारोऽभ्यवकर्षणम् ॥

पुक्तिपूर्वक शब्दादि निकालनेकेनाम

० ॥ निहार १ अभ्यवकर्षण २ ॥

अनुहारोऽनुकार स्या-

विदम्बना अर्थात् नकलकरनेकेनाम

२ ॥ अनुहार १ अनुकार २ ॥

वर्षस्यावगमे व्ययः ॥ १७ ॥

वर्षकरनेका नाम १ ॥ व्यय १ ॥ १७ ॥

प्रवाहस्तु प्रवृत्तिः स्या-

जलभादिकी निरन्तरगतिके नाम २ ॥

प्रवाह १ प्रवृत्ति २ ॥

-स्प्रवहो गमनं वाहि ॥

वाहर जानेका नाम १ ॥ प्रवह १ ॥

पियामो विममो यामो यम

सयामसयमौ ॥ १८ ॥

सयमके नाम ६ ॥ वियाम १ वियम २ याम ३ यम ४ सयाम ५ सयम ६ ॥ १८ ॥	सक्षेपके नाम २ ॥ सक्षेपण समसन २ ॥
हिसाकर्माभिचारः स्या— मारडालनेके नाम २ ॥ हिसाकर्म १ अभिचार २ ॥	—पर्यवस्था विरोधनम् ॥ विरोधके नाम २ ॥ पर्यवस्था १ विरोधन २ ॥
—जागर्या जागरा द्वयोः ॥ जागनेके नाम २ ॥ जागर्या १ जागरा २ ॥	परिसर्या परीसारः— सत्र ओर गमनकरनेके नाम २ ॥ परि- सर्या १ परीसार २ ॥
विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः— विघ्नके नाम ३ ॥ विघ्न १ अन्तराय २ प्रत्यूह ३ ॥	स्यादास्या त्वासना स्थितिः ॥ २१ ॥ आसनस्थितिके नाम ३ ॥ आस्या १ आसना २ स्थिति ३ ॥ २१ ॥
—स्यादुपघ्नोऽन्तिकाश्रये ॥ १९ ॥ समीपके आश्रयके नाम २ ॥ उपघ्न १ अन्तिकाश्रय २ ॥ १९ ॥	विस्तारो विग्रहो व्यासः— विस्तारके नाम ३ ॥ विस्तार १ विग्रह २ व्यास ३ ॥
निर्वेश उपभोगः स्या— उपभोगके नाम २ ॥ निर्वेश १ उप- भोग २ ॥	स च शब्दस्य विस्तरः ॥ शब्दके विस्तारका नाम १ ॥ विस्तर १ संवाहनं मर्दनं— पौवआदिके दावनेके नाम २ ॥ संवा- हन १ मर्दन २ ॥
—त्परिसर्पः परिक्रिया ॥ परिवारके घेरनेके नाम २ ॥ परिसर्प १ परिक्रिया २ ॥	—स्याद्विनाशः स्याद्दर्शनम् ॥ २२ ॥ न देख पढनेके नाम २ ॥ विनाश १ अदर्शन २ ॥ २२ ॥
विधुरं तु प्रविश्लेषो— अत्यन्तवियोगके नाम २ ॥ विधुर १ प्रविश्लेष २ ॥	संस्तवः स्यात्परिचयः— जानपहिचानके नाम २ ॥ संस्तव १ परिचय २ ॥
—अभिप्रायश्छन्द आशयः ॥ २० ॥ अभिप्राय अर्थात् मनकी वातके नाम ३ ॥ अभिप्राय १ छन्द २ आशय ३ ॥ २० ॥	
संक्षेपणं समसनं—	

-प्रसरस्तु विसर्पणम् ॥

कैलनके नाम २ ॥ प्रसर १ विस-
र्पण २ ॥

मीवाकस्तु प्रयाम' स्या-

घन घान्यादिके षटोरनके नाम २ ॥

नीत्वाक १ प्रयाम २ ॥

-त्सनिधिः सनिकर्षणम् ॥ २३ ॥

पडोस (निकट)के नाम २ ॥ सनिधि १
सनिकर्षण २ ॥ २३ ॥

लघोजभिलावो लघने-

काटनेके नाम ३ ॥ लघ १ भमि-

लाव २ लघन ३ ॥

-निष्पावः पवने पव' ॥

भ्रमादि पडोरने (धरसान) आदिके
नाम ३ ॥ निष्पाव १ पवन २ पव ३ ॥

प्रस्ताव स्यादवसर-

प्रसंगक नाम २ ॥ प्रस्ताव १ अवसर २ ॥

-स्रसर' सूत्रवेष्टनम् ॥ २४ ॥

जुहाहे छोग भिस तरह सूत्रको छप
टतई टस क्रिपाके नाम २ ॥ स्रसर १

सूत्रवेष्टन २ ॥ २४ ॥

प्रजनः स्यादुपसरः-

गार्मिणी होनेके नाम २ ॥ प्रजन १
उपसर २ ॥

-प्रप्रयप्रणयो समौ ॥

प्रमके नाम २ ॥ प्रप्रय १ प्रणय २ ॥

धीशक्तिर्निष्क्रमा-

धी (बुद्धि) शक्तिके नाम २ ॥

धीशक्ति १ निष्क्रम २ ॥

-ऽध्वी तु सक्रमो दुर्गसं-

चरः ॥ २५ ॥

कठिन रस्तेके नाम २ ॥ संक्रम १

दुर्गसंचर २ ॥ २५ ॥

प्रत्युत्क्रम' प्रयोगार्थ'-

पुत्रके अर्थ तैयारी करनेके नाम २ ॥

प्रत्युत्क्रम १ प्रयोगार्थ २ ॥

-प्रक्रम' स्यादुपक्रम ॥

स्यादभ्यादानमुद्दात आरम्भ'

आरम्भमात्रके नाम १ ॥ प्रक्रम १

उपक्रम २ अभ्यादान ३ उद्दात ४
आरम्भ ५ ॥

-संभ्रमस्त्वेरा ॥ २६ ॥

वेगके नाम २ ॥ संभ्रम १ लघ

२ ॥ २६ ॥

प्रतिबन्ध' प्रतिष्टम्भो-

कार्य एक जानके नाम २ ॥ प्रतिबन्ध

१ प्रतिष्टम्भ २ ॥

-ऽवनायस्तु निपासनम् ॥

गिरनेके नाम २ ॥ अवनाय १ निपासन २ ॥

उपलम्भस्त्वनुभव'-

साक्षात् करनेके नाम २ ॥ उपलम्भ १

अनुभव २ ॥

-समालम्भो विलेपनम् ॥ २७ ॥

चन्द्रनादिके लेपनके नाम २ ॥ समा-
लम्भ १ विलेपन २ ॥ २७ ॥

विप्रलम्भो विप्रयोगो-

वियोगके नाम २ ॥ विप्रलम्भ १

विप्रयोग ॥ २

-विलम्भस्त्वतिसर्जनम् ॥

दानकेनाम २ ॥ विलम्भ १ अतिसर्जन ॥

विश्रावस्तु प्रतिख्याति-

अतिप्रसिद्धिके नाम २ ॥ विश्राव १
प्रतिख्याति ॥ २

-रवेक्षा प्रतिजागरः ॥ २८ ॥

वस्तुओंके देखनेके नाम २ ॥ अवेक्षा
१ प्रतिजागर २ ॥ २८ ॥

निपाठनिपठौ पाठे-

पढनेके नाम ३ ॥ निपाठ १ निपठ २
पाठ ३ ॥

-तेमस्तेमौ समुन्दने ॥

गीलाहोनेके नाम ३ ॥ तेम १ स्तेम
२ समुन्दन ३ ॥

आदीनवास्रवौ क्लेशे-

क्लेशके नाम ३ ॥ आदीन १ आस्रव
२ क्लेश ३ ॥

-मेलके सङ्गसंगमौ ॥ २९ ॥

मेलके नाम १ ॥ मेलक १ संग २
गम ३ ॥ २९ ॥

संवीक्षणं विचयनं मार्गणं

मृगणा मृगः ॥

अच्छे प्रकार दूढनेके नाम ५ ॥ संवी-
क्षण १ विचयन २ मार्गण ३ मृगणा ४
मृग ५ ॥

परिरम्भः परिष्वंगः संश्लेष-
पगूहनम् ॥ ३० ॥

प्रेमपूर्वक लिपटजानेके नाम ४ ॥
परिरम्भ १ परिष्वंग २ संश्लेश ३ उप-
गूहन ४ ॥ ३० ॥

निर्वर्णनं तु निध्यानं दर्श-

नालोकनेक्षणम् ॥

देखनेके नाम ५ ॥ निर्वर्णन १ निध्यान
२ दर्शन ३-आलोकन ४ ईक्षण ५ ॥

प्रत्याख्यानं निरसनं प्रत्या-
देशो निराकृतिः ॥ ३१ ॥

निराकरणके नाम ४ ॥ प्रत्याख्यान १
निरसन २ प्रत्यादेश ३ निराकृति ४ ॥ ३१

उपशायो विशायश्च पर्या-

यशयनार्थकौ ॥

अनुक्रमसे पहरेपर जागने सोनेवा-
लेके नाम २ ॥ उपशाय १ विशाय २

अर्तनं च ऋतीया च हृणीया च
वृणार्थकाः ॥ ३२ ॥

करुणा वा घिनानेके नाम ४ ॥ अर्तन
१ ऋतीया २ हृणीया ३ वृणा ४ ॥ ३२

स्याद्यत्पासो विपर्यासो

व्यत्ययश्च विपर्यये ॥

विपरीतके नाम ४ ॥ व्यत्यास १

विपर्यास २ व्यत्यय ३ विपर्यय ४ ॥

पर्ययोऽतिक्रमस्तस्मिन्नाति-

पात उपात्ययः ॥ ३३ ॥

किञ्चित् विपरीतके नाम ४ ॥ पर्यय १

अतिक्रम २ अतिपात ३ उपात्यय ४ ॥ ३३ ॥

प्रेषण यत्समाहूय तत्र स्या-
त्प्रतिशासनम् ॥

उहृद्ध आदिको गुलाकर भजनेका

नाम १ ॥ प्रतिशासन १ ॥

स सस्थाव* क्रतुषु या स्तुति-

भूमिर्दिजन्मनाम् ॥ ३४ ॥

पङ्कमे श्रावणोक्तौ स्तवन भूमिका

नाम १ ॥ संस्थाव १ ॥ ३४ ॥

निघाय तक्षयते यत्र काष्ठे

कार्त्तं स उट्टन* ॥

वह्मन वटिदा (तिसकउपरकाष्ठ

धरा जाता हे) का नाम १ ॥ उट्टन १ ॥

स्तम्भघ्नस्तु स्तम्भघनः स्तम्भो

येन निहन्यते ॥ ३५ ॥

गुरपाभारिक नाम २ ॥ स्तम्भघ्न १

स्तम्भघ्न २ ॥ ३५ ॥

आण्डिया विध्यते यन ॥

अरमका नाम १ ॥ आण्डि १ ॥

-तत्र विष्यक्समे निघ* ॥

बरावर जमहृये वृक्षादिकोका नाम

१ ॥ निघ १ ॥

उत्कारश्च निकारश्च द्वौ घान्मे

क्षेपणार्थकौ ॥ ३६ ॥

अनाज आदि निकालनेके नाम २ ॥

उत्कार १ निकार २ ॥ ३६ ॥

निगारोद्गारविक्षाबोद्गारास्तु

गरणादिषु ॥

(छानेका नाम) निगार १ ॥

(उछटी करनेका नाम) उद्गार १ ॥

(छीकनेका नाम) विक्षाय १ ॥

(उकारनेका नाम) उद्ग्राह १ ॥

आरत्यवरतिविरस्य उपरामे-

उपरामके नाम ४ ॥ आरति १ अर

ति २ निरति ३ उपराम ४ ॥

ऽथास्त्रियां तु निष्ठेव* ॥ ३७ ॥

निष्ठपतिर्निष्ठवनं निष्ठीवनमित्य

भिन्नानि ॥

धूकनके नाम ४ ॥ निष्ठप १ ॥ ३७ ॥

निष्ठपूति २ निष्ठवन ३ निष्ठीवन ४ ॥

जवने जूति-

फाके नाम २ ॥ जवन १ जति २ ॥

-सात्तिस्वरसाने रसा-

अन्वके नाम २ ॥ सात्ति १ अन्वसाग २ ॥

-दस उचरे जूति ॥ ३८ ॥

ज्वरके नाम २ ॥ ज्वर १ जृति २ ॥

॥ ३८ ॥

उदजस्तु पशुप्रेरण-

पशुओंके हाकनेका नाम १ ॥ उदज १ ॥

-मकरणिरित्यादयः शापे ॥

शापका नाम १ ॥ अकरणि १ ॥ इत्यादि

गोत्रान्तेभ्यस्तस्य वृन्दमित्यौ-
पगवकादिकम् ॥ ३९ ॥

जिसके समीप गायें हों उसके समूहका
नाम १ ॥ औपगवक १ ॥ ३९ ॥

आपूपिकं शाष्कुलिकमेव-
वाद्यमचेतसाम् ॥

(पूओंके समूहका नाम) आपू-
पिक १ ॥ (पूरियोंके समूहका नाम)
शाष्कुलिक १ आदि ॥

माणवानां तु माणव्यं-

लडकोंके समूहका नाम १ ॥ माणव्य १ ॥

-सहायानां सहायता ॥ ४० ॥

मित्रोंके समूहका नाम १ ॥ सहा-
यता १ ॥ ४० ॥

हल्या हलानां-

हलोंके समूहका नाम १ ॥ हल्या १ ॥

-ब्राह्मण्यवाडव्ये तु द्विज-
न्मनाम् ॥

ब्राह्मणोंके समूहके नाम २ ॥ ब्राह्मण्य
१ वाडव्य २ ॥

द्वे पशुकानां पृष्ठानां पार्श्व
पृष्ठयमनुक्रमात् ॥ ४१ ॥

पासलियोंके समूहका नाम १ ॥ पार्श्व

१ ॥ पीठके समूहकानाम १ ॥ पृष्ठय १ ॥ ४१ ॥

खलानां खलिनी खल्याऽ-

खलोंके समूहके नाम २ ॥ खलिनी १

खल्या २ ॥

-प्यथ मानुष्यकं नृणाम् ॥

मनुष्योंके समूहका नाम १ ॥ मानु-
ष्यक १ ॥

-ग्रामता जनता धूम्या पाश्या
गल्या पृथक्पृथक् ॥ ४२ ॥

(ग्रामोंके समूहका नाम) ग्रामता १ ॥

(जनोंके समूहका नाम) जनता १ ॥

(धूमके समूहका नाम) धूम्या १ ॥ (फा-
सियोंके समूहका नाम) पाश्या १ ॥ (व-

डे काशोंके समूहका नाम) गल्या १ ॥ ४२ ॥

अपि साहस्रकारीपवार्मणा-
थर्वणादिकम् ॥

भाषा-(सहस्रके समूहका नाम)

साहस्र १ ॥ (करसीके समूहका नाम)

कारीप १ ॥ (कवचोंके समूहका नाम)

वार्मण १ ॥ (चमडोंके समूहका नाम)

चार्मण १ ॥ (अथर्वणोंके समूहका नाम)

आथर्वण १

॥ इति ईकीर्णवर्गः ॥ २ ॥

अथ नानार्थवर्गः ३

नानार्थाः केऽपि कान्तादिवर्गे
ध्वेवात्र कीर्तिता ॥ मूरिप्रयोगा
ये येषु पर्यायेष्वपि तेषु ते ॥ १ ॥

माया—कोई ककारान्तादि नानार्थके
शब्द पूर्वोक्तवर्गोंमें कह चुके हैं, परन्तु
उभक्ता पूर्वोक्तवर्गोंमें जो प्रयोग किया है
सो जिस अर्थमें जो शब्द अधिक आता
है उस एकही अर्थमें कहा है, अब उनही
पूर्वोक्त वर्गोंमें छोड़कर शब्दोंके यहाँ अनेक
अर्थ वर्णन करते हैं ॥ १ ॥

आकाशे त्रिविधे नाको-

नाक-आकाश तथा स्वर्ग ॥

-लोकस्तु भुवने जने ॥

लोक-स्वर्गादि लोक तथा जन ॥

पदे यदाति च इल्लोकाः-

ल्लोक-अनुष्टुभादि पद्य तथा कीर्ति

-शरे खड्गे च सायक ॥ २ ॥

सायक-तीर तथा तडवारा ॥ २ ॥

जम्बुकौ क्रोष्ट्वरुणौ-

जम्बुक-शृगाळ तथा बरुण ॥

-पशुकौ धिपिटाभकी ॥

पशुक-धिउडा तथा घाळक ॥

आलोकौ दशनघोषी-

आलोक-दशर तथा प्रकाश ॥

मरि पशुमानकी ॥ ३ ॥

भामक-मेरी तथा नगाडा ॥ १ ॥

उत्सङ्गचिह्नपोरुह-

लक-गोदी तथा चिह्न ॥

-कल्लकाऽकापवादयो ॥

कल्लक-चिह्न तथा छाञ्छन ॥

तक्षको नागवर्धक्यो-

तक्षक-सर्व तथा बढ ॥

-ऽर्कः स्फटिकसूर्ययो ॥ ४ ॥

अर्क-स्फटिक मणि तथा सूर्य ॥ ४ ॥

मारुते वेधसि ब्रध्ने पुंसि क-

क शिरोम्भुनोः ॥

क-(पुंलिङ्ग) वायु, ब्रह्मा, सूर्य ॥

क-(नपुंसक) शिर तथा बळ ॥

स्यात्पुलाकस्तुच्छघान्धे सक्षेपे

भक्तसिक्क्यके ॥ ५ ॥

पुलाक-धानकरी मूसी, संक्षेप तथा

मातका संति ॥ ५ ॥

उल्लुके करिण पुच्छमूलो

पान्त्रे च पेचक ॥

पचक-उल्लूपक्षी तथा हाथीके

पुरीपशरका आच्छादक मांस ॥

कमण्डलौ च करक-

करक-यशोठी(ओडा)जो कमी, कर्मी

पानी क सग बरखती है तथा अनारक ॥

-सुगते च विनायकः ॥ ६ ॥

विनायक-सुद, गगन, तथा गरुड ॥ ६ ॥

किष्कुर्हस्ते वितस्तौ च-
किष्कु-हाथ तथा वितस्ति ॥
-शूककीटे च वृश्चिकः ॥
वृश्चिक-विच्छ्र तथा आठवीं राशि ॥
प्रतिकूले प्रतीकास्त्रिण्वेकदेशे
तु पुंस्ययम् ॥ ७ ॥

प्रतीक-प्रतिकूल ॥ ७
स्याद्भूतिकं तु भूनिम्बे कचृणे
भूस्तृणेषु च ॥

भूतिक-चिरायता-औषधी और
गध तृणविशेष ॥

ज्योत्स्निकायां च घोषे च
कोशात-

कोशातकी-एक प्रकारका फल, पर-
वर, तरकारी तथा चिचिटा वृक्ष ॥
-कथय कद्रफले ॥ ८ ॥

सिते च खदिरे सोमवल्कः
स्या-

सोमवल्क-सपेद खैर तथा कायफल
औषधी ॥ ८ ॥

-दथ सिह्लके ॥

तिलकल्के च पिण्याको-

पिण्याक-सिह्लक तथा तिलकीखरी ॥

-बाह्लीकं रामठेऽपि च ॥ ९ ॥

बाह्लीक-रामठहींग तथा बाह्लीक-

देशमे ह्रीनेवाला अश्व ॥ ९ ॥

महेन्द्रगुग्गुलूलूकव्यालप्रा-
हिषु कौशिकः ॥

कौशिक-इन्द्र, गुग्गुलु, उल्हपक्षी,
तथा सापका पकडनेवाला ॥

रुक्तापशङ्कास्वातंकः-

आतक-रोग, ताप तथा शका ॥

-स्वल्पेऽपि क्षुलकस्त्रिषु ॥ १० ॥

क्षुलक-छोटा तथा बीच, कनिष्ठ

और दरिद्र ॥ १० ॥

जैवातृकः शशकेशिपि-

जैवातृक-चन्द्रमा तथा दीर्वायुपुरुष

-खुरेऽप्यश्वस्य वर्तकः ॥

वर्तक-घोडेके खुर तथा पक्षी ॥

व्याघ्रेऽपि पुण्डरीको ना-

पुण्डरीक-व्याघ्र दिग्गज तथा श्वेत
कमल ॥

-यवान्यामपि दीपकः ॥ ११ ॥

दीपक-दीया तथा मोरकी चोटी ॥ ११ ॥

शालावृकाः कपिक्रोष्टुश्वानः-

शालावृक-कुत्ता, बन्दर तथा सियार

स्वर्णेऽपि गैरिकम् ॥

गैरिक-गेरुधातु तथा सोना ॥

पीडार्थेऽपि व्यलीकं स्या-

व्यलीक-पीढा तथा झूठ ॥

-दलीकं त्वमियेऽनृते ॥ १२ ॥

अलीक-अप्रिय तथा झूठा ॥ १२ ॥

शीलान्वयावभूके-

अनूक्त-स्वभाव तथा बंश ॥

-द्वे सुलके क्षकलवल्कले ॥

शस्त-शुकटा तथा सुकटा ॥

साष्टे शते सुषर्णानां हेमन्यु

रोभूपणे पले ॥ १३ ॥ दीना-

रेऽपि च निष्कोल्ली-

निष्क-सोमा एक प्रकारका गळेका

भूषण तथा असर्षी ॥ १३ ॥

-कस्त्रोऽल्ली क्षमलैनसो ॥

दम्भे-

कल्क-मखिन तथा पाप और

पाषण्ड ॥

-प्यय पिनाकोऽल्लीशूलश्च

फरघन्वनो ॥ १४ ॥

पिनाक-शूल तथा महादेवका

धनुष ॥ १४ ॥

धेनुका तु करेष्वी च-

धेनुका-हथिमी तथा मर्मभ्यार्द्धर्द्धी

-मेघजाले च काष्ठिका ॥

काष्ठिका-मेघका समूह तथा देवी ॥

कारिका पातनाघृतयो-

कारिका-नरकपीडा तथा क्रमा ॥

कर्णिका कर्णभूपणे ॥ १५ ॥

करिहस्तेऽङ्गुली पद्मधीज

कोश्या-

कर्णिका कानका भूषण, ॥ १५ ॥

हाथीकी सूडकाअप्रमाण तथा कम्मके
बीज रहनेका कम्मका माग ॥

-त्रिपुत्रे ॥

भागें जो शब्द कहे आयेगे वे तीनों
छिगोंमें होत हैं ॥

धृन्दारकौ रूपमुख्या-

धृन्दाकर-देवता, सुन्दर तथा सुख्य ॥

-वेके मुख्यान्यकनेला ॥ १६ ॥

एक-मुख्य, अन्य तथाकेवला ॥ १६ ॥

स्याहाम्मिका कौकुटिको

यश्चादूरोरितेक्षणः ॥

कौकुटिक-मायाकरनेवाळा तथा
धोरसे ही देखनेवाळा ॥

लालाटिका प्रमोर्भाल्दर्शी

कार्याक्षमश्च यः ॥ १७ ॥

लालाटिक-जो कार्य करनेमेंअसमर्थ
हो औरस्वामीका मुखदेखे ॥ १७ ॥

इति कान्ताः ॥

मयूरवस्तिवत्करज्वाला-

मयूर-कान्ति किरण तथा ज्वाला ॥
स्वलिषाणी शिर्डीमुखी ॥

शिर्डीमुख-अमर तथा बाण ॥

क्षत्रो निधी सलाटास्थिन

कम्पौ न स्त्री-

क्षत्र-एकनिधि, छटाटकी हर्षी
और क्षत्र ॥

-न्द्रियेऽपि खम् ॥ १८ ॥

ख-शून्य तथा इन्द्रिय ॥ १८ ॥

घृणिज्वाले अपि शिखे-

शिखा-किरण, ज्वाला तथा चोटी ॥

॥ इति खान्ता ॥

शैलवृक्षौ नगावगौ ॥

नग-अग पर्वत और वृक्ष ॥

आशुगौ वायुविशिरखौ-

आशुग-वायु तथा वाण ॥

-शरार्कविहगाः खगाः ॥ १९ ॥

खग-वाण, सूर्यादि ग्रह तथा पक्षी १९ ॥

-पतङ्गौ पक्षिसूर्यौ च-

पतंग-सूर्य तथा पक्षी ॥

-पूगः क्रमुकवृन्दयोः ॥

पूग-सुपारी तथा समूह ॥

पशवोऽपि मृगा-

मृग-हरिण, दूढना, पशु ॥

-वेगः प्रवाहजवयोरपि ॥ २० ॥

वेग-प्रवाह तथा जोरसे चलना ॥ २० ॥

परागः कौसुमे रेणौ स्नानी-
यादौ रजस्यपि ॥

पराग-पुष्पधूलि स्नानकरनेके योग्य
मसाला तथा धूलि ॥

गजेपि नागमातङ्गा-

नाग-मातङ्ग-हाथी तथा चण्डाल
वा डोम ॥

-वपाङ्गस्तिलकेऽपि च ॥ २१ ॥

अपाग-नेत्रोंके कोने, अगहीन तथा

तिलक ॥ २१ ॥

सर्गः स्वभावनिर्मोक्षानिश्चया-
ध्यायसृष्टिषु ॥

सर्ग-स्वभाव, त्याग, निश्चय तथा
प्रथका अध्याय, सृष्टि ॥

योगः संनहनोपायध्यानसंग-
तियुक्तिषु ॥ २२ ॥

योग-कवच सामदानादि, ध्यान
तथा मेल और युक्ति ॥ २२ ॥

भोगः सुखे रुयादिभृतावहेश्च
फणकाययोः ॥

भोग-सुखदेनेवाला तथा सुख, वैश्या
आदिको पालन करना वा मोल लेना
सर्पका फन और शरीर ॥

चातले हरिणे पुंसि सारङ्गः
शवले त्रिषु ॥ २३ ॥

सारंग-चितकवरा रङ्गवाला, चित-
कवरा रङ्ग, मृगपशु, पक्षी, पपीहा पक्षी
तथा मृगी ॥ २३ ॥

कपौ च प्लवगः-

प्लवग-ब्रन्दर, मेढक तथा सारथि ॥

-शापे त्वभिषङ्गः पराभवे ॥

अभिषङ्ग-शाप तथा अनादर ॥

यानाद्यङ्गे युगः पुंसि युगं
युग्मे कृतादिषु ॥ २४ ॥

युग (पुँल्लिङ्ग)—ब्रह्मा, युग—नपुं
सक जोडा (दो), सत्ययुगादि तथा
चार हाथ ॥ २४ ॥

स्वर्गेषुपशुवागवश्चदिद्वनेत्रघृणि
मूजले ॥ लक्ष्यष्टधा स्त्रियां पुंसि
गौ—

गौ—(पुँल्लिङ्ग—स्त्रील्लिङ्ग) स्वर्ग,
माण, पशु, (गाय—बैड,) वाणी, वज्र,
दिशा, मेघ, किरण, भूमि, तथा जड
—ल्लिङ्गं चित्रशेफसो ॥ २५ ॥
ल्लिङ्ग—चित्र तथा शिखर इन्द्रिया ॥ २५ ॥

शृङ्गं प्राधान्यसान्त्वोच्च—
शृङ्ग—प्रमुता अर्थात् प्रधानता
तथा कंगूरा ॥

—बराङ्ग मूधगुह्ययो ॥
कराङ्ग—माया तथा श्रीका मूत्रदा रा
भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्य
यत्नार्ककीर्तिषु ॥ २६ ॥

भग—रुग्नी, इच्छा, एष्यर्थ, वीर्य,
उपाय, सूर्य, बडाई ॥ २६ ॥

॥ इति गास्ताः ॥

परिधः परिघातेऽस्त्रेऽ—
परिध—चारों ओरसे मारना तथा
अस्त्र ॥

—प्योधो धृन्वेऽम्मसां रमे ॥
ओध—सन्तुह तथा जडका भग ॥

—मूल्ये पूजाविधावर्धो—

अर्ध—मूल्य तथा पूजामें जड दना ॥

—ऽहो दुःखम्यसनेष्वधम् ॥ २७ ॥

अध—पाप, दुःख, शिकार, दुःखा
खेळना आदि ॥ २७ ॥

त्रिष्विष्टेऽल्पे लघु—

लघु—इष्ट और थोडा ॥

॥ इति घास्ता ॥

—काचाः शिष्यमृद्देवद्वजा ॥

काच—छीका, काचका मेद तथा
नेत्ररोग ॥

विपर्याते विस्तरे च प्रपञ्च—

प्रपञ्च—विपरीत तथा शब्दका
विस्तार और जगत् तथा टगना ॥

—पावके शुचिः ॥ २८ ॥

मास्यमात्ये चात्पुपधे पुंसि मेघ्ये
सित्ते त्रिषु ॥

शुचि—(पु०) अग्नि ॥ २८ ॥

भाषाबमास, राजाका मन्त्री, निष्कपट
(त्रि०) पक्व तथा श्वेत वस्तु ॥

अभिस्वङ्गे स्पृहायां च गभस्ती
च रुचिः स्त्रियाम् ॥ २९ ॥

रुचि—आर्द्धिगत करना, इच्छा तथा
किरण ॥ २९ ॥

॥ इति आस्ता ॥

केकित्ताकर्मावदिभुजी—

अहिभुक्त-मोर और गरुड ॥
 -दन्तविप्राण्डजा द्विजाः ॥
 द्विज-दात, पक्षी तथा ब्राह्मण ॥
 अजा विष्णुहरच्छागा-
 अज-विष्णु, शिव तथा वकरा ॥
 -गोष्ठाध्वनिवहा व्रजाः ३० ॥
 व्रज-गोशाला, मार्ग और समूह ३०
 धर्मराजौ जिनयमौ-
 धर्मराज-जिन (बुद्ध) और धर्मराज
 -कुञ्जो दन्तेऽपि न स्त्रियाम् ॥
 कुञ्ज-हाथीका दात और सघनवन
 वलजे क्षेत्रपूद्गारे वलजा
 वल्गुदर्शना ॥ ३१ ॥
 वलज-(न०) खत, नगरका दर
 वाजा (स्त्री) सुन्दर स्त्री ॥ ३१ ॥
 समे क्षमांशे रणेऽप्याजिः ॥
 आजि-पृथ्वीकासमानभागऔरसग्राम
 -प्रजा स्यात्संततौ जने ॥
 प्रजा-सतान और जनसमूह ॥
 अब्जौ शंखशशांकौ च-
 अब्ज-शख और चन्द्रमा ॥
 -स्वके नित्ये निजं त्रिषु ॥ ३२ ॥
 निज-(त्रि०) अपनातथा नित्य ॥ ३२ ॥
 ॥ इति जान्ताः ॥
 पुंस्यात्मनि प्रवीणे च क्षेत्रज्ञो
 वाच्यलिङ्गकः ॥

क्षेत्रज्ञ-आत्मा और चतुर ॥
 संज्ञा स्याच्चेतना नाम हस्ताद्यै-
 श्वार्थसूचना ॥ ३३ ॥
 संज्ञा-चेतनशक्ति, नाम और हस्त
 आदिसे-अभिप्रायकाप्रगटकरना ॥ ३३ ॥
 ॥ इति जान्ताः ॥
 काकेभगण्डौ करटौ-
 करट-काक और हस्तीका गण्डस्थल
 गजगण्डकटी कटौ ॥
 कटि-हस्तीका गण्डस्थल और कमर ॥
 शिपिविष्टस्तु खलतौ दुश्चर्मणि
 महेश्वरे ॥ ३४ ॥
 शिपिविष्ट-गङ्गा, खुदरी हुई खाल
 और शिवजी ॥ ३४ ॥
 देवशालिपन्यपि त्वष्टा-
 त्वष्टा-विश्वकर्मा, सूर्य और बढई ॥
 -दिष्टं दैवेऽपि न द्वयोः ॥
 दिष्ट-प्रारब्ध और समय ॥
 रसे कटुः कटुकार्ये त्रिषु मत्स-
 रतीक्षणयोः ॥ ३५ ॥
 कटु-(पु०) रसविशेष, (न०)
 अकार्य, (त्रि०) अहकारऔर तीक्ष्ण ३५
 रिष्ट क्षेमाशुभाभावे-
 रिष्ट-क्षेम, अशुभ और अभाव ॥
 -ष्वारिष्टं तु शुभाशुभे ॥
 अरिष्ट-शुभ और अशुभ ॥

युग (पुँल्लिङ्ग)—कुंभा, युग—नपुं
सक जोदा (दो), सत्ययुगादि तथा
चार हाप ॥ २४ ॥

स्वर्गेषु पशुवाग्वचदिद्वनेत्रघृणि
भूमले ॥ लक्ष्यष्टधा स्त्रियां पुंसि
गौ—

गौ—(पुँल्लिङ्ग—स्त्रील्लिङ्ग) स्वर्ग,
बाण, पशु, (गाय—बैद्य,) बापी, वज्र,
दिशा, नेत्र, किरण, भूमि, तथा षड्
—लिङ्गं चिह्नशेषसोः ॥ २५ ॥
स्त्रिङ्ग—चिह्न तथा शिब इन्द्रिय ॥ २५ ॥

शृङ्गं प्राधान्यसान्त्वोश्च—
शृङ्ग—प्रमुता अर्थात् प्रधानता
तथा कंगूरा ॥

—वराङ्गं मुखगुह्ययो* ॥
वराङ्ग—भाषा तथा श्रीका मूत्रशरा
भग श्रीकाममाहात्म्यवीर्यं
यत्नार्ककीर्तिषु ॥ २६ ॥

भग—छन्नी, इच्छा, ऐश्वर्य, वीर्य,
उपाय, सूर्य, बर्बाई ॥ २६ ॥

॥ इति गास्ताः ॥

परिधः परिघातेऽस्त्रेऽ—
परिध—चारों ओरसे मारना तथा
धज ॥

—प्योधो वृन्देऽम्मर्ता रमे ॥
भोध—समूह तथा ज्ञान का ॥

—मूल्ये पूजाविधावर्षो—

वर्ष—मूल्य तथा पूजामें जड़ दना ॥

—ऽहो दुःखव्यसनेष्वधम् ॥ २७ ॥

अध—पाप, दुःख, शिक्कार, दुःखा
खेळना आदि ॥ २७ ॥

त्रिष्विष्टेऽल्पे लघु—

लघु—दृष्ट और घोडा ॥

॥ इति चास्ता* ॥

—काधाः क्षिप्यमृद्नेतृदृग्मजः ॥

काध—छीका, काचका मेद तथा
नेत्ररोग ॥

विपर्याप्ते विस्तरे च प्रपञ्च—

प्रपञ्च—विपरीत तथा शम्भका
विस्तार और जगत् तथा ठाना ॥

—पावके शुचि ॥ २८ ॥

मास्यमात्ये चास्त्युपधे पुंसि मेघ्ये
सिते त्रिषु ॥

शुचि—(पु०) अग्नि ॥ २८ ॥

आपाठमास, राजाका मन्त्री, निष्कसट
(त्रि०) पक्कि तथा श्वेत वस्तु ॥

अभिस्वङ्गे स्पृहायां च गभस्ती
च रुचिः स्त्रियाम् ॥ २९ ॥

रुचि—आर्भिगन करना, इच्छा तथा
किरण ॥ २९ ॥

॥ इति चास्ता ॥

केकिताह्यां बहिमुजौ—

गुड—गुड तथा मिट्टी आदिकागोला
सर्पमांसात्पशू व्याडौ—

व्याड—सर्प तथा मांसखानेवाला पशु
व्याघ्र आदि ॥

—गोभूवाचस्तिवडाइला ॥४२॥

इडा—गैया तथा पृथ्वी, वाणी और
नाडी ॥ ४२ ॥

क्ष्वेडा वंशशलाकाऽपि—

क्ष्वेडा—विप सिंहनाद, तथा वांसकी
खपची ॥

—नाडी नालेऽपि षट्क्षणे ॥

नाडी—नाडी अर्थात् वात पित्तकफ
इत्यादिके विकारको जनानेवाली नस
तथा छः क्षण ॥

काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्धव-
र्गावसरवारिषु ॥ ४३ ॥

काण्ड—दडा वा लाठी, बाण, खराव
गोडा, परिच्छेद जैसे कि प्रथम काण्ड,
सर तथा जल ॥ ४३ ॥

स्याद्गाण्डमश्वभरणेऽर्धत्रे मूल
बाणिग्धने ॥

गाण्ड—पात्र वा बरतन, घोड़ोंका गह
नियेंका मूल धन वा पूँजी ॥

इति ढान्ताः ॥

प्रतिज्ञयोर्वाढं—

—अत्यर्थ तथा प्रतिज्ञा ॥

—प्रगाढं भृषकृच्छ्रयोः ॥४४॥

प्रगाढ—मजबूत तथा दुःख ॥४४॥

शक्तस्थूलौ त्रिषु दृढौ—

दृढ—समर्थ तथा मोटा ॥

—व्यूढौ विन्यस्तसंहतौ ॥

व्यूढ—विन्यस्त तथा सहत और
पृथुल ॥

इति ढान्ताः ॥

भ्रूणोऽर्धके स्त्रैणगर्भे—

भ्रूण—वालक तथा स्त्रीका गर्भ ॥

—बाणो बालिसुते शरे ॥४५॥

बाण—बाणासुर तथा तीर ॥४५॥

कणोतिसूक्ष्मे धान्यांशे—

कण—अत्यन्तसूक्ष्म तथा धान्यकण ॥

—संघाते प्रमथे गणः ॥

गण—समूह तथा शिवके अनुचर ॥

पणोद्युतादिषूत्सृष्टे भृतौ मूल्ये
धनेपि च ॥ ४६ ॥

पण—जुआ आदिमें लगायाहुआधन
पैसा तथा मजूरी वा तलब ॥ ४६ ॥

मौर्व्या द्रव्याश्रिते सत्त्वशार्थे
संध्यादिके गुणः ॥

गुण—प्रत्यञ्चारूपआदि चौबीससत्त्व
आदि शुक्ल आदि, सन्धि आदि ॥

निर्व्यापारस्थितौ कालविशेषो-
त्सवयोः क्षणः ॥ ४७ ॥

मायानिश्चल्यन्त्रेषु केतवानृत
राशिषु ॥ ३६ ॥ अयोधने शैल
शङ्ख सीराङ्गे कूटमखियाम् ॥

कूट—माया, निश्चल, यन्त्र, (मृगफे-
सानेका जाल) रूप, शैल, राशि ॥ ३६ ॥
छोहेका घन, पर्वतका केतूरा तथा इछका
अम्रमाग ॥

सूर्यमैलायां श्रुतिः स्त्री स्या
त्कालेऽप्ये सशयेऽपि सा ॥ ३७ ॥

श्रुति—शोटी इलायची, काल, [अक्ष-
रका रहजाना] अत्य तथा सशय ३७

आत्युत्कर्षाश्रयं काटयो-
कोत्ति—घटुक्की टोक, प्रकर्ष, कोना
तथा कर्णसंज्ञया ॥

—मूले छप्रकचे जटा ॥
जटा—शुशुकी जब तथा केशोकी जटा ॥

ध्रुष्टिं फले समृद्धौ च-
मृष्टि—फल तथा सम्पदा ॥

—दृष्टिनिर्दिष्टिण वृश्नि ॥ ३८ ॥
दृष्टि—ज्ञान नेत्र तथा देखना ॥ ३८ ॥

इष्टियगिच्छयो-
इष्टि—पक्ष तथा इच्छा ॥

—सृष्ट निश्चिते चतुनि त्रिषु ।
सृष्ट—बहुत तथा निश्चय, कित्यागपा ।

कटे सु कृष्णगहने-
कट—दु ख तथा गहन ॥

—दक्षामन्दागदेषु च ॥ ३९ ॥
पट्ट-

पट्ट—दक्ष सीक्ष तथा रोगहीना ३९ ॥
द्वौ वाच्यलिङ्गौ च-

पट्ट मोर कष्ट शब्द वाच्यलिङ्गा इ ॥
इति शान्ताः ॥

—नीलकण्ठ शिवेऽपि च ॥
मीलकण्ठ—मयूर तथा शिव ॥

पुंसि कोष्ठोऽन्तजठरं फुसुलो-
न्तर्गृहं तथा ॥ ४ ॥

काष्ठ—पेटका मध्य भाग, धान्यका
स्थान, गृहके मातरका भाग ॥ ४० ॥

निष्ठा—निष्पत्तिनाशान्ताः-
निष्ठा—निष्पादन, माद्य तथा अन्ध

—काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि ॥
काष्ठा—उत्कर्ष, स्थिति, दिशा तथा

काष्ठविशेष ॥
त्रिषु ज्येष्ठोऽतिशस्तेऽपि-

ज्येष्ठ—मायुष्यम, अतिशुद्ध, बडा मास
तथा भेषासके उत्तरका मास ॥

—कनिष्ठोऽतिशुवाल्पयोः ॥ ४१ ॥
कनिष्ठ—अतिछोटा तथा छोटा मास ४१ ॥

इति शान्ताः ॥
वृषोऽपि सशुद्धेऽपि स्या-

दक्ष—दंडा तथा सत्रा आदि ॥
—दुबो गोलिमुपाकयो ॥

गुह—गुह तथा मिट्टी आदिकागोला
सर्पमांसात्पशू व्याडौ—

व्याड—सर्प तथा मासखानेवाला पशु
व्याघ्र आदि ॥

—गोभूवाचस्तिवडाइलाः॥४२॥

इडा—गैया तथा पृथ्वी, वाणी और
नाडी ॥ ४२ ॥

क्ष्वेडा वंशशलाकाऽपि—

क्ष्वेडा—विप सिंहनाद, तथा वासकी
खपची ॥

—नाडी नालेऽपि षट्क्षणे ॥

नाडी—नाडी अर्थात् वात पित्तकफ
इत्यादिके विकारको जनानेवाली नस
तथा छः क्षण ॥

काण्डोऽस्त्री दण्डवाणार्वाव-
र्गावसरवारिपु ॥ ४३ ॥

काण्ड—दडा वा लाठी, वाण, खराव
घोडा, परिच्छेद जैसे कि प्रथम काड,
अवसर तथा जल ॥ ४३ ॥

स्याद्गाण्डमश्वभरणेऽस्त्रे मूल
वाणिग्धने ॥

माण्ड—पात्र वा बरतन, घोडोंका गह
ना, बनियेका मूल धन वा पूँजी ॥

इति ढान्ताः॥

भृशप्रतिज्ञयोर्वाढं—

वाढ—अत्यर्थ तथा प्रतिज्ञा ॥

—प्रगाढं भृपकृच्छ्रयोः ॥४४॥

प्रगाढ—मजबूत तथा दुःख ॥४४॥

शक्तस्थूलौ त्रिपु दृढौ—

दृढ—समर्थ तथा मोटा ॥

—व्यूढौ विन्यस्तसंहतौ ॥

व्यूढ—विन्यस्त तथा सहत और
पृथुळ ॥

इति ढान्ताः ॥

भ्रूणोऽर्भके स्त्रेणगर्भे—

भ्रूण—बालक तथा स्त्रीका गर्भ ॥

—वाणो बालिसुते शरे ॥४५॥

वाण- वाणासुर तथा तीर ॥४५॥

कणोत्तिसूक्ष्मे धान्यांशे—

कण—अत्यन्तसूक्ष्म तथा धान्यकण ॥

—संघाते प्रमथे गणः ॥

गण—समूह तथा शिवके अनुचर ॥

पणोऽ्यूतादिषूत्सृष्टे भृतौ मूल्ये
धनेपि च ॥ ४६ ॥

पण—जुआ आदिमें लगायाहुआधन

पैसा तथा मजूरी वा तलब ॥ ४६ ॥

मौर्व्या द्रव्याश्रिते सत्त्वशौर्ये,
संध्यादिके गुणः ॥

गुण—प्रत्यञ्चारूपआदि चौबीससत्व
आदि शुक्ल आदि, सन्धि आदि ॥

निर्व्यापारस्थितौ कालविशेषो-
त्सवयोः क्षणः ॥ ४७ ॥

क्षण—तीसकलासमय, उत्सव तथा
बेकाम बैठना तथा मिथ्याम करना ॥ ४७ ॥

वर्णो द्विजादौ शुक्लादौ सुवी
वर्णं तु वाक्षरे ॥

वर्ण—शुक्ल पीतादिरंगतयावर्ण(पु०
म०) अक्षर ब्राह्मणादि, स्तुति ॥

अरुणो भास्करेऽपि स्याद्
र्णमेदे पि च त्रिपु ॥ ४८ ॥

अरुण—सूर्य, सूर्यका सारथि, वर्ण
मेद ॥ ४८ ॥

स्थाणुः शर्वोऽप्यथ—

स्थाणु—दृढाष्टक तथा अयन्त स्थिर
और म्हादेय, सम्मा, वृद्ध पर्वत ॥

—द्रोणः काके—

द्रोण—काक तथा द्रोणाचार्य ॥

—ऽप्याम्नौ खेरणः ॥

रण—समाम तथा शब्द ॥

ग्रामणीनापिते पुंसि श्रेष्ठे
ग्रामाधिपे त्रिपु ॥ ४९ ॥

ग्रामणी—नाई, मुख्यग्रामाधिप ॥ ४९ ॥

ऊर्णां मेपादिलोस्रि स्यादा
वर्षे चान्तरा मुखो ॥

उर्णा—मेढका बाळ तथा दोनोंभौके
बीचकी मारी ॥

हरिणी स्यान्मृगी हेमप्र
तिमा हरिवा च मा ॥ ५० ॥

हरिणी—मृगी, सोनेकी मूर्ति तथा
हरे रंगकी मूर्ति ॥ ५० ॥

त्रिपु पाण्डौ च हरिण—

हरिण—मृग तथा पाण्डुर वण ॥

—स्थूणास्तम्भेऽपि वैश्मनः ॥

स्थूणा—सम्मा तथा लोहेकी मूर्ति ॥

तृष्णे स्पृहापिपासे द्वे—

तृष्णा—इच्छा (वाञ्छा) तथा व्यस

—शुगुप्साकरुणे घृणे ॥ ५१ ॥

घृणा—शुगुप्सा वा निन्दा तथा
करुणा ॥ ५१ ॥

वणिकपथे च विपाणि—

विपाणि—बाजारकी गली तथा
दुकान ॥

—मुराप्रत्यक् च वारुणी ॥

वारुणी—मदिरा तथा पश्चिमी दिशा
करेणुरिर्म्या स्त्री नेत्रे—

करेणु—हाथी तथा हथिनी ॥

—त्रविणं तु षष्ठं घनम् ॥ ५२ ॥

त्रविण—बळ तथा घन ॥ ५२ ॥

शरणं गृहराक्षिभ्योः—

शरण—गृह तथा रक्षा करम्बाळ ॥

—धीपर्णं कमलेऽपि च ॥

धीपर्णं कमल तथा अमिमन्य ॥

विपाभिमरलोद्देषु तीर्ष्णं

कलीवे स्वरं त्रिपु ॥ ५३ ॥

तीक्ष्ण—अत्यन्त गरम वस्तु, अत्यन्त तीर्खा, विष युद्ध तथा लोहा ॥ ५३ ॥

प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रयत्ता-
प्रमातृषु ॥

प्रमाण—हेतु, मर्यादा, शास्त्रपरि-
च्छेद तथा ज्ञाता ॥

करणं साधकतमं क्षेत्रगात्रेन्द्रि-
येष्वपि ॥ ५४ ॥

करण—खेत, करण कारक, शरीर
इन्द्रिय तथा वैश्व शूद्रा स्त्रीसे उत्पन्न
॥ ५४ ॥

प्राण्युत्पादे संसरणमसंबाधच-
म्रगतौ ॥ घण्टापथे—

ससरण—राजमार्ग, प्राणीका जन्म
तथा बेरोक सेनाकी यात्रा ॥

—ऽथ वान्तान्ने समुद्दिरणमु-
न्नये ॥ ५५ ॥

समुद्दिरण—व्रमन कियाहुआ अन्न तथा
उखाडना तथा जलादिका निकालना ५५

अतस्त्रिषु—

यहासे भागे कहे हुए णकारान्त
शब्द तीनों लिंगोमें होंगे ॥

—विषाणं स्यात्पशुशृङ्गेभद-
न्तयोः ॥

विषाण—पशुओंके सींग तथा हाथी-
का दात ॥

प्रवणं क्रमनिम्नोर्व्यां प्रद्वे ना
तु चतुष्पथे ॥ ५६ ॥

प्रवण—नम्र, तत्पर, ढाल वा क्रमसे
नीचा स्थान तथा चौराहा ॥ ५६ ॥

संकीर्णौ निचिताशुद्धा-

सकीर्ण—अशुद्ध तथा वर्णसङ्कर ॥

—वीरिणं शून्यमूषरसू ॥

ईरिण—शून्य और ऊपर ॥

॥ इति णान्ता. ॥

देवसूर्यौ विवस्वन्तौ-

विवस्वत—देव तथा सूर्य ॥

—सरस्वन्तौ नदार्णवौ ॥ ५७ ॥

सरस्वत—नद तथा समुद्र ॥ ५७ ॥

पक्षिताक्षर्यौ गरुत्मन्तौ-

गरुत्मत—गरुड तथा पक्षी ॥

—शकुन्तौ भासपक्षिणौ ॥

शकुन्त—गृध्र और पक्षिमात्र ॥

अग्न्युत्पातौ धूमकेतु-

धूमकेतु—अग्नि ओर धूममयी तारा ॥

—जीमूतौ मेघपर्वतौ ॥ ५८ ॥

जीमूत—मेघ और पर्वत ॥ ५८ ॥

हस्तौ तु पाणिनक्षत्रे-

हस्त—हाथ तेरहवां नक्षत्र ॥

—मरुतौ पवनामरौ ॥

मरुत—वायु तथा देवता ॥

यन्ता हस्तिपके सूते-

यस्तु-हायीवान् तथा सूत ॥
 -मर्ता घातरि पोष्टरि ॥ ५९ ॥
 मर्तु-प्रसा और पाउन करनेवाला
 ॥ ५९ ॥
 यानपात्रे शिशौ पोतः-
 पोत-नौका तथा छटका ॥
 -मेत* प्राप्यन्तरे मृते ॥
 प्रत-परेत तथा मृतक ॥
 ग्रहमेदे ध्वजे केतुः-
 केतु-ब्रजा तथा एकग्रहका नामा ॥
 -पार्यवे तनये सुतः ॥ ६० ॥
 सुत-राजा तथा पुत्र ॥ ६० ॥
 स्यपातिः कारुमेदेऽपि-
 स्यपाति-कजुफ्री तथा कारुमेद,
 काष्ठ चीरनेवाला ॥
 -मूम्बुमिधरे नृपे ॥
 मूमुत्-पर्कत और राजा ॥
 मूर्धामिपिक्तो मूपेपि-
 मूर्धामिपिक-राजा और मन्त्री ॥
 -ऋतु स्त्रीकुसुमेऽपि च ॥ ६१ ॥
 ऋतु-स्त्रीका मास्तिक धर्म और कस-
 तादि ऋतु ॥ ६१ ॥
 विष्णावप्यजिताव्यक्तौ-
 *जिन-अव्यक्त, विष्णु और महादेव ॥
 -सूतस्त्वष्टरि सारथी ॥
 सूत-सारथी तथा पाराधातु, लष्टा ॥

व्यक्त प्राज्ञेऽपि-
 व्यक्त-वंदित तथा सुष्ट ॥
 -दृष्टान्तावुभौ शास्त्रनिव
 शंने ॥ ६२ ॥
 दृष्टान्त-तर्कादि शास्त्र तथा उद-
 रण ॥ ६२ ॥
 क्षचा स्यात्सारथी दास्ये क्षा
 यायां च शुद्धजे ॥
 क्षचु-सारथि, शुद्ध और क्षत्रिः
 उत्पन्न तथा द्वारपाल ॥
 घृत्तान्त स्यात्प्रकरणे प्र
 रे कास्त्न्यवार्तयो ॥ ६३ ॥
 घृत्तान्त-प्रकरण प्रकार, सम्पूर्ण
 तथा वार्ता ॥ ६३ ॥
 धानर्त* समरे नृत्पस्यान्
 घृदिशेषयोः ॥
 धानर्त-धानर्त देश, संग्राम ठ
 नृत्यका स्थान ॥
 कृतान्तो यमसिद्धान्तदेव
 कुम्भलकर्मसु ॥ ६४ ॥
 कृतान्त-यमउज, सिद्धान्त, माम
 तथा पाप ॥ ६४ ॥
 श्लेष्मादि रत्तरक्तादि मह
 मूतानि तद्वृणा ॥ इति
 पाण्यश्मबिकृतिः क्षम्बर्ष
 निश्च घातवः ॥ ६५ ॥

धातु—घ्रात, पित्त, कफ, पेटमें अन्न-
जायकर जो रस बनता है वह और रक्त
इत्यादि, पचमहाभूत(पृथ्वी जल इत्या-
दि) पांचोमहाभूतोंके गुण, (रूप रस
गन्ध इत्यादि) इन्द्रिय, पत्यरका विकार,
(शिखाजीत इत्यादि) वर्णात्मक शब्दों-
के कारण, (भू, इत्यादि) ॥६५ ॥
कक्षान्तरेऽपि शुद्धान्तो नृप-
स्यासर्वगोचरे ॥

शुद्धान्त—राजधानी तथा राजाओंका
जनाना ॥

कासुसामर्थ्ययोः शक्ति-

शक्ति—ब्रह्मी तथा सामर्थ्य ॥

-मूर्तिः काठिन्यकाययोः ॥ ६६ ॥

मूर्ति—कठिनता तथा शरीर ॥ ६६ ॥

विस्तारवल्ल्योर्व्रतति-

व्रतति—विस्तार तथा बह्नी ॥

-वसती रात्रिवेश्मनोः ॥

वसति—रात्रि तथा घर ॥

क्षयार्चयोरपचितिः-

अपचिति—क्षय तथा पूजा ॥

-सातिर्दानावसानयोः ॥ ६७ ॥

साति—दान तथा अन्त ॥ ६७ ॥

अर्तिः पीडाधनुष्क्रोट्यो-

अर्ति—पीडा तथा धनुष्की कोटि ॥

-जातिः सामान्यजन्मनोः ॥

जाति—सामान्यजाति तथा जन्म ॥

प्रचारस्यन्दयो रीति-

रीति—लोकाचार तथा पीतल और
लोहेका मल ॥

-रीतिर्दिम्बप्रवासयोः ॥ ६८ ॥

ईति—(ईति सात प्रकारकी होती है
अतिवृष्टि, सूखापडना, खेतोमें मूसोंका
लगना, टीडियोंका उपद्रव, सुगोंसे
हानि, और राजाओंसे वैर, इन ७ को
ईति कहतेहैं,) तथा परदेशमें वासा ॥ ६८ ॥

उदयेऽधिगमे प्राप्ति-

प्राप्ति—लाम तथा उत्पत्ति ॥

-त्रेता त्वग्नित्रये युगे ॥

त्रेता—एकयुग तथा अग्नित्रय ॥

वीणाभेदेऽपि महती-

महती—नारदकी वीणा तथा महत्त्व
करके युक्त भार्यादि ॥

-भूतिर्भस्मानि संपदि ॥ ६९ ॥

भूति—अणिमा महिमादि आठ ऐश्वर्य,
भस्म तथा सम्पत्ति ॥ ६९ ॥

नदीनगर्योर्नागानां भोगवत्य-

भोगवती—सपौंकी नदी तथा नगरी ॥

-थ संगरे ॥

सङ्गे सभायां समितिः-

समिति—सग तथा सभा तथा सप्राम ॥

-अथवासावापि क्षिती ॥ ७० ॥

यन्तृ-हाथीवान् तथा सूत ॥

-भर्ता घातारि पोष्टरि ॥ ५९ ॥

मर्तृ-प्रसा और पाछन करनेवाला

॥ ५९ ॥

यानपात्रे शिशौ पोतः-

पोत-नौका तथा खड्का ॥

-प्रेतः प्राण्यन्तरे मृते ॥

प्रेत-परेत तथा मृतक ॥

ग्रहभेदे ध्वजे केतुः-

केतु-ध्वजा तथा एकग्रहका नामा ॥

-पार्थिवे सनये सुतः ॥ ६० ॥

सुत-राजा तथा पुत्र ॥ ६ ॥

स्थपतिः कारुभेदेऽपि-

स्थपति-कंचुकी तथा कारुभेद,

काष्ठ चीरनेवाला ॥

-मूर्च्छामिधरे नृपे ॥

मूर्च्छ-पर्वत और राजा ॥

मूर्धामिषिको मूपेपि-

मूर्धामिषिक-राजा और मन्त्री ॥

-ऋतुः स्त्रीकुसुमेऽपि च ॥ ६१ ॥

ऋतु-स्त्रीका मासिक धर्म और बस-

न्तादि ऋतु ॥ ६१ ॥

विष्णावप्यमिताव्यक्तौ-

विष्णु-अव्यक्त, विष्णु और महादेव ॥

-सूतस्त्वष्टरि सारथी ॥

सूत-सारथी तथा पाराधातु, लघु ॥

व्यक्त प्राज्ञेऽपि-

व्यक्त-व्यक्त तथा स्फुट ॥

-दृष्टान्ताद्युभौ शास्त्रनिद-

र्शने ॥ ६२ ॥

दृष्टान्त-तर्कादि शास्त्र तथा उदाह-

रण ॥ ६२ ॥

क्षत्रा स्मात्सारथी दास्ये क्षत्रि-

यायां च शूद्रजे ॥

क्षत्रु-सारथि, शूद्र और क्षत्रियाधे

उत्पन्न तथा द्वारपाल ॥

वृत्तान्तः स्मात्प्रकरणे प्रका-

रे कात्स्न्यवार्तायो ॥ ६३ ॥

वृत्तान्त-प्रकरण प्रकार, सम्पूर्णता

तथा वार्ता ॥ ६३ ॥

आनर्तः समरे वृत्त्यस्थान्ती

वृद्धिक्षेपयोः ॥

आनर्त-आनर्त देश, संग्राम तथा

वृत्त्यका स्थान ॥

कृतान्तो यमसिद्धान्तवैवा

कुशालकर्मसु ॥ ६४ ॥

कृतान्त-यमराज, सिद्धान्त, मास्य,

तथा पाप ॥ ६४ ॥

श्लेषमादि रसरक्तादि महा-

भूतानि तद्वृणा ॥ इन्द्रि-

याण्यश्मविकृतिः शुब्दयो

निश्च घातवः ॥ ६५ ॥

धातु—वात, पित्त, कफ, पेटमें अन्न-
जायकर जो रस बनता है वह और रक्त
इत्यादि, पचमहाभूत(पृथ्वा जल इत्या-
दि) पाचोमहाभूतोके गुण, (रूप रस
गन्ध इत्यादि) इन्द्रिय, पत्यरका विकार,
(शिलाजीत इत्यादि) वर्णात्मक शब्दों-
के कारण, (भू, इत्यादि) ॥६५ ॥
कक्षान्तरेऽपि शुद्धान्तो नृप-
स्यासर्वगोचरे ॥

शुद्धान्त—राजधानी तथा राजाओंका
जनाना ॥

कासूसामर्थ्ययोः शक्ति—

शक्ति—ब्रह्मी तथा सामर्थ्य ॥

-मूर्तिः काठिन्यकाययोः ॥ ६६ ॥

मूर्ति—कठिनता तथा शरीर ॥ ६६ ॥

विस्तारबल्योर्व्रतति—

व्रतति—विस्तार तथा बल्यी ॥

-र्वसती रात्रिवेश्मनोः ॥

वसति—रात्रि तथा वृष ॥

क्षयार्चयोरपचितिः—

अपचिति—क्षय तथा पूजा ॥

-सातिर्दानावसानयोः ॥ ६७ ॥

साति—दान तथा अन्त ॥ ६७ ॥

अर्तिः पीडाधनुष्कोट्यो—

अर्ति—पीडा तथा धनुषकी कोटि ॥

-जातिः सामान्यजन्मनोः ॥

जाति—सामान्यजाति तथा जन्म ॥

प्रचारस्यन्दयो रीति—

रीति—लोकाचार तथा पीतल और

लोहेका मल ॥

-रीतिर्दिम्बप्रवासयोः ॥ ६८ ॥

ईति—(ईति सात प्रकारकी होती है

अतिवृष्टि, सूखापडना, खेतोंमें मूसोंका

लगना, टीडियोंका उपद्रव, सुगोसे

हानि, और राजाओंसे वैर, इन ७ को

ईति कहतेहैं,) तथा परदेशमे वासा ॥ ६८ ॥

उदयेऽधिगमे प्राप्ति—

प्राप्ति—लाभ तथा उत्पत्ति ॥

-स्त्रेता त्वग्नित्रये युगे ॥

त्रेता—एकयुग तथा अग्नित्रय ॥

वीणाभेदेऽपि महती—

महती—नारदकी वीणा तथा महत्त्व

करके युक्त भार्यादि ॥

-भूतिर्भस्मानि संपदि ॥ ६९ ॥

भूति—अणिमा महिमादि आठ ऐश्वर्य,

मस्म तथा सम्पत्ति ॥ ६९ ॥

नदीनगर्थोर्नागानां भोगवत्य—

भोगवती—सर्पोंकी नदी तथा नगरी ॥

-थ संगरे ॥

सङ्गे सभायां समितिः—

समिति—सग तथा सभा तथा सप्राम ॥

-क्षयवासावापि क्षिती ॥ ७० ॥

क्षिति-निवास, क्षय तथा पृथ्वी ॥ ७० ॥

खेरर्धिक्ष शखं च वद्विज्वाला
च हेतय ॥

हसि-सूर्यकी प्रभा तथा शख और
आगकी आछा ॥

जगती जगति छन्दोविशे
पेडपि सितावापि ॥ ७१ ॥

जगती-जोक, एकप्रकारका छन्द
तथा पृथ्वी ॥ ७१ ॥

पक्षिश्छन्दोऽपि वृशम-
पक्षि-पौती तथा दश अक्षरक पा

दका छन्द ॥
-स्यात्प्रभावेऽपि घायसिः ॥

आयसि-आनेवाला समय प्रमाथ
तथा अम्बाई ॥

पक्षिर्गौरी च-
पक्षि-पैदक तथा चञ्जना ॥

-मूले तु पसति पसभे
दयो ॥ ७२ ॥

पक्षति-प्रतिपदा रूतिधि तथा पक्षकी
जड ॥ ७२ ॥

प्रकृतिर्योनिखिङ्गे च-
प्रकृति-स्वभाव तथा योनिखिङ्ग ॥

-कैशिक्याद्याश्च वृत्तयः ॥
वृत्ति-जीविका, सूत्रोका अर्थ तथा

कषिकाई ॥

सिकता* स्युर्षोऽलकापि-
सिकता-वाटू और सिकती ॥

-धेदे भवसि च मुति ॥ ७३ ॥

मुति-कद, कान तथा मुनना ॥ ७३ ॥
बनिता अनितात्मर्यानुरा

गायां च योपिति ॥
बनिता-खी तथा अरकत प्यारी खी ॥

गुतिः शिठिष्युवासेऽपि-
गुति-रखा, भूमिका गइदा तथा

अच्छाना ॥
धृतिर्धारणधैययोः ॥ ७४ ॥

धृति-धारण और धैर्य ॥ ७४ ॥
वृहती क्षुद्रवार्ताकी छन्दो

भेदो महत्पि ॥
वृहती-क्षुद्रवार्ताकी, छन्दविरोप बनी ॥

वासिता स्त्रीकरिष्योश्च-
वासिता-खी तथा हयिमी ॥

-वार्ता धृत्वा जनमुतौ ॥ ७५ ॥
वार्ता-जीविका समाचार ॥ ७५ ॥

वार्त फल्गुन्यरोगे च त्रि-
वार्त-नीरोग, समाचार, जनमुति

जीवनापाय तथा कुशल ॥
व्यप्सु च वृत्तामृते ॥

वृत्त-धी, जड ॥
अमृत-अक, मोक्ष तथा फिना

मार्गी मीख ॥

कलधौतं रूप्यहेम्नो-

कलधौत-चादी तथा सोना ॥

-निमित्तं हेतुलक्षमणोः॥७६॥

निमित्त-हेतु तथा चिह्न ॥ ७६ ॥

श्रुतं शास्त्रावधृतयो-

श्रुत-शास्त्र तथा सुनागया ॥

-युगपर्याप्तयोः कृतम् ॥

कृत-सत्ययुगपर्याप्ति, तथा कियाहुआ ॥

अत्याहित महाभीतिः कर्म
जीवानपेक्षि च ॥ ७७ ॥

अत्याहित-महामय तथा साहस ॥७७॥

युक्ते क्षमादावृतेभूतं प्राण्यतीति
समे त्रिषु ॥

भूत-प्रेत, पृथिवी आदि पाच, देवयो-
नि तथा न्याययुक्त कार्य और सत्य तथा
प्राणी ॥

वृत्तं पद्ये चरित्रे त्रिष्वतीति दृढ-
निस्तले ॥ ७८ ॥

वृत्त-पद्य, श्लोक, चरित्र, अतीत,
भूतकाल, दृढ तथा गोल ॥ ७८ ॥

महद्राज्यं चा-

महत्-राज्य तथा बृहत्

-वगीतं जन्ये स्याद्गर्हितं

त्रिषु ॥

अवगीत-लोकापवाद तथा जिसका

निंदा की गई ॥

११

श्वेतं रूप्येऽपि-

श्वेत-सफेद रंग तथा चादी और

रूपया ॥

-रजतं हेम्नि रूप्ये सिते
त्रिषु ॥ ७९ ॥

रजत-सोना चादी तथा उज्ज्वल ७९ ॥

त्रिष्वती

यहासे लेकर तकारान्त सम्पूर्ण शब्द
तीनों लिंगोंमें होते हैं ॥

जगदिद्वेऽपि-

जगत्-लोक तथा प्राणी ॥

-रक्तं नील्यादिरागि च ॥

रक्त-नीलादि रंग तथा रुधिर ॥

अवदातः सिते पीते शुद्धे-

अवदात-शुद्ध, श्वेत पदार्थ तथा
पीला पदार्थ ॥

-वद्भार्जुनौ सितौ ॥ ८० ॥

सित बंधाहुआ तथा श्वेत ॥ ८० ॥

युक्तेऽपि संस्कृते मर्षिण्याभि-
नीतो-

अभिनीत-युक्त, अत्यन्त, प्रशस्त.
तथा भूषित और शान्त ॥

-ऽथ संस्कृतम् ॥

कृत्रिमं लक्षणोपेतोऽप्य-

संस्कृत-संस्कारयुक्त, लक्षणयुक्त तथा

कृत्रिम ॥

-नन्तोऽनवधावपि ॥ ८१ ॥

अनन्त-अनवधि, (बिसकी मर्यादा न हो) विष्णु तथा शेष नाग ॥ ८१ ॥

रूपाते हृष्टे प्रतीतो-

प्रतीत-प्रसन्न तथा हार्णित ॥

-अभिजातसु कुलजे ध्रुवे ॥

अभिजात-कुलीन और पण्डित ॥

विविक्तौ पृथाविजनौ-

विविक्त-पवित्र और विजग, वा एकान्त ॥

-मूर्च्छितौ मूढसोच्छ्रयौ ॥ ८२ ॥

मूर्च्छित-मोहित तथा बढा ॥ ८२ ॥

द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ-

शुक्त-चुक्र तथा कठोर ॥

गिती घषलमेचकौ ॥

गिति-प्रबल (शुक्ल) मेचक तथा कृष्णवर्ण ॥

सत्ये साधौ विद्यमानेप्रज्ञ-

स्तेऽभ्यर्हते च सत् ॥ ८३ ॥

सत्-सत्य, साधु, विद्यमान, प्रशस्त तथा अभ्यर्हित ॥ ८३ ॥

पुरस्कृतं पूजितेऽरात्यभि
युक्तोऽपत कृते ॥

पुरस्कृत-पूजित, शत्रुस पीडित और भाग किये दिये ॥

निवातावाध्रपावातौ क्षत्रा

भेर्ध च वम यत् ॥ ८४ ॥

निवात-निवास, वायुरहित स्थान

तथा क्षत्रोसे अमेध कवच ॥ ८४ ॥

जातोऽसद्वृद्धाऽस्युरुच्छ्रिता-

उच्छ्रित-उत्पन्न, उच्चा, उच्छ्रित,

अहंकायुक्त तथा अयस्त बडा ॥

-उत्थितास्त्वमी ॥ वृद्धिमरप्रो

द्यतोत्पन्ना-

उत्थित-वृद्धिको प्राप्त होनेवाला, तथा उदयको प्राप्त होनेवाला और उत्पन्न होनेवाला ॥

-आहृती सादरार्चितौ ॥ ८५ ॥

आहृत-आदर किया हुआ तथा पूजित ॥ ८५ ॥

इति तान्ता ।

अर्थोभिधेयैरेवस्तुप्रयोजन

निवृत्तिषु ॥

अर्थ-शब्दका अर्थ, धन, पदार्थ, निवृत्ति ॥

निपानागमयोस्तीर्थमृषि

जुष्टे जले गुरी ॥ ८६ ॥

तीर्थ-निपान अर्थात् कूपके पासका होद वा जलाशय, शास्त्र, ऋषिसंबित चढ तथा गुरु ॥ ८६ ॥

समथस्त्रिषु शक्तिस्ये संभ

द्धार्ये हितेऽपि च ॥

समर्थ-समर्थ वा मज्जमान् तथा समर्थयुक्त पाठ्य तथा हित ॥

दशमीस्थौ क्षीणरागवृद्धौ-

दशमीस्थ-रसरहित और अतिवृद्ध॥

-वीथी पदव्यपि ॥ ८७ ॥

वीथी-मार्ग तथा पक्ति ॥ ८७ ॥

आस्थानीयत्नयोरस्था-

आस्था-सभा तथा उपाय ॥

-प्रस्योऽस्त्री सानुमानयोः ॥

प्रस्य-पर्वतकी चोटी तयो तोल-

नेका सेर ॥

॥ इति ध्यान्ताः ॥

अभिप्रायवशौ छन्दा-

छन्द-अभिप्राय तथा अधीन ॥

-वन्दौ जीमूतवत्सरौ ॥ ८८ ॥

अब्द-मेघ तथा वर्ष ॥ ८८ ॥

अपवादौ तु निन्दाज्ञे-

अपवाद-निन्दा तथा आज्ञा ॥

-दायादौ सुतबान्धवौ ॥

दायाद-पुत्र तथा ज्ञाति वा विरादरी॥

पादा रश्म्यंघ्रितुर्याशा-

पाद-किरण, चरण तथा चौथाई ॥

-श्रन्द्रागन्धर्कास्तमोनुदः ॥ ८९ ॥

मोनुद्-चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि ॥ ८९ ॥

निर्वादो जनवादेऽपि-

निर्वाद-लोकापवाद और निश्चित
वाद ॥

-शादो जम्बालशष्पयोः ॥

शाद-वास और कीचड ॥

आरावे रुदिते त्रातर्याक्रन्दो

दारुणे रणे ॥ ९० ॥

आक्रन्द-आर्तशब्द, रोदन, रक्षक,

भयकर तथा युद्ध ॥ ९० ॥

स्यात्प्रसादोऽनुरागेऽपि-

प्रमाद-अनुग्रह, (प्रसन्नता) और

काव्यके गुण ॥

-सूदः स्याद्व्यञ्जनेऽपि च ॥

सूद-व्यञ्जन और रसोईवरदारका

नाम ॥

गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो-

गोविन्द-कृष्ण तथा विष्णु और

गोष्ठका स्वामी ॥

-हर्षेऽप्यामोदवन्मदः ॥ ९१ ॥

आमोद-हर्ष तथा निर्हारि गन्ध ॥ ९१ ॥

प्राधान्ये राजलिङ्गे च वृषाङ्गे

ककुदोऽस्त्रियाम् ॥

ककुद-प्रधान, राजचिह्न तथा

बैलका कन्धा ॥

स्त्री संविज्ञानसंभाषाक्रियाका-

राजिनामसु ॥ ९२ ॥

सविद्-ज्ञान, सम्भाषण, कर्म, नियम,

युद्ध और नाम ॥ ९२ ॥

धर्मे रहस्युपनिष-

उपनिषद्-धर्म, एकान्त और वेदान्त

—स्स्याद्वौ वत्सरे शरत् ॥
 शरत्—कारकार्तिकका समय और वर्ष ॥
 पद ध्ववसितप्राणस्थानल
 क्षमाद्भिवस्तुषु ॥ ९३ ॥
 पद—ध्ववसाय, रक्षास्थान, विह,
 चरण तथा वस्तु ॥ ९३ ॥
 गोष्पद् सेविते माने—
 गोष्पद्—सेवित दश तथा भूमिपर
 गायके सुरसे इमा गच्छा ॥
 —प्रतिष्ठा कृत्स्नमास्पदम् ॥
 आस्पद—प्रतिष्ठा स्थान तथा काय ॥
 —त्रिष्विष्टमञ्जुरौ स्वादू—
 स्वादू—इष्ट और मञ्जुर ॥
 —मृदू चाक्षीक्ष्णकोमलौ ॥ ९४ ॥
 मृदू—अक्षीक्ष्ण तथा कामल ॥ ९४ ॥
 मूढाल्पापटुनिर्भाग्या मदा
 स्यु—
 मन्द—मूढ, आलसी अप्रवीण,
 अस तथा निर्भाग्य ॥
 —द्वौ तु शारदी ॥
 प्रत्यमाप्रतिमौ—
 शारद—इरपोक अतितन (वृष्ट)
 जलपीपर औपची ॥
 —विद्वत्सुप्रगल्भौ विशार
 दी ॥ ९५ ॥

विशारद—विद्वान् तथा चतुर औ
 वीठ पुरुष ॥ ९५ ॥
 इति दान्ता ॥
 व्यामो वटश्च न्यप्रोधा—
 न्यप्रोव—वटवृक्ष तथा अङ्गुषार ॥
 —मुत्सेधः काय उन्नति ॥
 उरसेव—वेह तथा उँचाई ॥
 पर्याहारश्च मार्गश्च विवधी
 वीवधी च तौ ॥ ९६ ॥
 विवध वीवध—पर्याहार (स्थानादि)
 तथा मार्ग ॥ ९६ ॥
 परिधिर्पश्चिपतरो शाखायामु
 पसूर्यके ॥
 परिधि—वृत्तकी परिधि वा गोलाई,
 सूर्य वा चन्द्रके चारों ओरका मण्डल,
 पलाश इत्यादि यज्ञके वृक्षोकी शाखा ॥
 बन्धकं ध्यसन चेत पीडा
 विष्ठानमाधय ॥ ९७ ॥
 भाधि—बन्धक, आपधि, मनकी
 पीडा तथा बीटना ॥ ९७ ॥
 स्यु समर्पननीवाकनियमाश्च
 समाधय ॥
 समाधि—विचके व्यापारका रोकना
 अङ्गीकार सुप रक्षना, नियम तथा ध्याना
 दोषोत्पादेऽमुव धं स्मात्प्रह
 त्यादिविनश्वरे ॥ ९८ ॥

मुख्यानुयायिनि शिशौ प्रकृ-
तस्यानुवर्तने ॥

अनुबन्ध—दोषका उत्पन्न करना, प्रकृति प्रलय आगम आदेश इत्यादिमें जिसका नाश हो गया हो वह ॥९८॥ पिता इत्यादि बड़ोंका अनुसरण करनेवाला बालक, प्राग्भ किया वस्तुका परंपरासे चलना ॥

विधुर्विष्णौ चन्द्रमसि—

विधु—विष्णु, चन्द्रमा, कपूर, तथा राक्षस ॥

—परिच्छेदे विलेऽवधिः ॥९९॥

अवधि—सीमा वा हृद, गड्ढा और काल ॥ ९९ ॥

विधिर्विधाने देवेऽपि—

विधि—करना, मान्य धर्मशास्त्र तथा आज्ञादेना ॥

—प्रणिधिः प्रार्थने चरे ॥

प्रणिधि—प्रार्थन तथा चलनेवाला ॥

बुधवृद्धौ पण्डितेऽपि—

बुध—पण्डित तथा एक ग्रह ॥ वृद्ध-पण्डित तथा वृद्धपुरुष ॥

—स्कन्धः समुदयेऽपि च ॥१००॥

स्कन्ध—समुदय, समूह. काण्ड, राजा तथा कन्धा ॥ १०० ॥

देशे नदविशेषेऽथौ सिन्धुर्ना
सरिति स्त्रियाम् ॥

सिन्धु—समुद्र, एक नद, सिन्धुदेश तथा नदी ॥

विधा विधौ प्रकारे च—

विधा—विधान प्रकार तथा बढाई ॥

—साधू रम्येऽपि च त्रिषु ॥१०१॥

साधु—साधु, कुलीन, सुन्दर, रोजगारी तथा सज्जन ॥ १०१ ॥

वधूर्जाया स्तुषा स्त्री च—

वधू—स्त्री, (विवाहिता स्त्री) पुत्रकी बहू, स्वरग ओपधी ॥

—सुधा लेपोऽमृतं स्तुही ॥

सुधा—अमृत, चूना, विजुली, भोजन, अबरा, सेहुड ॥

सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादा—

सन्धा—प्रतिज्ञा, अंगीकार, मर्यादा ॥

—श्रद्धा संप्रत्ययः स्पृहा ॥१०२॥

श्रद्धा—आदर, आकाक्षा तथा विश्वास ॥ १०२ ॥

मधु मद्ये पुष्परसे क्षौद्रे—

मधु—मद्य, पुष्परस, शहद, चैत्र तथा महुधा ॥

—प्यन्धं तमस्यपि ॥

अन्ध—अन्धा तथा अधियारा ॥

अतस्त्रिषु—

यहांसे लेकर धातवर्ग पर्यंत शब्द तीनों लिंगोंमें होते हैं ॥

—स्यादृत्तौ वस्त्रे शरत् ॥

शरद्—कारकाधिपका समय और वर्ष ॥

पद व्यवसितप्राणस्थानल
ह्माद्घ्रिवस्तुप् ॥ ९३ ॥

पद—व्यवसाय, रक्षास्थान, विह,
चरण तथा यस्तु ॥ ९३ ॥

गोष्पद् सेविते माने—

गोष्पद्—सेवित देश तथा भूमिपर
गायके सुरसे हुआ गच्छा ॥

—प्रतिष्ठा कृत्पमास्पदम् ॥

आस्पद—प्रतिष्ठा, स्थान तथा कार्य ॥

—त्रिष्विष्टमधुरौ स्वाद्—

स्वादु—इष्ट और मधुर ॥

—सृद् घातीक्ष्णकोमली ॥ ९४ ॥

सृद्—अतीक्ष्ण तथा कामल ॥ ९४ ॥

मूढाल्पापद्मनिर्माग्या मदाः

स्यु—

मन्द—मूढ आलसी अप्रवीण,
अस्य तथा निर्माग्य ॥

—द्वौ तु शारवौ ॥

प्रत्यमाप्रतिमौ—

शारद—हरपोक क्लिप्ततन (वृक्ष)
अच्छपीपर औषधी ॥

—विद्वत्सुप्रगल्भौ विशार
दौ ॥ ९५ ॥

विशारद—विद्वान् तथा चतुर औः
दीठ पुरय ॥ ९५ ॥

इति दान्ता ॥

ध्यामो वटश्च न्यमोघा—

न्यमोघ—कटवृक्ष तथा अङ्गुषार ।

—धुत्सेघं काय उन्नतिः ॥

उत्सेघ—देह तथा उँघार्थ ॥

पर्याहारश्च मार्गश्च विवधी
वीवधी च सौ ॥ ९६ ॥

विवध वीवध—पर्याहार (प्यानादि)
तथा मार्ग ॥ ९६ ॥

परिविर्यक्षिपवरोः शाखायासु
पसूर्यके ॥

परिवि—वृत्तकी परिवि वा गोकार्थ,
सूर्य वा अन्द्रके चारों ओरका मन्द्य,
पञ्चाश इत्यादि पङ्के वृक्षोकी शाखा ॥

अन्धक ध्यसन चेत पीडा
विष्ठानमाधयः ॥ ९७ ॥

आधि—अन्धक, आपत्ति, मन्की
पीडा तथा बैटना ॥ ९७ ॥

स्यु' समर्पननीवाकनियमाश्च
समाधय ॥

समाधि—चित्तके व्यापारका रोकना
अङ्गीकार उप रहना, नियम तथा ध्याना
दोषोत्पादेऽमुषन्वाः स्यात्प्रह-
त्यादिविनशरे म ९८ ॥

मुख्यानुयायिनि शिशौ प्रकृ-
तस्यानुवर्तने ॥

अनुबन्ध—दोषका उत्पन्न करना, प्रकृति प्रलय आगम आदेश इत्यादिमें जिसका नाश हो गया हो वह ॥९८॥ पिता इत्यादि बडोका अनुसरण करनेवाला वाढक, प्रारम्भ किया वस्तुका परंपरासे चलना ॥

विधुर्विष्णौ चन्द्रमसि—

विधु—विष्णु, चन्द्रमा, कपूर, तथा राक्षस ॥

—परिच्छेदे विलेऽवधिः ॥९९॥

अवधि—सीमा वा हद्द, गड्ढा और काल ॥ ९९ ॥

विधिर्विधाने दैवेऽपि—

विधि—करना, भाग्य धर्मशास्त्र तथा आज्ञादेना ॥

—प्रणिधिः प्रार्थने चरे ॥

प्रणिधि—प्रार्थन तथा चलनेवाला ॥

बुधवृद्धौ पण्डितेऽपि—

बुध—पण्डित तथा एक ग्रह ॥ वृद्ध-पण्डित तथा वृद्धपुरुष ॥

—स्कन्धः समुदयेऽपि च ॥१००॥

स्कन्ध—समुदय, समूह. काण्ड, राजा तथा कन्धा ॥ १०० ॥

देशे नदविशेषेऽथौ सिन्धुर्ना
सरिति स्त्रियाम् ॥

सिन्धु—समुद्र, एक नद, सिन्धुदेश तथा नदी ॥

विधा विधौ प्रकारे च—

विधा—विधान प्रकार तथा बढाई ॥

—साधू रम्येऽपि च त्रिषु ॥१०१॥

साधु—साधु, कुलीन, सुन्दर, रोजगारी तथा सज्जन ॥ १०१ ॥

वधूर्जाया स्तुषा स्त्री च—

वधू—स्त्री, (विवाहिता स्त्री) पुत्रकी बहू, सवरग ओपधी ॥

—सुधा लेपोऽमृतं स्तुही ॥

सुधा—अमृत, चूना, विजुली, भोजन, अमरा, सेहूड ॥

सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादा—

सधा—प्रतिज्ञा, अंगीकार, मर्यादा ॥

—श्रद्धा संप्रत्ययः स्पृहा ॥१०२॥

श्रद्धा—आदर, आकाक्षा तथा विश्वास ॥ १०२ ॥

मधु मद्ये पुष्परसे क्षौद्रे—

मधु—मद्य, पुष्परस, शहद, चैत्र तथा महुआ ॥

—प्यन्धं तमस्यपि ॥

अन्ध—अन्धा तथा अधियारा ॥

अतस्त्रिषु—

यहासे लेकर वातवर्ग पर्यंत शब्द तीनों लिंगोंमें होते हैं ॥

—समुद्रद्वी पण्डितमन्यगर्वि-
तो ॥ १०३ ॥

समुद्र—अपनेको पंडित माननेवाला
वा गर्वयुक्त ॥ १ १ ॥

ब्रह्मवधुर्गधिभेपे निर्देश-
ब्रह्मवधु—अधिक्षप, निन्दा योग्य
ब्राह्मण ॥

—ऽथ विलम्बित ॥ अविदूरोऽ-
प्यवष्टब्धः—

अवष्टब्ध—आक्षिप्त, पासनाला तथा
बैवा हुआ ॥

—प्रसिद्धी ख्यातमूपितौ ॥ १०४ ॥

प्रसिद्ध—प्रसिद्ध वा ख्यात तथा
मूपित ॥ १ ४ ॥

॥ इति धास्ताः ॥

सूर्यबह्वी चित्रमानु-
चित्रमानु—सूर्य और अग्नि ॥

—भानु रश्मिदिवाकरौ
भानु—किरण और सूर्य ॥

मूतात्मानौ घातुदेशौ-
मूतात्मान्—मृदा तथा दह ॥

—मूर्खनीचौ पृथग्जनौ ॥ १०५ ॥

पृथग्जन—मूर्ख और नीच ॥ १०५ ॥

—पत्रिणी शरपाक्षिणी ॥

पत्रिन्—पक्षी, बाज पक्षी तथा बाण ॥

चरुगैलौ शिखरिणौ-
शिखरिन्—शूद्र तथा शैठ ॥

शिखिनी वह्निवर्हिणी ॥ १०६ ॥

शिखिन्—अग्नि तथा मोर ॥ १०६ ॥

—प्रतिपत्नायुभौ लिप्तोपमहा-
प्रतिपत्न—छामको इच्छा तथा स-

स्कार ॥

—वय सादिनी ॥ द्वौ सारथि-
हयारोहौ-

सादिन्—सारथि और घोड़ेका सवार ॥

—वाजिनोऽश्वेषु पक्षिण ॥ १०७ ॥

वाजिन्—घोडा और पक्षी ॥ १ ७ ॥

कुलेऽप्यभिजनो जन्मभूम्या
म-

अभिजन—कुल तथा जन्मभूमि ॥

—प्यथ हायना ॥ वर्षाचिर्वी-
हिभेदाश्च-

हायन—वर्ष, आँच तथा एक तर
हका धान ॥

चन्द्राम्ब्यर्का विरोचना ॥ १०८ ॥

विरोचन—चन्द्रमा अग्नि, सूर्य ॥ १ ८ ॥

—क्लेशोऽपि वृजिनो-
वृजिन—स्कन्द कुटिल तथा पाप ॥

—विश्वकर्माकिंसुरशिल्पिनो ॥
विश्वकर्मेन्—सूर्य तथा विश्वकर्मा ॥

आत्मा यत्नो धृतिर्बुद्धिः

स्वभावो ब्रह्मवर्ष्म च ॥ १०९ ॥

आत्मन्—आत्मा, देह स्वभाव, बुद्धि.

ब्रह्म, उपाय तथा धीरता वा वैर्या ॥ १०९ ॥

शक्तो घातुकमत्तेभो वरुका-

ब्दो घनाघनः ॥

घनाघन—बरसनेवाला मेघ, इन्द्र तथा
खूनी मतवाला हाथी ॥

अभिमानोऽर्थादिदपे ज्ञाने

प्रणयहिंसयोः ॥ ११० ॥

अभिमान—घनादिका घमड, ज्ञान,
प्रणय नम्रता तथा हिंसा ॥ ११० ॥

घनो मेघे मूर्तिगुणे त्रिषु मूर्ते
निरन्तरे ॥

घन—कठोरवस्तु, मेघ, मूर्तिका गुण
मुद्गर कौसीका वनाहुआ घटा इत्यादि
बाजां मध्यनृत्य गीतवाद्य ॥

इनः सूर्ये प्रभौ—

इन—सूर्य, प्रभु ॥

—राजा मृगांके क्षत्रिये नृपे १११

राजन्—चन्द्रमा, क्षत्रिय तथा नृप ॥

॥ १११ ॥

वाणिन्यौ नर्तकीदूत्यौ—

वाणिनी—नाचनेवाली स्त्री तथा दूती
वा कुटनी ॥

—स्रवन्त्यामपि वाहिनी ॥

वाहिनी—सेना, नदी, वाहिनीपति,
समुद्र तथा सेनापति ॥

हादिन्यौ वज्रतडितौ—

हादिना—वज्र और विजली ॥

—वन्दायामपि कामिनी ॥ ११२ ॥

कामिनी—बहुन कामवाली या कामकी
इच्छा करनेवाली स्त्री, वन्दा—एकवृक्षका
रोग तथा स्त्री ॥ ११२ ॥

त्वग्देहयोरपि तनुः—

तनु—खाल, शरीर, थोडा और दुर्बला

सूनाऽधोजिह्विकापि च ॥

सूना—जिह्वाके तलेका स्थान और
मारनेक स्थान ॥

ऋतुविस्तारयोरस्त्री वितानं

त्रिषु तुच्छके ॥ ११३ ॥ मन्दे—

वितान—ऋतु, विस्तार, तुच्छ ॥ ११३ ॥
तथा मन्त्र ॥

—ऽथ केतनं कृत्ये केतावुपानि-
मन्त्रणे ॥

केतन—ध्वजा, घर, कार्य तथा उपनि
मन्त्रण ।

वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा

विप्रः प्रजापतिः ॥ ११४ ॥

ब्रह्मन्—वेद, चैतन्य, तप ब्रह्मा तथा
ब्राह्मण और प्रजापति ॥ ११४ ॥

उत्साहने च हिंसायां सूचने
चापि गन्धनम् ॥

-समुद्रद्वी पण्डितमन्यगर्वि
सौ ॥ १०३ ॥

समुन्द्र-अपनेको पंडित माननेवाला
वा गर्वयुक्त ॥ १०३ ॥

प्रहस्य घुग्घिक्षेप निर्देश-
प्रहस्य-अधिक्षेप, निन्दा योग्य
प्राक्षण ॥

-ऽय विलम्बितः ॥ आविदूरोऽ-
प्यवष्टब्ध-

अवष्टब्ध-आश्रित, पासवाला तथा
दया हुआ ॥

-प्रसिद्धी स्यात्तमूपितौ ॥ १०४ ॥

प्रसिद्ध-प्रसिद्ध वा स्यात् तथा
भूषित ॥ १ ४ ॥

॥ इति धाम्ता ॥

सूमवह्नी चित्रमानु-

चित्रमानु-सूर्य और अग्नि ॥

-भानु रश्मिदिवाकरी

मानु-किरण और सूर्य ॥

भूतारमानो घाटदेशी-

भूतात्मन्-प्रजा तथा दत्त ॥

-मूरतनीची पृथग्जनौ ॥ १०५ ॥

पृथग्जन-मूर्ख और मीच ॥ १०५ ॥

प्रावाणी छेळपापाणी-

पाकन्-प्राय तथा पपर ॥

-पत्रिणी तरपाणी ॥

पत्रिन्-पक्षी, वास पक्षी तथा बाण ।

सरुशैली शिखरिणी-

शिखरिन्-शृङ्ग तथा शैल ॥

शिरिनी बाह्विर्हिणी ॥ १०६ ॥

शिरिन्-अग्नि तथा मोर ॥ १०६ ॥

प्रतियत्नाडुभौ लिप्सोपमहा-

प्रतियत्न-आमकी इच्छा तथा स-

स्कार ॥

-वथ सादिनी ॥ दी सारधि

इयारोही-

सादिन्-सारधि और घोडेका सगर ॥

-वाग्निोऽश्वेषु पक्षिण ॥ १०७ ॥

वाग्निन्-घोडा और पक्षी ॥ १०७ ॥

कुलेऽप्यभिजनो जन्मभूम्या

म-

अभिजत-कुल तथा जन्मभूमि ॥

-व्यथ हायना ॥ सर्पाचिर्षी

हिभेदाश्च-

हायन-वर्ष, अंध तथा एक तर

दृष्टा घान ॥

चन्द्राग्न्यर्का विरोधना ॥ १०८ ॥

विरोधन-चन्द्रमा, अग्नि, सूर्य ॥ १०८ ॥

ह्येगेऽपि घृतिना-

घृतिम-स्नेह कुट्टित तथा पार ॥

-विश्वकर्मासुरगिल्पिनो ॥

विरवम्भन्-सूर्य तथा विरवम्भ ॥

पक्ष्मन्—नेत्रोके पलक, केसर,
सूतका टुकड़ा, अतिअल्प ॥

तिथिभेदे क्षणे पर्व—

पर्वन्—अष्टमी दर्श आदि तिथि,
उत्सव ॥

—वर्त्मनेत्रच्छदेऽध्वनि ॥ १२१ ॥

वर्त्मन्—मार्ग वा रास्ता तथा
आँखके पलक ॥ १२१ ॥

—अकार्यगुह्ये कौपीनं—

कौपीन—अकार्य और गुह्य तथा
कौपीन ॥

—मैथुनं संगतौ रते ॥

मैथुन—स्त्री पुरुषका संयोग तथा
रति ॥

प्रधानं परमात्मा धीः—

प्रधान—प्रधान वा मुख्य तथा राजा-
का मुख्य सहाय, परमात्मा, बुद्धि ॥

—प्रज्ञानं बुद्धिचिह्नयोः ॥ १२२ ॥

प्रज्ञान—बुद्धि और चिह्न ॥ १२२ ॥

प्रसूनं पुष्पफलयो—

प्रसून—फूल तथा फल ॥

—निधनं कुलनाशयोः ॥

निधन—कुल और नाश ॥

क्रन्दने रोदनाह्वाने—

क्रन्दन—रोना, पुकारना तथा योद्धा-
ओंका धमकीसे लड़कारना ॥

वर्ष्मं देहप्रमाणयोः ॥ १२३ ॥

वर्ष्मन्—शरीर वा देह तथा प्रमाण
वा नाप ॥ १२३ ॥

गृहदेहत्विद्प्रभावा धामा—

धामन्—घर, देह, प्रभा वा प्रकाश
तथा प्रभाव ॥

—न्यथ चतुष्पथे ॥ संनिवेशे

च संस्थानं—

संस्थान—किसी वस्तुके अवयवोंका
विभाग तथा चौरहा और मरना वा नाश।

लक्ष्म चिह्नप्रधानयोः ॥ १२४ ॥

लक्ष्मन्—चिह्न तथा प्रधान वा
मुख्य ॥ १२४ ॥

आच्छादने संपिधानमपवारण-
मित्युभे ॥

आच्छादन—ढाकना, छिपना, बख्त
इत्यादिसे बँधना, बख्त तथा गुप्त होना ॥

आराधनं साधने स्यादवाप्तौ
तोषणेऽपि च ॥ १२५ ॥

आराधन—सन्तुष्ट करना, सिद्ध
करना तथा लाभ ॥ १२५ ॥

अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्या-
सनेष्वपि ॥

अधिष्ठान—पहियों, नगर, आक्रमण
वा भ्रमलमें कर लेना ॥

रत्नं स्वजातिश्रेष्ठेऽपि—

गन्धम—सूचनकरना वा चुगडीखाना
हिंसा तथा उत्साह देना वा मरोसादेना ॥

आतञ्जनं प्रतीवापञ्चवनाप्याय
नार्थकम् ॥ ११५ ॥

आतञ्जन—योग, तपकरना तथा दूधमें
मट्टा बाणना ॥ ११५ ॥

व्यञ्जनं लाञ्छनं श्मश्रुनिष्ठाना
वयवेष्वपि ॥

व्यञ्जन—बिह्न, दाढीमूछनिष्ठान तथा
भोग ॥

स्यात्कौलीनं लोकवादे युद्धे
पश्चहिपक्षिणाम् ॥ ११६ ॥

कौलीन—ओकापवाद वा लोकनिदा
तथा पक्ष सर्प पक्षीका युद्ध ॥ ११६ ॥

स्यादुद्यानं निम्तरणे वनभेदे
प्रयोजने ॥

उद्यान—बगीचा, निरुल्लना तथा
प्रयोजन ॥

अवकाशे स्थितौ स्थानं—
स्थान—अवकाश और स्थिति ॥

—क्रीडावावपि देवनम् ॥ ११७ ॥

देवन—क्रीडा व्यवहार तथा जीतनेकी
इच्छा ॥ ११७ ॥

उत्यानं पौरुषे सन्धे सनिवि—
द्योत्रभेदेषु च ॥

उत्यान—उत्थान व सदा होमा,

उद्योग, कुटुम्बकार्य, सिद्धान्त तथा
उत्तम औपव ॥

व्युत्थानं प्रविरोधे च विगोषा
चरणेऽपि च ॥ ११८ ॥

व्युत्थान—तिरस्कार या अनार
विरोध करना तथा स्वसन्त्रसासे काम
करना ॥ ११८ ॥

मारणे मृतसंस्कारे गतौ द्रव्ये
ऽप्यदापने ॥ निर्वर्तनीपकरणानु
प्रज्यासु च साधनम् ॥ ११९ ॥

साधन—पारा इत्यादि रसायनका
वनाना, चखना, पृथ्वी जल इत्यादि
द्रव्य घन दौलत दिखाना, घन इत्यादि
का पैदा करना, उपाय, पीछे पीछे
चलना पुरुषका मूत्रेऽत्रिय, तथा मृतक
वा अग्निसंस्कार ॥ ११९ ॥

निर्यातनं वैशुद्रौ दाने न्या
सार्पणेषु च ॥

निर्यातन—वैशोबन, दान तथा
घरोहट्ट दाना ॥

व्यसनं विपदि भ्रंशे दोषे
कामजकोपजे ॥ १२० ॥

व्यसन—विपत्ति, भ्रंश नाश वा पतन,
कामज दोष तथा कोपजदोषा १२ ॥
पक्षमासिलोमि किंमत्के व
म्वाद्यशोऽप्यणीमसि ॥

पक्ष्मन्-नेत्रोके पलक, केसर,
सूतका टुकड़ा, अतिअल्प ॥

तिथिभेदे क्षणे पर्व-

पर्वन्-अष्टमी दर्श आदि तिथि,
उत्सव ॥

-वर्त्मनेत्रच्छदेऽध्वनि ॥ १२१ ॥

वर्त्मन्-मार्ग वा रास्ता तथा
आँखके पलक ॥ १२१ ॥

-अकार्यगुह्ये कौपीन-

कौपीन-अकार्य और गुह्य तथा
कौपीन ॥

-मैथुनं संगतौ रते ॥

मैथुन-स्त्री पुरुषका संयोग तथा
रति ॥

प्रधानं परमात्मा धीः-

प्रधान-प्रधान वा मुख्य तथा राजा-
का मुख्य सहाय, परमात्मा, बुद्धि ॥

-प्रज्ञानं बुद्धिचिद्वयोः ॥ १२२ ॥

प्रज्ञान-बुद्धि और चिह्न ॥ १२२ ॥

प्रसूनं पुष्पफलयो-

प्रसून-फूल तथा फल ॥

-निधनं कुलनाशयोः ॥

निधन-कुल और नाश ॥

क्रन्दने रोदनाद्धाने-

क्रन्दन-रोना, पुकारना तथा योद्धा-
ओंका धमकीसे ललकारना ॥

वर्ष्मं देहप्रमाणयोः ॥ १२३ ॥

वर्ष्मन्-शरीर वा देह तथा प्रमाण
वा नाप ॥ १२३ ॥

गृहदेहत्विट्प्रभावा धामा-

धामन्-घर, देह, प्रभा वा प्रकाश
तथा प्रभाव ॥

-न्यथ चतुष्पथे ॥ संनिवेशे

च संस्थानं-

संस्थान-किसी वस्तुके अवयवोका
विभाग तथा चौरहा और मरना वा नाश

लक्ष्म चिद्वप्रधानयोः ॥ १२४ ॥

लक्ष्मन्-चिह्न तथा प्रधान वा
मुख्य ॥ १२४ ॥

आच्छादने संपिधानमपवारण-
मित्युभे ॥

आच्छादन-ढाकना, छिपना, वस्त्र
इत्यादिसे ढेपन, घस्र तथा गुप्त होना ॥

आराधनं साधने स्यादवाप्तौ
तोषणेऽपि च ॥ १२५ ॥

आराधन-सन्तुष्ट करना, सिद्ध
करना तथा लाभ ॥ १२५ ॥

अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्या-
सनेष्वपि ॥

अधिष्ठान-पहियो, नगर, आक्रमण
वा धमलमें कर लेना ॥

रत्नं स्वजातिश्रेष्ठेऽपि-

रत्न—नबाहिर तथा स्वजातिमें श्रेष्ठ
वा उत्तम ॥

—बने सलिलकानने ॥ १२६ ॥

बन—पानी और बन ॥ १२६ ॥

सलिन विरले स्तोके—

तस्मिन्—विरल तथा घोडा ॥

—वाच्यलिङ्ग तयोचरे ॥

यहांसे नांतर्गकी समाप्ति पर्यन्त
संपूर्ण शब्द वाच्यलिङ्ग होत हैं ॥

समाना* सत्समैके स्युः—

समान—संबन्धित, सम और एक ॥

—पिशुनौ खलसूचकौ ॥ १२७ ॥

पिशुन—सूचक वा धुगळखोर तथा
सूच ॥ १२७ ॥

हीनन्यूनाधूनगर्हो—

हीन न्यून, घोडा त्याग किया
गया तथा निन्दा करनेके योग्य और
किसी वस्तुसे रहित ॥

—वेगिशूरी सरस्विनी ॥

सरस्विन्—बगवाजा तथा शूर ॥

अभिपन्नोऽपरादोऽभिमस्त

व्यापद्रसावपि ॥ १२८ ॥

अभिपन्न—अपराधी, जीता गया
तथा निपटिका प्राप्त मया ॥ १२८ ॥

॥ इति नाम्ना ॥

कलापो भूपणे यहै तूर्णारे
सहसावपि ॥

कलाप—समूह, मोरकी पूछ छी
कमरकी पचीस छडकी कोपनी तथा
गहना और तरकस ॥

परिच्छदे परीषापः पर्युती
सलिलस्त्रिपती ॥ १२९ ॥

परीषाप—तंबू कनास इत्यादि सामग्री
तथा बीजका बोना और धाजा ॥ १२९ ॥

गोधुग्गोष्ठपती गौषी—

गोप—अहीर, गन्धरस, अनेकका-
मोंको करनेवाला या कामदार ॥

—हरविष्णु वृषाकमी ॥

वृषाकपि—महादेव तथा विष्णु ॥

वाच्यमूष्माक्षु—

वाच्य—माफ कर्यात् गरम वस्तुपर
पानी डालनेसे घूमके सश ऊपर
उठती हुई वस्तु, भासू, गरमी ॥

—कशिपु त्वलमाच्छादन
द्वयम् ॥ १३० ॥

कशिपु—भोजन, अन्न वस्त्र तथा
तकिया ॥ १३० ॥

सत्सर्प क्षय्याद्वारेणु—

तस्य—खाट, अटारी तथा दारा ॥

—स्तम्भेऽपि बिटपोऽस्त्रियाम् ॥

बिन्प—शाखा पत्ता इत्यादिका
समूह, घास तृण इत्यादिका गुच्छा,
बुध वा पेड ॥

प्राप्तरूपस्वरूपाभिरूपा बुध
मनोज्ञयोः ॥ १३१ ॥ भेद्यलिङ्गा
अमी-

प्राप्तरूप-स्वरूप, अभिरूप, पठित
तथा सुन्दर ॥ १३१ ॥

-कूर्मी वीणाभेदश्च कच्छपी ॥

कच्छपी-कछुही और सारस्वती
वीणा ॥

इति पाताः ॥

खर्णे पुंसि रेफः स्यात्कुत्तिते
वाच्यलिङ्गकः ॥ १३२ ॥

रेफ-अधम वा नीच तथा रेफ वा
हल रकार एक वर्ण ॥ १३२ ॥

इति पाताः ॥

अन्तराभावसत्त्वेऽश्वे गन्धर्वो
दिव्यगायने ॥

गधर्व-विश्वावसु इत्यादि स्वर्गके
गधये, घोडा, एक प्रकारका गधयुक्त
मृग, मनुष्यादि प्राणी ॥

कम्बुर्ना वलये शंखे-

कम्बु-शख, ककण वा कगन ॥

-द्विजिह्वौ सर्पसूचकौ ॥ १३३ ॥

द्विजिह्व-सर्प तथा चुगलखोरा ॥ १३३ ॥

पूर्वोऽन्यलिङ्गः प्रागाह पुंवदुत्वे-
ऽपि पूर्वजान् ॥

पूर्व-पहिला-ली, पूर्वपुरुष, अर्थात्

गुरुखा, ब्रह्मा, पूर्वदिशा तथा पहिले ॥

इति वान्ताः ॥

कुम्भौ घटेभमूर्धाशौ-

कुम्भ-गूगलका वृक्ष, घटा, हाथीका
मस्तक, अश, कुम्भराशि ॥

-डिम्भौ तु शिशुवालिशौ ॥ १३४ ॥

डिम्भ-वालक तथा मूर्ख ॥ १३४ ॥

स्तम्भो स्थूणाजडीभावौ-

स्तम्भ-खम, ठगसुरी ॥

शम्भू ब्रह्मत्रिलोचनौ ॥

शम्भू-ब्रह्मा और शिव ॥

कुक्षिभ्रणार्भका गर्भा-

गर्भ-स्त्रीके पेटका गर्भ पेट, वालक,

नाट्यकी तीसरी सधि ॥

-विस्रम्भः प्रणयेऽपि च ॥ १३५ ॥

विस्रम्भ-शुगारकी प्रार्थना और
विश्वास ॥ १३५ ॥

स्याद्देर्या दुन्दुभिः पुंसि स्या-
दक्षे दुन्दुभिः स्त्रियाम् ॥

दुन्दुभि-नगाडा तथा लडकोंका
एक प्रकारका खिलौना ॥

स्यान्महारजने क्लीवं कुसुम्भं
करके पुमान् ॥ १३६ ॥

कुसुम्भ-कमण्डल, कुसुमका फूल
॥ १३६ ॥

क्षत्रियेऽपि च नाभिर्ना-

मामि-दूडी, क्षत्रिय, सुम्भराजा,
रथके चक्रका मध्यभाग और फस्तूरी ॥

-सुरभिर्गवि घ स्त्रियाम् ॥

सुरमि-सुन्दर वा मनोहर, सुगणयुक्त,
प्रसिद्ध, चम्पा (पुष्पवृक्ष,) यन्तप्रकृत,
जायकड, कामधेनु, सडईवृक्ष, सुवर्ण
वा सोना तथा कमल (पुष्पवृक्ष) ॥

समा ससदि सम्ये घ-

समा-समा तथा घर ॥

-त्रिष्वध्वसोपि वल्लम' ॥ १३७ ॥

वल्लम-प्यारा-री, खीका पति, अम्पस
वा मालिक तथा कुलीन घोडा ॥ १३७ ॥

इति मांता ॥

किरणप्रमही रश्मी-

रश्मि-किरण वा प्रकाश तथा छगाम ॥

कपिभेकौ भुवङ्गमी ॥

भुवङ्गम-वानर तथा मडक ॥

इच्छामनोभवौ कामौ-

काम-इच्छा और काम ॥

-शौयोद्योगौ पराक्रमौ ॥ १३८ ॥

पराक्रम-शूरता तथा उद्योग ॥ १३८ ॥

धर्मा पुण्ययमन्यायस्वभा

वाधारसोमयाः ॥

धर्म-पुण्य यमराज, न्याय, स्वभाव,
वाधार तथा सोमयज्ञ कर्तक सोमव
हिका रस पीनेवाडा ॥

उपायपूर्व धारम्भ उपा
चाप्युपक्रम ॥ १३९ ॥

उपक्रम-उपायपूर्वक धारम्भ, प्रारम्भ
तथा रिसन्त ॥ १३९ ॥

वणिक्पथः पुर वेदो निगमो-
निगम-व्यापार, शहर तथा वेद ॥

-नागने वणिक् ॥ नैगमौ
द्वौ-

नैगम-वेदसम्बन्धि वस्तु, नगरका रहन
बासा तथा बनियाँ और उपनिषद् ॥

-यले रामो नीलचारुसिते'
त्रिपु ॥ १४० ॥

राम-सुन्दर वा मनोहर, नीली वस्तु,
श्वेत वस्तु, तथा परछराम रामचन्द्र,
वस्त्रराम ॥ १४० ॥

शब्दाविपूर्वो घृन्देऽपि भ्राम'-
भ्राम-ई पु । गाँव, (इस शब्दक

पूर्वमे कश्च' शब्द' इत्यादि शब्द रहते
तब यह सम्झवाची होताहे जैसा शब्द
भ्राम स्वरभ्राम, यह शब्द कहीं स्वरवा
नीमी हे) ।

-क्रान्तौ च विक्रम' ॥

विक्रम-विक्रमण तथा पराक्रम ॥

स्ताम' स्तोत्रेश्वरे घृन्दे-

स्ताम-सम्पन्न तथा स्तोत्र ॥

-जिसस्तु कुदिसेससे ॥ १४१ ॥

जिह्व-कुटिल तथा आलसी और

वक्र ॥ १४१ ॥

गुल्मा रुक्स्तम्बसेनाश्च-

गुल्म-पिलही रोग, बिना ढालीका

वृक्ष तथा एक प्रकारकी सेना ॥

जामिः स्वसुकुलस्त्रियोः ॥

जामि-ब्रह्मिन, तथाकुलस्त्री ॥

क्षितिक्षान्त्योः क्षमा युक्ते क्षमं

शक्ते हिते त्रिषु ॥ १४२ ॥

क्षमा-पृथ्वी तथा क्षमा वा सहना

॥ १४२ ॥

त्रिषु श्यामौ हरितकृष्णौ

श्यामा स्याच्छारिवा निशाः ॥

श्याम-श्यामा-हरा, कृष्ण, गतावरी

और रात्रि ॥

ललामं पुच्छपुंडाश्वभूषाप्रा-

धान्यकेतुषु ॥ १४३ ॥

ललाम-बूछ, घोडा, घोडेके मायेका

एकचिह्न, घोडेका गहना, प्रधान वा

मुख्य, मनोहर, प्रभाव, पुरुष तथा भूषण

और अश्वलिगी ॥ १४३ ॥

सूक्ष्ममध्यात्मम-

सूक्ष्म-छूठ तथा अन्व्यात्म ॥

-प्यादौ प्रधाने प्रथम-

प्रथम-पहिला-ली, तथा प्रधान वा

मुख्य ॥

-स्त्रिषु ॥

यहासे लेकर मान्तपर्यन्त सम्पूर्णशब्द

तीनों लिंगोंमे होते हैं ॥

वामौ बलगुप्रतीपौ द्वा-

वाम-शोभित, उलटा तथा टेढा ॥

-वधमौ न्यूनकुत्सितौ ॥ १४४ ॥

अधम-न्यून, तथा निन्दित १४४ ॥

जीर्णं च परिभुक्तं च यात-

याममिदं द्वयम् ॥

यातयाम-पुराना-नी, (बासी अन्न

इत्यादि) और भोजन करके त्याग किया

गया-ई ॥

॥ इति मान्ताः ॥

तुरंगगरुडौ तार्क्ष्यौ-

तार्क्ष्य-घोडा तथा गरुड ॥

-निलयापचयौ क्षयौ ॥ १४५ ॥

क्षय-नाश, प्रलय, क्षयरोग तथा

व्य ॥ १४५ ॥

श्वशुर्यौ देवरश्यालौ-

श्वशुर्य-देवर तथा साला ॥

भ्रातृव्यौ भ्रातृजद्विषौ ॥

भ्रातृव्य-मतीजा तथा शत्रु ॥

पर्जन्यौ रसदन्देन्द्रौ-

पर्जन्य-शब्दित मेघ तथा इन्द्र ॥

-स्यादर्यः स्वामिवैश्ययोः १४६

अर्य-स्वामि तथा वैश्य ॥ १४६ ॥

तिष्य' पुष्ये कलियुगे—

तिष्य—पुष्य मङ्गल, और फल्गुयुग ॥

—पर्यायोऽवसरे क्रमे ॥

पयाय—अक्षर तथा क्रम ॥

प्रत्ययोऽर्धनिघ्नपथज्ञानविश्वाम

सहेसुपु ॥ १४७ ॥ रन्त्रे शब्दे—

प्रत्यय—अधीन, शपय, ज्ञान, विश्वास

तथा कारण ॥ १४० ॥ छिद्र और शब्दा ॥

ऽऽथानुशयो दीर्घद्वेषानु

तापयो ॥

अनुशय—बडा घेर तथा पश्चात्ताप ॥

स्थूलोच्चयस्त्वसाकल्प्ये गमा

नां मध्यमे गते ॥ १४८ ॥

स्थूलोच्चय—पर्वतका बडा ढोंका अस्त

पूर्णाता, हाथियोंकी मध्यम गति अर्थात्

न अस्ती न घीरे ॥ १४८ ॥

समयाः शपयाधारकाल

सिद्धान्तसंविदः ॥

समय—काल वा समय, शपय वा

किरिया, आचार वा अपने मतके सट्टा

म्यारहार, सिद्धान्त अर्थात् निर्णय किया

हुआ पदार्थ तथा बातचीत करना ॥

ठपमनान्यशुभ देव विपदित्य

नयास्त्रय' ॥ १४९ ॥

अनय—दुर्म्यस्तन शुभा इत्यादि हुए

मात्र तथा विपत्ति और अनीति ॥ १४९ ॥

अत्ययोऽतिक्रमे कृच्छ्रदोषे

दृष्टे—

अत्यय—मरना, उच्छ्वन, क्लेश दोष

तथा दण्ड और नाश ॥

—ऽप्यथापदि ॥

युद्धायत्योः संपराय'—

सम्पराय—भाषति, युद्ध तथा उच्छ

काळ वा अगाडीका समय ॥

—पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च ॥ १५० ॥

पूज्य—पूजा वा आदरकरनेके योग्य

और स्सुर ॥ १५० ॥

पश्चादवस्थायि बलं समवा

यत्र सैन्यौ ॥

सचय—अच्छा म्याय करनेवाला

सेनाके पीछेकी सेना तथा समूह ॥

सघाते सैन्येषु च सस्त्यायः—

सस्त्याय—समूह, बैठक तथा विस्तार

प्रणयास्त्वमी ॥ १५१ ॥

विस्रम्भयाश्चाप्रेमाणः—

प्रणय—प्रेम वा प्रीति मांगना तथा

विश्वास ॥ १५१ ॥

—विरोधेऽपि समुच्छ्रय' ॥

समुच्छ्रय— उचाई तथा क्रोध ॥

विपयो यस्य यो ज्ञातस्वप्न

शब्दादिकेष्वपि ॥ १५२ ॥

विपय—जानी हुई वस्तु, रूप,

रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, (ये प्रत्येक विषय कहलाते हैं) देश, स्थान और आश्रय ॥ १९२ ॥

निर्यासेऽपि कषायोऽस्त्री-

कषाय—कपेला रङ्गमाला—ली, कसेला रङ्ग, काढा, त्रिलेपन तथा नया अगराग अर्थात् दटका चन्दनादिक ॥

—सभायां च प्रतिश्रयः ॥

प्रतिश्रय—सभा, आश्रय वा अत्रल-म्वन तथा अङ्गीकार ॥

प्रायो भूमन्यन्वगमने-

प्राय—सन्यासपूर्वक भोजनका त्याग, मृत्यु वा मरण और तुल्य ॥

—मन्युर्दैन्ये क्रतौ कुधि ॥ १९३ ॥

मन्यु—क्रोध, दीनता वा गरीबी तथा चिन्ता वा शोक ॥ १९३ ॥

रहस्योपस्थयोर्गुह्यं-

गुह्य—छिपानेके योग्य तथा स्त्री वा पुरुषका मूत्रेन्द्रिय ॥

—सत्यं शपथतथ्ययोः ॥

सत्य—सच्चा—स्त्री, सत्यमामा, सत्यता, कसम तथा सतयुग ॥

वीर्यं बले प्रभावे च-

वीर्य—बल और प्रभाव ॥

—द्रव्यं भव्ये गुणाश्रये ॥ १९४ ॥

द्रव्य—धन, भव्य अर्थात् सुन्दर और स्थिर ॥ १९४ ॥

धिष्ण्यं स्थाने गृहे भद्रौ-

धिष्ण्य—स्थान, गृह, नक्षत्र तथा अग्नि ॥

—भाग्यं कर्म शुभौशुभम् ॥

भाग्य—भाग्य वा पूर्वजन्मके किये हुए अच्छे वा बुरे कर्म ॥

कशेरुहेऽङ्गोर्गाङ्गियं-

गागेय—गगासम्बन्धी वस्तु, भीष्म कौरवके पितामह, सुवर्ण वा सोना, कसे-रुफल वा कन्द ॥

—विशल्या दन्तिकाऽपि

च ॥ १९५ ॥

विशल्या—गुहूची औषधी, इन्द्रपुष्पी औषधी, अम्रिकी शिखा वा आगकी लपट तथा दन्तिका औषधी ॥ १९५ ॥

वृषाकपायी श्रीगौर्यो-

वृषाकपायी—लक्ष्मी तथा पार्वती ॥

—रभिरख्या नामशोभयोः ॥

रभिरख्या—नाम तथा शोभा ॥

आरम्भो निष्कृतिः शिक्षा

पूजनं संप्रधारणम् ॥ १९६ ॥

उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा

च नव क्रियाः ॥

क्रिया—क्रिया वा कर्म, आरम्भ, प्राध-

श्चित्त, शिक्षा, पूजन, विचार, उपाय

कर्म चेष्टा तथा दवाईकरना ॥ १९६ ॥

तिष्यं पुष्ये कलियुगे-

तिष्य-पुष्य मक्षत्र, और कलियुग ॥

पर्यायोऽवसरे क्रमे ॥

पर्याय-अवसर तथा क्रम ॥

प्रत्ययोऽधीनशुभयज्ञानविश्वा

सहेतुषु ॥ १४७ ॥ रन्ध्रं शब्दे-

प्रत्यय-अधीन, शपथ, ज्ञान, विश्वास

तथा कारण ॥ १४७ ॥ छिद्र और छन्दः ॥

ऽऽधानुशयो वीर्षद्वेषानु-

त्तापयो ॥

अनुशय-बड़ा वैर तथा पक्षात्तापः ॥

स्थूलोच्चपस्त्वसाकल्प्ये गमा

नां मध्यमे गते ॥ १४८ ॥

स्थूलोच्चय-पर्वतका बड़ा ठोंका भस्ते

पूर्णता, हाथियोंकी मध्यम गति अर्थात्

न जल्दी न धीरे ॥ १४८ ॥

समयां शपथाचारकाल

सिद्धान्तसंनिधिः ॥

समय-काल वा समय, शपथ वा

निरिधा, आचार वा अपने मतके सहस्र

स्वरदार, सिद्धान्त अर्थात् निर्णय किया

हुआ पदार्थ तथा बातचीत करना ॥

भ्यसनायशुभं दर्वं विपद्रित्य

नयास्त्रय ॥ १४९ ॥

अनय-दुर्व्यसन शुभाशुभादि दुःख

मात्र तथा निरति और अनीति ॥ १४९ ॥

अत्ययोऽतिक्रमे कृच्छ्रदोषे

दण्डे-

अत्यय-मरना, उच्छ्वसन, कृच्छ्रदोष

तथा दण्ड और नाश ॥

-ऽप्यथापदि ॥

युद्धायत्यो संपराय-

सम्पराय-भाषति, युद्ध तथा उच्छ

काल वा अगाडीका समय ॥

-युष्पस्तु श्वशुरेऽपि च ॥ १५० ॥

युष्प-युवा वा भाद्रपत्तराज योग्य

और स्वरु ॥ १५० ॥

पक्षाद्वस्थापि बल समवा

यश्च सनयी ॥

सनय-अध्वज ग्याय करनेवाला

सेनाक पीछेकी सेना तथा समूह ॥

संचाते संनिवेशे च सस्त्याय-

सस्त्याय-समूह, बैठक तथा विस्तार

प्रणयास्त्वमी ॥ १५१ ॥

विसम्भयाश्चाप्रेमाणः-

प्रणय-प्रेम वा प्रीति, मांगना तथा

विश्वास ॥ १५१ ॥

-विरोधेऽपि समुच्छ्रम ॥

समुच्छ्रम-उंचाई तथा शिरोध ॥

विपया यस्य वा शातस्तत्र

शब्दादिकञ्चपि ॥ १५२ ॥

विपय-प्राप्ती हुई बात, रूप,

-संस्तरौ प्रस्तराऽध्वरौ ॥ १६१ ॥

सस्तर-कुशका विछौना; विछौना
तथा यत्र ॥ १६१ ॥

गुरु गीष्पतिपित्राद्यौ-

गुरु-भारी, बृहस्पति, बडेलोग (पि-
ता इत्यादि) ॥

-द्वापरौ युगसंशयौ ॥

द्वापर-सशय (सन्देह,) 'द्वापर'
युग ॥

प्रकारौ भेदसादृश्ये-

प्रकार-भेद (तरह) तथा तुल्यता ॥

-आकाराविद्धिताकृती ॥ १६२ ॥

आकार-चेष्टा तथा सूरत ॥ १६२ ॥

किंशारू सस्यशूकेषु-

किंशारू-यव इत्यादिका ढूँडा
(सुईके तुल्य अप्रभाग) तथा वाण
और कक पक्षी ॥

-मरू धन्यधराधरौ ॥

मरू-निर्जलदेश और पर्वत ॥

अद्रयो द्रुमशैलार्काः-

अद्रि-वृक्ष, पर्वत तथा सूर्य ॥

-स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ ॥ १६३ ॥

पयोधर-स्तन और मेघ ॥ १६३ ॥

ध्वान्तारिदानवा वृत्रा-

वृत्र-वृत्रासुर, (एक दैत्य) अन्धकार
तथा शत्रु ॥

-वलिहस्तांशवः कराः ॥

कर-हाथ, हाथीकी सूड, किरण
तथा महसूल वा कर ॥

प्रदरा भङ्गनारीरुग्वाणा-

प्रदर-स्त्रियोंका एकरोग (जिसके
होनेसे मूत्रद्वारसे लोहू बह जाता है) भग
(भग्नता) तथा वाण ॥

-अस्त्राः कचा अपि ॥ १६४ ॥

अस्त्र-केश कोना, आसू, तथा
लोहू ॥ १६४ ॥

अजातशृंगो गौः काले-

ऽप्यश्मश्रुर्ना च तवरौ ॥

तवर-समयपर जिसके सींग न
जममें हों ऐसा बैल, समय पर जिसके
मूँहें न जमी हों ऐसा पुरुष ॥

स्वर्णेऽपि राः-

रै-धन तथा सुवर्ण (सोना) ॥

-परिकरः पर्यकपरिवारयोः

॥ १६५ ॥

परिकर-मलंग और कुटुम्ब ॥ १६५ ॥

मुक्ताशुद्धौ च तारः स्या-

तार-ऊचा शब्द, नक्षत्र, आखकी
पुतली, मोती, सफाई, गोल मोती, गोल
और निर्मल मोतीसे बना हार, जलसे
पार उतरना, एक वानरका नाम तथा
चादी धातु ॥

छाया सूर्यमिया कान्ति
प्रतिबिम्बमनातप ॥ १५७ ॥

छाया—छाया, सूर्यकी छाी वा शनि-
शरकी माता तथा शोभा और प्रति-
बिम्ब ॥ १५७ ॥

कक्ष्या प्रकोष्ठे इत्यादि का
कक्ष्यां मध्येमबन्धने ॥

कक्ष्या—राजाकी बैठडी, स्त्रियोंक
फसर का गहना, हाथीके मध्य शरी
रका बन्धन ॥

कृत्वा क्रियादेवतपोस्त्रिपु भेदो
धनादिभि ॥ १५८ ॥

कृत्वा—धन, स्त्री मूमि इत्यादि फेड
नके योग्य शत्रुका पुण्य इत्यादि, तामसी
दक्षता जिसको छोग शत्रुपर खडाते हे
तथा क्रिया वा कर्म ॥ १५८ ॥

जन्मं स्याज्जनावदेऽपि—

जन्म—जी पैदा होता हे निन्दित
बन्धन परक अर्थात् दामादफ पक्षबाछे
मित्र इत्यादि, धानार तथा पुत्र ॥

—जघन्योऽन्त्येऽधमेऽपि च ॥

जघन्य—सबस पिछला—छी, अधम
वा नीच—तथा मूरेन्द्रिय ॥

गह्वरान्तौ च वृत्तव्या—

गह्वर—बालनेरु योग्य, निन्दा कर
नके योग्य हीन अर्थात् किसी वस्तुमे
रहित तथा अधीन वा परलम्ब ॥

—कल्प्यौ सञ्जनिरामयौ ॥ १५९ ॥

कल्प—कल्प च धारण करनेवाला योद्धा

तथा नीरोग ॥ १५९ ॥

व्यात्मवाननवेतोऽर्थादर्थ्यो—

अर्थ्य—अर्थसे च्युत वा दूर न मयाई,

मुक्तिमान्—मती, और शिखाजीव ॥

—पुण्य तु धार्षण्ये ॥

पुण्य—पुण्यवान् मनोहर तथा धर्मी

—रूप्य मशस्वरूपेऽपि—

रूप्य—रमणीय वा सुन्दर, स्वयं

वा चादी छापी हुई चादी वा सोन

अर्थात् चादी वा सोनेका रूप्य ॥

—वदान्या वल्लुवागपि ॥ १६० ॥

वदान्य—दाता वा देनवाला—छी,

मीठा वासनेवाला—छी ॥ १६० ॥

न्याट्येऽपि मध्य—

मध्य—बिचला—छी वा बीचवाला—

छी, अधम वा नीच, न्याययुक्त वा

यापर सदृश कर्म तथा बीच ॥

—सौम्यं तु मुन्दरे सोमदैवते ॥

सौम्य—सुखा—छी सुन्दर, धर्मरत्न

निकरन करनरे योग्य वस्तु, सुख

(एकपद) ॥

॥ इति पान्ता ॥

निबहावसरौ बारी—

वार—सोम, मंगल, बुध इत्यादि ७

साठ बार, अथवा, सम ॥

-संस्तरौ प्रस्तराऽध्वरौ ॥ १६१ ॥

सस्तर-कुशका विछौना, विछौना
तथा यज्ञ ॥ १६१ ॥

गुरु गीष्पतिपित्राद्यौ-

गुरु-भारी, बृहस्पति, बडेलोग (पि-
ता इत्यादि) ॥

-द्वापरौ युगसंशयौ ॥

द्वापर-सशय (सन्देह,) 'द्वापर'
युग ॥

प्रकारौ भेदसादृश्ये-

प्रकार-भेद (तरह) तथा तुल्यता ॥

-आकाराविद्धिताकृती ॥ १६२ ॥

आकार-चेष्टा तथा सूत्र ॥ १६२ ॥

किंशारू सस्यशूकेषु-

किंशारू-यव इत्यादिका ढूँडा
(सुईके तुल्य अग्रभाग) तथा वाण
और कक पक्षी ॥

-मरू धन्यधराधरौ ॥

मरू-निर्जलदेश और पर्वत ॥

अद्रयो द्रुमशैलार्काः-

अद्रि-बृक्ष, पर्वत तथा सूर्य ॥

-स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ ॥ १६३ ॥

पयोधर-स्तन और मेघ ॥ १६३ ॥

ध्वान्तारिदानवा वृत्रा-

वृत्र-वृत्रासुर, (एक दैत्य) अन्धकार
या शत्रु ॥

-वलिहस्तांशवः कराः ॥

कर-हाथ, हाथीकी सूड, किरण
तथा महसूल वा कर ॥

प्रदरा भङ्गनारीरुग्वाणा-

प्रदर-द्विष्योका एकरोग (जिसके
होनेसे मूत्रद्वारसे लोहू बह जाता है) भग
(भयता) तथा वाण ॥

-अस्त्राः कचा अपि ॥ १६४ ॥

अस्त्र-केश कोमा, आसू, तथा
लोहू ॥ १६४ ॥

अजातशृंगो गौः काले-

ऽप्यश्मश्रुर्ना च तवरौ ॥

तवर-समयपर जिसके सींग न
जममें हों ऐसा बैल, समय पर जिसके
मूछें न जमी हों ऐसा पुरुष ॥

स्वर्णेऽपि राः-

रै-धन तथा सुवर्ण (सोना) ॥

-परिकरः पर्यकपरिवारयोः

॥ १६५ ॥

परिकर-पलंग और कुटुम्बा ॥ १६५ ॥

मुक्ताशुद्धौ च तारः स्या-

तार-ऊचा शब्द, नक्षत्र, आखकी
पुतली, मोती, सफाई, गोल मोती, गोल
और निर्मल मोतीसे बना हार, जलसे
पार उतरना, एक वानरका नाम तथा
चादी धातु ॥

—च्छारो वापौ स तु त्रिषु ॥
कसुरे-

शाग-शितकन्नत-री, औषध इत्यादिके
सञ्जनकी गुहा, तथा वायु ॥

—इय प्रतिज्ञाजिसविदाप
सु सगरः ॥ १६६ ॥

सगर-समामका मुद्ग प्रतिज्ञा, सङ्गाह
तथा आपत्ति वा त्रिपत्ति ॥ १६६ ॥

—बदभदे गुप्तबादे मन्त्रो-

मन्त्र-मन्त्र वा सङ्गाह एक केदका
मेद, तथा गुप्त मोचना ॥

—मित्रो रत्नावापि ॥

मित्र-सूर्य, मित्र (दोस्त) तथा अपन
समीपके राजासे सम्बन्धित राजा ॥

—मत्सेषु यूपखण्डेषु च स्वरु-

स्वरु-इन्द्रका कर्तृ तथा यज्ञमें
सम्भके छीछनेके समय उसमेंसे गिरा
पहिना टुकडा ॥

—गुह्योऽप्यवस्करः ॥ १६७ ॥

अवस्कर-विद्या तथा स्त्री वा पुरु-
षका मूत्रन्द्रिय (उपस्थ) ॥ १६७ ॥

—आहम्बरस्तूपरसे गजेन्द्राणां
च गार्जिते ॥

आहम्बर-सैयारी बानेका शब्द,
तथा बड हाथियोंका शब्द ॥

—अभिहारोऽभिषोगे च चीर्ये
सनहनेऽपि च ॥ १६८ ॥

अभिहार-चोराना, कवच हत्यादिका
धारण तथा माच्छि इत्यादि शत्रुक
नाशका उपाय ॥ १६८ ॥

—स्याज्जङ्गमे परीवारः सङ्गकोषे
परिच्छेदे ॥

परीवार-कुटुम्ब, तरवार इत्यादिका
म्यान तथा छात्र छस्कर ॥

—विष्टरो विटपी दर्भमुष्टिं
पीठाद्यमासनम् ॥ १६९ ॥

विष्टर-बैठनेका भासन, वृक्ष, दर्भ
मुष्टि (एक प्रकारका परिमाण) वा
नाप ॥ १६९ ॥

—द्वारि द्वारस्थे प्रतीहारः प्रती
हार्यप्यनन्तरे ॥

प्रतीहार-प्रतीहारि-द्वार तथा द्वारपाल
विष्णुले नकुले विष्णो यमुना
पिंगले त्रिषु ॥ १७० ॥

यमु-पीलेरगवाही वस्तु, पीलेरंग बडा
मौला, विष्णु तथा एक यादवा ॥ १७० ॥

—सारो बले स्थिरांशे च न्या
य्ये ह्यीधे वरे त्रिषु ॥

सार-श्रेष्ठ वा प्रधान वड, वस्तुका
स्थिरभाग बाहीर, मन्त्रा वा चरबी, पानी,
पन तथा उचित वा म्यापके वस्तुसार ॥

—दुरोदरो घृतकारे पणो घृते
दुरोदरम् ॥ १७१ ॥

दुरोदर—जुआरी, दाव(जो द्रव्य जुए-
में लगाया जाता है) जुआ ॥१७१॥

महारण्ये दुर्गपथे कान्तारं
पुंनपुंसकम् ॥

कान्तार—दुर्गम वा टेढा मार्ग, बड़ा
वन एक प्रकारका ऊख ॥

मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्रत्नकृपणयो-
स्त्रिषु ॥१७२॥

मत्सर—ईर्ष्या वा डाह करनेवाला—ली,
कृपण वा सूम, तथा ईर्ष्या वा डाह १७२॥

देवाहृते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्लीवं
प्रनाविप्रये ॥

वर—श्रेष्ठ वा प्रधान वा मुख्य,
देवताने जो प्रसन्न होकर दिया, दूल्ह
वा वर, केशर ॥

वंशाङ्कुरे करीरोऽस्त्री तरुभेदे
घटे च ना ॥१७३॥

करीर—ब्रासका छकड़ा, करील वा
टेंटी वृक्ष, एक प्रकारका काटेदार वृक्ष वा
कीकर तथा घटना वा मेल—॥ १७३॥

ना चमूजघने हस्ते सूत्रे प्रति
सरो स्त्रियाम् ॥

प्रतिसर—सेनाका पिछला हिस्सा, तथा
मन्त्रतन्त्रका डोरा ॥

यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कविष्णुसिहां-
शुवाजिषु ॥ १७४ ॥

शुकाहिकापिभेकेषु हरिर्ना
कपिले त्रिषु ॥

हरि—यम, वायु, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य,
विष्णु, सिंह, किरण, घोडा ॥ १७४ ॥
तोता, साप, चन्द्र, मेढक और हरा रङ्ग
तथा कपिल रङ्ग और कुल पीली वस्तु ॥

शर्करा कर्परांशेषि-

शर्करा—ठिकडी, ककडी, खाड, रेत
तथा बहुत किडियोंकी जमीन ॥

—यात्रा स्याद्यापने गतौ ॥१७५॥

यात्रा गमन वा चलना तथा
चलाना ॥ १७५ ॥

इरा भूवाक्सुराऽप्सु स्या-

इरा—मद्य, भूमि वाणी तथा जल ॥

—तंद्री निद्राप्रमीलयोः ॥

तन्द्री—निद्रा तथा आलस्य ॥

धात्री स्यादुपमाताऽपि क्षिति-

रप्यामलक्यापि ॥ १७६ ॥

धात्री—माता, आमला, पृथ्वी तथा
उपमाता अर्थात् दूध पिलानेवाली
धाय ॥ १७६ ॥

क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा
कण्टकारिका ॥ त्रिषु क्रूरेऽधमे

ऽऽल्पेऽपि क्षुद्र-

क्षुद्र—क्रूर, अधम, अल्प वा थोडा-
डी, सूम, मधुमाली, मटकटैया, हीन
अगवाली स्त्री, नटी, वेश्या ॥

-मात्रा परिच्छेदे ॥ १७७ ॥

अल्पे च परिमाणे सा मात्रं
कात्स्न्यैर्ज्ववाग्णे ॥

मात्रा-परिच्छेद वा सामग्री १७७ ॥

परिमाण, सूक्ष्म वा पतला, सम्पूर्णता,
तथा अवधारण वा निभय ॥

आलेख्याद्यमयोश्चित्र-

चित्र-चित्रविचित्र रंगप्राणा-डी, आ
श्चर्ययुक्त, कश्च एक मिथितरंग, एक नक्षत्र,
मूसाकर्णी भौषधी, एक तरहकी कफडी,
अद्भुतरस, तसवीर तथा आश्चर्य ॥

-कलत्र श्रोणिभाययो ॥ १७८ ॥

कलत्र-कमर तथा स्त्री ॥ १७८ ॥

योग्यभाजनयो पात्रं-

पात्र-आयक तथा वर्तन ॥

-पत्र वाहनपक्षयो ॥

पत्र-सवारी और पत्र ॥

निदेशमन्ययो शास्त्र-

शास्त्र-आज्ञा और मन्त्र ॥

-शास्त्रमायुधलोदयो ॥ १७९ ॥

शस्त्र-इधियार और छाता ॥ १७९ ॥

स्यास्यंशुकत्मानंश्र-

नत्र जत्र और यत्र तथा नत्र ॥

शत्र पत्नीगरीम्यो ॥

शत्र स्त्री तथा गवार म्ल ॥

मुग्गाप्रे कादण्डया पात्रं-

पोत्र-सूकरके मुखका अग्रभाग
तथा हस्तका अग्रभाग ॥

-गोत्र तु नास्ति च ॥ १८० ॥

गोत्र-नाम, पृथ्वी, पर्वत तथा
बुल ॥ १८० ॥

सत्रमाच्छादने यज्ञे मदादाने
वनेऽपि च ॥

सत्र-वृषल, यह, सदादान, (सदा
वत) वन, वन तथा धूर्तता ॥

अजिर विषये काये-

अजिर-विषय, शरीर, वायु, तथा
शौचन ॥

-ऽप्यम्बरं ध्योन्नि वासति ॥ १८१ ॥

अम्बर-आकाश तथा वज्रा १८१ ॥
चक्र राष्ट्र-

चक्र-राज्य, चक्रया पत्नी, समूह,
रथका पहिया, बुन्दारका चाक तथा
जडका ममर ॥

-ऽप्यक्षरं तु मोक्षंऽपि-

अक्षर-मोक्ष, हस्त, मम तथा
भोकार ॥

शीरमप्सु च ॥

शीर-दुग्ध तथा जल ॥

स्वर्णंऽपि भूरिचन्द्रौ द्वौ-

रि-तथा चन्द्र मृगशीर मृगा
-दारमात्रंऽपि गोपुरम् ॥ १८२ ॥

गोपुर—नगरका द्वार तथा द्वारमात्र

॥ १८२ ॥

गुहादम्भौ गह्वरे द्वे—

गह्वर—गुफा और पाखण्ड ॥

—रहोऽन्तिकमुपह्वरे ॥

उपह्वर—एकान्त तथा समीप ॥

पुरोऽधिकमुपर्यग्रा—

अग्र—पुर अधिक तथा ऊपर ॥

—ण्यगारे नगरे पुरम् ॥ १८३ ॥

मन्दिरं चा—

पुर—मन्दिर—स्थान और नगर ॥ १८३ ॥

—ऽथ राष्ट्रोऽस्त्री विषये स्या-
दुपद्रवे ॥

राष्ट्र—देश तथा उपद्रव ॥

दरोऽस्त्रियां भये श्वभ्रे—

दर—भय, गड्ढा तथा थोडा वा सूक्ष्म

—वज्रोऽस्त्री हीरके पवौ ॥ १८४ ॥

वज्र—इन्द्रका वज्र, सेहूडवृक्ष तथा
हीरा ॥ १८४ ॥

तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये
परिच्छदे ॥

तत्र—कुटुम्बका कार्य्य, सिद्धान्त,

उत्तम औपध, प्रधान वा मुख्य, जुलाहा,

एकप्रकारका शास्त्र, सामग्री, एकप्रकारकी

बंदकी शाखा, ऐसा हेतु जो पदार्थोंको

सिद्ध करता हो ॥

औशारश्चामरे दण्डेऽप्यौशीरं

शयनासने ॥ १८५ ॥

औशीर—चँवरका दण्ड, शयन और
आसन। किसीके मतमें यह शब्द पृथक् २
शयन और आसनका वाचक है ॥ १८५

पुष्करं करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे
जले ॥ व्योम्नि खड्गफले पद्मे तीर्थो-
पधिविशेषयोः ॥ १८६ ॥

पुष्कर—तलाव, कमल, आकाश,
जल, पुष्करमूल, हाथीके सूंडका अग्रभाग,
वाजेका मुख ॥ १८६ ॥

अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्त-
र्धिभेदतादर्थ्ये ॥ छिद्रात्मीयविना
बहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि च ॥
१८७ ॥

अन्तर—पहरनेके वस्त्रादि, आत्मसम्ब-
न्धी वा अपनी वस्तु, बाह्य वस्तु, अदृश्य
वस्तु, अवकाश, अवधि, अदृश्य होना,
भेद, तादर्थ्य, छिद्र, विना अवसर, मध्य,
अन्तरात्मा ॥ १८७ ॥

मुस्तेऽपि पिठरं—

पिठर—मोथा घास तथा मथनदण्ड
वा मथनिया ॥

—राजकशेरुण्यपि नागरम् ॥

नागर—चतुर, नगरवासी, सोंठ
तथा नागरमोथा ॥

जावर खन्धतमसि घालुके मेघ छिन्नकम् ॥ १८८ ॥	दनुत्तर ॥ १९० ॥
शांर-मारुतेवाळा-छी, घन वा बडा अड्डार ॥ १८८ ॥	एषा विपर्यये श्रेष्ठे-
गौरोरुणे सिंहे पति-	दनुत्तर-श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ ॥ १९० ॥
गौर-रक्त वा पीत वा काल्यगवा छी वस्तु, श्करण, पीला रंग, छालग, तया (जोघर्मसे पहिली अक्षयावाली छी)।	दूगनात्मोत्तमा पराः ॥
-वगकार्यप्यरुष्कर ॥	पर-पराया-ई (बहु) अन्य दूसरा-
अरुष्कर-बाक्करनेवाळा-छी, मेडावा।	री, दूर, उत्तम वा श्रेष्ठ, शत्रु केक तया अवनतर ॥
अउर कठिनेऽपि स्या-	स्वादिमियो तु मधुरौ-
अउर-कठोरवस्तु, रूद्र वा बुद्धा तया पेट ॥	मधुर-स्वादु और मिय ॥
दधस्तादपि चाघर ॥ १८९ ॥	-कुरौ कठिननिर्दयी ॥ १९१ ॥
अउर-नीचे, नीचिवा श्लोष्ठ, हीन तया नीच ॥ १८९ ॥	कूर-कठिन और दयाहीन ॥ १९१ ॥
अनाकुलेऽपि धकाया-	उदारो दातमहतो-
अनाम-एकाम वा तत्पर तथा स्वस्य धित ॥	उदार-दाता, बडा, साठ वा सूधा ॥
ध्यायो म्यासक्त आकुले ॥	-रितरस्त्वन्पनीचयोः ॥
ध्याय-ध्याकुल वा घनहाया-ई, दुषिणा ॥	इतर-अन्य तथा नीच ॥
उपपुदीध्यश्रेष्ठेष्वुत्तरस्या-	मन्दस्वच्छम्वयो स्वर-
उत्तर-उत्तर दरामे उत्तम मया-ई, श्रेष्ठ वा मुख्य उत्तरिणा गिराका	स्वर-मन्द वा ढीला-छी तथा स्वच्छन्द अपने मनका काम करनेवाळा।
उप उत्तर गिराकी पुदी तथा उत्तर वा जराव ॥	-शुभ्रमुदीप्तशुक्लो ॥ १९२ ॥
	शुभ्र-धनकर्मकी वस्तु, उदीप्त वा प्रकाशमान तथा श्वेतरेण ॥ १९२ ॥
	इति शब्ताः ॥
	पृषा किरीटं केशाश्च संयथा मौल्यध्वजा ॥
	मौलि-मालक, बीनी, मुकुट, मथार वाज ॥

द्रुमप्रभेदमातंगकाण्डपुष्पाणि

पीलवः ॥ १९३ ॥

पीलु-वृक्षभेद, हस्ती, वाण तथा
पुष्प ॥ १९३ ॥

कृतान्तानेहसोः काल-

काल-यमराज, मृत्यु तथा समय ॥

-श्रतुयेंऽपि युगे कलिः ॥

कलि-चौथायुग, पुष्पकी कली,
युद्ध तथा कलह ॥

स्यात्कुरंगेऽपि कमलः-

कमल-हिरन, जल, तौवा, कमल
तथा आकाश ॥

-प्रावारेऽपि च कम्बलः ॥ १९४ ॥

कम्बल-सर्पराज, गौके गलेका सासना
तथा कम्बलयस्त्र ॥ १९४ ॥

करोपहारयोः पुंसि बलिः

प्राण्यङ्गजे स्त्रियाम् ॥

बलि-महसूल तथा बुढापेमें पुरुषके
शरीरपै पडनेवाली सुकडन ॥

स्थौल्यसामर्थ्यसैन्येषु बलं
नाकाकसीरिणोः ॥ १९५ ॥

बल-मोटाई, सामर्थ्य, सेना, काक
पक्षी तथा बलदेव ॥ १९५ ॥

वातूलः पुंसि वात्यायामपि
वातासहे त्रिषु ॥

वातूल-आधी, बावला, तथा
वायुको न सहनेवाला ॥

भेद्यलिंगः शठे व्यालः पुंसि
श्रापदसर्पयोः ॥ १९६ ॥

व्याल-सर्प, दगावाज तथा हिंसक
पशु ॥ १९६ ॥

मलोऽसौ पापविशकिट्टा-

मल-मेल, पाप तथा वषा ॥

-न्यस्त्री शूलं रुगायुधम् ॥

शूल-शूलरोग (जो पेटमें होताहै)
तथा शूल एक शस्त्र ॥

शंकावपि द्वयोः कीलः-

कील-अग्निकी.ज्वाला वा लपट
तथा लोहे आदिकी कील ॥

-पालिः ह्यख्यंकपंक्तिषु ॥ १९७ ॥

पालि-खड्ग इत्यादिका टोंका 'कोना'
धारा, चिह्न तथा पक्ति ॥ १९७ ॥

कला शिल्पे कालभेदे-

कला-तीस काष्ठा, एकसमय, कारी-
गरी, मूलधन, वृद्धि, टुकडा तथा
चन्द्रका सोलहवाँ भाग ॥

-ऽध्याली सख्यावली अपि ॥

आलि-सखी तथा पक्ति ॥

अब्ध्यम्बुविकृतौ वेला काल-
मर्यादयोरपि ॥ १९८ ॥

वेला-समुद्रका तीर, काल वा समय
तथा मर्यादा वा हद्द ॥ १९८ ॥

बहुलाः कृत्तिका गावी बहुलो-
ऽश्रौऽशितौ त्रिषु ॥

शावर त्वन्धतमसे धातुके भेद्य-
लिङ्गकम् ॥ १८८ ॥

शार्शर-मारनेवाला-छी, धन वा
बडा अहङ्कार ॥ १८८ ॥

गौरोऽरुणे सिते पीते-

गौर-श्वेत वा पीत वा लालरंगवा
छी इत्यु, श्वेतरंग, पीला रंग, लालरंग,
तथा रजोवर्णसे पहिली अत्रस्यावासीछी ॥
-अगकार्यप्यरुष्कर ॥

अरु-अ-वाक्करनेवाला-छी, मेलापा ॥

जठरः कठिनेऽपि स्या-

जठर-कठोरवस्तु, दृढ वा मुडवा
तथा पट ॥

दघस्तादपि घाघर ॥ १८९ ॥

अघर-नीचे, नीचिछा ओष्ठ, हीन
तथा नीच ॥ १८९ ॥

अनाकुलेऽपि अकामो-

अकाम-एकाम वा तत्पर तथा स्वस्य
चित्त ॥

अयो अयासक्त आकुले ॥

अय-अयाकुल वा घबडाया-ई,
दुश्चिन्ता ॥

उपर्युशीघ्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरस्या-

उत्तर-उत्तर दशमे उत्पन्न मया-ई
श्रेष्ठ वा मुख्य, उत्तरदिशा, निराटका
पुत्र ऊपर निराटकी पुत्री, तथा उत्तर
वा जगत् ॥

उत्तर ॥ १९० ॥

एषां विपर्यये श्रेष्ठे-

अनुत्तर-श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ ॥ १९० ॥

दृग्नात्मोत्तमापरा ॥

पर-पराया-ई (वस्तु) अन्य दूरा-
री, दूर, उत्तम वा श्रेष्ठ, अत्यु केशक
तथा अनन्तर ॥

स्वाङ्गमियी तु मधुरौ-

मधुर-स्वादु और प्रिय ॥

-कुरौ कठिननिवर्तौ ॥ १९१ ॥

कुर-कठिन और दयाहीन ॥ १९१ ॥

उदारो दादमहवो-

उदार-दाता, बडा, सख वा सूया ॥

-रितरस्त्वन्पनीचमोः ॥

इतर-अन्ध तथा नीच ॥

मन्वस्वच्छन्स्यौ स्वैर-

स्वैर-मन्द वा-झीला-छी तथा
स्वच्छद अपने मतका काम कर-वाला ॥

-शुभ्रमुदीतशुक्लपोः ॥ १९२ ॥

शुभ्र-घतवर्णकी वस्तु, उदीत वा
प्रकाशमान तथा श्वेतरंग ॥ १९२ ॥

इति रास्तारः ॥

पृष्ठा किरीटं केशाश्च संयता-

मौल्यस्य ॥

मौल्य-मस्तक, पीटी, मुकुट,
दंभद्वय वाक ॥

द्रुमप्रभेदमातंगकाण्डपुष्पाणि

पीलवः ॥ १९३ ॥

पीलु—वृक्षभेद, हस्ती, बाण तथा पुष्प ॥ १९३ ॥

कृतान्तानेहसोः काल—

काल—यमराज, मृत्यु तथा समय ॥

—श्वतुर्थेऽपि युगे कलिः ॥

कलि—चौथायुग, पुष्पकी कली, युद्ध तथा कलह ॥

स्यात्कुरंगेऽपि कमलः—

कमल—हिरन, जल, तौवा, कमल तथा आकाश ॥

—प्राद्वारेऽपि च कम्बलः ॥ १९४ ॥

कम्बल—सर्पराज, गौके गलेका सासना तथा कम्बलवस्त्र ॥ १९४ ॥

करोपहारयोः पुंसि बलिः प्राण्यङ्गजे स्त्रियाम् ॥

बलि—महसूल तथा बुढापेमें पुरुषके शरीरपे पडनेवाली सुकडन ॥

स्थौल्यसामर्थ्यसैन्येषु बलं नाकाकसीरिणोः ॥ १९५ ॥

बल—मोटाई, सामर्थ्य, सेना, काक पक्षी तथा बलदेव ॥ १९५ ॥

वातूलः पुंसि वात्यायामपि वातासहे त्रिषु ॥

वातूल—आधी, वाक्ला, तथा वायुको न सहनेवाला ॥

भेद्यलिंगः शठे व्यालः पुंसि श्वापदसर्पयोः ॥ १९६ ॥

व्याल—सर्प, दगावाज तथा हिंसक पशु ॥ १९६ ॥

मलोऽस्त्री पापविदुकिट्टा—

मल—मल, पाप तथा षष्ठा ॥

—न्यस्त्री शूलं रुगायुधम् ॥

शूल—शूलरोग (जो पेटमें होताहै) तथा शूल एक शस्त्र ॥

शंकावपि द्वयोः कीलः—

कील—भक्षिकी. ज्वाला वा लपट तथा लोहे आदिकी कील ॥

—पालिः ह्ययह्यंकपंक्तिषु ॥ १९७ ॥

पालि—खड्ग इत्यादिका टोंका 'कोना' धारा, चिह्न तथा पक्ति ॥ १९७ ॥

कला शिल्पे कालभेदे—

कला—तीस काष्ठा, एकसमय, कारी-गरी, मूलधन, वृद्धि, टुकडा तथा चन्द्रका सोलहवाँ भाग ॥

—ऽप्याली सख्यावली अपि ॥

आलि—सखी तथा पक्ति ॥

अब्ध्यम्बुविकृतौ वेला काल-मर्यादयोरपि ॥ १९८ ॥

वेला—समुद्रका तीर, काल वा समय तथा मर्यादा वा हद्द ॥ १९८ ॥

बहुलाः कृत्तिका गावी बहुलो-ऽप्रौऽशितौ त्रिषु ॥

बहुल—बहुत, काठेरगवाजा—खी, अग्नि
वा आग, कृष्णपत्र, काठारग, नेवारोपुष्य,
गेया, खी, बडी इलायची, और आकाश ।

लीला विलासक्रिययो—

लीला—खिलास वा खीबा, क्रिया तथा
खेलना ॥

—रुपला शर्करापि च ॥ १९९ ॥

रुपला—पत्थर, रत्न तथा सिटकी
॥ १९९ ॥

शोणितेऽम्भसि कीलाळ—

कीलाळ—जळ तथा दधिर ॥

—मूलभाघे शिफामयोः ॥

मूल—जड, पहिळा, वृक्षकी जटा तथा
आमा और आधिकारण ॥

जालं समूहं आनापगवाक्ष
भारकेष्वपि ॥ २०० ॥

जाल—मत्स्यादि पकडनेका जाल,
समूह शरोखा तथा न फूली हुई कली
॥ २०० ॥

शीलं स्वभावे सदृचे—

शील—शुद्धकर्तृ वा पवित्र काम तथा
स्वभाव ॥

६ —सस्ये हेतुकृते फलम् ॥

फल—शुद्ध इत्यादिका फल, जायफल
छाज हजके गीचेका काष्ठ विसका अन्न
भाग छोडेसे बगा रहता हे हेतुस्मिन् क्रिया

गया भाणका अन्नमाग, त्रिफला, परि
णाम तथा छाम वा नफा ॥

छदिर्नेत्ररुजो* क्लीवं समूहे प
ल न ना ॥ २०१ ॥

पल्ल—समूह, खपडा तथा एक
मन्त्ररोग ॥ २०१ ॥

अघ*स्वरूपयोरस्त्री तल—
तल—किसी वस्तुके नीचेका भाग
तथा स्वरूप ॥

स्यान्नामिपे पलम् ॥

पल—एकदण्ड (२ ३ मित्र काठ)
का आठवां हिस्सा, १४ मासा, मांस,
तथा टचार्शका नाप ॥

और्बानलेऽपि पाताळं—

पाताळ—पाताळ तथा बडवानल ॥

—चैलं वसोऽघने शिषु ॥ २०२ ॥

केल—नीच वा अधम तथा बल
॥ २०२ ॥

कुक्कुलं शंकुभि* कीर्णे श्वभ्रे
ना तु तुपानले ॥

कुक्कुल—करसीकी भाग, कसि वा
स्त्रियोसे भगा हुआ गच्छा ॥

निर्णीते केवलमिति त्रिर्लिङ्ग
त्वेककृत्स्नयोः ॥ २०३ ॥

केकल—निर्णय किया गया, एक
स्त्रिया तथा सूर्य ॥ २०३ ॥

पर्याप्तिक्षेमपुण्येषु कुशलं शिक्षिते
त्रिषु ॥

कुशल—चतुर, सामर्थ्ययुक्त, कल्याण-
भाला—ली, सामर्थ्य, क्षेम, पुण्य तथा
कल्याण ॥

प्रवालमंकुरेऽप्यस्त्री-

प्रवाल—मृगा, नया पत्ता, अङ्कुर तथा
घीणाका दण्ड ॥

-त्रिषु स्थूलं जडेऽपि च ॥ २०४ ॥

स्थूल—मोटा—ठी, निर्बुद्धि वा बुद्धि-
रहित तथा समूह ॥ २०४ ॥

करालो दन्तुरे तुङ्गे-

कराल—भयकर, ऊचे दाँतवाला—ली
तथा ऊँची—चा ॥

-चारौ दक्षे च पेशलः ॥

पेशल—चतुर तथा मनोहर ॥

मूर्खेऽर्भकेऽपि बालः स्या-

बाल—लडका, केश, बाल, मूर्ख तथा
नेत्रवाला औषधी ॥

-लोलश्चलसत्पृष्णयोः ॥ २०५ ॥

लोल—चञ्चल तथा लालची ॥ २०५ ॥

॥ इति लान्ताः ॥

द्वदावौ वनारण्यवह्नी-

द्व—दाव—वन तथा वनकी आग ॥

-जन्महरौ भवौ ॥

भव—ससार, जन्म, शकर ॥

मन्त्री सहायसचिवौ-

मन्त्रिन्—राजाका मन्त्री वा राजाको

सलाह देनेवाला तथा सहायक ॥

-पतिशाखिनरा धवाः ॥ २०६ ॥

धव—छीका पति एक वृक्ष तथा
पुरुष ॥ २०६ ॥

अवयः शैलमेषार्का-

अवि—मेंढा, पर्वत, सूर्य तथा रज-
त्वला स्त्री ॥

-आज्ञाह्वानाध्वरा हवाः ॥

हव—पुकारना, आज्ञा वा हुक्म तथा
यज्ञ वा याग ॥

भावः सत्तास्वभावाभिप्रायचे-
ष्टात्मजन्मसु ॥ २०७ ॥

भाव—अभिप्राय वा तात्पर्य, विद्वान्
वा पंडित, सत्ता वा रहनेवालेका धर्म,
स्वभाव, आत्मा, जन्म वा उत्पत्ति, चेष्टा
तथा मनका विकार ॥ २०७ ॥

स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो
गर्भमोचने ॥

प्रवस—जनना, उत्पत्ति, फल तथा
पुष्प वा फूल ॥

आविश्वासेऽपह्नवेऽपि निकृतावापि
निह्ववः ॥ २०८ ॥

निह्व—अविश्वास, झूठ बोलना
तथा धूर्तपन ॥ २०८ ॥

उत्सेकामर्पयोरिच्छाप्रसवे मह
उत्सवः ॥

उत्सव—उत्सव वा मङ्गलकार्य, औ
स्य वा गर्व वा बर्हाई कोप, इच्छका
वेग तथा आनन्दका समय ॥

अनुभावः प्रभावे च सता च
मतिनिश्चये ॥ २०९ ॥

अनुभाव—प्रभाव सत्पुरुषोंकी बुद्धिका
निश्चय ॥ २ ९ ॥

स्याज्जन्महेतुः प्रभवः स्थानं
चाद्योपलब्धये ॥

प्रभव—उत्पत्तिका स्थान, कारण,
परश्रम तथा ज्ञानका प्रथमस्थान ॥

शूद्रायां विप्रतनयं शस्त्रे पार
शयो मतः ॥ २१० ॥

पारशय—शूद्रकी स्त्रीमें ब्राह्मणस
हस्रा पुत्र तथा शस्त्र ॥ २१० ॥

ध्रुवो भर्मेदे क्लीबं तु निश्चिते
श्रावते त्रिषु ॥

ध्रुव—स्तिर, मक्षप्रविशेष निश्चय
तथा शाश्वत ॥

स्वो हातावात्मनि स्वं त्रिष्यात्मीये
स्वोऽस्त्रिमां घने ॥ २११ ॥

स्व—जातिके पुरुष आत्मा अथवा
तथा घन ॥ २११ ॥

स्त्रीकनीबलवन्धेऽपि नीवी परिपणे
पि च ॥

नीवी—स्त्रीके बलका बन्धन जो
नामिके समीप बांधा जाता है तथा
मूलधन ॥

शिवा गौरीफेरवयो—
शिवा—पार्यती, सियार, शमीक
वृक्ष हैं तथा आम्ला ॥

—द्वन्द्वं कलहयुग्मयो ॥२१२॥
द्वन्द्व—कलह तथा स्त्री पुरुष
जोषा ॥ २१२ ॥

द्रव्यामुप्यवसायेषु सस्वमर्त्त
तु जन्तुषु ॥

सस्व—द्रव्य, प्राण, अत्यन्त उद्योग,
जन्तु, सत्त्वगुण तथा बल ॥

स्त्रीय नपुंसके वन्दे वाच्यस्त्रि
मविक्रमे ॥ २१३ ॥

स्त्रीय—सपुंसकस्त्रि, सपुंसक पुरुष
तथा पराक्रमहीन ॥ २१३ ॥

इति धाम्ना

—द्वौ विशौ वैश्यमनुजौ—
न्द्रि—वैश्य, मनुष्य तथा प्रवेश ॥
द्वौ चराभिमरौ स्पशौ ॥
स्पश—शूत तथा संभ्राम ॥
द्वौ राशी पञ्चमेपाद्यौ—
राशि—सम्पन्न तथा मयवृत्तादि राशि ॥
—द्वौ वशी कुलमस्करौ ॥२१४॥
वश—बुद्धि तथा भांस ॥ २१४ ॥

रहःप्रकाशौ वीकाशौ-

वीकाश-एकान्त तथा प्रकाश ॥

-निर्वेशो भृतिभोगयोः ॥

निर्वेश-नौकरी, भोग तथा मूर्च्छा ॥

कृतान्ते पुंसि कीनाशः-

-क्षुद्रकर्षकयोस्त्रिषु ॥ २१५ ॥

कीनाश-यमराज तथा किसान २१५

पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः

स्या-

अपदेश-ब्रहाना, निशाना वा

लक्ष्य तथा निमित्त वा हेतु ॥

-कुशमप्सु च ॥

कुश-कुश एकतरहकी घास तथा जल ॥

दशाऽवस्थानेकविधा-

दशा-अवस्था (लडकई जवानी इत्यादि) ॥

-प्याशा तृष्णापि चायता २१६

आशा-बडी तृष्णा तथा दिशा ॥

॥ २१६ ॥

वशा स्त्री करिणी च स्या-

वशा-स्त्री, वाझ, गाय तथा हथिनी और बेटा ॥

-द्रुहज्ञाने ज्ञातरि त्रिषु ॥

स्यात्कर्कशः साहसिकः कठो-

रामसृणावपि ॥ २१७ ॥

कर्कश-कठोर, दुःस्पर्श, साहसी

तथा जगदाल् स्त्री और कवीला औषधि ॥ २१७ ॥

प्रकाशोऽतिप्रसिद्धेपि-

प्रकाश-अतिप्रसिद्ध, धूप, उजाला ॥

-शिशवज्ञे च बालिशः ॥

बालिश-बालक तथा मूर्ख ॥

॥ इति शान्ताः ॥

सुरमत्स्यावनिमिषौ-

अनिमिष-देवता तथा मत्स्य वा मछली ॥

-पुरुषावात्ममानवौ ॥ २१८ ॥

पुरुष-पुरुष वा नर, आत्मा, नागके-

शर वृक्ष तथा मनुष्य ॥ २१८ ॥

काकमत्स्यात्खगौ ध्वांक्षौ-

ध्वाङ्क्ष-कौवा तथा मत्स्य पकड-नेवाला पक्षी (बगुला) इत्यादि ॥

-कक्षौ तु तृणवीरुधौ ॥

कक्ष-काख वा बगल तथा तृण वा घासकी गजी और लता ॥

अभीषुः प्रग्रहे रश्मौ-

अभीषु-किरण, ढोरी तथा पगहा, लगाम इत्यादि ॥

-प्रेषः प्रेषणमर्दने ॥ २१९ ॥

प्रेष-भेजना, मर्दनकरना तथा आज्ञा देना ॥ २१९ ॥

पक्षः सहाये-

पक्ष-पक्षियोंका पंख, या भाषा
महीना, सहाय, पैर, धूल, मित्र, घर,
शरीरकी बगलबगलकी पैसुकी तथा
बडा हाथी और निकट ॥

-ऽप्युष्णीपः शिरोवेष्टकिरी
टयो ॥

उष्णीप-पगडी तथा किरीट वा मुकुट ।

शुफले मृपिके श्रेष्ठे सुकृते
शृपमे शृप ॥ २२० ॥

शृप-मूसा, जन्तु श्रेष्ठ वा मुख्य,
कडूसा एक शाब्द, शृपमनामक औषध,
बैठ, अण्डकोप, धर्म, मेघआदि १२ राशि
योमेंसे दूसरा राशि सिंगिया(एक विप)
तथा एक मृगम्भ पूर्ण ॥ २२० ॥

कोपोऽस्त्री कुहमले त्वङ्गपि
धानेऽर्थोऽधिव्ययो ॥

कोप (श)-गुच्छकी कडी, तख-
बारका घर व म्यान, खजाना तथा
शाप (सोगन वा कसम) ॥

शूतेऽश्वे क्षारिफलकेऽप्या
कर्पो-

आकष-मूसा गुहियोंके रखनेके
जिये बच्चादिसे नमा घर तथा पासा ॥

-ऽप्याक्षमिन्द्रिये ॥ २२१ ॥

ना शूताङ्गे कर्षघके व्यवहारे
कलिद्रुमे ॥

अक्ष-इन्द्रिय ॥ २२१ ॥ पाश,
सोलह मासा, बहवा, सोचरनोम ॥

कर्षुवार्ता करीपाग्निः कर्षु
कुल्यामिघायिनि ॥ २२२ ॥

कर्षु-पासा, एकप्रकारकी तोष,
पहिया, बहेडाफल, व्यषहार, कसतीकी
भाग, जीविका तथा नदी ॥ २२२ ॥

पुंभवे सत्क्रियामां च पौरुष-
पौरुष-पोरसामर गदिय-री, पौरुष
वा पुरुषका धर्म ॥

-विषमप्यु च ॥

विप-विप वा जहर तथा पानी ॥

उपादानेऽप्यामिष स्म्यो-
आमिष-मांस तथा दूध ॥

दपराधेऽपि किल्बिषम् २२३ ॥
किस्विप-पाप अपराध तथा प्रीति
॥ २२३ ॥

स्यादृष्टौ लोकघातर्वशे वत्सरे
वर्षमस्त्रियाम् ॥

वर्ष-बरस वा देशतोका एक दिन,
शुष्टि वा वर्षा, जम्बूद्वीप तथा स्नान ॥

प्रेसा नृत्यक्षण प्रज्ञा-

पञ्चा-शुद्धि तथा देखना ॥

-मिषा सेवार्यना मृष्टिः २२४ ॥

मिषा-मीस, सेवा, प्रार्थना वा
मन्त्री ॥ २२४ ॥

त्विद शोभापि-

त्विष्-शोभा तथा वाणी ॥

-त्रिषु परे-

न्यक्ष-अध्यक्ष और रूक्ष यह तीनों शब्द तीनों लिंगोंमें होते हैं ॥

-न्यक्षं कात्स्न्यानिकृष्टयोः ॥

न्यक्ष-निकृष्ट वा नीच तथा संपूर्णता ॥

प्रत्यक्षेऽधिकृतेऽध्यक्षो-

अध्यक्ष-प्रत्यक्ष तथा अधिकारी ॥

-रूक्षस्त्वप्रेम्ण्यचिक्वणे ॥२२५॥

रूक्ष-प्रेम रहित रूखा ॥ २२५ ॥

॥ इति पाताः ॥

रविश्वेतच्छदौ हंसौ-

हंस-सूर्य और हंसपक्षी ॥

-सूर्यवद्वी विभावसू ॥

विभावसु-सूर्य तथा अग्नि ॥

वत्सौ तर्णकवर्षौ द्वौ-

वत्स-बछ्मा, बच्चा वा लडका छाती तथा वर्ष वा वरिस ॥

-सारंगाश्च दिवोकसः ॥ २२६ ॥

दिवोकस्-देवता तथा पक्षी ॥२२६॥

शृंगारादौ विषे वीर्ये गुणे

रागे द्रवे रसः ॥

रस-खट्टा भीठा इत्यादिद्रस पारा धातु, गन्धरस, शृङ्गार, वीर, करुणा इत्यादि साहित्यके रस, वीर्य वा धातु,

प्रीति वा प्रेम, जहर, स्वाद, पतलीवस्तु (जैसा पानी शरवत आदि)

पुंस्युत्तंसावतंसौ द्वौ कर्णपूरे च शेखरे ॥ २२७ ॥

अवतंस-कर्णफूल वा कानका भूषण तथा शिरपेज ॥ २२७ ॥

देवभेदेऽनले रश्मौ वसू रत्ने धने वसु ॥

वसु-किरण वा प्रकाश, अग्नि वा आग, कुवेर, गुम्माभाजी, पानी, धन, तथा मणि ॥

विष्णौ च वेधाः-

वेधस्-ब्रह्मा, विष्णु तथा पडित ॥

-स्त्री त्वाशीर्हिंताशंसाहिदं-ष्ट्रयोः ॥ २२८ ॥

आशिस्-दूसरेके हितका चाहना और सर्पकी दष्टा ॥ २२८ ॥

लालसे प्रार्थनौत्सुक्ये-

लालसा-प्रार्थना तथा उत्कठा वा-वढी चाह ॥

-हिंसा चौर्यादिकर्म च ॥

हिंसा-चोरीआदि बुरा कर्म तथा बध करना ॥

प्रसूरश्वापि-

प्रसू-माता तथा घोड़ी ॥

-भूद्यावौ रोदस्यौ रोदसी

च ते ॥ २२९ ॥

पक्ष-पक्षियोंका पंख, वा भाषा
महीना, सहाय, घेर, बछ, मित्र, घर,
शरीरकी अगळबगळकी पैसुळी तथा
बडा हाथी और निकट ॥

-उप्युष्णायः शिरावेष्टकिरी
रयोः ॥

उष्णीय-पगडी तथा किरीट वा मुकुट ।

शुक्ले रुपिके श्रेष्ठे सुकृषे
रूपमे रूपं ॥ २२० ॥

रूप-रूसा, जन्तु घेष्ट वा मुख्य,
अहूसा एक शब्द, रूपमनाम्क औदव,
बेड, अण्डकोप, धर्म, मयआदि १२ राशि
योमेंसे दुसरा राशि सिंगिया (एक निव)
तथा एक सुगन्ध वूर्ण ॥ २२० ॥

कोपोऽखी कुहमले सङ्गपि
धानेऽर्थावदिष्ययो ॥

कोप (ध)-पुष्पकी कडी, तख-
बारका घर व म्यान, अजाना तथा
शापय (सोगन वा कसन) ॥

रूतेऽक्षे शारिफलकेऽप्या
कर्यो-

आकय-रूभा गुणियोंके रत्नकेके
खिये पक्षानिसे बना घर तथा पासा ॥

-उयाक्षमिन्द्रिये ॥ २२१ ॥

ना शूवाङ्गे कपधके ध्यवहारे
कमिद्रुम ॥

अक्ष-इन्द्रिय ॥ २२१ ॥ पासा,
सोखह मासा, वहवा, सोचरानेन ॥

कर्पूर्वासा करीयाभिः कशू-
कुल्पाभिधायिनि ॥ २२२ ॥

कर्पूर्-पासा, एकप्रकारकी लोख,
पहिया, नहवाफख, व्यवहार, करसीके
भाग, जीविका तथा नदी ॥ २२२ ॥

पुंमावे वस्त्रिमार्यां च पौर्ण-
पौष्य-पोरसामर गहिरा-री, पौष्य
वा प्रलका धर्म ॥

-विषमप्यु च ॥

विष-विष वा जहर तथा पानी ॥
उपादानेऽप्यामिष स्पौ-

आमिष-मांस तथा रूप ॥
दपरावेऽपि किन्विषसु २२३ ॥

किन्विष-पाप अपराध तथा प्रीति
॥ २२३ ॥

स्माद्दृष्टी लोकवात्सन्ने वत्सरे
वपमस्त्रियाम् ॥

वर्ष-बरस वा देकठोक्य एक दिन,
वृष्टि वा वर्षा, जम्भूदीप तथा स्नान ॥

मेक्षा नृत्यसर्गं प्रज्ञा-
पक्षा-सुखि तथा दखना ॥

-मिष्ठा सेवाधना श्राद्धः २
मिष्ठा-मीठ, सेवा, प्रार्थना

मनी ॥ २२४ ॥
त्विद् शोमापि-

घात करनेवाला, क्रूर वा कठोर तथा
वीभत्स रस ॥

-ऽप्यतिशये त्वमी ॥ २३४ ॥

वृद्धप्रशस्ययोज्यायान्-
ज्यायस्-बहुत बुढ़ा-डूठी तथा
अत्यन्त प्रशसा करनेके योग्य ॥ २३४ ॥

-कर्नीयांस्तु युवाल्पयोः ॥

कर्नीयस्-अत्यन्त, जवान अत्यन्त
छोटा तथा छोटाभाई ॥

वरीयांस्तूरुवरयोः-

वरीयस्-अत्यन्त बडा तथा अत्यन्त
श्रेष्ठ ॥

-साधीयान्साधुवाढयोः ॥ २३५ ॥

साधीयस्-अत्यन्त साधु वा भला-
ली तथा अत्यन्त बहूत ॥ २३५ ॥

॥ इति सान्ताः ॥

दलेऽपि बर्ह-

बर्ह-मोरके पख वा पूछ, पत्ता तथा
करोंदा वृक्ष ॥

-निर्वन्धोपरागाकार्दयो ग्रहाः ॥

ग्रह-सूर्य इत्यादि ९ ग्रह, ग्रहण करना,
यज्ञके पात्र, ग्रहण जो सूर्य चन्द्रको लग
ताहै तथा आग्रह वा हठ ॥

द्वार्यापीडे क्वाथरसे निर्व्यूहो

नागदन्तके ॥ २३६ ॥

निर्व्यूह-खूटी, शिरोवेष्टन (पगडी

सिरपेच इत्यादि) तथा द्वार और काढा ॥
॥ २३६ ॥

तुलासूत्रेऽश्वादिरश्मौ प्रग्रहः
प्रग्रहोऽपि च ॥

प्रग्रह-प्रग्रह-कैदी जो चोर इत्यादि
अपराधीका दण्ड है, पगहा वा पशुवाधने
की डोरी, तराजू तथा घोडा इत्यादिकी
लगाम ॥

पत्नीपरिजनादानमूलशापाः

परिग्रहाः ॥ २३७ ॥

परिग्रह-पत्नी वा स्त्री, परिवार,
अगीकार तथा वृक्षादिकी जड और
शाप ॥ २३७ ॥

दारिपु च गृहाः-

गृह-पत्नी तथा घर ॥

-श्रोण्यामप्यारोहो वरस्त्रियाः ॥

आरोह-चढना, श्रेष्ठ स्त्रीका कटि-
भाग वा श्रेष्ठ स्त्रीकी कमर तथा वृक्ष-
इत्यादिकी उँचाई ॥

व्यूहो वृन्दे-

व्यूह-समूह तथा एक प्रकारकी सेनाकी
रचना ॥

-ऽप्यहिर्वृत्रो-

अहि-सर्प तथा वृत्रनामा दैत्य ॥

-प्यग्निद्वर्कास्तमोऽपहाः ॥ २३८ ॥

रोटसी-द्विचनान्त, भूमि । तथा
भाक्प्रश ॥ २२९ ॥

ज्वालामासी न पुस्यचि-
ध्वसिस्-ज्वाला तथा प्रकाश ॥

-ज्योतिर्मद्योतदृष्टिषु ॥

ज्योतिस्-ज्योतिर्बिम्बा, ताप, प्रकाश
तथा दृष्टि ॥

पापापराधयोराम'-

भागस्-पाप तथा अपराध ॥

-स्वगमाख्यादिनोर्वयः ॥ २३० ॥

वयस्-पक्षी और घास्य आदि
अवस्था ॥ २३० ॥

तेजपुरीपयोर्वर्षो-

वर्षस्-तन या प्रकाश वा समक
तथा निष्ठा ॥

-महस्तुत्सववेनसो' ॥

महस्-टास्य तथा तेज ॥

रजो गुणे च स्त्रीपुण्ये-

रजस्-धूली न घर, रजोगुण तथा
स्त्रीका हर महीनेका रश्मि ॥

-राहो ध्वान्ते गुणे तम' ॥ २३१ ॥

तमस्-अन्यकार, राटमह, तमोगुण,
अज्ञान तथा शोध ॥ २३१ ॥

छन्द पद्येऽभिलाषे च-

छन्दस्-पद्य और अभिलाषा तथा वेद ॥

-तपः पृच्छाविक्रम च-

तपस्-छन्दोदिमत तथा लोका-
तर अर्थात् काई लोक ॥

सहो बलं सहा मार्गो-

सहम्-भगइनमहीना तथा बल वा
सामर्थ्य ॥

-नम' खं श्रावणो नमा' ॥ २३२ ॥

नमस्-श्रावणमहीना तथा आकाश २२

ओक' सन्नाश्रयश्लोका'-

ओकस्-माधय वा अलम्बन तथा घर ।

-पयः क्षीर पयोऽम्बु च-

पयस्-पानी तथा दूध ॥

ओजो दीप्तौ बले-

ओजस्-बल तथा प्रकाश ॥

-स्रोत इन्द्रिये निम्नगारये २३३ ॥

स्रोतस्-स्रोत वा आपसे जलका बरना
इन्द्रिय तथा नदीका का ॥ २३३ ॥

तेज प्रभावे दीप्तौ च बन्धे

शुभे-

तेजस्-प्रभाष, प्रकाश, शीर्य तथा काम व
-प्यवस्त्रिषु ॥

यहासे भाग सान्त बर्गकी समाप्तिप

यत सब शब्द तीनों छिगोमें होत हैं ॥

विद्वान्विद्व-

विद्वान्-वदित वा जानकार तथा पत्र ॥

-धी मत्सो हिंसा-

धीमास-त्रिषुका देखकर फिर उत्पन्न हो

व्रात करनेवाला, क्रूर वा कठोर तथा
वीभत्स रस ॥

-ऽप्यतिशये त्वमी ॥ २३४ ॥

वृद्धप्रशस्ययोज्यायान्-

ज्यायस्-बहुत बुढ़ा-इढी तथा
अत्यन्त प्रशसा करनेके योग्य ॥ २३४ ॥

-कर्नीयांस्तु युवाल्पयोः ॥

कनीयस्-अत्यन्त, जवान अत्यन्त
छोटा तथा छोटाभाई ॥

वरीयांस्तूरवरयोः-

वरीयस्-अत्यन्त बडा तथा अत्यन्त
श्रेष्ठ ॥

-साधीयान्साधुवाढयोः ॥ २३५ ॥

साधीयस्-अत्यन्त साधु वा भला-
ली तथा अत्यन्त बहुत ॥ २३५ ॥

॥ इति सान्ताः ॥

दलेऽपि बर्ह-

बर्ह-मोरके पख वा पूछ, पत्ता तथा
करोंदा वृक्ष ॥

-निर्वन्धोपरागाकार्कादयो ग्रहाः ॥

ग्रह-सूर्य इत्यादि९ग्रह, ग्रहण करना,
यज्ञके पात्र, ग्रहण जो सूर्य चन्द्रको लग
ताहे तथा आग्रह वा हठ ॥

द्वार्यापीडे काथरसे निर्व्यूहो

नागदन्तके ॥ २३६ ॥

निर्व्यूह-खैटी, शिरोवेष्टन (पगडी

सिरपेच इत्यादि) तथा द्वार और काढा ॥

॥ २३६ ॥

तुलासूत्रेश्वादिप्रमौ प्रग्रहः
प्रग्रहोऽपि च ॥

प्रग्रह-प्रग्रह-कैदी जो चोर इत्यादि
अपराधीका दण्ड है, पगहा वा पशुबाधने
की डोरी, तराजू तथा घोडा इत्यादिकी
लगाम ॥

पत्नीपरिजनादानमूलशापाः

परिग्रहाः ॥ २३७ ॥

परिग्रह-पत्नी वा स्त्री, परिवार,
अगीकार तथा वृक्षादिकी जड और
शाप ॥ २३७ ॥

दारुषु च गृहाः-

गृह-पत्नी तथा घर ॥

-श्रोण्यामप्यारोहो वरस्त्रियाः ॥

आरोह-चढना, श्रेष्ठ स्त्रीका कटि-
भाग वा श्रेष्ठ स्त्रीकी कमर तथा वृक्ष-
इत्यादिकी उँचाई ॥

व्यूहो वृन्दे-

व्यूह-समूह तथा एक प्रकारकी सेनाकी
रचना ॥

-ऽप्यहिर्वृत्रो -

अहि-सर्प तथा वृत्रनामा दैत्य ॥

-प्यग्नीन्द्रकार्कास्तमोऽपहाः ॥ २३८ ॥

तमापह-चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि ॥ २९८ ॥

परिच्छेदे नृपार्होर्ध परिबर्हो-

परिबर्ह-राजाका छत्र चमर इत्यादि
विह्व तथा सामग्री ॥

॥ इति हान्ताः ॥

-श्रययाः परे ॥

अब-इसके उपरंत अर्थ्योंका बणन करते हैं जो कि तिनोछिंया, सासोविमक्ति और एकबचन द्विबचन बहुबचनमें स मान बने रहते हैं और उनमें कुछ विकार नहीं होता ॥

आग्नीपदर्थेभिष्यासौ सीमार्थे
घातुयोगजे ॥ २९९ ॥

आग्-ईपत्, अग्निप्यासि, सीमार्थ
और घातुके योगार्थमें होता है ॥ २९९ ॥

आ-प्रगृह्यः स्तृसौ वाक्ये-

आ-स्मरण, वाक्यपूरणमें ॥

-ऽप्यास्तु स्यात्कोपपीडयोः ॥

आ-कोपमें पीडामें ॥

पापकुसेपदर्थे कु-

कु-पाप निन्दा तथा घोड़े अर्थमें ॥

धिक् निर्मत्सर्ननिन्दयो २४०

धिक्-छानि देना वा विचारना तथा
निन्दा ॥ २४ ॥

धान्वाचयसमाहारेत्तरेत्तर-

समुच्चये ॥

च-अन्वाचय समाहार, इतरेत्तर
और समुच्चयमें ॥

स्वस्त्याशी' क्षेमपुण्यादी-

स्वस्ति-आशीर्वाद, कल्याण, पुण्य
और मंगलमें ॥

-प्रकर्षे लघनेप्यति ॥ २४१ ॥

अति-अतिशय, बढाई, प्रकर्ष और
लघन अर्थमें ॥ २४१ ॥

स्वित्प्रश्ने च वितर्के च-

स्वित्-प्रश्न वा पूछना तथा तर्क-
करनेमें ॥

-तु स्याद्देदेज्वधारणे ॥

त-किन्तु, केर, पादपूरणमें तथा अन-
वारणमें ॥

सकृत्सहैकवारो चा-

सकृत्-साथ वा समा तथा एकवारमें ॥

-प्याराहसमीपयो ॥ २४२ ॥

आराह-दूर तथा समीपमें ॥ २४२ ॥

प्रतीच्या' चरमे पश्चा-

पश्चात्-पीछे पिछा तथा पश्चि-
मदिशामें ॥

-दुताप्यर्थविकल्पयोः ॥

उत्-समुच्चय और विकल्पमें ॥

पुनः सहाय्ययो' क्षम्-

क्षम्-सहा वा सहाय्य तथा

किन्तार वा हरदम और फिरम ॥

—साक्षात्प्रत्यक्षतुल्ययोः ॥ २४३ ॥

साक्षात्—प्रत्यक्ष और तुल्यमे २४३ ॥

खेदानुकम्पासंतोषविस्मया-

मन्त्रणे बत ॥

बत—खेद, दया, सतोष, आश्चर्य जैसी इच्छा होय वैसा करो ऐसी आज्ञा देना ॥

हन्त हर्षेऽनुकम्पायां वाक्यार-
म्भविषादयोः ॥ २४४ ॥

हन्त—हर्ष, दया, वाक्यारम्भ तथा विषाद ॥ २४४ ॥

प्रात प्रतिनिधौ वीप्साल-
क्षणादौ प्रयोगतः ॥

प्रति—मुख्यके समान, व्याप्त करनेकी इच्छा, चिह्न तथा विपरीत ॥

इति हेतुप्रकरणप्रकाशादिस-
माप्तिषु ॥ २४५ ॥

इति—हेतु, प्रकरण प्रकाशआदि तथा समाप्ति ॥ २४५ ॥

प्राच्यां पुरस्तात्प्रथमे पुरार्थे
ऽग्रत इत्यापि ॥

पुरस्तात्—पूर्वदिशा, प्रथम, पूर्वकाल तथा आगे ॥

यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मा-
नेऽवधारणे ॥ २४६ ॥

यावत्—तावत्—सपूर्णा, हृद, तोल तथा निश्चय ॥ २४६ ॥

मंगलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्न्ये-
ष्वथो अथ ॥

अथो—अथ—मंगल, अनन्तर, आरम्भ, प्रश्न तथा सपूर्णता ॥

वृथा निरर्थकाविध्यो-

वृथा—निरर्थक, विधिहीन ॥

—नानानेकोभयार्थयोः ॥ २४७ ॥

नाना—अनेक, तथा उभयार्थक २४७

नु पृच्छायां विकल्पे च-

नु—प्रश्न, तथा विकल्प ॥

पश्चात्सादृश्ययोरनु ॥

अनु—पीछे तथा सदृशता ॥

प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयाम-
न्त्रणे ननु ॥ २४८ ॥

ननु—प्रश्न, निश्चय, आज्ञा, शान्त करना तथा सबोधन ॥ २४८ ॥

गर्हात्समुच्चयप्रश्नशंकासंभावना-
स्वपि ॥

अपि—निन्दा, समुच्चय, प्रश्न, शंका, तथा संभावना ॥

उपमायां विकल्पे वा-

वा—उपमा तथा विकल्प ॥

—सामि त्वर्धे जुगुप्सिते ॥ २४९ ॥

सामि—आधा तथा निन्दिता ॥ २४९ ॥

अमा सह समीपे च-

अमा—साथ तथा समीप ॥

तस्योपद-चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि ॥ २३८ ॥

परिच्छदे नृपाईर्ष्य परिघर्षो-

परिघर्ष-राजाका छत्र चमर इत्यादि
विद्य तथा सामग्री ॥

॥ इति द्वाव्या ॥

-ऽप्यया परे ॥

अन-इसक उपरांत अप्ययोका कर्पण
करत है जो कि सीनोस्त्रिण, सातोस्त्रिण
और एकचक्रन द्विकचक्रन बहुचक्रनमें स-
मान बने रहते हैं और उनमें कुछ विकार
नहीं होता ॥

आत्मीपत्वर्थेभिष्यासौ सीमार्ये
धातुयोगजे ॥ २३९ ॥

आत्-ईषत्, अभिष्यासि, सीमार्ये
और धातुके योगार्थमें होता है ॥ २३९ ॥

आ-प्रमृष्टः स्मृतौ वाक्ये-

आ-स्मरण वाक्यपूरणमें ॥

-ऽप्यास्तु स्यात्कोपपीडयोः ॥

आ-कोपन पीडामें ॥

पापकुत्सेपदर्थे कु-

कु-पाप मित्रता तथा थोडा कर्ममें ॥

धिक् निर्भर्त्सननिन्दयोः २४०

धिक्-खानि देना वा बिभारना तथा
निन्दा ॥ २४ ॥

धान्वाचपसमाहारेत्तरेत्तर-

समुच्चये ॥

ध-धान्वाचप समाहार, इतरेत्तर
और समुच्चयमें ॥

स्वस्त्याशीः क्षेमपुण्यादौ-

स्मस्ति-आशीर्वाद, कल्याण, पुण्य
और भागमें ॥

-प्रकर्षे लवनेप्पति ॥ २४१ ॥

अति-मतिशय, बर्बाद, प्रकर्ष और
छेदन कर्ममें ॥ २४१ ॥

स्वित्प्रश्ने च बितर्के च-

स्वित्-प्रश्न वा रूँछना तथा तर्क
करनेमें ॥

-सु स्याद्देवेश्वधारणे ॥

सु-कि-ठ, फेर, पादपूरणमें तथा अथ
धारणमें ॥

सकृत्सहैकवारं वा-

सकृत्-साथ वा एक तथा एकवारमें ॥

-प्यारात्समीपयोः ॥ २४२ ॥

आपत्-वर तथा समीपमें ॥ २४२ ॥

प्रतीच्यां घनमे पश्चा-

पश्चात्-पीछे पिछडा तथा पश्चि-
मदिशामें ॥

-दुताप्ययाविकल्पयोः ॥

उत्-समुच्चय और विकल्पमें ॥

पुनः सहाय्ययोः क्षुत्-

क्षुत्-सहाय्य या सहाय्य तथा

किन्तार वा हृत्तम और किरमें ॥

—त्साक्षात्प्रत्यक्षतुल्ययोः ॥ २४३ ॥

साक्षात्—प्रत्यक्ष और तुल्यमे २४३ ॥

खेदानुकम्पासंतोषविस्मया-
मन्त्रणे वत ॥

वत—खेद, दया, सतोष, आश्चर्य जैसी
इच्छा होय वैसा करो ऐसी आज्ञा देना ॥

हन्त हर्षेऽनुकम्पायां वाक्यार-
म्भविषादयोः ॥ २४४ ॥

हन्त—हर्ष, दया, वाक्यारम्भ तथा
विषाद ॥ २४४ ॥

प्रात प्रतिनिधौ वीप्साल-
क्षणादौ प्रयोगतः ॥

प्रति—मुख्यके समान, व्याप्त करनेकी
इच्छा, चिह्न तथा विपरीत ॥

इति हेतुप्रकरणप्रकाशादिस-
माप्तिषु ॥ २४५ ॥

इति—हेतु, प्रकरण प्रकाशआदि
तथा समाप्ति ॥ २४५ ॥

प्राच्यां पुरस्तात्प्रथमे पुरार्थे
ऽग्रत इत्यपि ॥

पुरस्तात्—पूर्वदिशा, प्रथम, पूर्वकाल
तथा आगे ॥

यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मा-
नेऽवधारणे ॥ २४६ ॥

यावत्—तावत्—संपूर्ण, हृद्, तोल
तथा निश्चय ॥ २४६ ॥

संगलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्न्ये-
ष्वथो अथ ॥

अथो—अथ—मगल, अनन्तर, आरम्भ,
प्रश्न तथा संपूर्णता ॥

वृथा निरर्थकाविध्यो-

वृथा—निरर्थक, विधिहीन ॥

—नानानेकोभयार्थयोः ॥ २४७ ॥

नाना—अनेक, तथा उभयार्थक २४७

नु पृच्छायां विकल्पे च-

नु—प्रश्न, तथा विकल्प ॥

पश्चात्सादृश्ययोरनु ॥

अनु—पीछे तथा सदृशता ॥

प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयाम-
न्त्रणे ननु ॥ २४८ ॥

ननु—प्रश्न, निश्चय, आज्ञा, शान्त
करना तथा सबोधन ॥ २४८ ॥

गर्हात्समुच्चयप्रश्नशंकासंभावना-
स्वपि ॥

अपि—निन्दा, समुच्चय, प्रश्न, शंका,
तथा संभावना ॥

उपमायां विकल्पे वा-

वा—उपमा तथा विकल्प ॥

—सामि त्वर्धे जुगुप्सिते ॥ २४९ ॥

सामि—आधा तथा निन्दित ॥ २४९ ॥

अमा सह समीपे च-

अमा—साथ तथा समीप ॥

—कं वारिणि घ मूर्धनि ॥

कम्—सल तथा मस्तक ॥

इवेत्यमर्षयोरेवं—

एषम्—इवार्थक तथा प्रकारार्थक ॥

—नून सर्केर्यनिश्चये ॥ २५० ॥

नूनम्—तर्कना तथा अर्थनिश्चय ॥

॥ २५० ॥

तृष्णीमयं सुखे जोष—

जोषम्—शुभ होना तथा सुख ॥

—किं पृच्छाया जुगुप्सने ॥

किम्—प्रश्न तथा निन्दा करना ॥

नाम प्राकाश्यसमाख्यक्रोधोप

गमकृत्सने ॥ २५१ ॥

नाम—प्रसिद्धि, संभावना, क्रोध,
सुन्दर वष धारण करना, तथा सञ्ज्ञा
रना ॥ २५१ ॥

अल भूपणपर्माप्तिशक्तिवारण-
वाचकम् ॥

अलम्—मञ्जकार, परिपूर्णता, सामर्थ्य
तथा मना करना ॥

हुं वितर्क परिग्रहने—

हुम्—तर्कना करना तथा ग्रहण करना ॥

—समयान्तिकमध्ययो ॥ २५२ ॥

समया—समीप तथा मध्या ॥ २५२ ॥

पुनरमथमी भेदे—

पुनर—प्रथमके अनन्तर तथा मद ।

—निर्निश्चयनिषेधयो ॥

निर्—निश्चय तथा निषेध ॥

स्यात्प्रबन्धे चिरातीति निष्क

टागामिके पुरा ॥ २५३ ॥

पुरा—प्रबन्ध अर्थात् निरन्तर, प्राचीन,

समीप तथा होनवाला ॥ २५३ ॥

ऊरयूरी चोररी घ विस्तारे
ङ्गीकृती त्रयम् ॥

ऊररी—ऊरी-उररी—विस्तार तथा
भगीकार करना ॥

स्वर्गं परे घ लोके स्व—

स्वर्—स्वर्ग तथा परलोक ॥

—वार्तासमाख्ययोः क्लृप्ता ॥ २५४ ॥

क्लिप्ता—वार्ता, तथा समाख्या ॥ २५४ ॥

निषेधवाक्यालंकारविज्ञा—

सानुनये खल्ल ॥

खल्ल—निषेध, वाक्यालंकार, जिज्ञासा
तथा अनुनय ॥

समीपोभयत* क्षीघ्रसाकस्या-
मिमुखेप्रमित* ॥ २५० ॥

अमित—समीप, दोनों ओर, क्षीघ्र
चारोओर, तथा संमुख ॥ २५० ॥

नामप्राकाश्ययोः प्रादु—

प्रादुर्—नाम तथा प्रकट ॥

—मिथोऽन्योर्म्ह्य रहस्मपि ॥

मिथस्—परस्पर तथा एकत्र ॥

तिरोऽन्तर्धौ तिर्यगर्थे-
तिरस्-अन्तर्धन तथा टेढा ॥

-हा विपादशुगर्तिपु ॥२५६॥
हा-विपाद, शोक तथा पीडा॥२५६॥

अहहेत्यद्भुते खेदे-
अहह-अद्भुत तथा खेद ॥

-हि हेतावधारणे ॥
हि-हेतु तथा निश्चय ॥
इत्यनेकार्थवर्गविवरणम् ॥ ३ ॥

अथाव्ययवर्गः ४.

चिराय चिररात्राय चिरस्या-
द्याश्चिरार्थकाः ॥

बहुत कालवाचक अव्ययशब्द ६॥
चिराय १ चिररात्राय, २ चिरस्य, ३
आदि शब्दसे चिरम्, ४ चिरेण, ५
चिरान्, चिरे ६ ॥

मुहुः पुनः पुनः शश्वदभीक्षण-
मसकृत्समाः ॥ १ ॥

बारम्बार अर्थवाचक अव्ययशब्द ५॥
मुहुः १ पुनःपुनः २ शश्वत् ३
अभीक्षणम् ४ असकृत् ५ ॥ १ ॥

स्नाग्शटित्यअसाहाय द्राङ्
मंशु सपदि द्रुते ॥

शीघ्रतावाचक अव्ययशब्द ८ ॥
स्नाक् १ शटिति २ अजसा ३ अहाय ४
द्राक् ५ मंशु ६ सपदि ७ द्रुतम् ८ ॥

वलवत्सुष्टु किमुत स्वत्यतीव
च निर्भरे ॥ २ ॥

अतिशयवाचक अव्ययशब्द ६ ॥
वलवत् १ सुष्टु २ किमुत ३ सु ४ अति
५ अतीव ६ ॥ २ ॥

पृथग्विनान्तरेणर्ते हिरुङ् नाना
च वर्जने ॥

वर्जन वाचक वर्जनेवाले अव्यय
शब्द ६ ॥ पृथक् १ विना २ अन्तरेण
३ ऋते ४ हिरुक् ५ नाना ६ ॥

यत्तद्यतस्ततो हेता-

कारणवाचक अव्ययशब्द ४॥यत् १
तत् २ यत. ३ ततः ४ ॥

-वसाकल्पे तु चिञ्चन ॥ ३ ॥
अपूर्णातावाचक अव्यय शब्द २ ॥
चित् १ चन २ ॥ ३ ॥

कदाचिजातु-

किसी कालवाचक अव्यय शब्द
२ ॥ कदाचित् १ जातु २ ॥

-सार्धं तु साकं सत्रा समं-सह ॥
साथवाचक अव्यय शब्द ५॥साकम्
१ सार्धम् २ सत्रा ३ समम् ४ सह ५ ॥

अनुकूल्यार्थकं प्राध्वं-

अनुकूलतावाचक अव्यय शब्द १॥
प्राध्वम् ॥ १ ॥

-व्यर्थके तु वृथा मुधा ॥४॥

अर्थवाचक अथ्य शब्द २ ॥

वृथा १ मुधा २ ॥ ४ ॥

आहो उताहो किमुत विकल्पे
किं किमुत च ॥

विकल्पार्थवाचक अथ्य शब्द १ ॥

आहो १ उताहो २ किमुत ३ किम् ४
किमु ५ उत ६ ॥

तु हि च स्म इ वै पादपूरणे-

श्लोकस्थी पादपूर्णाता क्तानेवाठे
अथ्य शब्द १ ॥ तु १ हि २ च ३

स्म ४ ह ५ वै ६ ॥

-पूजने स्वती ॥ ५ ॥

पूजावाचक अथ्य शब्द २ ॥ सु १
अति २ ॥ ५ ॥

दिवाङ्गी-

दिमके अर्थवाचक अथ्य शब्द १ ॥
दिवा १ ॥

-त्यय-दोषा च नक्त च रजना
विति ॥

रात्रिके अर्थवाचक अथ्य शब्द २ ॥
दोषा १ नक्तम् २ ॥

तिर्मर्गर्षे साधि तिरोऽ-

ट्ट अर्थाचक अथ्य शब्द २ ॥
साधि १ तिरस् २ ॥

-प्यय सम्बोधनार्थका ॥ ६ ॥
स्यु प्याद् पाडङ्ग इ हे भा-

सम्बोधनार्थवाचक अथ्य शब्द १ ॥

प्याद् १ पाट् २ ङ्ग ३ हङ्ग हे ५ मो ६ ॥

-समया निकषा हिरुक् ॥

समीपवाचक अथ्य शब्द ३ ॥

समया १ निकषा २ हिरुक् ३ ॥

अतर्किते तु सहसा-

अकस्मात् क अर्थवाचक अथ्य
शब्द १ ॥ सहसा १ ॥

-स्यात्पुरं पुरतोऽम्रतः ॥ ७ ॥

आगेक अर्थवाचक अथ्य शब्द ३ ॥

पुर १ पुरत २ अम्रत ३ ॥ ७ ॥

स्वाहा देवहविदनि श्रौषद्

श्रौषद् वपद् स्वधा ॥

देवताभोके ह्य्य देनेके उपयोगी वा-
चक अथ्य शब्द ५ ॥ स्वाहा १ श्रौषद्

२ श्रौषद् ३ वपद् ४ स्वधा ५ पि-
रोके उपयोगी प्रसिद्ध है ॥

किञ्चिदीपन्मनागल्पे-

अल्पके वाचक अथ्य शब्द ३ ॥

किञ्चित् १ ईन्त् २ मनात् ॥ ३ ॥

-प्रेत्पामुश्र भवान्तरे ॥ ८ ॥

जन्मान्तरवाचक अथ्य शब्द २ ॥

प्रेत् १ अमुत् २ ॥ ८ ॥

व वा यया तथर्वै साम्ये-

समता वाचक अथ्य शब्द १ ॥ व १
वा २ यया ३ तया ४ इव ५ एवम् ६ ॥

-ऽहो ही च विस्मये ॥

विस्मयवाचक अव्ययशब्द २ ॥ अहो १
ही २ ॥

मौने तु तूष्णीं तूष्णीकां-

मौनार्थवाचक अव्ययशब्द २ ॥ तूष्णीं-
म् १ तूष्णीकाम् २ ॥

-सद्यः सपदि तत्क्षणे ॥ ९ ॥

तत्कालवाचक अव्ययशब्द २ ॥
सद्यस् १ सपदि २ ॥ ९ ॥

दिष्ट्या समुपजोषं चेत्या-

नन्दे-
आनन्दवाचक अव्ययशब्द २ ॥ दि

ष्ट्या १ समुपजोषम् २ ॥

-ऽथान्तरेऽन्तरा ॥

अन्तरेण च मध्ये स्युः-
मध्यवाचक अव्ययशब्द ३ ॥ अन्तरे
१ अन्तरा २ अन्तरेण ३ ॥

प्रमह्य तु हठार्थकम् ॥ १० ॥

हठार्थवाचक अव्ययशब्द १ ॥ प्रसह्य १
॥ १० ॥

युक्ते द्वे सांप्रतं स्थाने-

युक्तार्थवाचक अव्ययशब्द २ ॥ सा-
ंप्रतम् १ स्थाने २ ॥

-ऽभीक्ष्णं शश्वदनारते ॥

निरतरवाचक अव्ययशब्द २ ॥ अभी
क्ष्णम् १ शश्वत् २ ॥

अभावे नह्य नो नापि-

अभाववाचक अव्ययशब्द ४ ॥ नहि १
अ २ नो ३ न ४ ॥

-मास्म मालं च वारणे ॥ ११ ॥

निषेधवाचक अव्ययशब्द ३ ॥
मास्म १ मा २ अलम् ३ ॥ ११ ॥

पक्षान्तरे चेद्यदि च-

पक्षान्तरवाचक अव्ययशब्द २ ॥
चेत् १ यदि २ ॥

-तत्त्वे त्वद्धाञ्जसा द्वयम् ॥

तत्त्वार्थवाचक अव्ययशब्द २ ॥
द्वया १ अजसा २ ॥

प्राकाश्ये प्रादुराविः स्या-

प्रकटवाचक अव्ययशब्द २ ॥
प्रादुस् १ आविस् २ ॥

-दोमेवं परमं मते ॥ १२ ॥

अङ्गीकारवाचक अव्ययशब्द ३ ॥
ओम् १ एवम् २ परमम् ३ ॥ १२ ॥

समन्ततस्तु परितः सर्वतो

विष्वगित्यपि ॥

सबओरवाचक अव्ययशब्द ४ ॥
समन्तत. १ परितः २ सर्वतः ३
विष्वक् ४ ॥

अकामानुमतौ काम-

विनाइच्छाके सलाहदेनेमें १ ॥
कामम् १ ॥

अर्थवाचक अव्यय शब्द २ ॥

श्या १ मुधा २ ॥ ४ ॥

आहो उताहो किमुत विकल्पे
किं किमुत च ॥

विकल्पार्थवाचक अव्यय शब्द १ ॥

आहो १ उताहो २ किमुत ३ किम् ४
किमु ५ उत ६ ॥

तु हि च स्म ह वै पादपूरणे-

श्लोककी पादपूर्णा बतानेवाले

अव्यय शब्द ६ ॥ तु १ हि २ च ३
स्म ४ ह ५ वै ६ ॥

-पूजने स्वती ॥ ५ ॥

पूजावाचक अव्यय शब्द २ ॥ सु १

अति २ ॥ ५ ॥

दिवाङ्गी-

गिनके अर्थवाचक अव्यय शब्द १ ॥

दिवा १ ॥

-त्यथ-दोषा च नक्त च रजना

विति ॥

रात्रिके अर्थवाचक अव्यय शब्द २ ॥

दोषा १ नक्तम् २ ॥

तिर्यगर्थे साचि तिरोऽ-

ट्ट अथवाचक अव्यय शब्द २ ॥

साचि १ तिरम् २ ॥

-प्यथ समाधनायका ॥ ६ ॥

म्यु प्याद् पाठङ्ग ह हे भा'-

सन्बोधमार्थवाचक अव्यय शब्दा १ ॥

प्याद् १ पाद् २ अंग ३ हङ्ग हे ५ मो ६ ॥

-समया निकषा हिरुक् ॥

समीपवाचक अव्यय शब्द ३ ॥

समया १ निकषा २ हिरुक् ३ ॥

अतर्किते तु सहसा-
अकस्मात् के अर्थवाचक अव्यय

शब्द १ ॥ सहसा १ ॥

-स्यात्पुर पुरतोऽप्रतः ॥ ७ ॥

आगेके अर्थवाचक अव्यय शब्द १ ॥

पुर १ पुरतः २ अप्रत ३ ॥ ७ ॥

स्वाहा देवइषिदनि श्रीपद्

वौपद् वपद् स्वधा ॥

देवताओंके हृद्य देनेके उपयोगी वा-

चक अव्यय शब्द ५ ॥ स्वाहा १ श्रीपद्

२ वौपद् ३ वपद् ४ स्वधा ५ पित-

रोंके उपयोगी प्रसिद्ध हैं ॥

किंचिदीपन्मनागल्पे-

अल्पके वाचक अव्यय शब्द ३ ॥

किंचित् १ ईयत् २ मनाक् ३ ॥ ३ ॥

-भ्रेत्पामुग्र भवान्तरे ॥ ८ ॥

जन्मान्तरवाचक अव्यय शब्द २ ॥

भ्रेय १ भमुग्र २ ॥ ८ ॥

य वा यथा तयैर्वै साम्ये-

समता वाचक अव्यय शब्द ६ ॥ १ ॥

वा - यथा ३ तथा ४ इ ५ एम् ६ ॥

अस्ति सत्त्वे-

भावार्थक अव्यय १ ॥ अस्ति १ ॥

-रुषोक्तावु-

कोपवचनवाचक १ ॥ उ १ ॥

-ऊं प्रश्ने-

प्रश्नवाचक १ ॥ ऊम् ॥ १ ॥

-ऽनुनये त्वयि ॥

शान्तकरनेमें १ ॥ अयि १ ॥

हुं तर्के स्या-

तर्कवाचक १ ॥ हुम् १ ॥

-दुषा रात्रेरवसाने-

प्रातः कालवाचक १ ॥ उपस् १ ॥

-नमो नतौ ॥ १८ ॥

नमस्कारवाचक अव्ययशब्द १ ॥

नमस् १ ॥ १८ ॥

पुनरर्थेऽङ्ग-

पुनर्वाचक १ ॥ अङ्ग १ ॥

-निन्दायां दुष्णु-

निन्दावाचक १ ॥ दुष्णु १ ॥

-सुष्णु प्रशंसने ॥

प्रशंसावाचक १ ॥ सुष्णु १ ॥

सायं साये-

सायकालवाचक १ ॥ सायम् १ ॥

-प्रगे प्रातः-

प्रातःकालवाचक २ ॥ प्रगे १ ॥

प्रातर् १ ॥

-प्रभातेनिकषाऽन्तिके ॥ १९ ॥

समीपवाचक १ ॥ निकषा १ ॥ १९ ॥

परुत्परार्येषमोऽब्दे पूर्वे पूर्व-
तरे यति ॥

गतवर्षवाचक १ ॥ परुत् १ ॥ गत-
वर्षसे पहले वर्षका वाचक अव्यय १ ॥
परारि १ ॥ वर्त्तमानवर्षवाचक अव्यय १ ॥
ऐषमस् १ ॥

अद्यात्रा-

इस दिनका वाचक अव्यय १ ॥
अद्य १ ॥

ह्यथ पूर्वेऽद्नीत्यादौ पूर्वो-
त्तरापरात् ॥ २० ॥ तथाधरान्या
न्यतरेतरात्पूर्वेद्युरादयः ॥

‘प्रथम दिन’ इत्यादि अर्थमें पूर्वआदि
शब्दसे ‘एद्युस्’ प्रत्यय होकर पूर्व दिनका
वाचक ‘पूर्वेद्युः’ उत्तर दिनका वाचक
‘उत्तरेद्युः’ परदिनका वाचक ‘परेद्युः’
इत्यादि शब्द बनते हैं. जैसे ‘अधरेद्युः’
अन्येद्युः, अन्यतरेद्युः, इतरेद्युः ॥ २० ॥

उभयद्युश्चोभयेद्युः-

दोनों दिनके वाचक अव्यय २ ॥

उभयद्युः १ उभयेद्युः २ ॥

-परं त्वह्नि परेद्यवि ॥ २१ ॥

परदिनका वाचक १ ॥ परेद्यवि १ ॥ २१ ॥

ह्यो गते-

-मसूयोपगमेऽस्तु च ॥ १३ ॥
 ईर्ष्यापूर्वक अङ्गीकारवाचक १ ॥
 अस्तु १ ॥ १३ ॥
 ननु च स्मादिरोषोक्तौ-
 विरुद्धवृत्तिवाचक १ ॥ ननु १ ॥
 -कश्चित्कामप्रवेदने ॥
 इच्छित प्रसन्नवाचक १ ॥ कश्चित् १ ॥
 निःपमं दुःपमं गर्ह्ये-
 निन्दितवाचक २ ॥ निःपमम् १
 दुःपमम् २ ॥
 -यथास्वं तु यथायथम् ॥ १४ ॥
 यथायोग्यवाचक २ ॥ यथास्वम् १
 यथायथम् २ ॥ १४ ॥
 मृषा मिथ्या च वितये-
 मिथ्यावाचक २ ॥ मृषा १ मिथ्या २ ॥
 -यथार्थं तु यथातथम् ॥
 सत्यवाचक २ ॥ यथार्थम् १
 यथातथम् २ ॥
 -स्युरेव तु पुनर्वै वेत्यनधारण
 वाचका ॥ १५ ॥
 निश्चयवाचक ५ ॥ एवम् १ तु २
 पुनर् ३ वै ४ वा ५ ॥ १५ ॥
 प्रागतीतार्थक-
 भूतकालवाचक १ ॥ प्राक् १ ॥
 -नूनमवश्यं निश्चये द्वयम् ॥
 अवश्यवाचक २ ॥ नूनम् १ अव
 श्यम् २ ॥

सषट्चर्षे-
 पर्ववाचक १ ॥ सषट् १ ॥
 -प्र्यरे त्वर्षा-
 प्रथमवाचक १ ॥ अर्षाक् १ ॥
 -गामव-
 निश्चित अङ्गीकारवाचक २ ॥ ग
 १ पमम् २ ॥
 -स्वयमात्मना ॥ १६ ॥
 आत्मवाचक १ ॥ स्वयम् १ ॥ १६ ॥
 अल्पे नीचै-
 अस्यवाचक अन्यपरशब्द १ ॥ नीचैस् १
 -र्महत्सुषीः-
 ऊचावाचक १ ॥ उषैस् १ ॥
 -मायो मू-
 बाहुस्य (अक्षर) वाचक १ ॥
 प्राय १ ॥
 -म्यद्भुते क्षनैः ॥
 मन्दवाचक अव्ययशब्द १ ॥ क्षनैस् १ ॥
 सना नित्ये-
 नित्यवाचक १ ॥ सना १ ॥
 -बहिर्बाह्ये-
 बाहरवाचक १ ॥ बहिस् १ ॥
 -स्मार्तिते-
 भूतकालवाचक १ ॥ स्म १ ॥
 -ऽस्तमदर्शने ॥ १७ ॥
 अदर्शनवाचक १ ॥ अस्तम् १ ॥ १७ ॥

अस्ति सत्त्वे-

भावार्थक अव्यय १ ॥ अस्ति १ ॥

-रुषोक्तावु-

कोपवचनवाचक १ ॥ उ १ ॥

-ऊं प्रश्ने-

प्रश्नवाचक १ ॥ ऊम् ॥ १ ॥

-ऽनुनये त्वयि ॥

शान्तकरणेमें १ ॥ अयि १ ॥

हुं तर्के स्या-

तर्कवाचक १ ॥ हुम् १ ॥

-दुषा रात्रेरवसाने-

प्रातः कालवाचक १ ॥ उपस् १ ॥

-नमो नतौ ॥ १८ ॥

नमस्कारवाचक अव्ययशब्द १ ॥

नमस् १ ॥ १८ ॥

पुनरर्थेऽङ्ग-

पुनर्वाचक १ ॥ अङ्ग १ ॥

-निन्दायां दुष्णु-

निन्दावाचक १ ॥ दुष्णु १ ॥

-सुष्णु प्रशंसने ॥

प्रशंसावाचक १ ॥ सुष्णु १ ॥

सायं साये-

सायंकालवाचक १ ॥ सायम् १ ॥

-प्रगे प्रातः-

प्रातःकालवाचक २ ॥ प्रगे १ ॥

प्रातर् १ ॥

-प्रभातेनिकषाऽन्तिके ॥ १९ ॥

समीपवाचक १ ॥ निकषा १ ॥ १९ ॥

परुत्परार्येषमोऽब्दे पूर्वे पूर्व-
तरे याति ॥

गतवर्षवाचक १ ॥ परुत् १ ॥ गत-
वर्षसे पहले वर्षका वाचक अव्यय १ ॥
परारि १ ॥ वर्तमानवर्षवाचक अव्यय १ ॥
रेपमस् १ ॥

अद्यात्रा-

इस दिनका वाचक अव्यय १ ॥
अद्य १ ॥

ह्वयय पूर्वेऽह्नीत्यादौ पूर्वो-
त्तरापरात् ॥ २० ॥ तथाधरान्या
न्यतरेतरात्पूर्वेद्युरादयः ॥

‘प्रथम दिन’ इत्यादि अर्थमें पूर्वआदि
शब्दसे ‘एद्युस्’ प्रत्यय होकर पूर्व दिनका
वाचक ‘पूर्वेद्युः’ उत्तर दिनका वाचक
‘उत्तरेद्युः’ परदिनका वाचक ‘परेद्युः’
इत्यादि शब्द बनते हैं. जैसे ‘अधरेद्युः’
अन्येद्युः, अन्यतरेद्युः, इतरेद्युः’ ॥ २० ॥

उभयद्युश्चोभयेद्युः-

दोनो दिनके वाचक अव्यय २ ॥

उभयद्युः १ उभयेद्युः २ ॥

-परं त्वहि परेद्यवि ॥ २१ ॥

परदिनका वाचक १ ॥ परेद्यवि १ ॥ २१ ॥

ह्यो गते-

व्यतीतदिनका वाचक अव्यय
शब्द १ ॥ अस्त १ ॥

-ज्नागतेति श्च-

कठदिनका १ ॥ अस्त १ ॥

-परश्वस्तु परेऽहनि ॥

भानेवाळे परसौदिमका वाचक १ ॥

परस्व १ ॥

सदा सदानी-

तिस्त्कालके वाचक अव्यय २ ॥

सदा १ तदानीम् २ ॥

-युगपदेकदा-

एकसमयके वाचक अव्यय २ ॥ युग

पत् १ एकदा २ ॥

-सर्वदा सदा ॥ २२ ॥

सदाकाञ्चवाचक अव्यय २ ॥ सर्वदा १

सदा २ ॥ २२ ॥

एतर्हि समतीदानीमधुना

सांप्रतं तथा ॥

'इसी समय' इस अर्थके वाचक
अव्यय शब्द १ एतर्हि १ सम्प्रति २
इदानीम् ३ अधुना ४ सांप्रतम् ५ ॥

दिग्देशकाले पूर्वादौ प्रागु
दक्षप्रत्यगादयः ॥ २३ ॥

पूर्वदिशा पूर्वदेश और पूर्वकालमें 'प्राक्'
शब्द है । उत्तर दिशा उत्तरदश और
उत्तरकाठवाचक अव्ययशब्द 'उदक्'

पश्चिमदिशा पश्चिम देश और पश्चिमका
वाचक अव्यय शब्द 'प्रत्यक्'
इत्यादि ॥ २३ ॥

इत्यव्ययवर्गः ॥ ४ ॥

छिन्नदिसंग्रहवर्गः ५

सार्धगशास्त्रैः सञ्जादिकृषादि
वसमासजैः ॥ अनुक्तैः संग्रहे छि
गसंकीर्णवादिहोअयेत् ॥ १ ॥

पाणिनि के कहे हुए छिन्नानुशास्त्र-
सहित (अर्थात् उनके अनुसार) सन आदि
प्रत्ययोंसे उत्पन्न चिकीर्षा आदि
शब्दोंसे कृन्तसे उत्पन्न श्वाक आदिका
तद्विध प्रत्यय अण् आदिसे उत्पन्न, 'समा
सजै 'अदन्तोश्चर पदो द्विगु' इस आदिसे
और बाहुल्यसे पहिले अनुक्त शब्दोंसे
संग्रह किये जाते हैं, यहाँ सर्गसंग्रहमें
छिन्नाका नाम किस प्रकार करें इस पर
कहते हैं, सर्कार्णत्वत् यह जेसे, संकी
र्णवर्गमें प्रकृति आदिसे जाने जाते हैं, इसी
प्रकार यहाँ भी जानन, तिनमें प्रकृत्यर्थसे
जेसे 'अर्थार्थाः पुंसि च' यहाँ प्रत्ययार्थसे
जेसे 'स्त्रियां क्तिन्' 'प्रकृतिप्रत्ययार्थवै'
इस आधरावरसे क्रियाक्रियार्थोंको नपुं-
सकत्व और एकवचनत्व होता है, जैसे,
शोभम पचति इत्यादि ॥ १ ॥

लिङ्गशेषविधिव्यापी विशेषै-
र्यद्यवाधितः ॥

सनादि-- कृत-तद्धित-समाससे
उत्पन्न विषय पूर्वोक्तशब्दके लिंगसे अन्य-
लिंगहोना लिंगशेषहै, उसका विधिलत्सर्ग
होनेसे काण्डत्रयका व्यापक है, जो
पूर्वोक्त और यहाके कहे विशेषविधियोंसे
वाधित न होवे, तभी व्यापक होता है
क्योंकि अपवादविषय छोड़कर उत्सर्ग
सर्वत्र प्रवृत्त होता है इस कहनेसे लिंगवि-
शेषविधिको जो लत्सर्गभूतका स्वर्ग आदि
वर्ग अपवाद है, तिनमें पहिलेके कहे हुए
विशेषोंको फिर कहनेके दोष और
वेस्तारके डरसे फिर यहा विधान नहीं
है, स्वर्गपर्याय यहा पुंलिंग कहेंगे उसका
“द्योदिवौ द्वे स्त्रिया क्लीबे त्रिविष्टपम्” यह
पूर्वोक्त अपवाद है और नीप्रभृतिकोके
तो ‘कृतः कर्तारि’ इत्यादिसे कहेंगे, यद्यपि
पहिले लिंग कहा है, तथापि अप्राप्तके
प्रापणार्थकतासे लिंगानुशासन यहाभी
प्रधान ही है ॥

स्त्रियामीदृद्विरामैकाच् सयो-
निप्राणिनाम च ॥ २ ॥

‘स्त्रियाम्’ यहां अधिकार ‘मसी’
[श्लो० १०के] शब्दपर्यन्त जानना चाहि-
ये ‘ईदूतौ’ ईकार और ऊकार ‘विराम’
अर्थात् अवसानस्थ हैं जिनके वे ईदूद्विराम

हैं वे और एकाच् ये दोनों ईदूद्विरामैकाच्
हैं, ईदन्त ऊदन्त वा जो एकस्वर शब्द-
स्वरूप हैं वे स्त्रीलिंग हैं यह अर्थ है,
जैसे, धीः, श्रीः, भूः, भूः, नयतीति
नीः, इन आदिमें ‘कृतः कर्तारि’ इसके
बाध होनेसे वाच्यलिंगत्व है, योनिः
भगहै इसके सहित प्राणियोंके नाम
‘स्त्रियाम्’ स्त्रीलिंग है जैसे माता-दुहिता-
घेनु-आदि दार शब्द आदिमें तौ ‘दाराः
पुभूमतीति’ यह वाधक पहिले कह चुके हैं,
कलत्रं और गृह शब्दको ‘कलत्र श्रोणि-
भार्ययोः’ यहाका क्लीब पाठ वाधक
है, इसी प्रकार अन्यत्र भी विचार
करलेना चाहिये ॥ २ ॥

नाम विद्युन्निशावलीवीणा-
दिग्भूनदीहियाम् ॥

विद्युत् आदि हीशब्द पर्यन्त ८ आठ
शब्दोंके जो नाम अर्थात् सज्ञा हैं, वे
स्त्रीलिंग हैं, जैसे,—विद्युत्,—तडित्,
निशा,—रात्रिः, रजनिः, वल्ली,—व्रततिः,
वीरुध्, वीणा,—विपञ्ची इत्यादि ॥

अदन्तैर्द्विगुरेकार्यो-

अकारान्त आदि शब्दोंसे जो एकार्थ
द्विगुसमास है, वह स्त्रीलिंग है, जैसे
‘पचाना मूलाना समाहारः पचमूली’
इसी प्रकार त्रिलोकी षडध्यायी इत्यादि ॥

न स पात्रयुगादिभिः ॥ ३ ॥

य पुन पात्र, युग आदि उत्तरपद
अदन्तशब्दोंके साथ एकार्थ द्विगु समा
सको स्त्रीछिगात्व नहीं है जैसे पचपात्रं,
चतुर्गुणं, त्रिभुवनम् ॥ ३ ॥

तल वृन्दे पेनिकटघ्रा वैर
मैयुनिकादिषु ॥ स्त्रीमा
वाटाबनिकिष्णुल्लणचष्णुच्-
क्य युजिभद्दिशा ॥ ४ ॥
उणादिषु निरूरीभ्रञ्चाघ
वृन्त चल स्थिरम् ॥

मात्र आदि अर्थमें विहित छद् प्रत्यय
स्त्रीछिगमें होता है तथा मात्र अर्थमें जैसे
सुद्धता, धर्म अर्थमें ब्राह्मणता, समूह अर्थमें
प्रामता, स्वार्यम देवता, वृन्द समूह अर्थमें
य-इनि-कटपच्-य-ये ४ चार प्रत्यय
स्त्रीछिगमें होते हैं जैसे 'पाशादिभ्यो य'
पाशानां समूह पाश्या, बात्या 'सला
दिभ्यः इति' सलानां पत्नी, 'रघा
दिभ्यः फटपच्' रघकण्या, इसी रीतिस
गोमा, वैर मैथुन आदि अर्थमें जो कुन्
प्रत्यय है सो स्त्रीछिगहै तिनमें वैर शिरो
धार्यमें जैसे अश्वमहिषिका अश्व और
महिषीना यह भेद है इस भाँति पाशाद्-
बिभ्य मैथुनिक अर्थमें जमे अत्रिमरदा
त्रिका अत्रिमदात्रिकी यह मैथुनिक

विवाहकूपसम्बन्ध, इसी प्रकार 'कुस्तथ
कुशिकाच तयोर्मैयुनिका कुस्तकुशि
भिका' कुन् प्रहण कुञ्-कुण् वा-कुञ्-अक्
इक आदिका उपलक्षण है, जैसे काशिका
गायिक्या छप्रघते, कहीं तु मी पाठ है,
आदिपदसे वीप्सा आदिमें कुन्का प्रहण है
'छियां मावादि' स्त्रीमावादिस्तस्मिन्'
स्त्रियाम् इसका अधिकार कर, मात्र आदि
अर्थमें जो विहित प्रत्यय अनि-त्विन्-
(ति) आदि हैं वे स्त्रीछिग अर्थमें हात
हैं, अनि जैसे 'आक्रोशे नभ्यनि'
इस सूत्रमें 'अनि' प्रत्यय होनेसे
'अक्रुणि', 'अजीयनि', 'त्विन्' स
स्मृति, छाले, गति, 'ष्णुञ्' से,
अत्रिका, प्रच्छदिका, प्रयाहिका, आसि
का, 'णच्' से व्यावक्रोशी, स्वार्थिका,
द्राक्षा, 'ष्णुञ्' से शायिका इभुमशिका
'क्यप्' से नक्षत्रया, मग्पा इग्पा, 'स्त्री
मावादौ क्यो क्वा' मृपोयं, मक्ष्मयूं, 'यौ
टोप आवेगा, 'युच्' से कारणा आसना,
मदमा, 'इत्' से 'वापि' वासि' कांकारि
मकार्थी, 'इत्' यह इण्इक्का उपलक्ष
णार्थक है जिस, आदि; छपि, 'म'
से पचा, प्रपा, मिग 'नि' से स्थानि,
स्थानि, हानि, 'श' प्रत्यय स क्रिया,
इष्ठा ॥ ४ ॥ उणादिकोंमें 'नि-
ऊ-ई'-य ३ तीन प्रत्यय री

लिंगमें हैं, तिनमें 'नि' प्रत्ययान्तमे, श्रेणि.
 श्रोणिः, द्रोणिः, 'उणादिष्वनिः' उस पाठ
 में, अनिः, जैसे अत्रनिः, धरणिः, धमनिः,
 सग्निः, 'ऊदन्त' जैसे, चमूः, कर्पूः, ईदन्त
 जैसे, 'तन्त्रीः' तराः, लक्ष्मीः, द्यन्तम्
 आवन्तम्, (डी आप् वा आड्) ऊदन्त
 और जो 'चल' जगम हैं, वा जो 'स्थिर'
 स्थावर है वे स्त्रीलिंग हैं, जगम जैसे,
 नारी शिवा, ब्रह्मवधूः । स्थावर जैसे,
 कदली, नाला, कर्कन्धूः ॥

तत्क्रीडायां प्रहरणं चेन्मौष्टा
 पालवाणादिक् ॥ ९ ॥

“तत् क्रीडाया” यहांके तत् शब्दसे
 यहा मौष्ट्यादिकका निर्देश है, तिससे यह
 अर्थ है, वह मुष्ट्यादिक प्रहरण अर्थात्
 मारना जो क्रीडा वा खेलमे होय तो उस
 अर्थमें विहित 'ण' प्रत्यय स्त्रीलिंगमें है
 'दिक्' इस शब्दसे उक्तोदाहरणकी अभि-
 लाषा है, जिससे दाण्डा, मौसला, ये उदा
 हरणके योग्य हैं, मुष्टिसे प्रहार करना
 जिस क्रीडामें है उसे “मौष्टा वा माष्ट्या”
 और पल्लव हाथ वा पत्तेसे मारना जिस
 क्रीडामें है उसे “पालवा” कहते हैं ९ ॥

घञो ञः सा क्रियाऽस्यां
 चेदाण्डपाता हि फाल्गुनी ॥
 श्यैनपाता च मृगया तैलं-
 पाता स्वधेति दिक् ॥ ६ ॥

वह घञन्तवाच्य दण्डपात आदिके
 आदिक्रिया इस फाल्गुनी आदिके अर्थ-
 मे घञन्तसे विहित जो ञ प्रत्यय है सो
 स्त्रीलिंगहीमें है, उदाहरण 'दण्डपातो अस्या
 फाल्गुन्या दाण्डपाता फाल्गुनी' इसीप्र-
 कार 'श्येनपातोऽस्या, श्येनपाता मृगया'
 'तैलपातोऽस्या स्वधा क्रियाया तैलपाता'
 इति शब्दसे 'मुसलपातोऽस्या मौसलपा-
 ता भूमिः' ये इत्यादि सिद्ध हांते हैं दिक्-
 शब्दसे किसी देशमें फाल्गुन महीनेको
 पूर्णिमाको दण्डसे वा लाठीसे क्रीडा हो-
 ती है इस लिये 'दाण्डपाता' आदि उदा-
 हरण भी होते हैं ॥ ६ ॥

स्त्री स्यात्काचिन्मृणाल्या-
 दिर्विवक्षापचये यदि ॥

यदि 'अपचये' अर्थात् अल्पत्वके
 कहनेकी इच्छा होय तो मृणाली, आदि
 शब्द स्त्रीलिंग हैं जैसे 'अल्प मृणालमृ-
 णाली' आदि शब्दसे जैसे, 'ह्रस्वो वशी
 वशी' गौरादि मानकर डीप् प्रत्यय होता
 है, इसी भाति कुम्भी-प्रणाली-छत्री-
 पटी-मठी-आदि ये भी हैं, 'ह्रस्वायें
 कन् प्रत्ययः द्विया' जैसे पेटिका, 'का-
 चित्' यह क्यों कहा यहा दोष पढता है
 जैसे, 'अल्पो वृक्षो वृक्षक.' इत्यादि
 स्त्रीलिंग नहीं हैं ॥

लङ्का शेफालिका टीका वा-
 तकी पञ्जिकाऽऽदकी ॥ ७ ॥

भव उवाचुर्हसं इत्यादिस कर्ह छिन्ना
 बालोमेसे किस्ती शब्दके सुखसे छिन्नाज्ञान
 के हेतु, भिन्न कान्तादि क्रमसे कहते हैं
 १ छंका राक्षसपुत्रे, २ शकाटिका कृच्छका
 मेद वा वृक्षमेद- / निगुह-निस्ता यह
 प्रसिद्ध) है १ टीका-कठिन पदकी
 व्याख्या-४ धातकी-वृक्षमेद-(आबरा
 यह प्रसिद्ध है) ५ पत्रिका (नि-शेय
 पदकी व्याख्या) ६ आवकी-गुर
 प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥

सिध्रका सारिका द्विधा
 प्राचिकोष्का पिपीलिका ॥

तिन्दुकी कणिका भाङ्गि

सुरङ्गासूचिमाडय ॥ ८ ॥

१ सिध्रका वृक्षमेद २ सारिका
 पत्नीमेद-वा मयता ३ द्विधा स्वरमेद वा
 हिवकी, ४ प्राचिका पाचिका मी वनकी
 मस्त्री वा पक्षिमेद इतिस्वामी ५ उका
 छंका सूरु, ६ पिपीलिका कीटका
 मेद-(बीटी-वा बीटा मी) 'शनेर्या
 र्हाति पिपीलिक ' यह म्पामीक मनेसे
 पुंलिङ्गमी है ७ तिन्दुका वृक्षमेद
 वा तन्दुवा यह प्रसिद्ध है ८ 'कणिका'
 परमाणु ९ भंगि ' कुट्टिआना मेद
 वा टणा , १० 'सुरगा विड वा सुरगा'
 यह प्रसिद्ध है ११ मूषि सु-वा
 इत्यादी १२ मूषि पठना सिद्धा ८ ॥

पिच्छावितण्डाकाकिण्य

शूर्णी शाणीद्रुणीदरु ॥

साक्षि कन्धा तयाऽऽसन्दी

नामी राजसभापि च ॥ ९ ॥

१ 'पिच्छा' शोमर यह प्रसिद्ध है २
 'किण्डा' बादमेद, ३ 'काकिण्य वा
 काकिणी'पणका चौया माग वा कौडी,
 ४ 'शूर्णी: वा शूर्णी, शूर्णिका, शाणी
 द्रुण' पठविशेष है 'शूर्णा' कर्णवृक्षीक
 वा कछरी दरु स्थच्छनासि ॥ १ साक्षि
 दान और जवसानका कहत हैं २ 'कन्धा'
 प्रावरणास्तर-वा दूसरा विछोना ३ 'आ
 सन्दी आसनका मेद-वा शेतका आसन
 वा कुर्सी, ४ 'नामी वा नामि' शरी
 रिका भगमिशप-वा टोंडी, ५ राजसभा,
 राजा समा राजकी समा वा कचरती
 यह प्रसिद्ध है ॥ ९ ॥

शहरी चर्चरी पारी हीरा

लटा च सिध्मला ॥ लाक्षा

लिप्ता च गण्डूपा गृध्री

चमसी मसी ॥ १ ॥

१ 'गण्डूपा यात्रास्य म' वा साठर
 यह प्रसिद्ध है २ 'चर्चरी करण्य
 वा हायका शूल-वा हपरीका, फर्दक
 वाज पडत है कर्चरी' छोटा पत्र,
 ३ 'पारी वा पारी हायाके पावकी रस्मी,

४ 'होरा' लग्नका आधा वा लग्न, ५ 'लट्टा' ग्रामचटकः, चिडा वा चिडी (वा गवैरया) ६ 'सिध्मला' मत्स्यविकार, ७ 'लाक्षा जतु'—वा लाख—लाह प्रसिद्ध है. ८ 'लिक्षा यूकांङ'—अर्थात् लीख प्रसिद्ध वा परिमाणभेद, ९ 'गङ्गा' जल आदिसे मुखपूर्ण कुल्ला प्रसिद्ध है, १० 'गृध्रसी' वातरोग भेद, यह ऊरुकी सधिमें होता है ११ 'चमसी' यज्ञपात्रभेद १२ 'मसी' और भी पु—'मसि' 'कज्जल ॥१० ॥

इति स्त्रीलिङ्गसग्रहः ॥

पुंस्त्वे सभेदानुचराः सपर्यायाः सुरासुराः ॥ स्वगयागाद्रिमेधाब्धिद्रुकालासिशारायः ॥-११ ॥

अब पुँल्लिग सग्रह करते हैं, 'पुंस्त्वे' इसका [श्लोक ०२१के] 'पतद्ग्रह' शब्द-पर्यन्त अधिकार है, भेदाः 'तुषितसाध्य-आदि' 'अनुचरा' सुनन्द आदि-इनके सहित सुर-असुर-देव-और दैत्यके यह पर्यायके पुँल्लिग हैं, सुरपर्याय जैसे—अमरा निर्जरा देवा मरुत. इत्यादयः इनके भेद जैसे, 'तुषिताः—साध्याः' 'इन्द्रो मरुत्वा-न्मघवा—सूरः—सूर्य' 'अर्य्यमा-हाहा-हूहूः तुम्बुरुः इत्यादि, 'अनुचराः' जैसे विष्णुके अनुचर, जय—विजय—प्रभृति रुद्रके अनु-

चर, नन्दिकेश्वर आदि, इसी प्रकार—असुरपर्याय दैत्यदानव इत्यादि-इनके भेद-बलि नमुचि आदि, असुरके अनुचर कूष्माण्ड-मुण्ड—आदि, इस भाति सब स्थानमें जानना, इनकेभी 'दैवतानि पुंसि वा देवताः स्त्रियाम्' आदि वाधकको स्मरण करावेंगे 'अत्राधिताः' इस वक्ष्यमाणसे स्वर्ग आदि १९ अपने भेद और पर्यायके सहित पुँल्लिग हैं, १ स्वर्गपर्याय जैसे, 'स्वर्ग—नाक, त्रिदिव' इत्यादिक 'द्योदिवौ द्वे स्त्रियां, क्लीबे त्रिविष्टपम्' यह वडा बलवान् वाधक है इसके बिना पुँल्लिग हैं, २ 'यागो यज्ञः' वा 'मखः क्रतु.' इनके भेद—अग्निष्टोम—वाजपेय आदि इनको वाधकत्व कहेंगे ३ अद्रिः गिरिः वा पर्वत, इनके भेद-जैसे मेरु सहाद्रि-आदि इनके मध्यमे अपवाद हैं सो शैलवर्गमें कहचुके हैं, ४ 'मेघः' घन वा बादल ये इत्यादि पर्याय हैं, भेद आवर्त आदि—'अभ्रस्य तु अभ्र मेघः' यह क्लीब पाठ वाधक है, ५ अब्धिः-समुद्रका पर्यायभेद क्षीरोद आदि, ६ द्रुः वृक्षः शाखी आदि पर्याय और वट पीपल आदि भेद हैं, यहांभी कहीं रूपभेद आदिसे 'पाटला, शिशपा' आदिमें अपवाद कहा है ७ 'कालः दिष्ट. समयः' इस प्रकार पर्याय है और मास आदि भेद है ८

भव उपावृणन्तं इत्यादिते कहे लिंग
 वालोमेंसे किसी शब्दके सुखसे लिंगज्ञान
 के हेतु, भिन्न कान्तादि क्रमसे कहते हैं
 १ रुका राक्षसपुरी, २ शफालिका फूलका
 भेद वा वृक्षभेद—(निगुडी—निरस्ता यह
 प्रसिद्ध) ३ टीका—कठिन पदकी
 व्याख्या—४ रातकी—वृक्षभेद—(भस्करा
 यह प्रसिद्ध है) ५ पञ्जिका (निःशेष
 पदकी व्याख्या) ६ आठकी—तुरस
 प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥

सिप्रका सारिका द्विधा
 प्राचिकोल्का पिपीलिका ॥

तिन्दुकी कणिका माङ्गि

सुरङ्गासूक्ष्माडय ॥ ८ ॥

१ सिप्रका वृक्षभेद २ सारिका
 पशुभेद—वा मपना, ३ द्विधा स्वरभेद वा
 द्विधकी ४ प्राचिना पाचिका मी वनकी
 मन्त्री वा पक्षिभेद इति स्यामी ५ सत्य
 तगका स्यात् ६ पिपीलिका कीड़ेका
 भेद—(पीटी—वा पीटा मी) 'शनेर्या
 तीति विरीडिक' यह स्वामीके मतसे
 पुत्रिणी है ७ तिन्दुकी वृक्षभेद
 वा लम्बुआ यह प्रसिद्ध है ८ 'कर्णना'
 परमाणु ९ मंगि 'सुटिस्ताका, म'
 वा टोना १० 'सुरंगा रिउ वा 'सुरंगा'
 यह प्रसिद्ध है ११ सूक्ष्म—वा
 व्यापनी १२ माङ्गि पत्तरो सिरा ॥ ८ ॥

पिच्छावितण्डाकाकिप्य

शूर्णिं शाणीद्रुणीदरम् ॥

सातिः कन्या तथाऽऽसन्दी

नामी राजसमापि च ॥ ९ ॥

१ 'निच्छा' शेर यह प्रसिद्ध है २

'क्तिण्डा' बादभेद, ३ 'काकिप्य वा

काकिर्णा' पणका चौपा माग वा कौडी,

४ 'शूर्णिं वा शूर्णा, शूर्णिका, शाणी

शाण' पटविशेष है 'द्रुणा' कर्णजौडा

वा कछ्छी दरम् मच्छज्राति ॥ १ साति

दान और भवसानका कहते हैं २ 'कन्या'

प्रावरणान्तर—वा दुस्तर किञ्चिना ३ 'आ

सन्दी' आसनका भेद—वा भेता आसन

वा कुर्सी, ४ 'नामी वा नामि' शरी

रिका भगविशेष—वा टोडी, ५ राजसमा,

राजा समा राजको समा वा कचहरी

यह प्रसिद्ध है ॥ ९ ॥

सहरो चर्चरी पारी होरा

उदा च सिधमला ॥ लासा

लिप्ता च गण्डूवा शुभसी

चमसी मती ॥ १० ॥

१ 'सहरो' बाजार्का म—वा साव

यह प्रसिद्ध है २ 'चर्चरी' बरह

वा हापका शब्द—वा दर्परीडा, कर्णिक

वाज पटत ४, 'कर्चरी' छोटा घटा,

३ 'पारी वा मारी हापीके पावरी रानी,

‘तु’ शब्दान्त और ‘रु’ शब्दान्त पुलिग हैं, जैसे हेतुः सेतु.—धातुः मन्तुः—तन्तुः इत्यादि—कुरुः—मेरुः—किंशारुः—इत्यादि, कशेरु आदि उपलक्षण हैं, दारु, श्मश्रु प्रभृतिका तिनमें कशेरुः अस्थिविशेष वा तृणविशेष, जतु लाक्षा वा लाही ॥ १३ ॥

कपणभमरोपान्ता यद्यदन्ता
अमी अथ ॥ पथनयसटोपान्ता
गोत्रारख्याश्चरणाह्वयाः ॥ १४ ॥

क-प-ण आदि ६ वर्ण उपान्ते अन्य के समीपमें हैं जिनके वे तैसे यदि ये क आदि वर्णपट्टक उपान्त अदन्त हो तो पुलिग में होते हैं जैसे अक, लोकः, स्फटिकः, शुल्क-वल्क आदि तो पहिले ही बाधित हैं और भ्रूप माप पृक्ष आदि पोपान्त हैं वर्पा आदि शब्द तो पहिले ही बाधित हैं पाषाण गुण किरण आदि गोपान्त शब्द, विपाण आदि से बाधित हैं, कौस्तुभ-दर्भ-शलभ-आदि मोपान्त हैं, कुसुम्भ आदिसे बाधित हैं होम ग्राम व्यायाम-गुल्म, आदि मोपान्त, ‘पद्मादे-र्वा पुसि’ इत्यादि से बाधित हैं, शर्करा सीकर सीर-प्रभृति रोपान्त है अजिर आदिक बाधित हैं, रादिवर्ण पट्टक उपान्त शब्द अबाधित हैं तौ पुलिग हैं यहा ‘यद्यदन्ता’ इस पूर्वोक्तका सम्बन्ध नहीं

है अथादित्वसे पकारोपान्त जैसे यूप-वाष्प-कलाप आदि बाधित हैं थकारो-पान्त-वेपथु-रोमन्य-आदि नोपान्त-इन धन-भानु-आदि-वनादि तो बाधित है योपान्त आय-व्यय-जायु-तन्तुवाय आदि, मृगया आदि तौ बाधित हैं, सोपा-न्त रस-हास-आदि, विस आदि बाधित हैं टोपान्त घट-पट-आदि, किरोट आदिको बाधितत्व कहा है, गोत्र वशमें आख्या सज्ञा है जिनकी वे गोत्रारख्य ऋपिसज्ञक हे गोत्रके आदि पुरुष ये ये प्रवराध्यायमें पढे हैं और ये अन्य अपत्यप्रत्ययके विना गोत्र वाचित्वसे लोकमें प्रसिद्ध हैं वे पुलिग हे जैसे भर-द्राजः गोत्रमस्माकम्, इसप्रकार कश्यप वत्स प्रभृति, चरणके और वेदशाखा की नामवाली सज्ञा पुलिग हैं, जैसे कठ, बह्वृचः इत्यादि ॥ १४ ॥

नामन्यकर्तरि भावे च घञ्जब्ज
ङ्णघाथुचः ॥ ल्युः कर्तरीमनि-
ज्भावे को धोः किः प्रादितोऽ-
न्यतः ॥ १५ ॥

नाम सज्ञामें और अकर्तरि च कारके भावमात्रमें भी विहित घञ् आदि सात प्रत्ययान्त पुलिग हैं, भावे च इस चकारसे असख्यामें भी घञ् गृहीत है

असिःसङ्ग—नन्दक आदि मेद, (इत्यादौ
बाध) १ 'सर' यागमेद नाराच आदि,
—इयुर्भिर्योरिति विशापो दर्शित ' १०
'भारि' शत्रुमेद आततायी आदि । ११ ।

करगण्डनेसुदोर्द सकण्ठकेशु

मखस्वना ॥ अद्वाहान्ता
द्वेडमदा रात्रान्ता प्राग
सख्यका ॥ १२ ॥

१ 'रु' राजप्रहणके योग्य भाग,
,रविम' और'पाणि' 'दीधिति' १५ आ
दिको तो पुस्त्य बाधित है, २ 'गण्ड'
कपोत वा गाल, 'ओष्ठ' वा दंतभ्रूद,
दशमवसन आदि तो रूपमेदसे बाधित
है, ३ 'दो' प्रवेष्ट' 'मुनबाहोस्त' द्वयो
रिति क्लिष्टोप' दंत' दण्ड' मेद' जम,
'कण्ठः गण्ड' 'समीपगळमेदेषु कण्ठ त्रिपु
त्रिदुर्वुधा' इति शाश्वत' 'केश कच' व
बार, (बाल, 'नख' 'करच्छ' नखोऽङ्गी
इत्यादिना बाधित 'स्तन' कुच ये सब
यथा—सम्भ्रम समेद और पर्याय पुँक्षिग
हैं १ 'अह' अहश्च येह अन्त्य जिनके
के पुँक्षिग हैं जैसे अह' पूष पूर्वाह्न,
अह पर पराह्न देमहनी समाहते अह
—एयहमेत विप त्रिषाप पुँस्त्य ह जैसे
सौराष्ट्रिक, युद्धा गरल 'त्रिप', पुँसि और
कटीबने काडोउ है इत्यादि बाधितहै

रात्रान्ता यह समासान्तके एकदेशका
अनुकरण है, इसी प्रकार आगेमी 'रात्र'
शब्द है अन्तमें जिनके व जो प्राक्
असंख्यावाचक शब्द हों तो पुँसि है,
जैसे अहश्च रात्रिद्याहारात्र सर्वरात्र'
पूर्वरात्र वर्षारात्र अरररात्र प्राक् असं-
ख्याका यह क्यों कहा पचरात्र, गणरात्र
इनमें दोष होगा, पुँष्यरात्रको अर्ध-
रादि पाठसे कभीवत्तमी है ॥ १२ ॥

श्रीवेष्टायाश्च निपासा अ
सन्नन्ता अबाधिता ॥ कशेरुज
तुवस्तुनि हित्वा तुरुवि
रामकाः ॥ १३ ॥

१ 'धीकष्ट' आदि ये निर्यास हैं अर्थात्
द्वव वा गोम्द—वा सारवाचक हैं, व पुँक्षिग
हैं धीवेष्ट 'सरल' वा घृषकाष्ठ' धीविष्ट'
मी कहीं पाठ है, आद्यशब्दसे धीवास,
एकभूप आदि, च शब्दसे गुग्गुलु आदि,
२ 'असन्त, असन्त' पुँक्षिग हैं असन्त
जैसे, अगिरा, वेधा—'चन्द्रमा'
असन्त जैसे 'कृष्णवर्मा मध्या' आदि
'अबाधिता' क्यों कहा असन्त, जन्त्री
कसा, सुमनसा, इमं वय, इदं सोम
'तृषदश्च तुम् ये दोनों त्रिपम अर्थात्
अंतमें हैं त्रिमक व तुरविरामका' कण्ठके
है, कशरु जर्तु—वस्तु, इनको छोड़कर

पाटापीढा, १० घटः तुला वा तराजू, ११ खटः अन्धकूप आदि—वा कफ—
वा तृण ॥ १७ ॥

कोट्टारघट्टहट्टाश्च पिण्डगो-
ण्डपिचण्डवत् ॥ गडुः कर-
ण्डो लगुडो वरण्डश्च किणो
घुणः ॥ १८ ॥

१ कोट्टः, दुर्ग—पुर—किला—गढ वा
कोट्टार., २ अरघट्टः,—कूपभेद—महाकूप
वा उसके ऊपर बँधा जलके निकालनेका
काष्ठ वा अरहट—पुरवट, तवघट्टः घाटाइ
यहा प्रसिद्ध है, ३ हट्ट ऋयविक्रयका
स्थान वा हट्टिया बाजार यह प्रसिद्ध है,
४ पिण्डः—मिट्टी आदिका समूह, ५ गोंडः
नाभिः वा नीचजातिभेद, ६ पिचण्डः—
था पिचिण्डः उदर वा पेट, पिचण्ड
वत् यहाके वत् शब्दसे गडवादि शब्द
भी पुँल्लिंग हैं यह बोधित होता है, ७
गडुः—गलगडः, ८ कारण्डः—वास आ-
दिका बना माण्डका भेद वा पिटारी वा
पुष्पमाजन, ९ लगुडः—वास आदिका
दण्ड वा लाठी, १० वरण्डः—मुखका
रोग वा बदनकी व्यथा, ११ किणः—
मांसकी गाँठिका भेद—वह भी जो
फावडा, लाठी आदिके चलानेसे

हाग आदिमें (घडा) स्पष्ट है, वग
और चिह्नको भी “किण” कहते हैं,
१२ घुणः, काटका कीडा वा घुन यह
प्रसिद्ध है ॥ १८ ॥

दृतिसीमन्तहरितो रोमन्थोद्गी-
यधुद्बुदाः ॥ कासमर्दोऽर्धुदः
कुन्दः फेनस्तूपौ सयूपकौ १९ ॥

१ दृति, चामका दोना वा मसक
(मिस्तीका), २ सीमन्त, केशवेश वा
चूडा गूँथाहुआ, ३ हरित, पलाशवर्ण
वा हरियर प्रसिद्ध है, ४ रोमन्थ, पशु
जो जुगालीया चर्वग करते हैं (वा
पागुर ,) ५ उद्गीय, सामवेद, ६
धुद्बुद, जलका विकार, ७ कासमर्द
वा काशमर्दः गुल्मभेद वा रोगभेद, ८
अर्धुद, दशकोटि, ९ कुन्द, पुष्पविशेष
वा औजार रखनेका पात्र वा शिल्पभाड,
१० फेन, जलविकार, ११ स्तूप,
घटक आदि, ये ये और यूप वा यूपक
वा “ यूप ” भी बरा पूजा आदिके
नाम हैं ॥ १९ ॥

आतपः क्षत्रिये नाभिः कुणप-
क्षुरकेदराः ॥ पूरक्षुरप्रचुक्राश्च
गोलहिङ्गुलपुद्गलाः ॥ २० ॥

चञ्जत जैसे, 'प्रासीदन्ति मनास्यस्मिन् प्रासाद', प्रास्यते इति प्रास, किदिति अने-
न क्त्, प्रपतति अस्मादिति प्रपात' माकमें जैसे, 'पाक त्याग' अष् जैसे 'जय' जय, नय, अर् जैसे, कर, गर, छय, पूव, नक् जैसे 'यश्च प्रथ या च्या' महां पुंस्त्व बाधित है, नक् उपलक्षण है, 'स्वपो नन्' स्वप्, णप्रत्यय जैसे 'न्याद्' घप्रत्यय जैसे, उरच्छद् आयुच् जैसे, 'वेद्यु' स्य प्रत्यय क्त्वांमि मंघादित्वसे पुंलिङ्गमें होता है, जैसे नन्दन, रमण, मधुसूदन माकमें पृथु आदित्त जो इमनिष् है, सो पुंलिङ्ग है, जैसे प्रयोर्मात्र प्रथिमा, स्रदिमा, भाव एसा क्यो कडा, 'वृणोतीति वरिमा पृष्ठी' यही का माप यह शब्द देखी दीपकस्यायसे पूर्व और परमें सम्बन्ध होता है, माकमें क प्रायय जैसे आकूर्य, प्रत्य, प्रादित और अल्पत से पर जो पुंसङ्क घातु है टसम विहित जो कि प्रत्यय है सो पुंलिङ्ग है 'दारू'पो जिना' दारूप और धारूप मी धातु पुंसङ्क है, प्रादित, जैसे 'प्रधि निधि भादि' अयतः, जैसे 'जजधि' 'इधुधिसु इयोधिति बाधित्व है' ॥ ११ ॥

दन्द्देश्ववटवाभश्वटवा न
गमाट्जे ॥ कान्त स्येन्दु

पर्यायः पूर्वोऽयं पूर्वकोपि च ॥ १६ ॥

इ-इ-समाहारसङ्कलने अन्यत्र समास इन्द्रसङ्कलने, 'अश्ववध्वी' पुंसि है, भाष उदाहरण दत्त ह'अश्ववध्वी मडवाअमश्व-
इवा 'इसी रीसिते अश्ववध्वानु, अश्ववध्वे इत्यादि प्रयोगसे, समाहारे तु 'अश्ववध्वम्' यह लीन है; सूर्य, चन्द्रके पर्याय पूर्वक कान्तशब्द पुंसि है, जैसे 'सूर्यका म्' अर्ककान्त चद्रकान्त, इन्दुकान्त, सोमशब्द अपस् वा अयोशब्द अर्थात् छोडवाशब्द पूर्वक मी कान्त शब्द पुंसि है, जैसे 'अयस्कान्त छोड कान्त' ॥ १६ ॥

वटकभ्यानुवाकश्च रङ्कभ्य कुट्
ङ्कः ॥ पुलो न्यूल' समुद्रश्च
विटपट्टघटाः खटा ॥ १७ ॥
अब पुंलिङ्ग क्तिप पर्यन्त अनुत्तमोर

अकरान्तादि क्रमसे करा है, १ मटक-
पिटकमेद वा (मरा), २ अनुवाक-
पदका अशयवा वा माग, ३ खडक-कम्पज
वा कमरा प्रसिद्ध है, ४ कु-ङ्क वा कुं-
गकः शुक्ययाका समू, ५ पुल माग-
का अशयप, ६ पुंटा, न्यूल, मी साम
पदमें घटा ओकार, ७ समुद्रः-मधु
ट वा टिम्बा, ८ षि' पूर्वका टा १५
काष्ठ भाषिका घना आमनशिरा वा

इत्यादि, १० रुधिरं, शोणित रक्तं, ११
मुख, वदन वक्त्रं, १२ अक्षि-नयन, नेत्र,
१३ द्रविण, धन, इस इत्यादि, १४ बल
शक्ति सैन्य आदि, शक्तिमें जैसे बल शुष्मा-
मेत्यादि सैन्यं चक्रमित्यादि ॥ २२ ॥

फलहेमशुल्बलोहसुखदुःख-
शुभाशुभम् ॥ जलपुष्पाणि
लवणं व्यञ्जनान्यनुलेपनम् ॥
॥ २३ ॥

१ फल फलमात्र—कपित्थ, इस इत्या-
दि, 'हल' भी, २ हेम, सुवर्ण, कनकं,
इस इत्यादि, ३ शुल्ब, ताम्र, इस इत्यादि, ४
लोह, कालायस, इस इत्यादि, ५ सुख
शर्म, शात, इस इत्यादि, ६ दुःख तु
कृच्छ्रं, कष्ट, ७ शुभ—कल्याण, कुशल,
इस इत्यादि, ८ अशुभ, अकल्याण, ९
जलपुष्पाणि—कुमुद—कमल—कह्लार—
उत्पलानि आदि, १० लवणं, सैन्धव, इस
इत्यादि, ११ व्यञ्जनं, तेमन, निष्ठान, इस
इत्यादि, व्यञ्जनविशेषसे दधि—तक्र—
आदिका ग्रहण है, १२ अनुलेपनं, कुंकुम
आदि, यहा बाधितादन्यत् ऐसा क्यों
कहा, आकाशो, विहायाः, द्यौः, अटवी
अरण्यानि इस इत्यादि, इसी प्रकार अ-
न्यत्र भी विचारना चाहिये ॥ २३ ॥

कोट्याः शतादिसंख्याऽन्या
वा लक्षा नियुतं च तत् ॥
द्वयच्छकमसिसुसन्नन्तं यदना-
न्तमकर्तारि ॥ २४ ॥

कोट्याः कोटिशब्द के विना जो
शत आदि संख्या है वह क्लीबमें होती है।
लक्षशब्द वा विकल्पसे क्लीबमें है
पक्षमें स्त्रीलिंग है, तत्शब्दसे लक्षका
पर्याय नियुत यह अर्थ है, उदाहरण
जैसे, 'नियुत—शत—सहस्रं—अयुतमित्यादि
असन्त—इसन्त—उसन्त—और अन्नन्त जो
द्वयच्छक वा द्विस्वर हैं वे क्लीबमें हैं, असन्त
जैसे, पयः, मनः, इसन्त जैसे, सर्पिः,
ज्योतिः, उसत जैसे, वपुः, यजुः,
अन्नन्त जैसे, चर्म, शर्म, साम, नाम, इत्यादि
इसीसे क्लीबत्व सिद्ध था आगे जो मर्मश-
ब्दका उपादान है सो इसके अनित्यत्व
ज्ञापनके अर्थ है, तिससे, '(गुणान्व-
कारशोकेषु तमो राहौ पुमानयमित्यादि
सिद्धम्)' अकर्तारि अर्थमे कर्त्तासे अन्यत्र
जो अनात अन यह अतमें जिसके हैं
वे क्लीब हैं जैसे, गमन, मरण, दान,
करण, वरण, अकर्तारि क्यों कहा,
इधमव्रश्चनः कुठारः नदयतीति नंदनः

१ आतप, सूर्यका प्रकाश वा उजि
पाछा, २ नामि, राजा विशेष-वा क्षयि
क्षयिवाचि नामिशब्द पुल्लिङ्ग है, ३
कुणप' उत्ती प्रकार कुणप-शकमेद
स्वक्तप्राण' ४ क्षुर-केशवपतद्रव्य-
नाइका शस्त्र-(शूरा)वा पशुकी सुरी, ५
केदर, व्यवहारका द्रव्य वा पदार्थ, ६
पूर जलप्रवाह, ७ क्षुरप्र, वाणका मेद-
'सुर्य' मी, ८ शुक्र, शाकला मेद, ९
गोळ, कृष्णपिच वा गोळ, १ हिंगुळ,
रागद्रव्यका मेद वा रक्तवर्ण, ११ पुद्गळ-
वा पुद्गळः आत्मा ॥ २० ॥

वेतालमल्लमल्लाय पुरोडाशो
ऽपि पाट्टिश' ॥ कुल्माषो रमसश्चिव
सकटाइ' पतद्वह ॥ २१ ॥

१ वेताल, भूताविहितशब्द-२ मल्ल
विशेष-३ शिवका अनुचर ४ शारपाल,
२ मल्ल, माल, ४ पुरोडाशः वा पुरोडा'
३ मल्ल, बाहुपुत्रकुलका वा माल प्रसिद्ध,
(सु) हविर्मेद ५ पाट्टिश अस्त्रमेद ६
कुल्माष वा कु'मास' अर्द्ध स्विन्न वय-
वा कुस्त्रित माप ७ रमस'-१ हर्ष-२
वेग-३ तसुकला-४ वा पूर्वापर-
निवार ८ सकटाइ फटाइके सदित
कटाइशब्द मी पुल्लिङ्ग है, कराही यह

प्रसिद्ध है, ९ पतद्वह', मिथीवनर्पा
वा पीकदान ॥ २१ ॥

॥ इति पुंविंगितसप्तः ॥

द्विहीनेऽन्यच्च खारव्यपर्ण
श्वभ्रहिमोदकम् ॥ शीतोष्णमां
सरुधिरमुखासिद्रविण बलम्
॥ २२ ॥

द्विहीने स्त्री और पुरुषसे हीन मनुं
सकता अधिकार है या'हककक'
पर्यन्त, श्लोकद्वयसे प्रधानकरक निर्दिष्ट
आदि शब्द २६-अपने पर्यायोंक सहित
नपुंसक है, यहाँ अयत् इस भावितसे
बो मिन है वे ह्रीव है यह साकवा
मका अर्थ कहा अकारसे कक भाषू-
णका संग्रह है, १ खम् इन्द्रिय, २ प्योव
वा देह-३ शून्य-४ अन्न-किन्दु, ५
पुर, ६ स्वगे, ७ सुखमी जेसे, छिद्रं ममा
वियत् इत्यादि २ अरव्य-विदिमें-
कानर्मी-इस इत्यादि, ३ पर्ण पत्र वा
पत्ता दलं इस इत्यादि, ४ श्वभ्रं उ
पाताल, ५ हिमं, प्राण्येय, ठण्ड, ६ उदक
जल-नीरं-पानी-इस इत्यादि, ७ शीतं,
शीतकं, इस इत्यादि, ८ तण्यं-विम-
इस इत्यादि, ९ शीतोष्ण गुणे शीतं
तद्वति त्रिदु, ९ मांसं, विहितं, तरलं वे

इत्यादि, १० रुधिरं, शोणित रक्त, ११
मुख, वदन वक्त्र, १२ अक्षि-नयन, नेत्र,
१३ द्रविणं, धन, इस इत्यादि, १४ बल
शक्ति सैन्य आदि, शक्तिमें जैसे बल शुष्मा-
मेत्यादि सैन्यं चक्रमित्यादि ॥ २२ ॥

फलहेमशुल्बलोहसुखदुःख-
शुभाशुभम् ॥ जलपुष्पाणि
लवणं व्यञ्जनान्यनुलेपनम् ॥
॥ २३ ॥

१ फल फलमात्र—कपित्थ, इस इत्या-
दि, 'हृल' भी, २ हेम, सुवर्ण, कनकं,
इस इत्यादि, ३ शुल्ब, ताम्र, इस इत्यादि, ४
लोह, कालायस, इस इत्यादि, ५ सुख
शर्म, शात, इस इत्यादि, ६ दुःख तु
कृच्छ्र, कष्ट, ७ शुभ—कल्याण, कुशल,
इस इत्यादि, ८ अशुभ, अकल्याण, ९
जलपुष्पाणि—कुमुद—कमल—कह्लार—
उत्पलानि आदि, १० लवणं, सैन्धव, इस
इत्यादि, ११ व्यञ्जनं, तेमन, निष्ठान, इस
इत्यादि, व्यञ्जनविशेषसे दधि—तक्र—
आदिका ग्रहण है, १२ अनुलेपनं, कुंकुम
आदि, यहा बाधितादन्यत् ऐसा क्यों
कहा, आकाशो, विहायाः, द्यौः, अटवी
अरण्यानि इस इत्यादि, इसी प्रकार अ-
भ्यत्र भी विचारना चाहिये ॥ २३ ॥

कोट्याः शतादिसंख्याऽन्या
वा लक्षा नियुतं च तत् ॥
द्वयच्छकमसिसुसन्नन्तं यदना-
न्तमकर्तारि ॥ २४ ॥

कोट्याः कोटिशब्द के विना जो
शत आदि संख्या है वह क्लीबमें होती है,
लक्षशब्द वा विकल्पसे क्लीबमें है
पक्षमें स्त्रीलिंग है, तत्शब्दसे लक्षका
पर्याय नियुत यह अर्थ है, उदाहरण
जैसे, 'नियुत—शत—सहस्रं—अयुतमित्यादि
असन्त—इसन्त—उसन्त—और अन्नन्त जो
द्वयच्छक वा द्विस्वर हैं वे क्लीबमें हैं, असन्त
जैसे, पयः, मनः, इसन्त जैसे, सर्पिः,
ज्योतिः, उसत जैसे, वपुः, यजुः,
अन्नन्त जैसे, चर्म, शर्म, साम, नाम, इत्यादि
इसीसे क्लीबत्व सिद्ध था आगे जो मर्मश-
ब्दका उपादान है सो इसके अनित्यत्व
ज्ञापनके अर्थ है, तिससे, '(गुणान्व-
कारशोकेषु तमो राहौ पुमानयमित्यादि
सिद्धम्)' अकर्तारि अर्थमें कर्तासे अन्यत्र
जो अनात अन यह अतमें जिसके हैं
वे क्लीब हैं जैसे, गमन, मरण, दान,
करण, वरण, अकर्तारि क्यो कहा,
इध्मत्रश्चनः कुठारः नदयतीति नदनः
॥ २० ॥

श्रान्त सलोपघ शिष्ट, रात्रं
 प्राक्संख्ययान्वितम् ॥ पात्रा
 घदन्तरेकार्या दिगुर्लक्ष्यानु
 सारत् ॥ २५ ॥

श्रान्तं क्लीबमें है जैसे पात्र-वहिरं-
 मित्रं-पत्र-गात्र-यत्रम् ये इत्यादि,
 स्कार और लकार उपधा अंत्यसे
 पूर्ववर्ण है जिनके वे क्लीबमें है सोपध
 जैसे, बुधं, बिस, अंबतमस, छोपध
 जैसे, कुळं, मूळं इत् इत्यादि शिष्टं यह
 ओ प्रागुक्ते भिन्न है वह और वह
 प्रागुक्ती जो अन्वित है सो भी
 श्रान्तारिक क्लीबमें है, शिष्टं क्यों कहा
 पुत्रं-वृत्र-ईस-कंस-पनस-शाळ-
 काळ-गळ-संख्यापूर्व-रात्रशब्द
 क्लीबहै (रात्राद्वाहा पुंसि) इस-
 सूत्रमें पुंस्त्व प्राप्त था उसका यह अप-
 वादहै, त्रिरात्रं, पंचरात्रं, संख्याया यह क्यों
 कहा, अर्धरात्रः मध्यरात्रं पात्र आदि
 अदन्तशब्दोंसे ओ एकार्य त्रिगु समास
 है यह क्लीब है, पञ्चरात्रं आदि पदसे
 षट्पुंग लक्ष्यानुसारत्-अर्थात् शिष्ट-
 प्रयोगके अनुसार, इससे पंचमूली
 त्रिभोकी इत्यादि अपवाद है, एकार्य
 क्यों कहा पंचरूपाळ पुरोडाश
 दिगु यह तद्वितार्थहै ॥ २५ ॥

दन्द्दैकत्वाव्ययीभावी पय
 सख्याव्ययात्परः ॥ पठ्ठा
 इच्छायावहूनां चेट्छिच्छाय सहती
 समा ॥ २६ ॥

१ दन्द्दैकत्वाव्ययीभावी और अ-
 व्ययीभाव समास क्लीबमें है, दन्द्दैक्यं
 जैसे पाणिपादं, शिरोप्रीबं मार्दङ्गि-
 पाणविक्रिं, अव्ययीभाव जैसे, अभिवि-
 ययाशक्ति, उपगग, संख्या और अव्य-
 यसे परे जैसे, विपर्यं, कापर्यं, सख्या,
 न्ययादिति किं, धर्मपयं योगपयः यह
 समासात्तका अनुकरण है, समासमें
 पठ्ठी भिन्नकृत्यन्तसे परे जो छायाशब्द है
 सो क्लीब है, बहमी बहुतोंकी स्वभिनी
 होय तो जैसे, 'भीनाम्, पक्षिणां छाया
 विच्छायम्, इक्षुणां छाया इक्षुच्छायं,'
 बहुनां ऐसा क्यों कहा कुक्षपस्य छाया
 कुक्षपछाया, वा स्त्रियां यह सो कहेंगे
 सहती समुहविषयमें सत्र शब्द क्लीबहै,
 यहाँमी पठ्ठपा, इसका अनुवर्धन करते
 हैं, जैसे दासीनां समा दासीसमं, सृप-
 समं, रक्षसमं, स्त्रीसमम्भियादि, सहती
 ऐसा क्यों कहा दासीनां समा दासी
 समा, दासीगृहं, यह अर्थ है ॥ २६ ॥
 शाखायापि परा राज्यामनु
 ष्यायांदराजकात् ॥ दासी

सभं नृपसभं रक्षःसभामिमा
दिशः ॥ २७ ॥

शालार्थं अर्थात् गृहार्थं-अपिशब्दसे
समुदायार्थं भी जो सभाशब्द है वो अरा-
जकात् राजशब्दसे वार्जित और राजा
मनुष्य अर्थात् राजार्थक राजपर्याय और
अमनुष्यार्थक रक्षः आदि शब्दसे और
षष्ठ्यन्तसे परे होय तो क्लीबमे है '(शाला-
गृहमर्थोऽभिधेयो यस्याः सा शालार्था)
राजपर्यायसे जैसे, इनसभ, प्रमुसभ, अम-
नुष्यार्थसे जैसे, रक्षःसभ, पिशाचसभ,
अराजकात् क्यों कहा, राजसभा 'राज
पर्यायके ग्रहणसे यहा नहीं हुआ, चन्द्र-
गुप्तसभा, राजविशेष यह है' षष्ठ्याः यह
क्यों कहा, नृपतिविषयसभा नृपतिसभा
'नृणां पतिर्यस्यां सा चासौ सभाचेति'
वा नृपतिसभा, अमनुष्यार्थात् यह क्यों
कहा-दासीसभा, दासीना शाला इत्यर्थः।
इमा दिशः, यह दासीसभ इस आदि
क्रमसे उदाहरणहैं, तिनमें दासीसभ
यह समुदाय ही अर्थमे है, शेष दो शाला
और सहति अर्थमे है ॥ २७ ॥

उपज्ञोपक्रमान्तश्च तदादित्वप्र-
काशने ॥ कोपज्ञकोपक्रमादि
कन्थोशीनरनामसु ॥ २८ ॥

१ उपज्ञा और उपक्रमान्तके आदि-
त्वके प्रकाशनमें उपज्ञान्त और उपक्र-
मान्त यह समास क्लीबमें होता है, '(उप-
ज्ञायते इति उपज्ञा॥को ब्रह्मा तस्य उपज्ञा
कोपज्ञं प्रजा ॥ कस्योपक्रमः कोपक्रमं
लोकः)' प्रजापतिने प्रथम बनाया था
इससे उसीने आदिमें प्रजाको जाना
था, यह अर्थ है, उन्हीं नरोंके मध्यमें
षष्ठ्यन्तसे पर कन्था क्लीबमें है, जैसे सौ-
शमीना कन्था सौशमिकन्थम्, उशीन-
रदेशवाचीसे अन्यत्र दाक्षिकन्थानामसु
यह क्यों कहा, वीरणकथा ॥ २८ ॥

भावे नणकचिद्भ्योन्ये समूहे
भावकर्मणोः ॥ अदन्तप्रत्ययाः
पुण्यसुदिनाभ्यां त्वहः परः ॥ २९ ॥

चकार इत्सज्ञक है जिसका वह चित्
है, 'नश्च णश्च कश्च चिच्च नणकचितः
तेभ्योऽन्ये' अर्थात् इनसे भिन्न जो 'तव्य,
क्त,' आदि अदन्तधातुप्रत्यय भावमे
विहित हैं वे क्लीबमें हैं, तिनमें धातु प्रत्यय
जैसे, भवितव्य, भाव्य, सहित, भुक्तं,
नणकचित् क्यों कहा, प्रश्नः, न्यादः,
आखूत्यः, वेपथुः, नणक यह घञ्का
उपलक्षण है, पाकः, भावे क्यों कहा
कर्ममे दोष होगा, जैसे 'कर्तव्यो धर्म-
सग्रहः,' समूह अर्थमें, 'जैसे भिक्षाणी

समूहो भैक्ष, गार्मिणं, औपगव, कार्कं, भावमें अदन्त जैसे, गोमावः गोत्वं, शुचे माव शौच, कर्मणि जैसे, अकृत्स्य कर्म शौकस्यम्, राहः कर्म राज्य, चौर्व्यं, 'तत् प्रत्ययफला तो स्त्रीत्व कहा है, पुण्य और सुदिनशब्दसे परः, विद्विसप्तमासास्त महन् शब्द ङित्वमें है, अहाहान्त इस पुंस्त्वका अपवाद है, पुण्याहं, सुदिनाहं, सुदिन शब्द प्रथस्तार्थक है ॥ २९ ॥

क्रियाध्ययानां भेदकाम्ये

८ फ्रवे प्युफ्यतोत्के ॥ चोच पिच्छ गृहस्थूण तिरिठं मर्म भोजनम् ॥ ३० ॥

क्रिया और अभ्ययोका भेदक वा

विशेषण ङीव और एकवचनमें होते हैं, क्रियाविशेषण जैसे, मध्वं पचन्ति, मुख तिष्ठन्ति योगिन, सखीसं नायन्ति धाला, अभ्यय विशेषण जैसे, रम्य स्त्र सुखत्र प्राठ, अय कितने कठस्वरसे कहा है उच्यं साममे, तोटकं वृत्तमदः चोच, छाये फलका रोप या ताउपल केरा आदिके फलको मी कार्कं कर्ता है ' मोच और रोन्मी २ पिण्ड गुच्छा- वा मोरकी पौठ-वा घूटा-वा सांगठ वा छासखीरुछ-वा परम्परा आदि,

उक्त उच्ये और मुक्ते, ३ गृहस्थूण भरका खम्मा वा यून्ही, ४ तिरिठं, बैठन वा शितोभूषण, ५ मर्म, सन्धि स्थान वा दक्षियोंके जोड़का स्थान, ६ भोजनं को शचतृष्टय वा चार कोद्य ॥ ३० ॥

राजसूय वाजपेय गद्यपद्ये
कृतौ कवेः ॥ माणिक्यमा
ष्यसिन्दूरचीरचीवरपिञ्जरम्
॥ ३१ ॥

१ राजसूय और २ वाजपेयं य २ यङके भेद है, '(राहा अतात्मक सोम सूयतेऽत्र राजसूयं वाज पेयी सुर पीयत वा पेयमत्र वाजपयम्)' ३ गद्यं, ४ पद्यं ये कवेः कृतौ अर्थात् कविकृतं निरुद्धन्द रचनाका गद्य, और पादसम्- हती रचनाका पद्य, क्वम कृतौ ऐसा कर्पो कहा, गद्या वाक्, पद्या पद्यति, ५ माणिक्यं, रत्नका भेद, '(मणिके मणिपूरा स्ये मगरे मधं माणिक्यं,)' ६ माष्यं पदार्थविशेषि वा विवरण, '(पूत्रायौ कर्ष्यते यत्र वाक्ये सूत्रानुसारिभिः। स्वप- दानि च कर्ष्यन्ते माष्य माष्यरिणो विदुरिति,)' ७ सिन्दूरं, रक्त वा छाउचूर्ण, ८ चीर यत्रम्, ९ चीवर मुनिगासः वा बज्र, १० पञ्जरं वा पिञ्जरम्, पदयादि बन्धनागार वा पिञ्जरा ॥ ३१ ॥

लोकायतं हरितालं विदलं
स्थालवाहिकम् ॥

१ लोकायत, चार्वाकशास्त्र, २ हरि-
ताल, धातुभेद, ३ विदल, वासका बना
पात्रभेद, ४ स्थाल, पात्रभेद वा थार वा
हाडी अन्नपात्र, पाकपात्र आदि, ५ वाहिक
कं, कुकुम वा देशभेद उस देशका उत्पन्न
कुकुम बाह्वम् भी, 'बह्वदेशे भव बाह्वव'

इति नपुसकलिङ्गसग्रहः ॥

पुन्नपुंसकयोः शेषोऽर्धर्चपि-
प्याककण्डकाः ॥ ३२ ॥

अव चिक्कस शब्दपर्यन्त पुसि
और क्लीबमें हैं, उक्तसे भिन्नशेष है जैसे
शंख और पद्म ये २ दो निधिवाचक
पुँलिंग हैं, कम्बु नलिनका वाची तौ पुन्न-
पुसकलिङ्ग है तैसे अत्रत्य शब्दभी पर्याय
वाधित है उसके पर्यायसे भिन्न हैं तो पुन्न-
पुसक लिङ्ग होते हैं, १ अर्द्धर्चः अर्द्धर्च
आधी ऋचा वेदमाग, ३ पिण्याक, तिष्ठकी
खल, कंटक रोमहर्ष वा रोमांच ॥ ३२ ॥

मोदकस्तण्डकष्टकशाटकः क-
र्षटोऽर्धुदः ॥ पातकोद्योगच-
रकतमालामलका नडः ॥ ३३ ॥

१ मोदक, मक्ष्यभेद वा (लड्डू)
२ तण्डक उपतापविशेष वा रोगविशेष,
३ टक वा तङ्क, अश्मदारणः वा पत्थर
गढनेकी टाकी, ४ शाटक. पटभेदः वा

शाडी प्रसिद्ध है, ५ कर्षटः वा कर्षटः
“वाजे पढते हैं खर्वटः” स्थानभेद वा
वस्त्रभेद, ६ अर्धुदः, सख्याभेद वा दश-
कोटि, ७ पातक ब्रह्महत्यादि, ८ उद्योग
उत्साह, ९ चरकः वा वरकः वैद्यशास्त्र
भेद, “करकः यह भी पाठ है इसका
स्यूतवस्त्र अर्थ है,” १० तमाल. वृक्ष भेद
(तमाखू) प्रसिद्ध है ११ आमलकः वा आ-
मालकः धात्रीफल वा आँवला प्रसिद्ध है
१२ नडः भीतरी विल—वा तृणभेद ३३ ॥

कुष्ठं मुण्डं शीधु बुस्तं क्ष्वे-
डितं क्षेम कुट्टिमम् ॥ संगमं
शतमानार्मशम्बलाव्ययताण्ड-
वम् ॥ ३४ ॥

१ कुष्ठ—रोगभेद, २ पुष्कर वा कमल,
३ मुण्ड शिरः, ४ शीधु, मद्य, ५ बुस्त
भूजा मांस वा कटहल आदिके फलका
सार भाग—‘कहीं पुस्त वा शस्त पाठ
है कहीं चुस्त वा तुस्तभी पाठ है’ ६
क्ष्वेडित, बीरकाकिपासिंहनाद-क्षेमकुशल
‘क्षेमोऽस्त्रीलब्धरक्षणे, मोक्षको भी, ’ ८
कुट्टिम गचका भेद, संगम सयोग, ९ शत
मान मानभेद, १० अर्म अक्षिरोग, ११
शम्बल वा सम्बल—वर्णका भेद, १२
अव्यय—स्वरादिनिपात वा विकार-
रहित, १३ ताण्डव वा ताण्डव्य-
नाचका भेद’ ॥ ३४ ॥

कविय कन्दकार्पास पारा
वार युगधरम् ॥ यूपं प्रमीव
पात्रीवे यूप धमसचिह्नसी
॥ ३५ ॥

१ कविय—सोवडा छगाम वा वागडोर,
२ कन्द, कमळिनीकी जड वा मूळ कही
कर्म यह पाठ हे, ३ कार्पास, 'कार्पास वा
कपास वा र्खई वस्त्रका कारण आदि,
४ "पारावार," वारं नदा आदिके दोनो
पारको क्रमसे पारं और अवार कहते हैं, ५
युगधरं—कूर्वर वा रयके नूआके काठका
पुत्र करनेवाळा काष्ठ वा पर्वत मेरुआदि,
६ यूपं वा यूपं यज्ञाङ्गमेद, —अथवा यज्ञ
पशु बांधनेका काष्ठमेद' ७ प्रमीव ह्रस्वी
पंक्तम् वा क्षरोळा—मुखशाळा खिडकी
आदि, ८ पात्रीवं वा 'पात्रीष वा यज्ञ
पात्रका मेद, ९ यूपं वा नूपं—माण यह
प्रसिद्ध है, (मुद्रामलक्यूपस्तु प्राहीपि—
च ४के द्वित इति उक्त द्विके) १० धमस
चिह्नसी यर दो पात्रम् हे ॥ ३५ ॥

अर्धचादी घृतादीनां पुंस्त्वाद्य
वदिक ध्रुवम् ॥ तस्योक्तमिह लो
केऽपि तद्येऽस्त्यस्तु शेषयत् ॥ ३६ ॥

अर्धचादी इम पुनपुनस्त्यधिकारपर्यमे
शृताधिकीको पागिनि आधिकीने पुस्त्व
आदि कहा है, ये लो वन्में प्रतिज्ञ वैदिक
है इव हेतु उन्हें यहां नहीं कहा और

लोकमें हैं लौ व शेषयत् अर्थात् उक्तसे
भिन्न शेषहैं उनके समान शिष्टप्रयोगके
अनुसार प्राण हैं, ॥ ३६ ॥

इति पुमपुस्त्वसमहः ॥

अथ स्त्रीपुशेषसमहः ॥

स्त्रीपुसयोरपत्यान्ता द्विचतुः पद
पदोरगाः ॥ जातिभेदा पुमा
ख्याश्च स्त्रीयोगी सह मल्लकः ३७ ॥
अपत्यप्रत्यय अन्तमें हैं अिनके
वे शब्द स्त्री और पुल्लिङ्गमें होतेहै जैसे
'उपगो अपत्य पुमान् औपगव उपगो
अपत्य स्त्री औपगवी, वेदेह, वेदेही,
गार्म्य, गार्गी' 'द्विचतु पदपदोरगाः'
द्विपद—चतुष्पद—और पदपदवाची और
मुजगवाची जाति मेद स्त्रीपुम है, तिनमें
द्विपदजातिमेद जैसे 'मासुपः पुमान् मा
सुपी स्त्री गोप-पुमान् स्त्री गोपी, माहण'
माहणी शूद्र, शूद्रा, अजादि मानकर टापू
है, 'चतुष्पदम् जैसे, 'सूगः, सूर्गा इयः
इयी' पदपद मेद जैसे, 'मंगा मगी,
मथिका, मक्खी, शिवा, सिमारी, छ्वा म-
क्षी पिपीठिका चिरटी' उरग जैसे, उर
ग उरगी, नागः, नागी 'स्त्रीयोगे-सद
पुमान्वाः अर्थात् स्त्रीपात्रकसम्बन्ध योग
से पुंवाचक शब्द स्त्री और पुल्लिङ्गमें होत
है, जैसे इन्द्रः इन्द्राणी, 'मातुर्भाता
है इव हेतु उन्हें यहां नहीं कहा और मातुषः, तस्य स्त्री मातुषी, 'पुस्त्वमेव

मान मातुलः स्त्रीयोगसे स्त्रीत्वमे भी हैं,
'शूद्रस्य स्त्री शूद्री,' मल्लरु, आदिभी स्त्री-
पुसमें हैं मल्लरुः स्त्रीमें तौ मह्लिका पुष्प-
बल्लिका भेद हैं ॥ ३७ ॥

ऊर्मिर्वराटकः स्वातिर्व-
र्णको ज्ञाटलिर्मनुः ॥ मूषा-
सृपाटी कर्कन्धूर्यष्टिः शाटी
कटी कुटी ॥ ३८ ॥

मुनिः यती इंगुदी—बुद्ध पियालवृक्ष-
भेद, पलाश आदि 'ऊर्मिः तरग, यहभी
पाठ है,' २ वराटकः कौडी स्त्रीलिंगमें
वराटिका, ३ स्वातिः नक्षत्र, ४ वर्णकः
चन्दन—विलेपन, ५ जाटलि, 'ज्ञाटलिः
वा पाटलिः' भी पाठ है, पलाशवृक्षके
सदृश है, ६ मनुः स्वायम्भुव आदि—वा
मन्त्र, ७ मूषा, धातु गलानेका पात्र—वा
घरिआ, ८ सृपाटी, परिमाण भेद,
'सृपाटः वा स्त्री, सृपाटी वा असृपाटी,
रुधिरकी नदी, ९ कर्कन्धूः, वेरवृक्ष, १०
यष्टि, लाठी, ११ शाटि, पटभेद—वा
शाडी, १२ कटि और कट. स्त्री कटि.,
वा कटी, देहका अवयव वा कमर, १३
पु० कुटि., स्त्री कुटि. वा कुटी, गृह-
विशेष वा पत्तोंका घर, यहा मूषा
नकारान्त है ॥ ३८ ॥

इति स्त्रीपुंशेषसग्रहः ॥

अथ स्त्रीनपुंसकशेषः ॥
स्त्रीनपुंसकयोर्भावक्रिययोः ष्य-
ञ्काचिच्च वुञ् ॥ औचित्य-
मौचिती मैत्री मैत्र्यं वुञ् प्रागुदा-
हृतः ॥ ३९ ॥

भावक्रिययोः अर्थात् भाव और कर्म
अर्थमें वर्तमान ष्यञ् प्रत्यय और वुञ्
कहीं स्त्री और नपुंसकमें वर्तते हैं,
तिनके मध्य ष्यञ् प्रत्ययका उदाहरण
जैसे, औचित्य यह, 'उचितस्य भावः
औचित्य,' और 'औचितीभी,' मित्रस्य
कर्म मैत्र्यं मैत्री वा 'इसी प्रकार वार्द्धक,
वार्द्धका, सामग्र्य सामग्री, आर्हत्य, आर्ह-
न्तो' वुञ् प्रत्ययतौ वैरमैथुनिकादि-वुन्इस
मौति पहिले कहा है, जैसे मिथुनस्य भावः
कर्म वा मैथुनिका मैथुनिक भी' ॥ ३९ ॥

षष्ठ्यन्तप्राक्पदाः सेनाछा-
याशालासुरानिशाः ॥ स्याद्वा
नृसेनं श्वनिशं गोशालामितरे च
दिक् ॥ ४० ॥

तत्पुरुषसमासमें षष्ठ्यन्त पष्ठी विभ-
क्त्यन्त प्राक्पद हैं जिनके ऐसे षष्ठ्यन्त
प्राक्पद सेना आदि शब्द स्त्री और नपु-
सकमें होंवै, उदाहरण जैसे, नृणां सेना
नृसेन, वेति विजल्पसे नृसेना भी, इतरे
भिन्न पदभी इसीप्रकार उदाहरण, कर
ना चाहिये, श्वनिशं, गोशाल, यवसुर
यवसुरा, कुञ्चस्य छाया कुञ्चच्छाय

कुष्ठपञ्चाया वा षष्ठीबहुवचनान्तसे पूर्व पदकी छया हो तो छीबहीमें होव ऐसा पहिछे दिखाया है ॥ ४० ॥

आद्यभन्तोऽपरपदो द्विगुश्चा
पुंसि नञ् छप् ॥ त्रिस्रट् च
त्रिस्रट्नी च त्रितस्र च त्रित
स्यापि ॥ ४१ ॥

आद्यन्त उचरपत् और अद्यन्त उचर पद द्विगुस्मास पुल्लिङ्गमें नहीं हैं, किन्तु स्त्रीनपुंसकमें होत हैं अद्यन्त उचरपदका जो अन्त नकार है उसका छप् अर्थात् छोपनी होता है, (आप्-आ-भन्) आद्यन्तात्पदका उदाहरण जैसे त्रिस्रट् यह तिस्र ऋट् समाह्वना त्रिस्रट् त्रिस्र ट्नी मी, अद्यन्तोऽपरपद, जैसे श्रयस्तक्षाणः समाह्वनाङ्कितस्र, त्रिस्रट्नी च तक्षन् शम्दना अत्य नकार छप्त है ॥ ४१ ॥

॥ इति स्त्रीनपुंसकशय ॥

अथ त्रिलिङ्गशेषसम्प्रहः ॥

त्रिषु पात्री पुत्री वाटी पेटी
कुञ्जलदादिमौ ॥

पात्र आत्ति और दाडिम शम्दना त्रिलिङ्ग हैं, पात्र, पात्री पात्र आदि, पुत्री पुत्र पुटं वा पत्र -टी-ट, पुत्र मट्टीका बना इम्मा वा औपथ पकानेका पात्रमे दूध आणिके पीनका पात्र गोमा आत्ति पाटी, वाट -टी-ट रास्ता-ना मार्ग, पेटी वा टा-ट पत्र-टा, फनी-डी, यह

पटारा वा पेटारीका नामहै, कुञ्जल डी-ड उत्स्र क्मञ्च मोती-आदि, दाडिम - मी-म, दाडिम्व वृक्ष वा अनार ॥

इति त्रिलिङ्गशेषसम्प्रहः ॥

परं लिङ्गे स्वप्रधाने द्वन्द्वे
तत्पुरुषपि तत् ॥ ४२ ॥

द्वन्द्वेकत्वका और अन्वयीमात्र समा स्का छिगा पहिछे कह चुके हैं, स्वप्रधाने अर्थात् उभयपद प्रधान इतरेतररूप द्वन्द्व समासमें और तत्पुरुष समासमें भी जो (पर) परपदम्यछिगा है वही छिग होता है तहां द्वन्द्वसमासमें जैसे कुञ्जलमयूर्यादिने, मयूरीकुञ्जलुटा विमौ, तत्पुरुषसमासमें जैसे, धाम्येनार्यो धाम्यार्य, सर्पाद्विीति सर्पमीति सर्पम्य, वाच्यथ, कुलविप्र कुर्वीनधिप्र, पूषकुञ्ज, विप्रकुञ्ज, ब्राह्मणका कुञ्ज, इत्यादि ॥ ४२ ॥

अर्थात्ताः प्राचलमात्तापमपुर्वा
परोपगाः ॥ तद्वितार्यो द्विगु
संख्यासर्वनामसदन्तकाः ॥ ४३ ॥

उक्त तत्पुरुषक छिगका अपवाद कहा है, अर्थ इस पदसे, अयाता अयात् अर्थशम्द है अन्तमें त्रिमफे बे परोपगा, परगानी वाच्यछिग हैं, अर्थ जैसे द्विजायायं द्विजार्थ सूत्र, द्विजायायवायु द्विजाय पय, 'ब्राह्मणाय-र्थो य, 'अर्थेन निष्पत्तासो विराप्यछिगगाधेतिपतप्यम्

यह वार्तिक भी है '(प्राचलप्राप्तापन्नपूर्वा
परोपगा.)' पर विशेष्यको जाते हैं यह
अर्थ है, प्रादि पूर्व जैसे, अतिक्रातो माला-
मतिमालो हारः, अतिक्राता मालामतिमा-
लेयम्, अतिमालमिद, अवक्रुष्टः कोकिल-
या अत्रकोकिलः अलपूर्वपद जैसे, अल
कुमार्यै इत्यलकुमारिरय, अलकुमारिरियम्
अलकुमारि इद, अलब्धजीविक. —का-क,
प्रातर्जीविको द्विजः प्रातर्जीविका स्त्री प्रा
तर्जीविकामिद, इसी प्रकार आपन्नजीवि-
कः, 'तद्वितार्थो द्विगुः' अर्थात् तद्वित अ-
र्थमें द्विगुसज्ञक समास वाच्यलिंग है, पचक-
पालः—ल-ला, पुरोडाशः सख्याशब्द
सर्वनामसज्ञक और तदन्तमी परलिंग
माजी है, सख्या जैसे, एकः पुमान्, एक
कुल, द्वौ पुमासौ, द्वे स्त्रियौ, कुले च 'त्रयः
पुरुषाः तिस्रः स्त्रियः त्रीणि कुलानि, एवं
चत्वारः चतस्रः चत्वारि' षट्सज्ञकोंको
कहते हैं, विंशति आदिकोंका लिंगद्वितीय
काण्डमें कह चुके हैं, और शत आदिकोंका
तौ नपुंसकके सप्रहमें कह चुके हैं, सर्वनाम
जैसे सर्वो देशः सर्वा नदी सर्व जल इसी
प्रकार परः पुमान् 'सख्यान्तक जैसे ऊन-
त्रयः । ऊनतिस्र ऊनत्रीणि' सर्वनामान्त
जैसे परमसर्वः परमसर्वा परमसर्वम् ४३ ॥

बहुव्रीहिरदिङ्नाम्नामुन्नेयंतदु-
दाहतम् ॥ गुणद्रव्यक्रियायोगो-
पाधयः परगामिनः ॥ ४४ ॥

अदिङ्नाम्नाम् अर्थात् दिशावाचक
शब्दसे भिन्न नामवालोंका बहुव्रीहि

समासमें अन्यलिंग होता है इसके उदा-
हरण आपसे आप विचारना चाहिये
जैसे, 'वृद्धा भार्या यस्य स वृद्धभार्यः' बहु-
धन. बहुधना बहुधन अदिङ्नाम्ना ऐसा
क्यों कहा, दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्च दिशो-
रन्तराल दक्षिणपूर्वा गुणयोगसे द्रव्ययो-
गसे और क्रियायोगसे जो उपाधी अर्थात्
विशेषण हैं उसके धर्ममें जो प्रवृत्तशब्द है
वे धर्मोंके लिंगयोग होवें गुणयोगसे जैसे,
शुक्लः पटः—शुक्ला—शुक्ल, गन्धवती पृथ्वी
गन्धवान् अश्मा गन्धवत् कुसुम, द्रव्यके
योगसे जैसे दण्डी दण्डिनी स्त्री,
दण्डि कुल, क्रियायोगसे जैसे याचकः
याचिका याचकम् आदि ॥ ४४ ॥

कृतः कर्तर्यसंज्ञायां कृत्याः कर्त-
रि कर्मणि ॥ अणाद्यन्तास्तेन र-
त्ताद्यर्थे नानार्थभेदकाः ॥ ४५ ॥

असंज्ञामें जहा कर्ता अर्थमें कृत्सज्ञक
प्रत्यय हैं वे वाच्यलिंग हैं जैसे करोतीति
कर्ता पुमान्, कर्त्री स्त्री, कर्तृ कलत्रं
कुर्वन्-ती—त्, असंज्ञायां क्यों कहा प्रजा-
हरिः, कर्तरि क्यों कहा कृतिः, कर्म
अर्थमें और कर्ता अर्थमें वर्तमान कृत्य
प्रत्यय परगामी होते हैं कर्ममें जैसे भव्यः
(तरुः)—व्या—व्य, गन्तव्यः (ग्रामः)—
व्या—व्य, कर्त्तव्या भक्तिः, कर्त्तामें जैसे
वसतीति वास्तव्योऽय वास्तव्या सा
वास्तव्यं तत्, कर्त्तरि कर्मणि क्यों कहा
भाव अर्थमें तो एधितव्य त्वया तेन रक्त

इस इत्यादि अर्थमें अण् आदि तद्धितप्रत्ययान्त और नाना अर्थके कहनेवाले वा अनेकार्थके विशेषभूत विशिष्ट होनेसे वाच्यछिन्ना है जैसे कुसुम्भेन रक्ता शाटी कौसुमी कौसुम्भ पट' कौसुम्भं वास', हेमं-हेमी-म, एन्-न्त्री-न्त्र 'तेन रक्तं रागात्' इससे अण् होता है और रक्ता अर्थे इसके आदि शब्दसमधुराया आगता मायुरोऽयं वा मायुरीयं आदि अणाच्चत्वा इस इत्यादि पदसे प्राप्ते मन्-प्राम्य पुमान्, प्राप्ते मन्वा प्राम्या स्त्री आदि, यद्वा यत् प्रत्यय होता है ॥ ४९ ॥

पदसंज्ञकास्त्रिषु समा युष्मद् स्मृत्तिश्च्ययम् ॥ पर विरोध शेषे तु शेषे स्त्रिष्टप्रयोगतः ॥ ४६ ॥

पदसंज्ञका अयात् पान्त और नान्त संख्या, तथा कतिशब्द मी स्त्रिषु समा वा तीनो छिन्नामें तुल्य होते हैं और निरयही बहुत्व अर्थमें वर्तमान है इस कारणसे बहुवचनान्त है जैसे पठिम, पठिमा, पठिमानि, पठिमांसेतामि, कति पुमांस, कति स्त्रियं, कति कुठानि, युष्मद् और अस्मद् शब्द तथा सिङ्गलपद-और अर्थ्य पञ्चाक्षर शब्द-ये सब त्रिच्छिन्न औरस्मान् न है, युष्मद् शब्द अिस त्वं स्त्री त्वं पुमान् एव कच्छत्रं आत्मद् शब्द जैसे आषा पु मांमौ -आषां क्षिपौ, आगं कच्छत्रं, सिद् धिष्ठे, स्वावी भवति, पटो भवति पात्र

भवति इसी प्रकार दारा मन्तीत्यादि, अन्वय जैसे, उन्वेः दारा उन्वे स्त्री उन्वे कच्छत्रं उन्वेः प्रासाद् इत्यादिपरं वि रोधि क्षिप्रतिपत्तेबाविधियोंके परस्पर क्रिो यमें परछिन्नानुशासन होता है जैसे मानुष-शब्द क-य-ण-म-म-र इस प्रागुक्तविधि से पुंस्त्व ही प्राप्त था, द्वि चत्तु, पट्पद इस उच्यते स्त्रीपुंसविधिक्य निश्चय किया है, जैसे मानुषोऽयं, मानुषीय, शेष जो नहीं कहा गया नाम आदि वह शिष्टमहाक-क्षिप्रयोग और माध्यकार आदिके प्रयोग से जानना चाहिये, पदा अनुक्तशब्दोंके छिन्ना शिष्टप्रयोगसे जानने योग्य हैं, छिन्ना निष्पापक शास्त्र न करना चाहिये क्योंकि छिन्नाज्ञान छोकरा संसारसे जान पड़ता है यह माध्यकारका मत है ॥ ४६ ॥

इति छिन्नादिसप्तदशका ॥ ९ ॥

इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानुशासन ॥ सामान्यकाण्डस्तृतीयं साङ्ग एव समर्थित ॥ ४७ ॥

इसप्रकार अमरसिंहकृत नामलिङ्गानुशासनमें सामान्य तृतीयकाण्डसाङ्गनिरूपण करा ॥ ४७ ॥

इति श्रीमुरादायादवास्तव्यरीडितराग स्वल्पस्तभापाटीकासहित नामलिङ्गानुशासने सामान्यकाण्डस्तृतीय समाप्तः

इत्यमरकोशः संपूर्णः ॥

पुस्तक मिउनेका छिन्ना-अमराज श्रीकृष्णदास,

श्रीरेड्डेभर" एपी-मन्थसव-अपर

* जाहिरात *

कोष-ग्रन्थाः ।



नाम	को०	रू०	आ०
अमरकोश-मूल-छोटे अक्षरका गुटका.	०-४
अमरकोश-सटीक.	१-०
अमरकोश-भाषाटीकासमेत । शब्दानुक्रमणिकासमेत ग्लेज			१-८
” तथा रफ़ कागज	१-६
अनेकार्थध्वनिमंजरी-भाषामे सुगम है.	०-२
भाषीनाममाला-(छद्मबद्ध भाषाकोष) इसको जोधपुर- निवासी रामसनेही साधु भावनदासजी महाराजने विशेष कर अमरकोष तथा हैम-विश्व-व्याडि-धरणि-मेदिनी आदि अनेक कोषोंका सार लेके अपूर्व ग्रन्थ बनाया है । इसमें संस्कृत तथा भाषामें प्रचलित प्रायः समी शब्द आये हैं			१-०
शब्दार्थचिन्तामणि-यह कोषग्रन्थ बहुतही उत्तम और बृहत् है. इसमें अकारादि क्रमसे शब्द लिखे हैं व पुँल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग लिखनेके उत्तर शब्दोंकी व्युत्पत्ति व सिद्धिके लिये पाणिनि व्याकरणके सूत्र तथा शब्दोंके अर्थ व उनके लिये अनेक कोषोंके प्रमाण तथा विशिष्ट शब्दोंमें अनेक ग्रन्थोंसे उदाहरण भी दियेगये हैं, यह ग्रन्थ ४ जिब्द व ३१९३ पृष्ठोंमें है । हरएक विषयके विद्वानोंको अवश्य अपने पास रखने योग्य है	१२-०

काव्य-ग्रन्था ।



नाम

की० प० भा०

अमरुसप्तक-शृङ्गार और वदन्तपर काव्य दो टीकासहित	०-१०
अश्वघाटीकाव्य-मायाटीकासमेत	०-१
ऋतुसंहारकाव्य-काळिदासकृत और चौरकविकृत-घौरप- शाशिकाकाव्य । इसमें पद्मशतवर्णनादि रावकुमार नाम देवर्नदनसिंहकृत छन्दोबद्ध मायाटीका है	०-४
कामाक्षिस्तुतिशतक-मूककविक्रियत	०-४
कालिविहङ्गमन-मायाटीकासमेत । तथा कालिप्रभाव माया टीकासमेत । इसमें-कालिपुत्रप्रभाववर्णन है	०-१
किरातार्जुनीयकाव्य-सटीक । गेब कागजका दाम	१-१९
” तथा रफ कागजका	१-८
कुमारसम्भव-महाकवि काळिदासकृत और मङ्गिनायकृत सैजी कनीटीकासमेत । इसमें-पार्वतीनीकी उत्पत्ति, प्रकान्तीकरी वारकासुरसे क्लेशित देवोंको शिक्षा, मदनदहन, रतिक्रियाप, पार्वतीके तपका उदय, पार्वतीका शिवजीसे विवाह करकेके निमित्त शिववान्के पास सप्तशयियोंको भेजकर विवाहका निश्चय और शिव-पार्वतीनीका विवाह विधिपूर्वक वर्णित है	१-४
कृष्णलीलामृतकाव्य	०-९
कृष्णकर्णामृतकाव्य-(यद्वाही मक्तिमपदे)	०-४
कार्त्तिककण्ठामरण-कार्त्तिकगोपाध्याय कियत । मरोचमीय टीका तथा अमरेशरीय टिप्पणीसहित । इसमें मुजंगप्रयात एकदशक, तोटकरान दशक आदि दस दशक है । और	

नाम

की० रु० आ०

श्रीकृष्ण भगवान्की स्तुतिके साथ २ ऐसी उत्तम कविता है कि पंडितोंका मन मुग्ध होजाताहै ।	०-९
गीतगोविंद-राधाविनोदसमेत-भाषाटीकासहित । इसमें जयदेवगोस्वामिकृत अतिरालत सस्कृतमें रागमय राधाकृष्णकी प्रमथभक्तिके गानेकां चीजें विद्यमान हैं । गानविद्या जाननेवालोंको अवश्य सग्रह करना चाहिये । यह भगवान्को अत्यन्त प्रिय है.	१-०
गीतगोविन्द-मूलमात्र.	०-२
गुरुपीयूषलहरी-गुरुनानकसाहत्रका वर्णन	०-६
घटकपरकाव्य-भाषाटीकासमेत.	०-२
दशकुमारचरित्र-(सस्कृत)	१-८
दशकुमारचरित्र-भाषाटीकासमेत छपरहाहै.	
दृष्टान्तशतक-दोहा-भा० टी० इसके श्लोक दोहोंमें यह विचित्रता है कि पूर्वार्द्धमें दृष्टान्त और उत्तरार्द्धमें दार्ष्टान्त क्रमसे कहेगयेहैं.	०-२॥
नलोदयकाव्य-सटीक-इसमें-महाराजा नल और दमयन्तीका रोचक चरित्र वर्णित है.	०-१२
पद्यमुक्तावली-इसके श्लोकोंके आदिमें क्रमसे स्वर व्यञ्जनोंके अक्षर आते हैं । यद्यपि छोटा है किन्तु देखने योग्य है.	०-१॥
पञ्चतन्त्र-मूलमात्र । विष्णुशर्माकृत नीतिशास्त्र	१-८
पञ्चतन्त्र-विष्णुशर्माकृत और प०ज्वालाप्रसादजीमिश्रकृत सुबोध भाषाटीकासमेत । यह मित्रभेद, मित्रसंप्राप्ति, काकोद्धकीय, लब्धप्रणाश, अपरीक्षितकारक इन पांच तन्त्रोंमें नीतियुक्त सर्वोत्कृष्ट है.	२-०

मर्तुहरिशतक—नीति शृंगार तथा केसव्य भापाटीकासमेत ।

इसके नीतिशतकमें निन्दाप्रशंसा विद्वत्प्रशंसा मानशौर्य-
प्रशंसा, दुर्जननिन्दा, सुजनप्रशंसा धैर्यप्रशंसा, दैवप्रशंसा,
कर्मप्रशंसा और शृंगारशतकमें—पशुवर्णन, दुर्भिरक-
वर्णन, स्त्रीपरित्यागप्रशंसा, यौवनप्रशंसा कामिनिग्रहण,
सुविरक और वैराग्यशतकमें—तृष्णाधिकार, मदनविबंधन,
विषयोक्ता रूपतिरस्कार, दुर्जनपुरुषयोक्ता निन्दा हास्यका वर्णन,
मोगपद्धति, कामनिर्बेदताका स्वरूप इत्यादिका वर्णन देख-
नेही योग्य है

१-०

माकिरत्नावली—श्रीमद्भागवतोद्धृत स्तुतिसंग्रह ..

०-४

मामिनीविलास—१० महाबीरप्रसाद द्विवेदीकृत भापाटीका
सहित । इसमें—प्रसादिकविद्या, शृंगारविद्या, कल्या
विद्या, तथा शान्तविद्यासादि अत्यंत रोचकविषय हैं पण्डि
तोंके देखने योग्य है

१-०

भोजप्रबन्ध—मूल । कविवृत्तकृत । जाका चरित्र
राजनीतिसंबंधी मछी मॉति वर्णित है

०-७

भोजप्रबंध—१० स्वामसुन्दरराज त्रिपाठीकृत भापाटीकासमेत

१-०

भोज और कालिदास—भापाटीकासमेत । राजा भोज और
कालिदासके आत्मचरित्रकी उत्तमोत्तम कथाका संग्रह है

०-१४

भगवद्भगनिषेध—भापाटीकासमेत । इसमें भगवद्भग निन्दाका
खण्डन मछी मॉति किया है

०-२

मारुतिस्वयं—सटीक । जोधपुरनिवासी मिथ्यानन्दशास्त्रीजीने
हनुमान्जीकी लोकेश्वरमहिमाको कथितपद्योंमें वर्णन किया
है । कवितामें यह विचित्रता है कि, पद्योंके आदिके अक्ष

रौमें रामरक्षा स्तोत्र सम्पूर्ण धागया है जो कि विद्वानोंके देखनेही योग्य है । साथही जोधपुर वेदिक पाठशालाके प्रधानाध्यापक पंडित भगवतीलालजीने इसकी ऐसी सरल टीका की है कि, कविता स्पष्ट समझमें आजाती है.	०-५
मूर्खशतक-भाषाटीकासमेत.	०-१
मेघदूतकाव्य-सटीक.	०-६
मेघदूतकाव्य-कालिदासकृत-सान्वय मछिनाथी टीका और भाषाटीकासमेत । इसमें-मेघका वर्णन अवलोकन करने योग्य है.	०-८
रघुवंशमहाकाव्य-कालिदासकृत-मछिनाथकृत सजीवनी टीका और टिप्पणीसमेत । इसमें राजादिलीपसे लेकर लव कुश तथा अग्निवर्णके चरित्रतक १९ सर्ग हैं । इसकी महिमा कौन नहीं जानता ? विद्यार्थियोंको परमोपयोगी है पक्की जिल्द	१-८
”तथा सादी जिल्द	१-४
रघुवंशमहाकाव्य-सटीक तथा रामकृष्णारव्यविलोम-काव्य -सटीक- ये दोनोंका एक गुटका है. महीन अक्षर.	०-१०
रघुवंशमहाकाव्य-विद्यावारिधि प० ज्वालाप्रसादजीभिश्चकृत सान्वय भाषाटीका पदयोजना तात्पर्यार्थ और सरलार्थसहित ग्लेजकागज	३-८
” तथा रफ कागज.....	३-०
रघुवंशमहाकाव्य-(केवल पाच सर्ग) उपरोक्त अलङ्कारोंसे युक्त भाषाटीकासमेत.	१-४
रघुवंशमहाकाव्य-सटीक सर्ग १ से ५ तक.	०-४
रघुवंशमहाकाव्य-सटीक सर्ग ६ से १० तक	०-४

- मर्तुहरिशतक—नीति शृंगार तथा वैराग्य भाषाटीकासमेत ।
 इसके नीतिशतकमें निन्दाप्रशंसा विद्वत्प्रशंसा मानशीर्ष-
 प्रशंसा, दुर्बननिन्दा, सुमनप्रशंसा भैरवप्रशंसा, दैवप्रशंसा,
 कर्मप्रशंसा और शृंगारशतकमें—दुर्बनवर्णन, दुर्बिक-
 वर्णन, स्त्रीपरित्यागप्रशंसा, पौवनप्रशंसा कामिनीप्रहृष्ट,
 सुकिरक और वैराग्यशतकमें—तृष्णाधिकार, मदनविह्वलन,
 विषयोका रूपतिरस्कार, दुर्बनपुरुषोंकी निन्दा हास्यका वर्णन,
 भोगपद्धति, कामनिर्देयताका स्वरूप इत्यादिका वर्णन देख-
 नेही योग्य है १-०
- भक्तिरत्नावली—श्रीमद्भागवतोद्भूत सृष्टिसंग्रह ... ०-४
- भामिनीबिलास—५० महाश्रीप्रसाद त्रिवेदीरचित भाषाटीका
 सहित । इसमें—प्रस्ताविकविद्यास, शृंगारविद्यास, कृष्णा
 विद्यास, तथा शान्तिविद्यासादि अत्यंत रोचकविषय हैं पश्चि
 तोंके देखने योग्य है १-०
- भोजप्रबन्ध—मूल । कविच्छायाछन्द । चाकावरिभ
 राभनीतिसंबंधी मधु मीति वर्णित है ०-७
- भाजप्रबंध—५० श्यामसुन्दरछाछ त्रिपाठीरचित भाषाटीकासमेत १-०
- भोज और कालिदास—भाषाटीकासमेत । राजा भोज और
 कालिदासके आदुर्यकी उत्तमोत्तम कथाका संग्रह है. ०-१४
- भगामंगनिषेध—भाषाटीकासमेत । इसमें मांगकी निन्दाका
 छण्डन मछी मति किया है -२
- मारुतिस्तव—सटीक । ज्योपुरनिवासी नित्यानन्दसाहनीजीने
 हनुमान्जीकी ओक्तेरमहिमाको उचितपद्योंमें वर्णन किया
 है । कविताम यह विधित्रता है कि, पद्योंके आदिके अक्ष-

शृंगारादिनवरसनिरूपण—भापाटीकासमेत । इसमें—शृंगारका		
अतीव चमत्कारी वर्णन है तथा शृंगार, वीर, कृष्णा,		
अद्भुत, हास्य, मयानक, वीभत्स, रौद्रका सूक्ष्म वर्णन और		
शातरसका विस्तारमें वर्णन हैं	०-४
सौन्दर्यलहरी—सटीक । इसमें—देवीकी भक्तिमय स्तुति है....		०-३
हितोपदेश—मूलमात्र । विष्णुशर्मप्रणीत	०-७
हितोपदेश—विष्णुशर्मप्रणीत और स्वर्गीय प० बलदेवप्रसाद		
मिश्रकृत भापाटीकासमेत । इसमें—नीतिसन्धी कथा		
अतिबोधदायक लाभकी रीति इत्यादि वर्णन मल्लीप्रकार		
किया गया है । ऐसा हितोपदेश आजतक कहीं नहीं छपा		१-४

चम्पू-ग्रन्थाः



आनन्दवृन्दावन चम्पू—सटीक	२-८
चृसिंह चम्पू	०-३
भागवतचम्पू—सटिप्पण,	१-८
भार्गवचम्पू—सटिप्पण,	०-८
रघुनाथविजयचम्पू—सटिप्पण,	०-८
रामायणचम्पू	०-१२
श्रीनिवासचम्पू—सटिप्पण,	१-४

संस्कृतनाटक-ग्रन्थाः ।



अभिज्ञानशाकुन्तल—नाटक । महाकविकाळिदासकृत—दुष्यंत		
राजा और कण्वकन्या शकुन्तलाका चरित्र.....	...	१-४

नाम	की० पृ० आ०
राक्षसकाव्य—संस्कृतटीका और मापाटीकासहित	.. ०-२
रामकृष्णविलोमकाव्य—संस्कृतटीकासमेत	०-४
राधाविनोदकाव्य—मापाटीकासमेत	०-२
रमाशुकसवाद—संस्कृत मूळ व प्रथम छोककी कवित्तमें टीका व मापाटीकासमेत । अति मनोरञ्जक काव्य हे ...	०-२
उलितरामचरित्र—काव्यसंगीत	१-०
वसन्तश्रवण—सटीक—संस्कृत । इसमें—वसन्तऋतुका वर्णन बढ़ाही राचक हे	०-३
विद्वन्मोदतरंगिणा काव्य—चिरंजीव महाचार्यरचित गद्यपद्य विभूषित । इसमें—सप्तशास्त्र और सर्व संप्रदायोंका सिद्धान्त दिखायाहै विद्वानोंको अतीवोपयोगीहै. ..	०-४
विद्यासुन्दर और चौरपचाशिका—मापाटीकासहित ...	०-४
शिशुपालवध—(माघकाव्य) मछिनायकृत टीकासहित । इसमें—नारदजीको मगबर्शन, शिशुपालवधार्थ उद्धव बध्दराम तथा धीकृष्णको निर्मथ्रण, द्वारका समुद्रवर्णन और रेवतपर्वतवर्णनादि २० सर्गमें अपूर्ण काम्यहै । विपार्थी छोग पढके इसके द्वारा प्रसंगोपात्त उदाहरण दे सकेहैं.	२-८
शिशुपालवध—(माघकाव्य) पूर्वाध ९ सर्गमें । विपार्थी छोगोके छिये योग्यहै	१-४
श्रीरामगीतगोविन्द—सटीक । पं० जयदेवस्वामीकृत गीत गोविन्दके अनुसार इसमें भी सीतारामकई मखिकी गानेकी अलिखित संस्कृतमें रागमय थीजें बर्णित हे ...	०-८
शृंगारतिलक—मापाटीकासहित । इसमें—शृंगाररसका अपूर्ण वर्णन हे	०-४

फहे जे हु पग आवु । इम कहिने मिश्र गुणठाणावाळे । बांदवाने
 पग उपाडयो ॥ तेहनामां दूनो महा मिथ्यात्मी मिश्र मिथ्यो ॥ तेणे
 पुछ्यु के स्यामणि जाबोठो । तिवारे मिश्र गुणठाणावाळो कहे,
 जे । साधु महा पुरुष ने बांदवा नइये छे ॥ तिवारे महा मिथ्याति
 कहे जे । एहने यदि स्यु थाय । ए तो मेळा वेळा छे ॥ इय कहिने
 मोसवि नास्यो पाछो देठो । तिवारे साधु ज्ञानिने भाषके बादिने
 पुछ्यु जे स्वामि बांदवा पग उपाडयो, तेहने स्यु गुण निपनो ।
 तिवारे ज्ञान गुरु कहे छे । जे वाला ऊड्ड सरिखो इतो ते छटि
 दाळ सरिखो ययो ॥ कृष्ण पक्षी टळिने शुद्ध पक्षी ययो ॥ अनादि
 काळनो उलटो इतो ते सुलटो ययो ॥ समकित्त सद्गुण ययो पम
 पग भरषा समरव नहि ॥ तिवारे गौतम स्वामि हाय जोडी मान
 मोडी बदणा नमस्कार करिने पूजता हुना । स्वादीनाय ते जीवने
 स्यु गुण निपनो ॥ तिवारे भी भगवत कहे छे ॥ ते जीव चार गति
 (२४) दृढकर्मा यमीने पिण देश संणो अर्द्ध पुहळ परापर्वनमां
 चळटो ससारनो पार पायशे ॥ ३ ॥ चोयो अत्रिरिति सम्यक्त्वदृष्टि
 गुणठाणु तेहना स्यु लक्षण ॥ सात प्रकृतीने सपोष समावे । अन
 ताजुबधी श्लेष (१) मान (२) माया (३) लोभ (४) सम्यक्त्व मोहनीय
 (५) मिथ्यात्व मोहनीय (६) मिश्र मोहनीय (७) ए सात प्रकृतीने
 काईक उदय आवे ॥ तेहने सय कर ॥ अने सत्तामा दळ छे तहने
 उपसमावे तेहने सपोषसम सम्पत्तय कहिये ॥ ते सम्पत्तय असस्पाठी
 चार आवे ॥ अने सात प्रकृतीना दळने सर्वथा उपसमावे हाके
 तेहने उपसम सम्पत्तय कहिये ॥ ते समकित्त पांचवार आवे । अने
 सात प्रकृतीना दळने सय या सय करे । तिवारे सायक समकित्त कहिये ॥ ते
 समकित्त एकर आवे ॥ चोवे गुणठाणे आभ्यो यको जीवाधिक पदार्थ
 द्रव्य यकी (१) श्लेष यकी (२) फाळ यकी (३) माय यकी (४) ननकार

सियादि ॥ छे मासी तप जाणे सरदेह परूपे पण फरशी सके नही ॥
 तिवारे गौतम स्वामी हाथ जोडी मान मोडी श्री भगवंतने पूछता
 हुवा ॥ स्वामिनाथ ते जीवने स्युं गुण निपनो ॥ तिवारे श्री भगवंत
 कहे छे । हे गौतम ते जीव समकित व्यवहारपणे शुद्ध प्रवर्ततो
 थको जघन्य तीजे भवे मोक्ष जाय ॥ उत्कृष्टो पंधरे भवे मोक्ष जाय ॥
 वेदक समकित एकवार आवे एक समयनी स्थिति छे । पूर्वे जो आ-
 युष्यनो बंध न पडयो होय तो ॥

॥ हिवे ये सात बोलामां बंध पाडे नही ते कहे छे ॥

नरकनो आयुष्य (१) भवनपनीनो आयुष्य (२) वाणव्यंतरने
 आयुष्य (३) ज्योतिषीनो आयुष्य (४) तिर्यचनो आयुष्य (५) स्त्रा
 वेदनो आयुष्य (६) नपुंसक वेदनो आयुष्य (७) ए सात बोलामां
 आयुष्यनो बंध पाडे नही ते जीव समकितना आठ आचार अराधी
 चतुर्विध संघनी परम हर्षसे भक्ती करतो थको जघन्य पहिले देव-
 लोके उपजे ॥ उत्कृष्ट वारमे देवलोके उपजे । पन्नवणानी सारखे ॥
 पूर्ण करमने उदे करी व्रत पन्नखाण करी न सके । पण अनेक व-
 र्पनी श्रमणोपासकनी प्रवर्जा पालक कहिये ॥ दशाश्रुतस्कंधे श्रावक
 कहा छे ते माटे ॥ दरशन श्रावकने अवीरीय समदीठी कहिये ॥४॥

हिवे पांचमुं देशविरति गुणठाणुं तेहना स्युं लक्षण ॥ इग्यारे
 प्रकृतीने क्षयोप समावे ॥ सात तो पूर्व कही ते ॥ अने प्रत्याख्यानी
 क्रोध (८) मान (९) माया (१०) लोभ (११) एवं इग्यारे प्रकृतीने
 क्षय करे तेहने क्षायक समकित कहिये ॥ अने इग्यारे प्रकृतीने कां-
 ईक वांके कांईक क्षय करे तेहने क्षयोपसम समकित कहिये ॥ पां-
 चमे गुणठाणे आव्यो थको जीवादिक पदार्थ द्रव्यथी क्षेत्रथि कालथि
 भावथि नोकारसी आदि देइने छै मासी तप जाणे सरदेह परूपे

शक्ति प्रमाणें फरसे ॥ एक पक्षस्वाणयि मांडिने १० घत ॥ ११
 भाषकनी पढिमां आदरे जावत् सखेस्वणा सुत्रि अनशन करि आगधे ।
 तिवारे गौतम स्वामी हाय जाही मान मोडी भी भगवतने पूछता
 हुवा । ते जीवने स्यु गुण निपनो । तिवारे भी भगवते बसु ॥ ज-
 घन्य तिजे भवे मोक्ष जाय ॥ उत्कृष्टा १५ भवे मोक्ष जाय ॥ ज-
 न्य पढिछे देवलोके उपजे ॥ उत्कृष्टा १० मे देवलोके उपजे । तेने
 साधुना व्रतनि अपक्षाये देशभिरति कहिये ॥ पण परिणामधि अत्र
 तनी क्रिया चतरी गई छे ॥ अत्य इच्छा ॥ अत्य आरम ॥ अत्य परि
 ग्रही ॥ सुशील ॥ सुवति ॥ धर्मिष्ठ ॥ धर्मवति ॥ कल्प उग्रविहारी ।
 महा सवग विहारी ॥ उदासी ॥ बैराग्यवत ॥ एकांतआर्य ॥ सम्य
 गुमार्गी ॥ सुसाधु । सुपात्र ॥ उत्तम । क्रियावादि । आस्तिक्य ।
 आराधक । जैनमार्ग प्रभाषक ॥ अरिहंतना शिष्य वर्ष्य्या छे । गी-
 तार्थ जाणे छे ॥ सिद्धांतनि शाख छे । आयकपणु । एक भवमां
 प्रत्येक हजारवार आष ॥ ५ ॥

द्विजे छठु प्रमत्त सभति गुणठाणु तहनु स्यु लक्षण ॥ १५ म
 कृतिने क्षयोपशमावे ते ११ प्रकृति पूर्वे कहि ते अने पक्षस्वाणात्-
 रणीय काष ॥ १ ॥ मान ॥ २ ॥ माया ॥ ३ ॥ स्वोय ॥ ४ ॥ एष
 १५ प्रकृतिने क्षय करे तो १ क्षायिक समक्षित फरिये ॥ अने १५ प्र-
 कृतिने हांके तो उपशम समक्षित फरिये ॥ अने कांइ हांके मे कांइ,
 क्षय करे ता क्षयापशम समक्षित फरिये ॥ तिवारे गौतम स्वामी हाय
 जोडी मान मोडी भी भगवतने पूछता हुवा । ते जीवने स्यु गुण
 निपनो । तिवारे भी भगवते बसु जे ॥ ते नीच द्रव्ययि क्षेमधि का-
 ष्यधि भाषयि जीवादिफ नव पदार्थने तथा नोमारसी आदि छे मासि
 तप जाणे—सरदहे—परूप—फरसे ॥ साधुपणु एक भवमां नबसें बार
 आव । त नीच जघन्य तिजे भवे मोक्ष जाय ॥ उत्कृष्टा १० भवे

मोक्ष जाय ॥ आराधक जीव । जघन्य पहिले देवलोके उपजे । उ-
त्कृष्टा अनुत्तर विमाने उपजे ॥ १७ भेदे संजम निर्मल पाले ॥ १२
भेदे तपस्या करे पण जोग चपल । कपाय चपल । वचन चपल । दृष्टि
चपलताना अंश ले । तेणे करिने यद्यपि उत्तम अप्रमादि थका रहे छे ।
तोपण प्रमाद रहे छे माटे प्रमादपणे करि ॥ तथा कृष्णादिकु लेशा ॥
अशुभ जोग ॥ क्रोडक काले प्रणति प्रणमे छे माटे ॥ कपाय प्रकृष्ट
मत्त थड जाय छे ॥ तेहने प्रमत्त संजति गुणठाणुं कहिये ॥ ६ ॥

सातमुं अप्रमत्त संजति गुणठाणुं तेहनुं स्युं लक्षण ॥ पांच प्रमाद
छांडे । तिवारे सातमे गुणठाणे आवे । ते ॥ ५ ॥ प्रमादना नाम
॥ गाया ॥ मद् विसय कसाया । निर्द्वा विगहा पंचमा भणिया ।
एए पंच पमाया । जीवा पंडति संसारे ॥ १ ॥

ए ५ प्रमाद छांडे अने १६ प्रकृतिनें उपशमावे ॥ १५ ॥ प्रकृति
पूर्वे कहि ते अने सजलनो क्रोध । एवं १६ प्रकृतिनें क्षयोपशमावे ॥
तेहने स्युं गुण निपनो ॥ ते जीव जीवादि पदार्थ द्रव्यधि क्षेत्रधि
कालधि भावधि तथा नोकार्गलि आदि देखेने छे मासी तप ध्यान
जुगतपणे जाणे—सरदहे—परूपे—फरसे ॥ ते जीव जघन्य । तेज भवे
मोक्ष जाय ॥ उत्कृष्टो तिजे भवे मोक्ष जाय ॥ गति तो प्राये कल्पा-
तीतनी थाय ॥ ध्यानने विपे ॥ अनुष्ठानने विपे । अप्रमत्त उद्भूत
थका रहे छे । तथा शुभ लेश्यापणेज करिने नधि प्रमत्त कपाय
जेहने तेहने अप्रमत्त संजति गुणठाणुं कहिये ॥ ७ ॥

आठमुं नियदि वादर गुणठाणुं तेहनुं स्युं लक्षण ॥ १७ प्रकृतिने
क्षयोपशमावे ॥ १६ ॥ पूर्वे कहि ते अने संजलनो मान । ए ॥ १७ ॥
प्रकृतिने क्षयोपशमावे । तिवारे गौतमस्वामी । हाथ जोडी मानमोडी ।
श्री भगवंतने पूछता हुवा । स्वामीनाथ ते जीवने स्युं गुण निपनो ।

તિવારે શ્રી મગવતે કમ્બુ ॥ પરિણામધારા । અપૂર્વ કરણ ॥ જે
 કોઈ કાલે જીવને કોઈ દિને આચ્યુ નયિ । તે શ્રેણી યુગત
 જીવાદિક પદાર્થ । દ્રવ્યયિ । ક્ષેત્રયિ । કાલયિ । માવયિ । નો-
 કારસી આદિ વેદ છે માસી તપ જાણે-સરવહે-પરુપે-કરસે । તે
 જીવ । જઘન્ય । દેજ મથે મોક્ષ જાય ॥ વત્કૃષ્ટા તિજે મથે મોષ
 જાય । શ્વાયિ શ્રેણિ ૨ કરે । વપશ્ચમ શ્રેણિ ॥ ૧ ॥ ને સપક શ્રેણિ
 ॥ ૨ ॥ વપશ્ચમશ્રેણિવાલો જીવ તે મોહનીય કર્મનિ પ્રકૃતિના લલને
 વપશ્ચમાથે તો ઇગ્યારમા ગુણઠાણા મુખિ જાય ॥ પદ્ધિવાદ પળ યાય ।
 હાયમાન પરિણામ પળ પરિણમ ॥ અને સપક શ્રેણિવાલો જીવ તે
 મોહનીય કર્મનિ પ્રકૃતિના લલને સ્વપામતો શુદ્ધ મૂલમાયિ નિર્મલ
 કરતો । નવમે દશમ ગુણઠાણે યજ્ઞને મારમે ગુણઠાણે જાય । અપદ્ધિ
 વાદજ હોય । વર્દ્ધમાન પરિણામ પરિણમ । દ્વિષ નિયદ્ધિ વાદરનો
 અર્થ તે નિષ્વર્ત્યો છે વાદર કપાયયિ । વાદર સપરાય ક્રિયાયિ ।
 શ્રેણિકૃત્વે । અમ્યતર પરિણામે । અપ્યવસાય સ્થિરયતે વાદર વપશ્ચ-
 તાયિ નિર્વૃત્યો છે । માત્ર નિયદ્ધિ વાદર ગુણઠાણુ કહિયે । તથા દુષ્ટ
 નામ । અપૂર્વ કરણ ગુણ ઠાણુ પળ કહિયે ॥ સ્યા માટે જે ॥ કોઈ
 કાલે જીવે પૂર્વે શ્રેણિ કરિ નહતિ । અને ૫ ગુણઠાણે પરિલુજ ક
 રણ સ ॥ પદ્ધિત શીર્યન્તુ આચરણ સયકરણ સ્વ કરણ પરિણામ ધાર ।
 વર્દ્ધનરુપ શ્રેણિ કરે ॥ તેહને અપૂર્વ કરણ ગુણઠાણુ કહિયે ॥ ૮ ॥

દ્વિવે નવમ્ અનિયદ્ધિ વાદર ગુણઠાણુ તેહનુ સ્યું ભક્ષણ ॥ ૫૬
 વિદ્મ પ્રકૃતિને સયોપગમાથે સ ॥ ૧૭ પ્રકૃતિ પૂર્વે કદિ તે અને સં
 જન્નિ માયા ॥ ૧ ॥ શ્રી વદ ॥ ૨ ॥ પુસ્ત્ર વેદ ॥ ૩ ॥ નપુત્રક
 વેદ ॥ ૪ ॥ ૫ ॥ ૨૧ ॥ પ્રકૃતિને સયોપગમાય ॥ તિ
 વારે ગોત્રમ મ્વામી હાય જાદી માન માત્રી શ્રી મગવંતને પુષ

ता हुवा । स्वामिनाथ ते जीवने स्युं गुण निपनो ॥ तिवारे भग-
वते बहू । ते जीव जीवादिक पदार्थ तथा नोकारसी आदि देईने
छमासी तप ॥ द्रव्यथि क्षेत्रथि कालथि भावथि निर्विकार अमायी ॥
विषय निरवंछापणे । जाणे सरदहे परूपे फरसे ते जीव ॥ जघन्य
तेज भवे मोक्ष जाय । उत्कृष्टा तीजे भवे मोक्ष जाय ॥ हवे अनियष्टि
वादर ते । सर्वथा प्रकारे निवर्त्यो नथि अंश मात्र हजि वादर संप-
राय क्रिया रहि छे माटे अनियष्टि वादर गुणठाणुं कहिये ॥ तथा
आठमा नवमा गुणठाणाना शब्दार्थ घणा गंभीर छे ॥ ते अन्य पंच
संग्रहादिक ग्रंथ तथा सिद्धांतथि समजवा ॥ ९ ॥ दशसुं सूक्ष्म संपराय
गुणठाणुं तेहनुं स्युं लक्षण ॥ २७ ॥ प्रकृतिने क्षयोप समावे ॥ २१ ॥
प्रकृति पूर्वे कहि ते । अने । हास्य ॥ १ ॥ रति ॥ २ ॥ अरति
॥ ३ ॥ भय ॥ ४ ॥ शोक ॥ ५ ॥ दुगंछा ॥ ६ ॥ एवं ॥ २७ ॥
प्रकृतिने क्षयोप समावे ॥ तिवारे गौतम स्वामी हाथ जोडी मानमोडी ॥
श्री भगवंतने पूछता हुवा । स्वामिनाथ ते जीवने स्युं गुण निपनो ।
तिवारे भगवंते बहू । ते जीव ॥ द्रव्यथि क्षेत्रथि कालथि भावथि
जीवादिक पदार्थ तथा नोकारसी आदी देईने छेमासी तप निरभि-
लाप निर्वच्छक निर्वेदकतापणे निराशी अव्यामोह अविभ्रमपणे जाणे
सरदहे परूपे फरसे ते जीव । जघन्य तेज भवे मोक्ष जाय । उत्कृष्टा
तीजे भवे मोक्ष जाय ॥ सूक्ष्म थोडिक लगारेक पातलीसी संपराय
क्रिया रहि छे तेहने सूक्ष्म संपराय गुणठाणुं कहिये ॥ १० ॥

इग्यारसुं उपशांत मोह गुणठाणुं तेहनुं स्युं लक्षण ॥ २८ ॥
प्रकृतिने उपशमावे ते २७ प्रकृति पूर्वे कही ते । अने संज-
लनो लोभ ॥ १ ॥ एवं ॥ २८ ॥ मोहनीय कर्मनि प्रकृतिने
उपशमावे-सर्वथा ढांके । भस्म भारि प्रच्छन्न अग्निवत् । तिवारे
गौतमस्वामी हाथ जोडी मान मोडी श्री भगवंतने पूछता हुवा ।

स्वामिनाय ते जीवने स्यु गुण निपनो । तिवारे धी मगवते बहू ।
 ते नीच जीवादिषु पदार्थं ब्रह्मयि ह्येषु कालयि माषयि नोक्षरसी
 आदि देहने छ मासी तप वीतराग भाषे जयाख्यात चारित्र्ये ॥
 जाणे-सरदहे-परुषे-करसे । पदार्थमां जो फाल करे तो । अनुत्तर
 धीमानमां जाय पठि मनुष्य यह मोक्ष जाय । अने जो सूक्ष्म लोभनो
 चक्षु थाय तो कृपाय अग्नि मकटे पठि पढे दक्षमायि पढे तो पहिला
 गुणठाणा सुधि जाय । पण इग्यारमैयी चडभू तो नयि । उपशान्त
 से उपशम्यो छे मोह सर्वथा अछ करि अग्नि ओलभ्यानिपरे टाखी
 नही बांनरो छे माटे उपशान्त मोह गुणठाणु कहिये ॥ ११ ॥ बाखु
 क्षीणमोह गुणठाणु तेहनु स्य लक्षण जे ॥ २८ ॥ मकृतिने सर्वथा
 स्वभावे । क्षयक भेषि । क्षयकभाष । क्षयक सम्पत्ति ॥ क्षयक
 जयाख्यात चारित्र्य ॥ करणसत्य । जोग सत्य । भावसत्य अमासी
 अकपायी वीतरागी । भाव निर्द्वेष । सपूर्ण समुद्र ॥ सपूर्ण भाविता
 त्मा ॥ महा तपस्वी । महा सुशिक्ष । अमाही । अविक्षारी । महाहानी
 ॥ महाध्यानी ॥ वर्द्धमान परिणामी । अपद्विषा यह अतर्मुहुर्त्त रहे ।
 ए गुणठाणे काल करवा नयि । पुनर्मव छे नहि । छहछे समये पांच
 ज्ञानावरणिय ॥ नव दर्शनवरणिय ॥ पच विष अतराय क्षयकर
 णोषमकरि ॥ तेरमा गुणठाजाने पहिले समये तय करि । केवल
 व्योति मकटे माटे क्षीण ते क्षय कर्यो छे मोह सर्वथा जे गुणठाणे
 तेहने क्षीण मोह गुणठाणु कहिये ॥ १२ ॥

तेरमुं समोगि केषलि गुणठाणु तेहनुं स्मु लक्षण । दश बोध
 सहित तेरमे गुणठाणे विश्वरे ॥ समोगी ॥ १ ॥ सञ्जरिरी ॥ २ ॥ सञ्जेरी
 ॥ ३ ॥ शुक्ल छेदी ॥ ४ ॥ जयाख्यात चारित्र्य ॥ ५ ॥ क्षयक
 सम्पत्ति ॥ ६ ॥ पठित पीय ॥ ७ ॥ शुक्लध्यान ॥ ८ ॥ केषल
 ज्ञान ॥ ९ ॥ केषलदर्शन ॥ १० ॥ ए ॥ १० ॥ बोध सहित ॥

जघन्य । अंतर्हृत् । उत्कृष्टा देशे उणी पूर्व कोडि सुधि ॥ विचरे
घणा जीवने तारि प्रतिबोधि निहाल करीने ॥ दूजा तिजा शुक्ल
ध्यानना पायाने ध्याइने चउदमे गुणठाणे जाय ॥ सजोगी ते शुभ
मन वचन कायाना जोग सहित छे वाहाज्यचलोप कण छे । गम-
नागमनादिक चेष्टा शुभसहित छे । केवल ज्ञान केवल दर्शन । उप-
योग समयांतर । अविच्छिन्नपणे शुद्ध प्रणमे माटे सजोगि केवलि
गुणठाणुं कहिये ॥ १३ ॥

द्विवे चउदमुं अजोगि केवलि गुणठाणुं तेहनुं स्यु लक्षण ॥ शुक्ल
ध्याननो चोथो पायो समुच्छिन्न क्रिय अनंतर अप्रतिपाती । अनिवृति
ध्याता मन जोग रुंधि वचन जोग रुंधि कायजोग रुंधि आन प्राण-
निरोध करि रूपातीत परम शुक्लध्यान ध्याता ॥ ७ ॥ बोल सहित
विचरे । तेरमे ॥ १० बोल कहा तेहमांथि । सजोगी ॥ १ ॥ सलेशी
॥ २ ॥ शुक्ललेशी ॥ ३ ॥ ए ३ वर्जीने शेष ॥ ७ बोल सहित
सकल गिरीनो राजा मेरु तेहनिपरे । अडोल । अचल । स्थिर अवस्थाने
पामे शैलेशी पणे रहि पंच लघु अक्षर उच्चार प्रमाण काल रहि ॥ शेष
वेदनीय ॥ १ ॥ आयुष ॥ २ ॥ नाम ॥ ३ ॥ गोत्र ॥ ४ ॥ ए ॥ ४ ॥
कर्म क्षीण करिने मुक्तिपद पामे ॥ शरिर उदारिक । तेजस कार्मण ।
सर्वथा छांडिने समश्रेणि ऋजुगति अन्य आकाश प्रदेशानावगाह
तो अणफर सतो । एक समय मात्रमां । उर्द्ध गति । अ-
विग्रह गतिये तिहां जाय । एरंडबीज बंधन मुक्तवत् । निर्लेप
तुंबिवत् । कोदंड मुक्त वाणवत् ॥ इंधनवन्धि मुक्त धूम्रवत् । तिहां
सिद्धक्षेत्रे जे साकारोपयोगे सिद्ध थाय । बुद्ध थाय ॥ पारांगत
थाय । परंपरगत थाय । सकल कार्य अर्थ साधि ॥ कृतकृतार्थ ।
निष्ठितार्थ । अतुल सुखसागर निर्मग्न ॥ सादि अनंत भागे सिद्ध

थाय ॥ ए सिद्ध पदनो भाष स्मरण ॥ चिंतन मनन कदा काले गृहने
 होशे । सो घट्टि पल धन्य सफल होशे ॥ इवे अजोगी ते । भोग
 रहित केवल सहित विचरे ॥ तेहने अजोगी केवली गुणठाणु
 करिये ॥ १४ ॥

॥ इति लक्षण गुणद्वार ॥ २ ॥

इवे स्थिति द्वार कहे छे ॥ पहिल्या गुणठाणानि स्थिति ३
 मकरनि छे ॥ अणादिया अपञ्चवसिया ते जे मिथ्यात्वनि आदि
 नयि ने अत पण नयि ते अमन्य जीवना मिथ्यात्व आधि ॥ १ ॥
 अणादिया सपञ्चवसिया ते जे मिथ्यात्वनि आदि नयि पण अत छ
 ते मन्य जीवना मिथ्यात्व आधि ॥ २ ॥ सादिया सपञ्चवसिया ते
 जे मिथ्यात्वनि आदि पण छे ने अत पण छे ते पहिबाइ समविठिना
 मिथ्यात्व आधि ॥ तेहनी स्थिति जयन्य अतर्मुहूर्ध ॥ उत्कृष्टा अर्द्ध
 पुद्गल परावर्चन देशे उणी पठि अवश्य सपकित पाभिने योस जाय ॥
 ॥ ३ ॥ १ ॥ द्वा गुणठाणानि स्थिति । जयन्य ॥ १ समय ।
 उत्कृष्टा ६ आवलिकान ७ समयनि ॥ २ ॥ तिजा गुणठाणानि स्थिति ॥
 जयन्य उत्कृष्टा अतर्मुहूर्धनी ॥ ३ ॥ चोया गुणठाणानि स्थिति जयन्य ।
 अतमुहूर्ध । उत्कृष्टा ॥ ६६ सागरापम द्वापतरानि ते २ सागरापमनि
 स्थितिये ३ पार वारमे देबलोके उपजे । त्रिण पूर्व कोटि अधिक
 मनुष्यना भव आधि जाणवि ॥ तथा वेवार अनुसर विमानमां ३३
 सागरापमनि स्थितिये उपजे ॥ ३३ दु छासट सागरापममे पूर्वकोटि
 ३ अधिक मनुष्यना भव आधि जाणवि ॥ ४ ॥ पांचमा छठा तरमा
 गुणठाणानि स्थिति जयन्य अतर्मुहूर्धनी उत्कृष्टी दशे उणि ते साहा
 आठ वर्षे उणि पूर्व कोटिनि ॥ सातमाधि ते इग्यारमा गुणठाणा सुधि
 जयन्य ॥ १ समयनी ॥ उत्कृष्टा अंत । पारमा गुणठाणानि । स्थिति
 जयन्य । उत्कृष्टा । अंतर्मुहूर्धनि ॥ चतुदमा गुणठाणानि स्थिति पांच

ह्रस्व अक्षर । अ । ई । उ । ऋ । लृ । वोल्वा प्रमाणे जाणवि ।

॥ इति तिजो स्थितिद्वार समाप्त ॥ ३ ॥

हिवे चौथो क्रियाद्वार कहे छे । पहिलेने तिजे गुणठाणे ॥
 ॥ २४ ॥ क्रिया लाभे । इरियावहिया क्रिया वर्जिने ॥ दूजे । चौथे
 गुणठाणे ॥ २३ ॥ क्रिया लाभे इरियावहिया ॥ १ ॥ ने मिथ्यात्वनि
 ॥ २ ॥ ए ॥ २ ॥ वर्जिने ॥ पांचमे गुणठाणे ॥ २२ क्रिया लाभे
 मिथ्यात्व ॥ १ ॥ अविरति ॥ २ ॥ इरियावहिया ॥ ३ ॥ ए ॥ ३ ॥
 वर्जिने ॥ छठे गुणठाणे ॥ २ ॥ क्रिया । आरंभिया ॥ १ ॥ माया-
 वत्तिया ॥ २ ॥ ए ॥ २ ॥ लाभे । सातमे गुणठाणेथि ते दशमा
 गुणठाणा सुधि ॥ १ ॥ मायानत्तिया क्रिया लाभे ॥ इग्यारमे वारमे
 तेरमे गुणठाणे ॥ १ ॥ इरियावहिया क्रिया लाभे । चउदमे गुणठाणे
 कोइ क्रिया लाभे नही ॥

॥ इति क्रिया द्वार ॥ ४ ॥

हिवे पांचमो सत्ताद्वार कहे छे ॥ पहिला गुणठाणाथि ते इग्या-
 रमा गुणठाणा सुधि । आठ कर्मनि सत्ता । वारमे ॥ ७ ॥ कर्मनि
 सत्ता १ मोहनिय कर्म वर्जिने ॥ तेरमे चउदमे गुणठाणे ॥ ४ ॥
 कर्मनि सत्ता । वेदनीय ॥ १ ॥ आयुष ॥ २ ॥ नाम ॥ ३ ॥ गोत्र ॥ ४ ॥

॥ इति सत्ताद्वार ॥ ५ ॥

हिवे छठो बंधद्वार कहे छे ॥ पहिला गुणठाणाथि ते सातमा
 गुणठाणा सुधि तिजुं गुणठाणुं वर्जिने ॥ ८ कर्म बांधे । अने जो ॥
 ७ बांधे तो आयुष वर्जिने । तिजे आठमे नवमे गुणठाणे ॥ ७ ॥
 सात कर्म बांधे आयुष वर्जिने ॥ दशमे गुणठाणे ॥ ६ कर्म बांधे ।
 आयुष ॥ १ ॥ ने मोहनीय ॥ ए ॥ २ ॥ वर्जिने ॥ इग्यारमे वारमे

तेरमे गुण्ठाणे ॥ १ ॥ सात्ता वेदनीय बान्ने ॥ चव्दम गुण-
ठाणे । अर्षध ॥

॥ इति षषदार ॥ ६ ॥

द्विषे ॥ ७ मो वेद ने ॥ ८ मो उदयदार भेल्लो कहे छे ॥
पहिला गुण्ठाणाधि ते दक्षमा गुण्ठाणा सुधि ॥ ८ कर्म वेदे ने ॥
८ नो उदय इग्यारमे बारमे ॥ ७ कर्म वेदे ने ॥ ७ नो उदय मोह
नीय बर्जिने ॥ तेरमे चव्दम ॥ ६ कर्म वेदे ने ॥ ६ नो उदय ॥
वेदनीय ॥ १ ॥ आयुप ॥ २ ॥ नाम ॥ ३ ॥ गोत्र ॥ ४ ॥

इति ॥ ७ मो वेद ने ८ मो उदय द्वार समाप्त ॥ ७ ॥ ८ ॥

इमे नबमो उदीरणाद्वार कहे छे—पहिला गुण्ठाणाधि मांदिने
॥ ७ मा गुण्ठाणा सुधि ॥ ८ कर्मनि उदीरणा । तथा ७ नी करे तो
आयुप बर्जिने ॥ आठमे नबमे गुण्ठाणे ॥ ७ कर्मनि उदीरणा ते
आयुप बर्जिने । तथा ६ नि करे तो । आयुप ॥ १ ॥ मोहनीय ॥ २ ॥
ए ॥ २ ॥ बर्जिने । दक्षमे ॥ ६ नि उदीरणा करे ॥ आयुप ॥ १ ॥
मोहनीय ॥ २ ॥ ए ॥ २ ॥ बर्जिने । अमे ६ नि करे तो ॥ आयुप ॥ १ ॥
मोहनीय ॥ २ ॥ वेदनीय ॥ ३ ॥ ए ३ बर्जिने ॥ इग्यारम बारमे
६ नि उदीरणा । आयुप ॥ १ ॥ मोहनीय ॥ २ ॥ वेदनीय ॥ ३ ॥
ए ॥ ३ ॥ बर्जिने । तथा २ नि कर तो । नाम ॥ ३ ॥ गोत्र ॥ २ ॥
ए २ नि ॥ तेरमे गुण्ठाणे ॥ २ कर्मनि उदीरणा ॥ नाम
॥ १ ॥ गोत्र ॥ २ ॥ ए २ नि ॥ चव्दमे गुण्ठाणे उदीरणा
करे नही ॥

॥ इति उदीरणा द्वार ॥ ९ ॥

हिवे दसमो निर्जराद्वार कहे छे ॥ पहिलाथि ते ११ मा गुण-
ठाणा सुधि ॥ ८ ॥ कर्मनि निर्जरा ॥ वारमे ॥ ७ कर्मनि निर्जरा
मोहनीय वर्जिने ॥ तेरमे चउदमे ४ कर्मनि निर्जरा । वेदनीय ॥ १ ॥
आयुष ॥ २ ॥ नाम ॥ ३ ॥ गोत्र ॥ ४ ॥ ए ४ नि ॥

॥ इति निर्जराद्वार ॥ १० ॥

हिवे इग्यारमो भावद्वार कहे छे ॥ उदयभाव ॥ १ ॥ उपशम
भाव ॥ २ ॥ क्षायक भाव ॥ ३ ॥ क्षयोपशम भाव ॥ ४ ॥ परिणा-
मिक भाव ॥ ५ ॥ संनिवाइ भाव ॥ ६ ॥ पहिले ने तिजे गुणठाणे
॥ ३ भाव । उदय ॥ १ ॥ क्षयोपशम ॥ २ ॥ पारिणामिक ॥ ३ ॥
दुजे गुणठाणे चौथे गुणठाणे पांचमे गुणठाणे छठे गुणठाणे सातमे
गुणठाणे आठमेथि ते इग्यारमा गुणठाणा सुधि उपशम श्रेणीवालाने
॥ ४ भाव उदय ॥ १ ॥ उपशम ॥ २ ॥, क्षयोपशम ॥ ३ ॥ पार-
णामिक ॥ ४ ॥ तथा कोइक उपशमने ठेकाणे क्षायक पण कहे छे ॥
अने ८ मांथि मांढिने वारमा सुधि क्षयक श्रेणीवालाने ॥ ४ भाव
उदय ॥ १ ॥ क्षयोपशम ॥ २ ॥ क्षायक ॥ ३ ॥ पारिणामिक ॥ ४ ॥
तेरमे चउदमे गुणठाणे ॥ ३ भाव उदय ॥ १ ॥ क्षायक ॥ २ ॥
पारिणामिक ॥ ३ ॥ सिद्धमां ॥ २ भाव । क्षायक ॥ १ ॥
। पारिणामिक ॥ २ ॥

॥ इति भावद्वार ॥ ११ ॥

हिवे वारमो कारण द्वार कहे छे ॥ कारण ॥ ५ कर्म बंधना
॥ मिथ्यात्व ॥ १ ॥ अविरति ॥ २ ॥ प्रमाद ॥ ३ ॥ कषाय ॥
॥ ४ ॥ जोग ॥ ५ ॥ पहिले । तिजे गुणठाणे ॥ ५ कारण लाभे ॥
दूजे चौथे ॥ ४ कारण लाभे ॥ मिथ्यात्व वर्जिने । पांचमे छठे
गुणठाणे ॥ ३ कारण लाभे ॥ मिथ्यात्व ॥ १ ॥ अविरति ॥ २ ॥
ए ॥ २ वर्जिने ॥ सातमेथि ते दशमा गुणठाणा सुधि ॥ २ कारण ।

सामे ॥ कपाय ॥ १ ॥ भोग ॥ २ ॥ ए २ सामे ॥ इग्यारमे
वारमे तेरमे १ कारण सामे ते ॥ भोग १ ॥ चउदमे कोइ
कारण नयि ॥

॥ इति कारणद्वार ॥ १२ ॥

दिवे तेरमो परिसहद्वार कहे छे ॥ पहिलायि ते घोया गुण-
ठाणा सुधि यद्यपि परिसह २२ सामे पण दुख रूप छे । निर्मल
रूप प्रणमे नही ॥ पांचमायि ते नवमा गुणठाणा सुधि २२ परिसह
सामे ॥ एक समये २० वेदे । टाढनो तिहां तापनो नहि तापनो
तिहां टाढनो नही ॥ चासबानो तिहां बेसबानो नही ॥ बेसबानो
तिहां चासबानो नहि ॥ दशमे इग्यारमे वारमे ॥ १४ परिसह सामे ॥
आठ छे मोहनीय कर्मने उदये हता ते वज्या ॥ ते कहे छे ॥
अचेसनो ॥ १ ॥ अरतिनो ॥ २ ॥ स्त्रीनो ॥ ३ ॥ बेसयानो
॥ ४ ॥ आकोसनो ॥ ५ ॥ मेलनो ॥ ६ ॥ सत्कार पुरस्कारनो
॥ ७ ॥ ए ॥ ७ चारिअ मोहनीय कर्मने उदय हता ते ॥ ने ८ मो
वृक्षण परिसह दर्शन मोहनीयने उदय हतो ते ॥ ए ८ बर्जिने श्लेष ॥
१४ रत्ना ॥ ते माहिस्सा एक समये ॥ १२ वेदे ॥ टाढनो तिहां तापनो
नहि । तापनो तिहां टाढनो नहि ॥ चासबानो तिहां यानकनो नहि । यान-
कनो तिहां चासबानो नहि ॥ तेरमे चउदम गुणठाणे ॥ ११ ॥
परिसह सामे ॥ पूर्वे ॥ १४ कक्षा सहमायि ॥ प्रज्ञानो ॥ १ ॥ अज्ञा-
ननो ॥ २ ॥ ए २ ज्ञानावरणिय कर्मने उदय हता ते ॥ अमे ॥ १
असामनो अंतराय कर्मने उदय हतो ते । ए ३ बर्जिने श्लेष ११
रत्ना ॥ ते माहिस्सा ॥ १ समये ९ वेदे ॥ टाढनो तिहां तापनो नहि ।
तापनो तिहां टाढनो नहि । चासबानो तिहां यानकनो नहि । यान-
कनो तिहां चासबानो नहि ॥

॥ इति परिसहद्वार ॥ १३ ॥

हिवे ॥ १४ मो मार्गणाद्वार कहे छे ॥ पहिले गुणठाणे मार्गणा
 ॥ ४ ॥ तीजे चोये पांचमे सातमे जाय ॥ दुजे गुणठाणे मार्गणा
 ॥ १ ॥ पढे तो पहिले आवे पण चढवुं नथि ॥ तिजे मार्गणा ॥ ४
 पढे तो पहिले आवे । अने चढे तो चोये पांचमे अने सातमे जाय ॥
 चोये मार्गणा ॥ ५ पढे तो पहिले दूजे तिजे आवे । अने चढे तो
 पांचमे सातमे जाय ॥ पांचमे मार्गणा ॥ ५ पढे तो पहिले दूजे तिजे
 चोये आवे । अने चढे तो सातमे जाय ॥ छठे मार्गणा ॥ ६ पढे तो
 पहिले दूजे तीजे चोये पांचमे आवे । अने चढे तो सातमे जाय ॥
 सातमे मार्गणा ॥ ३ पढे तो छठे चोये आवे । अने चढे तो ८ मे
 जाय ॥ आठमे मार्गणा ॥ ३ पढे सातमे चोये आवे । चढे तो नवमे
 जाय ॥ नवमे मार्गणा ॥ ३ पढे तो आठमे चोये आवे । अने चढे
 तो दशमे जाय ॥ दशमे मार्गणा ॥ ४ पढे तो नवमे चोये आवे ।
 चढे तो इग्यारमे वारमे जाय ॥ इग्यारमे मार्गणा ॥ २ काल करे तो
 अनुत्तर विमाने जाय । पढे तो दशमाथि पहिला सुधी आवे । चढवुं
 नथि ॥ वारमे मार्गणा ॥ १ तेरमे जाय ॥ पढवुं नथि ॥ तेरमे
 मार्गणा ॥ १ चउदमे जाय । पढवुं नथि । चउदमे मार्गणा एके
 नथि मोक्ष जाय ॥

॥ इति मार्गणाद्वार ॥ १४ ॥

हिवे पनरमो आत्माद्वार कहे छे ॥ आत्मा ८ ॥ द्रव्य आत्मा
 ॥ १ ॥ कषाय आत्मा ॥ २ ॥ योग आत्मा ॥ ३ ॥ उपयोग आत्मा
 ॥ ४ ॥ ज्ञान आत्मा ॥ ५ ॥ दर्शन आत्मा ॥ ६ ॥ चारित्र आत्मा
 ॥ ७ ॥ वीर्य आत्मा ॥ ८ ॥ पहिले तिजे गुणठाणे ६ आत्मा । ज्ञान ने
 चारित्र ए २ वर्जिने ॥ दूजे चोये गुणठाणे ॥ ७ आत्मा चारित्र
 वर्जिने ॥ पांचमे गुणठाणे पण ॥ ७ आत्मा देशथि चारित्र छे ॥

छठेधि दक्षमा गुणठाणा सुधि ॥ ८ आत्मा । इग्यारमे बारमे तेरम
॥ ७ आत्मा कपाय बर्जिने ॥ चउदम ६ आत्मा कपाय ने भोग
बर्जिने । सिद्धुर्मा ॥ ४ आत्मा ॥ ज्ञान आत्मा ॥ १ ॥ दशन
आत्मा ॥ २ ॥ द्रव्य आत्मा ॥ ३ ॥ उपयोग आत्मा ॥ ४ ॥

॥ इति आत्माद्वार ॥ १५ ॥

द्विजे १६ मो जीव मद्द र कहे छे । पहिले गुणठाणे ॥ १४
मेद लामे ॥ दूजे गुणठाणे ६ मेर सामे ॥ बेइद्रिय ॥ १ ॥
तेइद्रिय ॥ २ ॥ चउरिद्रिय ॥ ३ ॥ असकि तिर्यच पंचेद्रिय ॥ ४ ॥
ए ॥ ४ ॥ ना अपर्जापाने सत्री पंचेद्रियनो अपर्जासो ने पर्जासो ॥ ए
६ तिजे गुणठाणे ॥ १ सत्री पंचेद्रियनो पर्जासो सामे । चोमे गुण-
ठाणे ॥ २ मेद लामे । सत्री पंचेद्रियनो अपर्जासो ने । पर्जासो ॥
ए २ ॥ पांचमांथि ते ॥ १४ ॥ मा गुणठाणा सुधि १ सत्री पंचेद्रि-
यनो पर्जासो सामे ॥

॥ इति जीवमेवद्वार ॥ १६ ॥

द्विजे १७ मो भोगद्वार कहे छे ॥ पहिले दूजे ने चोमे गुणठाण
भाग ॥ १३ ॥ सामे दोय आहारकना बर्जिने ॥ तिजे गुणठाणे १०
भोग साम ॥ ४ मनना ॥ ४ बचनना ॥ १ उदारिकनो ॥
१ बैक्केयनो । ए ॥ १० साम ॥ पांचमे गुणठाणे ॥ १२
भोग ॥ आहारकना ॥ २ ने एक कर्मणनो ए ३ ॥ बर्जिमे १० ॥
सामे ॥ छठे गुणठाणे ॥ १४ भोग साम ॥ १ कर्मणनो बर्जिने ।
सातमे गुणठाणे ॥ ११ भोग ॥ ४ मनना ॥ ४ बचनना ॥ १ उदा-
रिकनो ॥ १ बैक्केयनो ॥ १ आहारकनो । एवं ११ ॥ आठमांथि
पांचिमे १२ मा गुणठाणा सुधि भोग ॥ ९ सामे ॥ ४ मनना ॥ ४
बचनना ने ॥ १ उदारिकनो । ए ९ ॥ तेरमे गुणठाणे भोग ॥ ७

लाभे ॥ दोय मनना ॥ दोय वचनना । ए ४ ने उदारिकनो १ ॥
उदारिकनो मिश्र २ ॥ कार्मणकाय जोग ३ ॥ एवं ७ ॥ चउदमे
गुणठाणे जोग नथि ॥

॥ इति जोगद्वार ॥ १७ ॥

हिवे १८ मो उपयोगद्वार कहे छे ॥ पहिले ने तीजे गुणठाणे
६ ॥ उपयोग लाभे ॥ ३ अज्ञान ने ३ दर्शन । एवं ६ ॥ दूजे चोथे
पांचमे गुणठाणे ६ उपयोग लाभे ॥ ३ ज्ञान ॥ ३ दर्शन ॥ एवं
६ ॥ छठाथि ते वारमा गुणठाणा सुधि उपयोग ७ ॥ लाभे ॥ ४
ज्ञान ने ३ दर्शन ॥ एवं ७ ॥ तेरमे चउदमे गुणठाणे तथा सिद्धमां ॥
२ उपयोग । केवल ज्ञान ॥ १ ने । केवल दर्शन २ ॥

॥ इति उपयोगद्वार ॥ १८ ॥

हिवे १९ मो लेशाद्वार कहे छे ॥ पहिलाथि ते छठा गुणठाणा
सुधि ॥ ६ लेशा लाभे ॥ सातमे गुणठाणे उपलि ॥ ३ लेशा लाभे ।
आठमेथि मांडीने वारमा गुणठाणा सुधि ॥ १ थुकल लेशा लाभे ॥
तेरमे गुणठाणे ॥ १ परम थुकललेशा लाभे । चउदमे गुणठाणे
लेशा नथि ॥

॥ इति लेशाद्वार ॥ १९ ॥

हिवे २० मो चारित्रद्वार कहे छे ॥ पहिलाथि ते चोथा गुण-
ठाणा सुधि कोइ चारित्र नथि । पांचमे गुणठाणे देशथि सामायक
चारित्र छे । छठे सातमे गुणठाणे ॥ ३ चारित्र लाभे । सामायक
चारित्र ॥ १ ॥ छेदोपस्थापनीय चारित्र ॥ २ ॥ परिहार विशुद्ध
चारित्रे ॥ ३ ॥ ए ३ लाभे । आठमे नवमे गुणठाणे ॥ २ चारित्र
लाभे । सामायक ॥ १ ॥ छेदोपस्थापनीय ॥ २ ॥ दशमे गुणठाणे

२ सूक्ष्म सपराय चारित्र्य लामे ॥ इग्यारमेयि ते चउदमा गुणठाणा
सुधि १ जयाख्यात चारित्र्य लामे ॥

॥ इति चारित्र्यद्वार ॥ २० ॥

दिवे २१ मो समकितद्वार कहे छे ॥ पहिले तिजे गुणठाणे
समकित नयि ॥ दुजे गुणठाणे १ सास्वादान समकित लाम ॥ चो-
थेयि ते सातमा गुणठाणा सुधि ॥ ४ समकित लामे ॥ उपपन्न ॥ १ ॥
सयोपपन्न ॥ २ ॥ बेदक ॥ ३ ॥ क्षायकसमकित ॥ ४ ॥ आठमे
नवमे गुणठाणे ॥ ३ ॥ समकित लाम ॥ उपपन्न ॥ १ ॥ सयोपपन्न
॥ २ ॥ क्षायक ॥ ३ ॥ दशमे इग्यारमे गुणठाणे ॥ २ समकित लामे
॥ उपपन्न ॥ १ ॥ क्षायक ॥ २ ॥ बारम तेरम चउदमे गुणठाणे
तया सिद्धमा ॥ १ क्षायक समकित लामे ॥

॥ इति समकितद्वार ॥ २१ ॥

दिवे २२ मो अल्प बहुद्वार कहे छे ॥ सर्वयि योडा इग्यारमा
गुणठाणावाला एक समये उपपन्न भेणिवाला ५४ जीव लाम माटे
॥ १ ॥ तेयि बारमा गुणठाणावाला संस्लेजगुणा एक समये क्षण
भेणिवाला एकसो ने आठ जीव लामे माटे ॥ २ ॥ तयि आठमा
नवमा दशमा गुणठाणावाला संस्लेज गुणा ॥ जपन्य बसे ॥ उत्कृष्ट
नवसे लामे माटे ॥ ३ ॥ तेयि तेरमा गुणठाणावाला संस्लेज गुणा ॥
जपन्य दोय क्रोडि ॥ उत्कृष्ट नव क्रोडि लामे माटे ॥ ४ ॥ तेयि
सातमा गुणठाणावाला संस्लेज गुणा ॥ जपन्य १ बसे क्रोडि ॥ उत्कृष्ट १
नवसे क्रोडि लामे माटे ॥ ५ ॥ तेयि छठा गुणठाणावाला संस्लेज
गुणा ॥ जपन्य दोय हजार क्रोडि ॥ उत्कृष्ट नव हजार क्रोडि लामे
माटे ॥ ६ ॥ तेयि पांचमा गुणठाणावाला असस्लेज गुणा ॥ विर्य
अल्पक भस्या माटे ॥ ७ ॥ तेयि दुजा गुणठाणावाला असस्लेज गुणा

४ गतिमां लाभे माटे ॥ ८ ॥ तेथि तिजा गुणठाणावाला असंखेज गुणा ४ गतिमां विशेष छे माटे ॥ ९ ॥ तेथि चोथा गुणठाणावाला असंखेज गुणा घणि स्थिति छे माटे ॥ १० ॥ तेथि चउदमा गुणठाणावालाने सिद्ध भगवंतजी अनंतगुणा ॥ ११ ॥ तेथि पहिला गुणठाणावाला अनंतगुणा एकेंद्रिय प्रमुख सर्व मिथ्यादृष्टि छे माटे ॥ १२ ॥

॥ इति अल्पबहुद्वार ॥ २२ ॥

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे गुणठाणाद्वाराख्यं षष्ठ प्रकरणम् ॥



॥ प्रकरण सातवा पदवीद्वार ॥

नामद्वार (१) अर्थद्वार (२) अपगगाहणाद्वार (३) चक्रमणद्वार
 (४) आगतद्वार [५] गतद्वार [६] पाषण्णद्वार (७) सेवणद्वार (८)
 कासुद्वार (९) दडकद्वार (१०) गुणठाणाद्वार (११) वेदद्वार
 (१२) छेदद्वार (१३) मोरुद्वार [१४] सिंगद्वार (१५)
 अपगगाहणा पदवीद्वार (१६)

॥ इति द्वार नामानि ॥

द्विजे नामद्वार कहे छे ॥ सात पंचेद्री रतनना नाम ॥ चक्ररत्न
 [१] छत्र रतन (२) चरम रतन [३] डड रतन (४) मणि रतन (५)
 स्वहृग रतन (६) फागणी रतन (७) ॥ सात पंचेद्री रतनना नाम ॥
 सैन्यार्पात (१) गायापति (२) बवेई (३) भोरित (४) अस्त्र रतन
 (५) गज रतन [६] श्रीदेवी (७) ॥ नव मोद्री पदवीना नाम ॥ तीर्थ
 कर (१) चक्रपती (२) बसुदेव (३) बासुदेव (४) केवली [५]
 साधु (६) भायक (७) सपरष्ट [८] मडलीक (९) ॥

॥ इति नामद्वार ॥

द्विज अर्थद्वार कहे छे ॥ चक्र रतन कीणने कबिजे छे स्वद्वये
 आण पनाच (१) ॥ छत्र रतनसी० ५८ फोस उप करे (२) ॥

चरमस्तकी० पाणी उपर नावानी परे पार उत्तरे ४८ कोशमे चोनरो करे (३) दंड रतनकी० ऊंची नीची भुमि समी करे तमस गुफाखंड प्रपात गुफा एहना वारणा उघाडे (४) मगी रतनकी० ४८ कोसमे उजवालो करे (५) कागणी रतनकी० ४९ मांडला तमस गुफा खंड प्रपात गुफामे करे ऋषभ कूट उपर नाम लीखे [६] खड्ग रतनकी० वेरीरो माथो ल्याचे [७] सैन्यापतीकी० चार प्रकाररी सैन्या भेली करे (१) गाथा पतीकी० (२४) जातरोधान नीपजावे १८ भार वनसपती नीपजावे (२) वड्डई रतनकी० दोय घडीमे ४२ भोम्या मेहल निपजावे नगरी वसावे (३) प्रोही रतनकी० मूर्हत देवे सांती कर्म करे गांव साजा करे (४) अस्त्र रतन, गज रतनकी० असवारीने काम आवे (५-६) श्री देवीकी० चक्रवर्तने भोग आवे ॥

॥ इति अर्थद्वार ॥ २ ॥

हिचे अवगहणाद्वार कहे छे ॥ चक्ररतन पड्डाणे आकारे लांबो चौडो वांम प्रमाणे (१) छत्र (२) चर्म (३) दंड रतन २ हाथरा लांबा चवडा (४) मगी रतन ४ आंगुळ लांबो दोय आंगुळ पोहलो (५) कागणी रतन ४ आंगुळ लांबो पोहलो ६ तला ८ खुणा १२ हांस ते अहिरणने आकारे (६) खड्ग रतन ५० आंगुळ लांबो १६ आंगुळ चौडो आधी आंगुळरो जाडा छे ४ आंगुळरी मूठ छे (७) सैन्यापती (१) गाथापति (२) वेड्डई (३) प्रोहित (४) ए चार रतन चक्रवर्तनी अवगहणा प्रमाणे ४ कमलापती नामे घोडो १०८ आंगुळ लांबो ८० आंगुळ ऊंचो छे ९९ अंगुळरी परिधी छै ३२ आंगुळरो मुंडो छे आंगुळरा कान छै २० अंगुळनी सातल छे ४ आंगुळ नागोडा १६ आंगुळनी पीडी ४ आंगुळना गीरिया एवं ८० अंसी आंगुळ ऊंचो छे (५) गज रतन

चक्रवर्तसु दुष्पो ऊषो हुवे ६ भी देवी चक्रवर्तसु ४ मांसु नीची हुवे (७)

॥ इति अमगहणादार ॥ ३ ॥

हिवे उपजणदार कहे छे ॥ चक्र रतन (१) छत्र रतन (२) चरम रतन (३) दंड रतन (४) ए चार आयुषसालामे उपजे स्वर्ण रतन (५) मणि (६) कागणी रतन (७) ए (८) सुदमीना मंडारमे उपजे सेन्यापति (१) गायापती (२) बहुरई [३] मोहित (४) ४ रतन निज नगरमे उपजे अस्व रतन (५) गज रतन [६] ए दोष बेताइय परबतनी मुलमे उपजे भी देवी विद्यापरोनी भेणीमे उपजे ॥

॥ इति उपजणदार सपूर्ण ॥ ४ ॥

हिवे मागद्वार कहे छे ॥ पेहेली नारकीना नीकल्या १६ पदवी पांमे ७ एकेंद्री रतन टल्या ॥ १ ॥ दुनी नारकीना नीकल्या १५ पदवी पांमे १६ मांसु चक्रवर्त टल्या ॥ २ ॥ तीमी नारकीना नीकल्या १३ पदवी पांमे १५ मांसु बलदेव (१) मांसुदेव (२) ए टली ॥ ३ ॥ चौथी नारकीना नीकल्या १२ पदवी पांमे १३ मांसु तीर्थकर टल्या ॥ ४ ॥ पांचमी नारकीना नीकल्या ११ पदवी पांमे १० मांसु १ केशलिरी टली ॥ ५ ॥ छठी नारकीना नीकल्या १० पदवी पांमे ११ मांसु १ साधुरी पदवी टली ॥ ६ ॥ सातमी नारकीना नीकल्या ९ पदवी पांमे हाथी १ घोडो २ आइति समदृष्टी (७) मदनपती (१) बाणप्यतर (२) ज्योतिपी [३] ए तीनना नीकल्या २१ पदवी पांमे २३ मांसु तीर्थकर (१) बासुदेव ए दोष पदवी टली ॥ ८ ॥ १५ परमाधामीना ओर पहिसा कम मेपीना नीकल्या १८ पदवी पांमे २३ मांसु ५ मयम पदवी टली १० ॥ २ कममेपीना नीकल्या ११ पदवी पांमे १८

प्राथी ७ एकेंद्री रतन वरज्या (९-१०) पेला बीजा देवलोकना नी-
कल्या २३ पदवी पांमे (११) तीजा देवलोकसूं लेने आठमा
देवलोक तांइरा नीकल्या १६ पदवी पांमे ७ एकेंद्री रतन टल्या
(१२) नवमा देवलोकसूं लेने ९ त्रैवेग तांइरा नीकल्या (१४)
पदवी पांमे १६ मांसू हाथी (१) घोडो (२) ए २ टली (१३) पांच
अणुत्तर विमानथी निकल्या ८ पदवी पांमे ते ९ मोटकी पदवीमांसू
१ वासुदेवरी पदवी टळी (१४) पृथिवी पाणी वनस्पति सनी तिर्यच
सनी मनुष्यना निकल्या ११ पदवी पांमे तीर्थकर (१) चक्रवर्त (२)
बलदेव (३) वासुदेव (४) ए ४ टली (१५) तेउ (१) वाउना
नीकल्या ९ पदवी पावे ७ एकेंद्री रतन हाथी (१) घोडो (२) ॥
९ पांमे (१६) वेंद्री तेंद्री चोइंद्री असनी तिर्यच असनी मनुष्यना नीक-
ल्या पदवी १८ पांमे २३ मांसूं पांच पदवी प्रथम टली (१७)
सिद्धांमे पदवी १ समदृष्टीनी पावे १८ ॥

॥ इति आगतद्वार ॥ ५ ॥

हिवे गतिद्वार कहे छे ॥ पेहेले नारकीसूं लेने चोथी नारकी
तांई ११ पदवीको धणी जाय ७ एकेंद्री रतन चक्रवर्त (१) वासुदेव
(२) मंडलीक (३) समदृष्टी (४) एवं ११ (१) पांचमी छट्टी नार-
कीमे ९ पदवीरो धणी जाय ११ मांसू हाथी (१) घोडो (२) ए २
टल्या (२) सातमी नारकीमे सात पदवीरो धणी जाय ९ मांसूं श्री
देवी (१) समदृष्टी (२) ए २ टल्या (३) भुवनपती वाणव्यंतर
ज्योतिषी इणमे १० पदवीको धणी जाय सात पंचेंद्री रतनमांसू एक
श्री देवी टली ६ तो पंचेंद्री रतन साधु (१) मंडलीक राजा (२)
श्रावक (३) समदृष्टी (४) एवं १० पदवीको धणी जाय (४) [परं मूल
गुण विराधक जाय] पहेला दूर्जा देवलोकमाहे १० पदवीरो धणी
जाय परं उत्तर गुण विराधक साधु श्रावक जाय आराधक पिण

जाय (५) तीजा देवलोकासुं छेने आठमा देवलोका ताई एहि १० पदवीका
 षणी जाय परं भरापक जाय (६) ननमा देवलोकासु छेइने १२ मा देवलोका
 ताई ८ पदवीको षणी जाय एही १० पदवी मांसु हाथी (१) घोडा (२) ए
 २ उरपा (७) मब ग्रीवेक ५ अणु तर बिमानमे २ पदवीको षणी जाय
 साधु समदही (८) ५ यावर असत्री मनुष्यमे १ ४ पदवीना षणी जाय ७
 एकेंद्री रतन ६ पंचेंद्री रतन (१ भीदेरी टली) मंडलीक राजा एव
 १४ (९) ३ बिकलेंद्री गर्मेज तिर्यच मनुष्य असन्नी तिर्यचमे १५
 पदवीको षणी जाय सात एकेंद्री रतन ६ पंचेंद्री रतन मंडलीक
 राजा समदही एवं १५ पदवीको षणी जाय (१०)

॥ इति गतिद्वार ॥ ६ ॥

दिवे पदवी पाषणद्वार कहे छे ॥ तीर्थकरमे ६ पदवी पाषे मंड
 लीक राजानी (१) चक्रवर्तनी (२) तीर्थकरनी (३) साधुनी (४)
 समदहीनी (५) केबलीनी (६) [१] चक्रवर्तमे एहीज ६ पदवी पाषे
 (२) पलदेवमे ५ पदवी पाषे मंडलीकनी [१] बसदेवनी (२) साधुनी
 (३) समदहीनी [४] केबलीनी (५) एवं ५ पाषे (३) बामुदेवमे १
 पदवी पाषे मंडलीकनी (१) बामुदेवनी (२) समदहीनी (३) एवं ३
 (४) केबलीने तथा साधुमे ८ पदवी पाषे नच मोटकी पदवीमेसुं १
 बामुदेवनी टली (५-६) भावकमे ३ पदवी पाष १ भावकनी १
 समदहीनी १ मंडलीकनी एवं (३) (७) मंडलीकमे ६ पदवी पाषे
 मंडलीकनी (१) साधुनी (२) भावकनी (३) समदहीनी [४] कब
 लीनी (५) बामुदेवनी एव ६ पाष (८) समदहीमे १५ पदवी पाष
 * मोटकी ६ पंचेंद्री रतन १ भी देरी टली (९)

॥ इति पदवी पाषणद्वार ॥ ७ ॥

हिवे सेवणद्वार कहे छे ॥ ७ एकेंद्री रतन ७ पंचेंद्री रतन एवं १४ रतननी एक एक हजार देवता सेवा करे (१) तीर्थंकरनी ६४ इंद्र असंख्याता देवता सेवा करे (२) चक्रवर्तनी २ हजार तो दोय भुजाना ओर १४ रतनना १४ हजार एवं (१६) सोले हजार देवता सेवा करे (३) बलदेवनी ४ हजार देवता सेवा करे (५) केवलीनी अनेक देवता सेवा करे (६) साधु श्रावक समदृष्टी ए ३ नी एक एक देवता सेवा करे (७)

॥ इति सेवनद्वार ॥ ८ ॥

हिवे कालद्वार कहे छे ॥ पहलो आरो ४ कोडा कोड सागररो दूजो ३ कोडाकोड सागरनो ए दोय आरामे पदवी पावे १ समदृष्टीनी (१) तीजो आरो दोय कोडाकोड सागरनो पदवी २१ पावे बलदेवनी वासुदेवनी ए २ टली (२) चोथो आरो १ कोडाकोड सागरनो जीणमे ४२ हजार बरस गये बाद पदवी पावे २३ (३) पांचमे आरामे ५ पदवी पावे [४] छद्दा आरामे पदवी नथी ए तो अवसरपणी काल आश्री कही (६) अब उत्त. सरपणी काल आश्री कहे छे ॥ पेला आरामे पदवी नथी (१) दूजा आरामे पदवी पावे १ समदृष्टीनी (३) तीजा आरामां पदवी २१ पावे (४) चोथो आरामां पदवी २३ पावे (५) पांचमां आरामे ५ पदवी पावे (६) छद्दा आरामे १ पदवी पावे समदृष्टिनी (६)

॥ इति कालद्वार ॥ ९ ॥

हिवे दंडकद्वार कहे छे ॥ एक दंडक सांतुनारकीनो दस भवनपतीना दस-दंडक ओर ज्योतीषी वीमानीक देवताना दोय दंडक एवं १४ में एक पदवी समदिष्टीनी पावे (१) पृथिवीकायमे पदवी पावे सात एकेंद्री रतन (२) ४ थावर असजी मनुष्यमे पदवी नथी (३)

विक्रमैद्री असभी तिर्यक् अपरज्याप्तो पदवी १ पावे समद्विष्टिनी
 (४) सभिं तिर्यक्मे पदवी ४ पावे हायी (१) घोढो (२) आबक
 (३) समद्विष्टि एव ४ (५) अदीदीपनी बारखा तिर्यक्मे २ पदवी
 पावे भाबक (९) समद्विष्टि [२] एव २ (६) असन्नीमे पदवी ८ पावे
 सात तो ऐकेंद्री रतन एक समद्विष्टि एव ८ (७) सभीमाई १६ पदवी
 पावे (७) ऐकेंद्री रतन टल्या (८) मनुष्यो १६ पदवी पावे ७ ऐकेंद्री
 रतन टल्या (९)

॥ इति ददकद्वार ॥ १० ॥

दिवे गुणठाणाद्वार कहे छे ॥ वेहेसा गुणठाणामे १४ पदवी
 पावे ७ ऐकेंद्री रतन [६ पंचेंद्री रतन [१ भी देवी टमी] मडलीक
 राजा एव (१४) (१) दूजे गुणठाणामे १ पदवी पावे समद्विष्टिनी (२)
 तीजा गुणठाणे २ पदवी पावे भी देवी मडलीक एव २ (३) चौथा
 गुणठाणामे ६ पदवी पावे तीर्यकर (१) चक्रवर्त (२) बलदेव (३)
 बामुदेव [४] समद्विष्टि [५] मडलीक (६) [४] पांचमे गुणठाणामे ३
 पदवी पावे [१] समद्विष्टिनी [२] भाबकनी (३) मडलीकनी एव ३
 (५) छठा गुणठाणांमुाछेने १० गुणठाणा ताई पदवी ७ पावे साधु
 नी (१) समद्विष्टिनी ए २ पावे [६] ११ मा १२ मा गुणठाणामे १
 पदवी पावे [७] १३ मा १४ मा गुणठाणामे ३ पदवी पावे [१]
 तीर्यकरनी (२) केवलीनी (३) साधुनी ए ३ [८]

॥ इति गुणठाणाद्वार ॥ ११ ॥

दिवे वेदद्वार कहे छे ॥ भी वेदमा पदवी ४ पावे भी देवी (१)
 आबकनी (२) साधुनी (३) समद्विष्टि ए (४) (१) एक मनुष्यनीमे
 ३ पदवी पावे (१) भी देवी (२) साब (३) भाबक (४) समद्विष्टि
 (५) तीर्यकर (६) केवली ए छे [२] ॥ समचे पुरुष वेदमा पदवी

१३ पावे २३ पदवीमांसू ७ एकेंद्री रतन ८ श्री देवी ९ तीर्थकर
 १० केवली ए १० टली (३) समचे मनुष्यमे पदवी ११ पावे
 ४ पंचेंद्री रतन ९ मोटकी मांसू तीर्थकर (१) केवली २ ए २ टली
 (४) मनुष्य पुरुषमां पदवी १३ पावे तीर्थकर केवली ए २ बधी ११
 तेहीज, एवं १३ (५) जन्म नपुंसकमे २ पदवी पावे १ श्रावक २
 समदृष्टि ए (६) कृत नपुंसकमे ४ पावे (१) श्रावकनी (२) साधुनी
 (३) समदृष्टिनी (४) केवली ए ४ पावे (७) अवेदीमां ४ पावे [१]
 समदृष्टी (२) साधु (३) तीर्थकर (४) केवली ए ४ पावे [८] अमर
 पदवी १ बलदेवनी इण पदवीमे मरे नही (९)

॥ इति वेदद्वार ॥ १२ ॥

हिवे क्षेत्रद्वार कहे छे ॥ भर्तक्षेत्रमा जघन्य १ पदवी पावे सम-
 दृष्टिनी (१) मज्जम भरतक्षेत्रमे ८ पदवी पावे चक्रवर्त टलयो [२]
 भरतक्षेत्रमे उत्तकृष्टी २१ पदवी पावे (१) बलदेव (२) वासुदेव
 दौय ए टली (३)

॥ इति क्षेत्रद्वार ॥ १३ ॥

हिवे लोकद्वार कहे छे ॥ ऊंचा लोकमां ५ पदवी पावे [१]
 केवली (२) साधुनी [३] श्रावकनी [४] समदृष्टिनी (५) मंडलीक
 राजानी ए (५) पावे [१] नीचा लोकमे २३ पावे (२) त्रीछा
 लोकमे २३ पावे (३)

॥ इति लोकद्वार ॥ १४ ॥

हिवे लिंगद्वार कहे छे ॥ स्वर्लिंगीमां ४ पदवी पावे (१) तीर्थ-
 कर (२) साधुनी (३) समदृष्टी (४) केवली ए ४ पावे (१) अन्य
 लिंगीमां ४ पावे (१) समदृष्टी (२) श्रावक (३) साधुनी (४) केवली
 ए ४ पावे (२) ग्रह लिंगीमे १३ पावे १ सेन्यापति (२) गाथा

पति (३) बहुर्य [४] मोहित (५) भी देवी (६) चक्रवर्त (७) बलदेव
 [८] बालदेव (९) केशली (१०) साधु [११] श्रावक (१२)
 समदृष्टि (१३) मङ्गलीक ए १३ पावे (३)

॥ इति लिंगद्वार ॥ १५ ॥

हिने अवगाहणाद्वार कहे छे ॥ मनुष्यनी जघन्य अवगाहणामे
 पदवी १ पावे समदृष्टिनी (१) मङ्गम अवगाहणामे १४ पावे १
 सैन्यापति (२) गायापति [३] बहुर्य (४) मोहित (५) भीदेवी (६)
 तीर्थकर (७) चक्रवर्त (८) बलदेव (९) बालदेव (१०) केशली
 (११) साधु (१२) श्रावक (१३) समदृष्टि (१४)
 मङ्गलीक ए १४ पावे (२) उत्कृष्टी अवगाहणामां पदवी २ पावे (१)
 केशली (२) समदृष्टी ए २ पावे (३) ८ कर्मना वेद गामे २१ पावे
 (१) तीर्थकर (२) केशली ए २ टली (४) सात कर्मना वेद गामे
 (२) पावे १ साधुनी २ समदृष्टिनी ए २ पावे ॥ ५ ॥

॥ इति अवगाहणा पदवीद्वार ॥ १६ ॥

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे पदवी

धाराऽख्यं सप्तम प्रकरणम् ॥ ७ ॥





प्रकरण आठवां-सिद्धिद्वार ॥

- (१) पहिली नर्कना निकल्या एक समये (१०) सिद्धे.
- (२) दूजी नर्कना निकल्या एक समये (१०) सिद्धे.
- (३) तीजी नर्कना निकल्या एक समये (१०) सिद्धे.
- (४) चउथी नर्कना निकल्या एक समये (४) सिद्धे.
- (५) भवूनपतिना निकल्या एक समये (१०) सिद्धे.
- (६) भगवनपतिनि देवीना निकल्या एक समये (५) सिद्धे.
- (७) पृथ्वीना निकल्या एक समये (४) सिद्धे.
- (८) पाणिना निकल्या एक समये (४) सिद्धे.
- (९) वनस्पतिना निकल्या एक समये (६) सिद्धे.
- (१०) पंचेंद्रिय तिर्यच गर्भेजना निकल्या एक समये (१०) सिद्धे.
- (११) तिर्यचणीना निकल्या एक समये (१०) सिद्धे.
- (१२) मनुष्यना निकल्या एक समये (१०) सिद्धे.
- (१३) मनुष्यणीना निकल्या एक समये (२०) सिद्धे.
- (१४) वाणव्यंतरना निकल्या एक समये (१०) सिद्धे.
- (१५) वाणव्यंतरनि देवीना निकल्या एक समये (५) सिद्धे.
- (१६) ज्योतिपीना निकल्या एक समये (१०) सिद्धे.
- (१७) ज्योतिपीनी देवीना निकल्या एक समये (२०) सिद्धे.

- (१८) वैमानिकना निकल्या एक समये (१०८) सिद्धे
 (१९) वैमानिकनि देवीना निकल्या एक समय (२०) सिद्धे
 (२०) स्वर्लिंगी सिद्धे तो (१०८) सिद्धे
 (२१) अन्य लिंगी सिद्धे तो (१०) सिद्धे
 (२२) गृहस्य लिंगी सिद्धे तो (४) सिद्धे
 (२३) स्त्री लिंगी (२०) सिद्धे
 (२४) पुरुष लिंगी (१०८) सिद्धे
 (२५) नपुसकलिंगी (१०) सिद्धे
 (२६) उर्ध्व लोके (४) सिद्धे
 (२७) अधोलोके (२०) सिद्धे
 (२८) त्रिडा लोके [१०८] सिद्धे
 (२९) चक्रष्टि अवगाहनावाला एक समये (२) सिद्धे
 (३०) षडन्य अवगाहनावाला एक समये (४) सिद्धे
 (३१) मध्यम अवगाहनावाला एक समये (१०८) सिद्धे
 (३२) समुद्रमां [२] सिद्धे
 [३३] नदी मध्यम शेष मरुमां (३) सिद्धे
 (३४) तिर्यमां [१०८] सिद्धे
 [३५] अतिर्यमां (१०) सिद्धे
 [३६] तिर्यकर [२०] सिद्धे
 [३७] अतिर्यकर (१०८) सिद्धे
 (३८) स्वयमुद्ध [४] सिद्धे
 (३९) मत्स्येक बुद्ध (१०) सिद्धे
 (४०) बुद्धबोधि [१०८] सिद्धे
 [४१] एक सिद्धांते एक समये [१] सिद्धे
 [४२] अनेक सिद्धांते एक समय चक्रष्टा (१०८) सिद्धे.

[४३] विजय विजय प्रते एक समये विश विश सिद्धे.

(४६) भद्रशाल वन (१) नंदन वन [२] सोमनसवन (३) ए ३
मा च्यार च्यार सिद्धे.

(४७) पडगवनयां (२) सिद्धे.

(४८) अकर्मभूमिमां (१०) सिद्धे.

[४९] कर्म भूमिमां (१०८) सिद्धे.

(५०-५१-५२-५३) पहिले (१) दूजे (२) पांचमे (३) छठे (४)
ए (४) ओर (१०) दश सिद्धे.

(५४-५५) तिजे (१) चउथे (२) ए (२) ओर [१०८] एकसो
आठ सिद्धे.

(५६-५७) अवसर्पिणी (१) उत्सर्पिणी (२) ए (२) मां (१०८)
एकसो आठ सिद्धे.

(५८) नो उत्सर्पिणीनो अवसर्पिणीमां (१०८) सिद्धे.

(५९) एकथि मांडिने (३२) लगे सिद्धे तो समय सुधि.

(६०) ३३ थि मांडिने (४८) सुधि सिद्धे तो (७) समय लगे.

(६१) ४१ थि मांडिने (६०) सुधि सिद्धे तो (६) समय लगे.

(६२) ६१ थि मांडिने (७२) सुधि सिद्धे तो (५) समय लगे.

(६३) ७३ थि मांडिने [८४] सुधि सिद्धे तो (४) समय लगे.


(६४) ८५ थि मांडिने (९६) सुधि सिद्धे तो ३ समय लगे.

(६५) ९७ थि मांडिने (१०२) सुधि सिद्धे तो (२) समय लगे.

(६६) १०३ थि मांडिने (१०८) सुधि सिद्धे तो (१) समय लगे.


॥ इति सिद्धांतद्वार ॥

॥ इति श्री सिद्धांत शिरोमणौ द्वितीय खण्डे सिद्धांत
द्वाराख्यं अष्टम प्रकरणम् ॥





प्रकरण नौवां विरहद्वार ॥



समुच्चय ४ गतिनो विरह काल ॥ अघाय (१) समयनो ॥
 उच्छृष्टो (१२) मुहूर्त्तनो ॥ द्विषे पहिली नरके जघन्य (१)
 समयनो ॥ उत्कृष्टा (२४) मुहूर्त्तनो ॥ १ ॥ द्विती नरके जघन्य
 (१) समयनो ॥ उत्कृष्टो (७) दिननो ॥ ॥ त्रीती नरके जघन्य
 (१) समयनो ॥ उत्कृष्टो (१५) दिननो ॥ ३ ॥ चोथी नरके
 जघन्य (१) समयनो ॥ उत्कृष्टो (१) मासनो ॥ ४ ॥ पाचमी
 नरके ॥ अघाय (१) समयनो उत्कृष्टा (२) मासनो ॥ ५ ॥ षठी
 नरके जघन्य (१) समयनो ॥ उत्कृष्टो (४) मासनो ॥ ६ ॥ सातमी
 नरके जघन्य (१) समयनो ॥ उत्कृष्टो (६) मासनो ॥ ७ ॥ उपमवानो
 तथा चचमानो विरह पट ॥ द्विषे दस ममनपतीनो जघन्य (१) समयना ॥
 उत्कृष्टो (६) मुहूर्त्तनो ॥ पांच एकेंद्रिय अविरहिया सख्याताने ठाम
 सख्याता उपजे ॥ असख्याताने ठामे असख्याता उपजे ॥ अनताने
 ठामे अनता उपजे ॥ समय समय उपजे ॥ समय समय चवे ॥
 प्रग विगलद्रिपनो जघन्य (१) समयनो ॥ उत्कृष्टो अतर्हृत्तनो ॥
 समुच्चय तिर्यच पंचद्रीयनो जघन्य (१) समयनो ॥ उत्कृष्टो अंतमुहूर्-
 त्तनो ॥ गर्मेज तिर्यच पंचद्रीयनो जघन्य [१] समयनो ॥ उत्कृष्टो

[१२] मुहुर्त्तनो ॥ समुर्द्धिम मनुष्यनो जघन्य [१] समयनो उत्कृष्टो
 (२४) मुहुर्त्तनो ॥ गर्भेज मनुष्यनो जघन्य [१] समयनो ॥ उत्कृष्टो
 [१२] मुहुर्त्तनो ॥ वाणव्यंतर ज्योतपी वैमानिकमां पेहला दूजा देव-
 लोक सुधीनो ॥ जघन्य [१] समयनो, ॥ उत्कृष्टो [२४] मुहुर्त्तनो
 विरहकाल ॥ तिजे देवल्लोके ॥ जघन्य (१) समयनो उत्कृष्टो (९)
 दिन नें बीस मुहुर्त्तनो ॥ चोथे देवल्लोके ॥ जघन्य [१] समयनो ॥
 उत्कृष्टो (१२) दिन नें १० मुहुर्त्तनो ॥ पांचमे देवल्लोके ॥ जघन्य
 (१) समयनो ॥ उत्कृष्टो साढा वाधीस दिननो छठे देवल्लोके ॥
 जघन्य (१) समयनो ॥ उत्कृष्टो (४५) दिननो ॥ सातमे देवल्लोके
 जघन्य (१) समयनो ॥ उत्कृष्टो (८०) दिननो विरहकाल ॥ आठमे
 देवल्लोके जघन्य (१) समयनो उत्कृष्टो (१००) दिननो ॥ नवमे
 दशमे देवल्लोके ॥ जघन्य (१) समयनो ॥ उत्कृष्टो संख्याता मास-
 नो ज्यां लगे वरस न होय ॥ इग्यारमे बारमे देवल्लोके जघन्य (१)
 समयनो ॥ उत्कृष्टो संख्याता वरसनो ज्यां लगे सो वरस न
 होय ॥ पहिली त्रिके जघन्य (१) समयनो उत्कृष्टो संख्याता
 सैंकडा वर्षनो ज्यां लगे हजार वरस न होय ॥ दूजी त्रिके
 जघन्य (१) समयनो ॥ उत्कृष्टो संख्याता हजार वर्षनो ज्यां लगे
 लाख वरस न होय ॥ तीजी त्रिके जघन्य (१) समयनो ॥ उत्कृष्टो
 संख्याता लाख वरसनो ज्यां लगे क्रोड वरस न होय ॥ च्यार
 अनुत्तर विमानमां ॥ जघन्य (१) समयनो ॥ उत्कृष्टो पल्यना
 असंख्यातमा भागनो विरहकाल ॥ सर्वार्थसिद्धमां जघन्य (१)
 समयनो उत्कृष्टा पल्यना संख्यातमा भागनो विरहकाल ॥ सिद्धनो
 विरह जघन्य [१] समयनो ॥ उत्कृष्टो छे मासबो विरहकाल ॥


अप्यार गतिमा पचेन्द्रिय भाथ्री विरहकाल जघ न्य [१] समयनो ॥
 उक्कष्टो (१०) मुहुर्सनो ॥ सर्व इद्र स्यानकनो विरह जघन्य (१)
 समयनो उक्कष्टो (६) मासनो ॥

॥ इति श्री सिद्धांत शिरोमणौ द्वितीय खण्डे विरह
 द्वाराख्यं नवम प्रकरणम् ॥





॥ प्रकरण दसवा-रूपी अरूपी द्वार ॥



(१८) पापस्थानक (८) कर्म (१) मन (१) वचन जोग [१] कार्मण शरीर ए (२९) मे १६ बोल पावे ते किंसा ५ वरण (२) गंध [५] रस (४) फरस (१) उनो (२) ठाढो (३) चीगटो (४) लुखो ए (२९) चोपरसि जाणया ॥ हिवे जीवसंजुक्तपुद्गल अठफरसी कहे छे (४) शरीर (६) छेलेस्या (१) घणोदधि (१) घणवाय [१] तणवाय (१) कायारो जोग ए १४ बोलमें वीस बोल पावे ते कहे छे ५ वरण (५) रस (२) गंध (८) फरस ए २० बोल पावो ॥ हिवे जीवरहित पुद्गलना भेद (२) पावे अनंत प्रदेशी सीक्षबंध (१) सुषम (२) वादर हिवे अनंत प्रदेशी सूक्ष्म बंध ते किंसा (५) वरण (५) रस (२) गंध (४) फरस उनो ठंडो लुषो चीगटो ए १६ बोल ॥ हिवे अनंत प्रदेशी वादर बंध ते किंसा (२०) बोल उपर मंडीयाते हिवंखंधना प्रदेशमे बोल जघन्य पावे ५ उत्कृष्टा २० बोल पावे हिवे (१) प्रदेशीया प्रमाणुवाला पुद्गलमे पावे (१) वरण (१) रस (२) बोल सित्तराते कीसा चीगटो लुषो तथा (२) बोल उसणारा लुषो चीगटो ॥ रूपी पुद्गलना बोल संपूर्ण ॥ हिवे अरूपी-ना बोल कहे छे ॥ जीवनीज गुणना बोल ॥ जीवनी कलंक (१) जीवास्तीकाय संसारी (२) जिवसिध ॥ हिवे संसारी जीवना मे

कहे छे (६) भावछेस्या प्रवर्तमान (३) दृष्टि सरदहणारूप
 (१२) उपीयोग भाणवा रूप (४) सगन्या (२४) ददकमाहे
 सगन्या समभाव बर्ते ॥ जीवना प्रणमां (१८) पापसू निवर्तवो (४)
 बोल कहे छे (१) उठाण कहतां उमा घायवो (२) कर्म कहतां गमण
 कीरीया कर्षो; (३) बलते कहतां शरीरनो माफ्तम (४) वीर्य कहतां
 जीवनो उच्छ्रव हीमत करे वीर्यना दोय मेद (१) सकर्ण ते ससारी
 जीवम पावे [२] अकर्ण ते सिद्धामे पाव पुरसाकार ते कहता अमी-
 मान करने सगछाना काम कर (४) बुद्धिना नाम (१) उठपातिया
 (२) धीनीया (३) कमीया (४) परणामीया (४) मतिमा थोळ कहे
 छे ॥ उग्र कहेतां हेळो पावे ते मुणे (२) इहां कहतां हेळो कीणने
 दीनो धितवे (३) उवाइ कहतां ओलख्यो हेळो फलाणाने दीनो
 (४) धारणा समाधार मुणीने हीये धारसीना ए (४) बोळ अरूपी
 अजीव (१) धरमास्ती (२) अधरमास्ती (३) अकासास्ती (४)
 काळास्ती ए (४) जीवसञ्जुक्त पुदगल ए (२०) चोपरसी ए (१६)
 अठपरसी (१) पुत्रगल चोपरसी (अथवा) अठपरसी जीवरहित पुद-
 गलमे (१६) मूत्रमे (२०) वादरमे एक ॥ ममाणुमे जपन्य (५)
 मोल पावे उत्कृष्टा (२०) बोळ पावे ॥

॥ इति श्री सिद्धांत शिरोमणी द्वितीय खण्डे रूपी
 अरूपी द्वाराख्यं दशम प्रकरणम् ॥

प्रकरण इग्यारवा-सो बोलनो बासठियो॥

गाथा.



^१ जीव ^२ गई ^३ इंदीय ^४ काए ^५ जोए ^६ वेय ^७ कसाय ^८ लेशाय ^९ समत्त ^{१०} णाय
^{१०} दंसणे ^{११} संजए ^{१२} उव ^{१३} उग्ग ^{१४} अहारे (१) ^{१५} भासग्ग ^{१६} परित ^{१७} पज्जत्ते ^{१८} सुद्धुम
^{१८} सन्नी ^{१९} भवत्थ ^{२०} चरिमेय जीव खेत्ते वंधे पोग्गळे महाढंडए चेव (२)

जीवका गुण भेद ठाणा जोग उप-लेशा.
 योग

१	समुच्चै जीवमें	१४	१४	१५	१२	६	सर्वसू थोडी मनुष्यनी १
२	नारकीमें	३	४	११	९	३	ते थकी मनुष्य असंख्यात गुणा २
३	तिर्यंचमें	१४	५	१३	९	६	नेरिया असंख्यात गुणा ३
४	तिर्यंचणीमें	२	५	१३	९	६	तिर्यंचणी असंख्यात गुणी ४
५	मनुष्यमें	३	१४	१५	१२	६	देवता असख्यात गुणा ५
६	मनुष्यगीमें	२	१४	१३	१२	६	देवागना सख्यात गुणी ६
७	देवतामें	३	४	११	९	६	सिद्ध भगवान अनंत गुणा ७
८	देवागनामें	२	४	११	९	४	तिर्यंच अनंत गुणा ८
९	सिद्ध भगवानमें	०	०	०	२	०	समुच्चय जीव विषे साहिया ९ इति जीवद्वार ॥ १ ॥
१०	सहदियामें	१४	१२	१५	१०	१	सर्वसू थोडा पवेद्विया २
११	एकद्वियामें	४	९	५	३	४	ते थकी चौरिद्विया चित्तेसाहिया २

१२	तेइद्रियार्मे	२	२	४	५	३	तेइद्रिया बिते साहिबा ३
१३	तेइद्रियार्मे	२	२	४	५	३	तेइद्रिया बिते साहिबा ४
१४	अभेद्रियार्मे	२	२	४	३	३	अभेद्रिया अर्बतगुजा ५
१५	पेरेद्रियार्मे	४	१२	१५	१	६	पेरेद्रिया अर्बतगुजा ६
१६	अभेद्रियार्मे	१	२	४	२	१	साइद्रिया बितेसाहिबा ७ इति इद्रियद्वार ३ २ ॥
१७	सकाइवार्मे	१४	१४	१५	१२	६	सर्पसूं थोटा असकाइवा १
१८	गुम्बीकाइवार्मे	४	१	३	३	४	तेइकाइवा असंख्यात गुजा २
१९	अपकाइवार्मे	४	१	३	३	४	गुम्बीकाइवा बितेसाहिबा ३
२०	तेइकाइवार्मे	४	१	३	३	३	अपकाइवा बितेसाहिबा ४
२१	बावकाइवार्मे	४	१	३	३	३	बावकाइवा बितेसाहिबा ५
२२	अनस्पति काइवार्मे	४	१	३	३	४	अकाइवा अर्बतगुजा ६
२३	अस काइवार्मे	१	१४	१५	१२	६	अनस्पति काइवा अर्बतगुजा ७
२४	अकाइवार्मे				२		सकाइवा बितेसाहिबा ८ इति कापद्वार ३ ३ ॥
२५	सजोगीर्मे	१४	१२	१५	१२	६	सबसूं थोटा मन जोगी १
२६	मन जोगीर्मे	१	१३	१४	१२	६	अमन जोगी असंख्यातगुजा ५
२७	अमन जोगीर्मे	५	१३	१४	१२	६	अजोगी अर्बतगुजा ३
२८	आय जोगीर्मे	१४	१२	१५	१२	६	आयजोगी अर्बतगुजा ४
२९	अजोगीम	१	१		२		सजोगी बितेसाहिबा ५ इति जोगद्वार ३ ४ ॥
३०	सोरीर्मे	१४		१५	१	६	सपसूं थोटा सुदबवेदी १

३१	स्त्री वेदीमें	२	९	१३	१०	६	स्त्री वेदी संख्यात गुणी २
३२	पुरुष वेदीमें	०	९	१५	१०	६	अवेदी अनंत गुणा ३
३३	नपुंसक वेदीमें	१४	९	१५	१०	६	नपुंसक वेदी अनंत गुणा ४
३४	अवेदीमें	१	५	११	९	१	सवेदी विलेसाहिया ५ इति वेदीद्वार ॥ ५ ॥
३५	सकपायीमें	१४	१०	१५	१०	६	सर्वसू थोडा अकपाई १
३६	क्रोध कपाईमें	१४	९	१५	१०	६	ते थकि मान कपाई अनंत गुणा २
३७	मान कपाईमें	१४	९	१५	१०	६	क्रोध कपाई विलेसाहिया ३
३८	माया कपाईमें	१४	९	१५	१०	६	माया कपाई विलेसाहिया ४
३९	लोभ कपाईमें	१४	१०	१५	१०	६	लोभ कपाई विलेसाहिया ५
४०	अकपाईमें	१	४	११	९	१	सकपाई विलेसाहिया ६ इति कपायद्वार ॥ ६ ॥
४१	सलेशीमें	१४	१३	१५	१२	६	सर्वसू थोडा सुकललेशी १
४२	कृष्ण लेशीमें	१४	६	१३	९	१	पद्मलेशी असंख्यात गुणा २
४३	नील लेशीमें	१४	६	१२	९	१	तेजूलेशी असंख्यात गुणा ३
४४	कापोत लेशीमें	१४	६	१३	९	१	अलेशी अनंत गुणा ४
४५	तेजु लेशीमें	३	७	१५	१०	१	कापोतलेशी अनंत गुणा ५
४६	पद्म लेशीमें	२	७	१५	१०	१	नीललेशी विलेसाहिया ६
४७	सुकल लेशीमें	२	१३	१५	१२	१	कृष्णलेशी विलेसाहिया ७
४८	अलेशीमें	१	१	०	२	०	सलेशी विलेसाहिया ८ इति लेशाद्वार ॥ ७ ॥
४९	सन्नागीमें	६	१२	१५	९	६	सर्वसू थोडा मनपर्यवनाणी १

५	मति नात्रीमें	१	१०	१५	७	१	अवधि नात्री असेम्बात गुणा १
५१	श्रुत नात्रीमें	१	१	१५	७	१	मति नात्री श्रुत नात्री माहो- माहीतुला दिने साहिया ३ ४
५२	अवधि नात्रीमें	२	१	१५	७	१	विमंग अन्नाजी असेम्बात गुणा ५
५३	मन पय नात्रीमें	१	७	१५	७	३	वेबकनात्री असेम्बात गुणा १
५४	वेबक नात्रीमें	१	२	७	२	१	सम्नात्री दिने साहिया ७
५५	मति अन्नाजीमें	१४	२	१३	१	१	मति अन्नाजी श्रुत अन्नाजी माहोमाहीतुला असेम्बात गुणा ८-९
५६	श्रुत अन्नाजीमें	१४	२	१२	१	१	
५७	विमंग अन्नाजीमें	१	२	१३	१	१	इति नाम द्वार ३ ८ ३
५८	सम्पक इष्टीमें	१	१२	१५	९	१	सर्वतुं थोटा सारखादान सम्- क्रिती १
५९	मिथ्या इष्टीमें	१४	१	१३	१	१	अपसम समक्रिती असेम्बात गुणा ६
६०	समा मिथ्या इष्टीमें	१	१	१	१	१	समा मिथ्या इष्टी असेम्बात गुणा ३
६१	सारखादान समक्रितीमें	१	१	१३	१	१	वेबक
६२	अपसम समक्रितीमें	१	८	१५	७	१	शापसम समक्रिती माहोमाही- तुला असेम्बात गुणा ४-५
६३	वेबक समक्रितीमें	२	४	१५	७	१	शापक समक्रिती असेम्बात गुणा ६
६४	शापसम समक्रितीमें	१	४	१५	७	१	मिथ्या इष्टी असेम्बात गुणा ७
६५	शापक समक्रितीमें	२	११	१५	९	१	सम्पक इष्टी विनेसा दिना ८
							इति समक्रिती द्वार ७ ९ ३
६६	अपु दरममें	१	१२	१४	१	१	सर्वतुं थोटा अवधि दरमनी १
६७	अपु दरममें	१४	१२	१५	१	१	अपु दरमनी असेम्बात गुणा ९


६८	अवधि दर्शनमें	६	१२	१४	१०	६	केवल दर्शनी अनत गुणा ३
६९	केवल दर्शनमें	१४	१२	१५	१०	६	अचपु दर्शनी अनत गुणा ४ इति दर्शन द्वार ॥ १० ॥
७०	समुच्चये संजतीमें	१	९	१५	९	६	सर्वसू थोडा सूक्ष्म सपरायना धणी १ परिहार विमुद्धिना
७१	सामाहक छेदोपस्थाप- नी चारित्रमें	१	४	१४	७	६	धणी सख्यात गुणा २ यथा ख्यातना धणी संख्यात गुणा ३
७२	परिहार विमुद्धी चा- रितमें	१	२	९	७	१	छेदोपस्थापनी चारितना धणी
७३	सूक्ष्म सपराय चारि- त्रमें	१	१	९	७	३	सख्यात गुणा ४ सामाहक चारितना धणी सख्यात
७४	यथा ख्यात चारित्रमें	१	४	११	९	१	गुणा ५ सजती विले साहिया ६ सजता सजती असख्यात
७५	असयतीमें	१४	४	१३	९	६	गुणा ७ नो संजतीनो अस- जतीनो सजता सजती अनत
७६	सजता सयतीमें	१	१	१२	६	६	गुणा ८
७७	नो सजतीनो असजती- नो सजता सजतीमें	०	०	०	२	०	असजती अनत गुणा ९ इति संजयद्वार ॥ ११ ॥
७८	साकार वदत्तामें	१४	१४	१५	१२	६	सर्वसू थोडा अनाकार वदत्ता १ साकार वदत्ता सख्यात गुणा २
७९	अनाकार वदत्तामें	१४	१३	१५	१२	६	इति उपयोग द्वार ॥ १२ ॥
८०	आहारिकमें	१४	१३	१४	१२	६	सर्वसू थोडा अनाहारीक १ आहारीक असख्यात गुणा २
८१	अनाहारिकमें	८	५	११०	६	इति आहारीक द्वार ॥ १३ ॥	
८२	भासकमें	५	१३	१४	१२	६	सर्वसू थोडा भासक १ अभासक अनत गुणा २
८३	अभासकमें	१०	५	५	११	६	इति भासक द्वार ॥ १४ ॥
८४	परतमें	१४	१४	१५	१२	६	सर्वसू थोडा परत १
८५	अपरतमें	१४	११	१३	६	६	नोपरतनो अपरत अनत गुणा २

८६	मोपरतनो अपरतमें				२	अपरत अनंत गुणा १ इति परतद्वार ॥ १५ ॥	
८७	पर्जासामें	७	१४	१५	१२	६	सबसू घोडा मोपर्जासाको अपर्जासा १
८८	अपर्जासामें	७	३	५	९	६	अपर्जासा अनंत गुणा २ पर्जासा संरचात गुणा ३ इति परतद्वार ॥ १६ ॥
८९	मोपर्जासाको अपर्जासामें					२	
९०	सूक्ष्मम	२	१	३	३	३	सर्वसू घोडा मोसूक्ष्ममकोबाहर बाहर अनंत गुणा २
९१	बाहरमें	१२	१४	१५	१२	६	सूक्ष्मम असंख्यात गुणा ३ इति सूक्ष्मद्वार ॥ १७ ॥
९२	मोसूक्ष्ममको बाहरमें					२	
९३	सन्धीमें	२	१२	१५	३	६	सबसू घोडा तो सन्धी १ को सन्धी असन्धी अनंत गुणा २
९४	असन्धीमें	१२	२	६	६	४	असन्धी अनंत गुणा ३ इति सन्धीद्वार ॥ १८ ॥
९५	मोसन्धीको असन्धीमें	१	२	७	२	१	
९६	अमर्यमें	१४	१४	१५	१२	६	अमर्य घोडा अमर्य १ मोअमर्यको अमर्य अनंत गुणा २
९७	अमर्यमें	१४	१	१३	६	६	अमर्य अनंत गुणा ३ इति अमर्यद्वार ॥ १९ ॥
९८	मोअमर्यको अमर्यमें					२	
९९	अचरमें	१४	१४	१५	१२	६	सबसू घोडा अचर १ अचर अनंत गुणा २
१	अचरमें	१४	१	१३	६	६	इति अचरद्वार ॥ २० ॥

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणी द्वितीय खण्डे शत
सन्नाड्य एकादश प्रकरणम् ॥



प्रकरण बारवा-१८ बोलनो बासठीयो.



दिवे पञ्चवणाजी सूत्रके तीजा पदणे अनुसारें १८ बोल कहे छे. ॥

१	सर्वसूं थोहा गर्भेज मनुष्यमे	२	१४	१५	१२	६
२	मनुष्यनी संख्याद्गुणामे	२	१४	१३	१२	६
३	बाघर सेवकार्हाया अयाप्ता अस्ख्यात गु०	१	१	१	३	३
४	पांच अणुत्तर दिमानवासी देवता असंख्यातगुणामे	२	४	११	६	१
५	नवग्रीविकका उपरली त्रिकका देवता संख्यात गु	२	३	११	९	१
६	नवग्रीविकका बिचली त्रिकका देवता संख्यातगुणा०	२	३	११	९	१
७	नवग्रीविकका नीचली त्रिकका देवता संख्यातगु०	२	३	११	९	१
८	चारमा देवलोकका देवता संख्याद्गुणामे	२	४	११	९	१
९	द्वयारमा देवलोकका देवता संख्यात गुणामे	२	४	११	९	१
१०	दसमा देवलोकका देवता संख्यातगुणामे	२	४	११	९	१
११	नवमा देवलोकका देवता संख्यातगुणामे	२	४	११	९	१
१२	सातमी नरकना नेरीया असंख्यात गुणामे	२	४	११	९	१

१३	छट्टी नरकना बेरीया असंख्यातगुणामे	२	४	११	९	१
१४	आठना देवळोकका देवता असंख्यातगुणामे	२	४	११	९	१
१५	सातमा देवळोकका देवता असंख्यातगुणामे	२	४	११	९	१
१६	पांचमी नरकना मेरिया असंख्यातगुणामे	२	४	११	९	२
१७	छट्टी देवळोकना देवता असंख्यातगुणामे	२	४	११	९	१
१८	चौथी नरकना बेरीया असंख्यातगुणामे	२	४	११	९	१
१९	पांचमा देवळोकका देवता असंख्यातगुणामे	२	४	११	९	१
२०	तीजी नरकना मेरिया असंख्यातगुणामे	२	४	११	९	२
२१	चौथा देवळोकका देवता असंख्यातगुणामे	२	४	११	९	१
२२	तीजा देवळोकका देवता असंख्यातगुणामे	२	४	११	९	१
२३	दुधी नरकना बेरीया असंख्यातगुणामे	२	४	११	९	१
२४	समूच्छम् भद्रुष्य असंख्यातगुणामे	१	१	३	३	३
२५	दुधा देवळोकका देवता असंख्यातगुणामे	२	४	११	९	१
२६	दुधा देवळोककी देवी असंख्यातगुणीमे	२	४	११	९	१
२७	पेडा देवळोकका देवता संख्यातगुणामे	२	४	११	९	१
२८	पेडा देवळोककी देवी संख्यातगुणीमे	२	४	११	९	१
२९	मधनपती देवता असंख्यातगुणामे	३	४	११	९	४
३०	मधनपतीकी देवी संख्यातगुणीमे	२	४	११	९	४

३१	पेली नरकना नेरिया असंख्यातगुणामे	३	४	११	९	१
३२	खेचर पुरुष असंख्यातगुणामे	२	५	१३	९	३
३३	खेचरणी संख्यातगुणीमे	२	५	१३	९	६
३४	स्थलचर पुरुष संख्यातगुणामे	२	५	१३	९	६
३५	स्थलचरणी संख्यातगुणीमे	२	५	१३	९	६
३६	जलचर पुरुष संख्यातगुणामे	२	५	१३	९	६
३७	जलचरणी संख्यातगुणीमे	२	५	१३	९	६
३८	वाणव्यंतर देवता संख्यातगुणामे	३	४	११	९	४
३९	वाणव्यंतरनी ठेवी संख्यातगुणीमे	३	४	११	९	४
४०	ज्योतिषी देवता संख्यातगुणामे	२	४	११	९	१
४१	ज्योतिषीनी देवता संख्यातगुणामे	२	४	११	९	१
४२	खेचर नपुंसक संख्यातगुणामे	२	५	१३	९	६
४३	स्थलचर नपुंसक संख्यातगुणामे	२	५	१३	९	६
४४	जलचर नपुंसक संख्यातगुणामे	२	५	१३	९	६
४५	घोरिंद्री पयासा संख्यातगुणामे	१	१	२	४	३
४६	पंचेद्री पर्यासा वितेसाहियामे	२	१२	१५	१०	६
४७	वेरिंद्री पयासा वितेसाहियामे	१	१	२	३	३
४८	तेरिंद्री पयासा वितेसाहियामे	१	१	२	३	३

४९	दर्वेद्री अपर्णाता असंख्यातगुणामे	२	३	५	९	३
५०	चोरिद्री अपर्णाता बितेसाहियामे	१	२	३	६	३
५१	ठेरिद्री अपर्णाता बितेसाहियामे	१	२	३	५	३
५२	वेरिद्री अपर्णाता बितेसाहियामे	१	२	३	५	३
५३	बाहर बलस्पती काह्या प्रजाता प्रत्येक शरीरी असं	१	१	१	३	३
५४	बाहरभिगोदा प्रजाता शरीर असंख्यातगुणा	१	१	१	३	३
५५	बाहर घुम्बीकाह्या प्रजाता असंख्यातगुणा	१	१	१	३	३
५६	बाहर अपकाह्या प्रजाता असंख्यातगुणामे	१	१	१	३	३
५७	बाहर पाककाह्या प्रजाता असंख्यातगुणामे	१	१	१	३	३
५८	बाहर तेडकाह्या अपर्णाता असंख्यातगुणामे	१	१	३	३	३
५९	प्रत्येक शरीरी बाहर बलस्पतीकाह्या अप संख्या	१	१	३	३	५
६०	बाहरभीगोदा अपर्णाता असंख्यातगुणामे	१	१	३	३	३
६१	बाहर घुम्बीकाह्या अपर्णाता असंख्यातगुणामे	१	१	३	३	५
६२	बाहर अपकाह्या अपर्णाता असंख्यातगुणामे	१	१	३	३	५
६३	बाहर पाककाह्या अपर्णाता असंख्यातगुणा	१	१	३	३	३
६४	सूक्ष्म तेडकाह्या अपर्णाता असंख्यातगुणा	१	१	३	३	३
	सूक्ष्म घुम्बीकाह्या अपर्णाता बितेसाहिया	१	१	३	३	३
६५	सूक्ष्म अपकाह्या अपर्णाता बितेसाहियामे	१	१	३	३	३

६७	सूक्ष्म वाउकाइया अपर्याप्ता विसेसाहियामे	१	१	३	३	३
६८	सूक्ष्म तेजकाइया प्रजाप्ता संख्यात गुणामे	१	१	१	३	३
६९	सूक्ष्म पृथ्विकाइया पर्याप्ता विसेसाहियामे	१	१	१	३	३
७०	सूक्ष्म अपकाइया पर्याप्ता विसेसाहियामे	१	१	१	३	३
७१	सूक्ष्म वाउकाइया पर्याप्ता विसेसाहियामे	१	१	१	३	३
७२	सूक्ष्म निगोदा अपर्याप्ता असख्यात गुणामे	१	१	३	३	३
७३	सूक्ष्म निगोदा पर्याप्ता सख्यात गुणामे	१	१	१	३	३
७४	अभव्य जीव अनंत गुणा	१४	१	१३	६	६
७५	पठवाई सम्यग्दृष्टि अनंत गुणा	१४	१	१३	६	६
७६	सिद्ध भगवान अनंत गुणा	०	०	०	०	०
७७	वादर वनस्पतिकाइया पर्याप्ता अनंत गुणा	१	१	१	३	३
७८	वादर पर्याप्ता विसेसाहिया	६	१४	१५	१२	६
७९	वादर वनस्पतिकाइया अपर्याप्ता असख्यात गुणामे	१	१	३	३	३
८०	वादर अपर्याप्ता विसेसाहिया	६	३	५	९	६
८१	समुच्चय वादर विसेसाहिया	१२	१४	१५	१२	६
८२	सूक्ष्म वनस्पतिकाइया अपर्याप्ता असख्यात गुणामे	१	१	३	३	३
८३	सूक्ष्म अपर्याप्ता विसेसाहिया	१	१	३	३	३
८४	सूक्ष्म वनस्पतिकाइया पर्याप्ता संख्यात गुणामे	१	१	१	३	३

१७	तेरमा गुण्डानामे	१	१	७	२	१	३	७	१
१८	षडशमा गुण्डानामे	१	१		२		३	६	१
१९	सप्त सप्त जोगमे	१	१३	१४	१२	६	५	८	१६
२०	असप्त सप्तजोगमे	१	६	१२	१	६	५	८	१६
२८	सिध सप्तजोगमे	१	६	१४	१	६	५	८	१६
२९	विषहार सप्तजोगमे	१	१३	१४	१२	६	५	८	१६
२	सप्त षडशजोगमे	१	१३	१४	१२	६	५	८	१६
२१	असप्त षडशजोगमे	१	६	१२	१	६	५	८	१६
२२	सिध षडशजोगमे	१	६	१४	१	६	५	८	१६
२३	विहार षडशजोगमे	१	१३	१४	१२	६	५	८	१६
२४	व्यहारीक जोगमे	१४	१३	१५	१२	६	५	८	१
२५	व्यहारीक सिधमे	२	६	१५	१२	६	५	८	१
२६	व्येय जोगमे	३	६	१४	१	६	५	८	१६
२७	व्येय सिधमे	३	५	१४	१	६	५	८	१६
२८	आहारीक जोगमे	१	१	१४	७	६	५	८	१
२९	आहारीकसिधमे	१	१	१४	७	६	५	८	१
३०	काम्य जोगमे	८	४	११		६	५	८	२४
३१	व्यय भाषमे	१४	१४	१५	१२	६	५	८	२४




प्रकरण तेरवां-योगको बासठियो.

श्री	योगको बासठियो.	जीव	गुणठाणा	जाग	उपयोग	रुशा	साव	आत्म	संठक
१	समुच्चै जीवमे	१४	१४	१५	१२	६	५	८	२४
२	पेहेला गुणठाणामे	१४	१	१३	६	६	३	६	२४
३	दूजा गुणठाणामे	६	१	१३	६	६	३	७	१९
४	तीजा गुणठाणामे	१	१	१०	६	६	३	६	१६
५	चोथा गुणठाणामे	२	१	१३	६	६	५	७	१६
६	पांचमा गुणठाणामे	१	१	१२	६	६	५	७	२
७	छठ्ठा गुणठाणामे	१	१	१२	७	६	५	८	१
८	सातमा गुणठाणामे	१	१	५	७	३	५	८	१
९	आठमा गुणठाणामे	१	१	५	७	१	५	८	१
१०	नवमा गुणठाणामे	१	१	५	७	१	५	८	१
११	दसमा गुणठाणामे	१	१	५	४	१	५	८	१
१२	द्वन्धारमा गुणठाणामे	१	१	५	७	१	५	७	१
१३	बारमा गुणठाणामे	१	१	५	७	१	४	७	१

८५	सूक्ष्म पर्याहा विवेसाहिषा	१	१	१	३	३
८६	समुच्चय सूक्ष्म विवेसाहिषा	१	१	३	३	३
८७	मन्सिद्धिषा जीव विवेसाहिषा	१४	१४	१५	१२	६
८८	निगाहा जीव विवेसाहिषा	४	१	३	३	३
८९	बनस्पतीकाइषा विवेसाहिषा	४	१	३	३	४
९०	पुष्पजी जीव विवेसाहिषा	४	१	५	३	४
९१	तिर्मिष विवेसाहिषा	१४	५	१३	५	६
९२	मिष्याहृष्टि जीव विवेसाहिषा	१४	५	१३	५	६
९३	अभिरती जीव विवेसाहिषा	१४	४	१३	५	६
९४	सकसाह विवेसाहिषा	१४	१	१५	१	६
९५	अस्य जीव विवेसाहिषा	१४	१२	१५	१२	६
९६	सत्रोगी जीव विवेसाहिषा	१४	१३	१५	१२	६
९७	सैसारया जीव विवेसाहिषा	१४	१४	१५	१२	६
९८	अव जीव विवेसाहिषा	१४	१४	१५	१२	६

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे षष्ठनवति
संज्ञाख्य द्वादश प्रकरणम् ॥ १२ ॥ (बोल)





प्रकरण तेरवां-योगको वासठियो.

श्री	योगको वासठियो.	जीव	गुणठाणा	जोग	अपयोग	रुद्रा	भाव	आत्म	दंडक
१	समुच्चै जीवमे	१४	१४	१५	१२	६	५	८	२४
२	पेहेला गुणठाणामे	१४	१	१३	६	६	४	६	२४
३	दूजा गुणठाणामे	६	१	१३	६	६	४	७	१९
४	तीजा गुणठाणामे	१	१	१०	६	६	४	६	१६
५	चोथा गुणठाणामे	२	१	१३	६	६	५	७	१६
६	पांचमा गुणठाणामे	१	१	१२	६	६	५	७	२
७	छठ्ठा गुणठाणामे	१	१	१४	७	६	५	८	१
८	सातमा गुणठाणामे	१	१	५	७	३	५	८	१
९	आठमा गुणठाणामे	१	१	५	७	१	५	८	१
१०	नवमा गुणठाणामे	१	१	५	७	१	५	८	१
११	दसमा गुणठाणामे	१	१	५	४	१	५	८	१
१२	इग्यारमा गुणठाणामे	१	१	५	७	१	५	७	१
१३	बारमा गुणठाणामे	१	१	५	७	१	४	७	१

१३	तेरमा गुण्डागामे	१	१	०	२	१	३	०	१
१५	चवदसरा गुण्डागामे	१	१		२		३		१
१९	सप्त मन्त्र जोगामे	१	१३	१४	१२		२	५	८१९
१७	असत मन्त्रजोगामे	१	२	१३	१		२	५	८१९
१८	सिद्ध मन्त्रजोगामे	१	२	१३	१०		२	५	८१९
१९	विषहार मन्त्रजोगामे	१	१३	१३	१२		२	५	८१९
२०	सत चवदसजोगामे	१	१३	१३	१२		२	५	८१९
२१	असत चवदसजोगामे	१	२	१३	१०		२	५	८१९
२२	सिद्ध चवदसजोगामे	१	२	१३	१		२	५	८१९
२३	विहार चवदसजोगामे	१	१३	१३	१२		२	५	८१९
२४	वदारीक जोगामे	१३	१३	१५	१२		२	५	८१९
२५	वदारीक सिद्धमे	२	२	१५	१२		२	५	८१९
२६	वैश्व जोगामे	३	३	१५	१		२	५	८१९
२७	वैश्व सिद्धमे	३	५	१३	१		२	५	८१९
२८	आहारीक जोगामे	१	१	१३	०		२	५	८१९
२९	आहारीकसिद्धमे	१	१	१३	०		२	५	८१९
३०	काम्य जोगामे	८	४	११			२	५	८२५
३१	वद्वेज भावमे	१३	१३	१५	१२		२	५	८२५

३२	स्वपशम भावमे	२	८	१५	७	६	५	८	१६
३३	क्षायक भावमे	२	११	१५	९	६	५	८	१६
३४	क्षयोपशम भावमे	१४	१२	१५	१०	६	५	८	२४
३५	परिणामिक भावमे	१४	१४	१५	१२	६	५	८	२४
३६	द्रव्य आत्मामे	१४	१६	१५	१२	६	५	८	२४
३७	कषाय आत्मामे	१४	१०	१५	१०	६	५	८	२४
३८	योग आत्मामे	१४	१३	१५	१२	६	५	८	४
३९	उपलोग आत्मामे	१४	१४	१५	१२	६	५	८	२४
४०	ज्ञान आत्मामे	६	१२	१५	८	६	५	८	१९
४१	दर्शन आत्मामे	१४	१४	१५	१	६	५	८	२४
४२	चारित्र्य आत्मामे	१	९	१५	९	६	५	८	१
४३	वीरी आत्मामे	१४	१४	१५	१२	६	५	८	२४
४४	मिथ्यात्व आश्रवमे	१४	११	३	६	६	३	६	२४
४५	अवृत्ती आत्मामे	१४	५	१३	९	६	५	७	२४
४६	प्रमाद आश्रवमे	१४	६	१५	१०	६	५	८	२४
४७	कषाय आश्रवमे	१४	१०	१५	१०	६	५	८	२४
४८	योग आश्रवमे	१४	१३	१५	१२	६	५	८	२४
४९	समकित सबरमे	१	१०	१५	९	६	५	८	२

५०	वृत्त संवत्सरे	१	१५	२	१	५	८
५१	प्रमाद संवत्सरे	१	८	७	९	५	८
५२	कषाय संवत्सरे	१	४	७	९	५	७
५३	अजोग से संवत्सरे	१	१	१	३	३	१
५४	अपघ्नम चारित्र्ये	१	१	५	७	५	७
५५	शायक चारित्र्ये	१	३	७	९	७	७
५६	शपोपघ्नम चारित्र्ये	१	५	७	७	५	७
५७	वार वीरज्ये	१३	४	१३	९	५	७
५८	पंडीत वीरज्ये	१	९	१५	९	५	८
५९	वाकपंडित वारज	१	१	१२	६	५	७
६०	सीधार्मे				२	२	७

॥ इति श्री सिद्धांत शिरोमणौ द्वितीय खण्डे योग
कोशस्य त्रयोदश प्रकरणम् ॥





प्रकरण चवदवां-४३ बोलकी अल्पाबहुत.

- (१) सर्वसूं थोडा मिश्र दृष्टी.
- (२) ते थकी पुरुषवेदी असंखेजगुणा.
- (३) ते थकी स्त्रीवेदी संखेजगुणा.
- (४) ते थकी देवगतीया विसेसाहिया.
- (५) ते थकी सन्नी संखेजगुणा.
- (६) ते थकी भापक संखेजगुणा.
- (७) ते थकी सइंदिया असंखेजगुणा.
- (८) ते थकी अभव्य जीव अनंतगुणा.
- (९) ते थकी परत अनंतगुणा.
- (१०) ते थकी शुक्लपक्षी विसेसाहिया.
- (११) ते थकी अजोगी अनंतगुणा.
- (१२) ते थकी अणेंदीया.
- (१३) नोसन्नी नोअसन्नी तुल्ला विसेसा०
- (१४) ते थकी सम्यक् दृष्टि विसेसाहिया.
- (१५) ते थकी असन्नीका अलद्वीया विसेसा०

- (१६) ते यकी मध्यका अलदिया
 (१७) अर्धम तुष्टा विसेसाहिया
 (१८) ते यकी वादर जीव अनतगुणा
 (१९) ते यकी अणाहारी असखेजगुणा
 (२०) ते यकी अममाता असखेजगुणा
 (२१) ते यकी ममाता सखेजगुणा
 (२२) ते यकी आहारीक विसेसाहिया
 (२३) ते यकी सुस्मजीव विसेसाहिया
 (२४) ते यकी कृष्णपत्नी विसेसाहिया
 (२५) ते यकी अपरत विसेसाहिया
 (२६) ते यकी मय चरम
 (२७) अचरम तुष्टा विसेसाहिया
 (२८) ते यकी असत्री विसेसाहिया
 (२९) मपुसक विसेसाहिया
 (३०) ते यकी तिर्यघ विसेसाहिया
 (३१) ते यकी कृष्ण छेत्री विसेसाहिया
 (३२) ते यकी मिथ्यास्त्री विसेसाहिया
 (३३) ते यकी अनापी विसेसाहिया
 (३४) ते यकी अघिरती विसेसाहिया
 (३५) वं यकी फासेदिया विसेसाहिया
 (३६) ते यकी आहारया विसेसाहिया
 (३७) ते यकी ससारया, मो भव, मो अमव, ना

- (३८) अलद्धीया तुला विसेसाहिया.
 (३९) ते थकी अभवका अलद्धीया विसे०
 (४०) ते थकी रसेंद्रीना अलद्धिया विसे०
 (४१) ते थकी पंचेद्रीना अलद्धिया विसे०
 (४२) ते थकी अभासक विसेसाहिया.
 (४३) ते थकी सन्नीना अलद्धिया विसेसाहिया.

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे
 त्रिचत्वारिंशत् संज्ञाऽल्प बहुत्वाऽख्यं
 चतुर्दश प्रकरणम्. ॥




- (१६) ते यकी मम्यका अस्तद्विया
 (१७) अचर्म तुला विसेसाहिया
 (१८) ते यकी धादर जीव अनतगुणा
 (१९) ते यकी अजाहारी असखेजगुणा
 (२०) ते यकी अमजाता असखेजगुणा
 (२१) ते यकी मजाता सखेजगुणा
 (२२) ते यकी आहारीक विसेसाहिया
 (२३) ते यकी सूक्ष्मगीष विसेसाहिया
 (२४) ते यकी कृष्णपत्नी विसेसाहिया
 (२५) ते यकी अपरत विसेसाहिया
 (२६) ते यकी भय चरम
 (२७) अचरम तुला विसेसाहिया
 (२८) ते यकी असनी विसेसाहिया
 (२९) नपुंसक विसेसाहिया
 (३०) ते यकी तिर्यच विसेसाहिया
 (३१) ते यकी कृष्ण छेष्टी विसेसाहिया
 (३२) ते यकी मिथ्यात्नी विसेसाहिया
 (३३) ते यकी अनाणी विसेसाहिया
 (३४) ते यकी अनिरती विसेसाहिया
 (३५) ते यकी फासेन्धिया विसेसाहिया
 (३६) ते यकी आहारया विसेसाहिया
 (३७) ते यकी संसारया, मो भव, मो अमव, ना

- (१८) अप्रजाप्ता चोयेंद्रीनो उत्कृष्ट काल विसेसाहिया.
- (१९) प्रजाप्त चोयेंद्रीनो जघन्य काल विसेसाहिया.
- (२०) अप्रजाप्ता पंचेंद्रीनो जघन्य काल विसेसाहिया.
- (२१) अप्रजाप्ता पंचेंद्रीनो उत्कृष्ट काल विसेसाहिया.
- (२२) प्रजाप्ता पंचेंद्रीनो जघन्य काल विसेसाहिया.
- (२३) उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्तनो काल संखेजगुणो.
- (२४) मुहूर्तनो काल विसेसाहिया एक १-समयाधिक.
- (२५) अहोरात्रनो काल संखेजगुणो.
- (२६) तेउकायनी उत्कृष्ट थितनो काल संखेजगुणो.
- (२७) पक्षनो काल संखेजगुणो.
- [२८] मासनो काल संखेजगुणो.
- [२९] तेयेंद्रीनो उत्कृष्ट थितनो काल विसेसाहिया.
- [३०] ऋतुनो काल विसेसाहिया.
- [३१] चोरेंद्री उत्कृष्टी थितनो वा अयननो काल विसेसाहिया.
- [३२] वर्षनो काल संखेजगुणो.
- [३३] युगनो काल संखेजगुणो.
- [३४] वेयेंद्रीनी उत्कृष्ट थितनो काल संखेजगुणो.
- [३५] वाउकायनी उत्कृष्ट थितनो काल संखेजगुणो.
- [३६] अपकायनी उत्कृष्ट थितनो काल संखेजगुणो.
- [३७] नरक देवतानी जघन्य थितनो काल और वनस्पती कायनी उत्कृष्ट थितनो काल संखेजगुणो.
- [३८] पृथिवीकायनी उत्कृष्ट थितनो काल संखेजगुणो.
- [३९] उद्धार पल्यना जघन्य असंख्यातमे भागनो काल संखेजगुणो.
- [४०] उद्धार पल्यनो काल असंखेजगुणो.
- (४१) उद्धार सागरनो काल संखेजगुणो.
- (४२) अद्धापल्यना जघन्य असंख्यातमे भागनो काल संखेजगुणो.



प्रकरण पदरवां ६५ वोलनी अल्पावहृत



- (१) सर्वसू थोडो समयनो काल
- (२) ते थकी भाषलिकानो काल असखेजगुणो
- (३) ते थकी जघन्य अतर्मुहूर्तनो काल विसेसाहिया ? समपापिक
- (४) ते थकी जघन्य आयुषपनो काल संखेजगुणो
- (५) ते थकी उत्कृष्ट आयुषपनो काल संखेजगुणो
- (६) ते थकी अमजास एकेद्रीनो जघन्य काल विसेसाहिया
- (७) अमजास एकेद्रीनो उत्कृष्ट काल विसेसाहिया
- (८) मजास एकेद्रीनो जघन्य काल विसेसाहिया
- (९) मजास नीगोदको उत्कृष्ट काल विसेसाहिया
- (१०) वसकायनो उत्कृष्ट धिरह काल संखेजगुणो
- (११) अमजासा थयेद्रीनो जघन्य काल विसेसाहिया
- (१२) अमजासा थयेद्रीनो उत्कृष्ट काल विसेसाहिया
- (१३) मजासा थयेद्रीनो जघन्य काल विसेसाहिया
- (१४) अमजासा थयेद्रीनो जघन्य काल विसेसाहिया
- (१५) अमजासा थयेद्रीनो उत्कृष्ट काल विसेसाहिया
- (१६) मजासा थयेद्रीनो जघन्य काल विसेसाहिया
- (१७) अमजासा थयेद्रीनो जघन्य काल विसेसाहिया



प्रकरण सोलवा ६२ बोलकी अल्पाबहुत.

- (१) सर्वसूं थोडा छपन्न अंतर्दीपना स्त्री पुरुष माहोमाही तुल्ला.
- (२) ते थकी देवकुरु उत्तरकुरुना स्त्री पुरुष संखेज गुणा.
- (३) ते थकी हरीवास रम्यकवासना स्त्री पुरुष संखेजगुणा.
- (४) ते थकी हेमवय एरणवयना स्त्री पुरुष संखेजगुणा.
- (५) ते थकी भरत ईरवर्तना पुरुष माहोमाही तुल्ला संखेजगुणा.
- (६) ते थकी भरत ईरवर्तनी स्त्री माहोमाही तुल्ला संखेजगुणी.
- (७) ते थकी महाविदेहना पुरुष संख्यात गुणा.
- (८) ते थकी माहाविदेहनी स्त्री संख्यातगुणी.
- (९) अणुत्तर विमानना देवता असंखेजगुणा.
- (१०) नव नवग्रीषेकना उपरली त्रिकना पुरुषाः [देवता] संख्यातगुणा.
- (११) ते थकी वीचली त्रिकना पुरुषाः [देवता] संख्यातगुणा.
- (१२) ते थकी नीचली त्रिकना पुरुषाः [देवता] संख्यातगुणा.
- (१३) ते थकी वारमा देवलोकना पुरुषाः [देवता] संख्यातगुणा.
- (१४) ते थकी ग्यारमा देवलोकना पुरुषाः (देवता) संख्यातगुणा.
- (१५) ते थकी दसमा देवलोकना पुरुषाः (देवता) संख्यातगुणा.
- (१६) ते थकी नवमां देवलोकना पुरुषाः (देवता) संख्यातगुणा.
- (१७) ते थकी सातमी नरकना नपुंसक (नेरिया) असंखेजगुणा.
- (१८) ते थकी छठी नरकना नपुंसक (नेरिया) असंखेजगुणा.

- (४३) अद्वापत्यना उत्कृष्ट असख्यातमे भागनो काल असखेजगुणो.
 (४४) अद्वापत्यनो काल संखेजगुणो
 (४५) मज्जुप तिर्यक्नी उत्कृष्ट यितनो काल संखेजगुणो
 (४६) अद्वासागरनो काल सखेजगुणो
 (४७) मरकदेपनी उत्कृष्ट यितनो काल सखेजगुणो
 (४८) कालचक्रनो काल सखेजगुणो
 (४९) क्षेपपत्यनो काल सखेजगुणो
 (५०) क्षेप सागरनो काल सखेजगुणो
 (५१) वेरकायनी उत्कृष्ट काययितनो काल असखेजगुणो
 (५२) बाष्कायनी उत्कृष्ट काययितनो काल विसेसाहिया
 (५३) अपक्वइया कायनीयितनो विसेसाहिया
 (५४) पृषिबीकायनी काययितनो विसेसाहिया
 (५५) कर्मण पुद्गल मावर्तनो काल अनंतगुणो
 (५६) तेमस पुद्गल मावर्तनो काल अनंतगुणो
 (५७) उदारिक पुद्गल मावर्तनो काल अनंतगुणो
 (५८) श्वासोश्वास पुद्गल मा० काल अ० ॥
 (५९) मन पुद्गल मावर्तनो काल अनंतगुणो
 (६०) यच्चन पुद्गल मावर्तनो काल अनंतगुणो
 (६१) वैक्रिय पुद्गल मावर्तनो काल अनंतगुणो
 (६२) बनस्पतीकायनी उत्कृष्ट यितनो काल असखेजगुणो
 (६३) अतीत काल अनंतगुणो
 (६४) अनागत काल वि १ समाधिक.
 (६५) सर्प काल विसेसाहिया

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे पंचपट्टि
 संज्ञाऽस्य बहुत्वाऽस्यं पंचदश प्रकरणम् ॥

थोडी ॥ २ ॥ ते थकी पूर्व दिशे विसेसाहिया क्यूं महाराज ॥ हे
 गोतम ! भवनपत्यांना भवन नथी ॥ अने चंद्रमां सूर्यना दीया पृथिवी
 कायना छे ॥ ३ ॥ ते थकी पछिम दिसे विसेसाहिया क्यूं महाराज ॥
 हे गोतम ! पछिम दिसे बारै हजार योजनरो गोतम दियो पृथिवी
 कायनो इधको पडयो छे ॥ ते माटे पृथिवीकाय घणी छे ॥ ४ ॥
 तेउकाय (१) मनुष (२) सिद्ध भगवान् ए (३) सर्वथी थोडा कठीणे
 महाराज ॥ हे गोतम ! उत्तर दक्षिण कानी क्यूं महाराज ॥ हे गोतम !
 पांच भर्त पांच ईरवर्तना क्षेत्रानां तिहां मनुष्य थोडा तिहां अग्निना
 जीव थोडा तिहां सिद्ध भगवान् पिण थोडा सीजे ॥ १ ॥ २ ॥
 ते थकी पूर्व दिशे संख्यातगुणा ॥ क्यूं महाराज ॥ हे गोतम ! पांच
 महाविदेह क्षेत्र मोटा जटै मनुष घणा जटै अग्निना जीव घणा जटै
 सिद्ध भगवान् पिण घणा सिजे ॥ ३ ॥ ते थकी पछिम दिसे विसे-
 साहिया ॥ क्यूं महाराज ॥ हे गोतम ! पश्चिम महाविदेहनी विजय
 हजार योजननी ऊंडी छे तिहां मनुष्य घणा तिहां अग्निना जीव घणा
 तिहां सिद्ध भगवान् पिण घणा सीजे ॥ ४ ॥ वाउकायने वाणव्यंतर
 सर्वथी थोडा कठीने महाराज ॥ हे गोतम ! पूर्व दिसे क्यूं महाराज ॥
 हे गोतम ! भूमि कठिण छे ॥ १ ॥ ते थकी पश्चिम दिसे विसेसाहिया
 क्यूं महाराज ॥ हे गोतम ! हजार योजननी बीजय ऊंडी छे तिहां
 पोलाडमे वाउकाय घणी ने वाणव्यंतर घणा ॥ २ ॥ ते थकी उत्तर
 दिसे विसेसाहिया क्यूं महाराज ॥ उत्तर दिसे (३) क्रोड ने (६६)
 लाख भवणपत्यांना भवण छे तिहां पोलाडमे वाउकाय घणी ने
 भवणपत्यांना भवण उपरे वाणव्यंतरना नगर घणा ॥ ३ ॥ ते थकी
 दक्षिण दिसे विसेसाहिया क्यूं महाराज ॥ हे गोतम ! तिहां (४) क्रोड
 (६) लाख भवणपत्यांना भवण छे तिहां पोलाडमे वाउकाय घणी
 भवणपत्यांना भवण उपरे वाणव्यंतरना नगर घणा ते माटे ॥ ४ ॥



॥ प्रकरण सतरवा दिसाणुवाई ॥



समूचे जीव (१) पाणी (२) वनस्पती (३) वेद्री (४) तेद्री
 (५) चोईद्री (६) तिर्यच पचेद्री (७) ए ७ षोळ सर्वधी योडा योडा
 कठीने छे महाराज ॥ हे गोतम ! पश्चिम कांनी ॥ क्यो महाराज ॥ हे
 गोतम ! पश्चिम कांनी वारै इजार भोजनरो गोतम दीपो ॥ पृथ्वीका-
 यनो पढ्यो छे ॥ तिहां पाणी योडो तिहां नीम्बण फूलण योडी
 तिहां वेईद्रियादिक जीव योडा ते मणी सर्भ जीव योडा ॥ १ ॥ ते
 यकी पूर्व दिसे बिसेसाहिया ॥ क्यू महाराज ॥ हे गोतम ! पूर्व
 दिसे गोतम दीपो नयी ॥ २ ॥ ते यकी दक्षिण दिसे बिसेसाहिया
 क्यू महाराज ॥ हे गोतम ! चद्रमा छर्यका दीपा नयी ॥ ३ ॥ ते यकी
 उत्तर दिस सख्यातगुणा क्यू महाराज ॥ हे गोतम ! असंख्यातमे
 दीपमे सख्याता कोडान कोड भोजनरो मान सरोवर मय्यो छे ॥
 जठै पाणी घणो । जठै भीळण फूलण घणी, जठै वेईद्रियादिक जीव
 घणा ॥ ते मणी सर्भ जीव घणा ॥ ४ ॥ पृथिवीकायना जीव सर्वधी
 योडा कठीने महाराज ॥ हे गोतम ! दक्षिण दिस क्यू महाराज ॥ हे
 गोतम ! (४) कोड ने (६६) साल मरणपत्याना मरण छे ॥ तिहां
 पोसाद घणी तिणसू पृथिवीकाय योडी ॥ १ ॥ ते यकी उत्तर दिस
 बिसेसाहिया क्यू महाराज ॥ हे गोतम ! (२) कोड ने (६६) साल
 मरणपत्याना मरण छे ॥ तिहां पोसाद योडी तिणसू पृथिवीकाय

नथी नें राजधानी छे ॥ तिहां ज्योतिषी देवता घणा रहे छे ॥ तथा कृष्णपक्षी मिथ्यादृष्टी अग्यान कष्ट करनें उपजे ॥ ३ ॥ ते थकी उत्तर दिसे विसेसाहिया क्यूं महाराज ॥ हे गोतम ! असंख्याता दी-पमें संख्याता कोडान कोड योजननो मानसरोवर भच्यो छे ॥ जटै ज्योतिषी देवता नांनादिक क्रीडा करणने आवै ॥ तिहांना मच्छ, कच्छ, ज्योतिषी देवताना विमान देखीने जाती स्मरण उपजे ॥ श्रावकना व्रत पालै क्रिया कर नियाणो करनें ज्योतिषीमें घणा उपजे ॥ ४ ॥ पहला देवलोकमूं ४ देवलोक ताई सर्वथी थोडा कठीने छे महाराज ॥ हे गोतम ! पूर्व (१) पछिम (२) कानी क्यू महाराज ॥ हे गोतम ! आवलिकाबंध अल्प छे. ते माटे ॥ २ ॥ ते थकी उत्तर दिसे असंख्यातगुणा क्यूं महाराज ॥ हे गोतम ! तिहां पुष्पाविकीर्णी विमाण असंख्याता योजनना मोटा छे ते माटे ॥ ३ ॥ ते थकी दक्षिण दिसे विसेसाहिया क्यूं महाराज ॥ हे गोतम ! कृष्णपक्षी मिथ्यादृष्टी अग्यान कष्ट क्रिया करनें दक्षिण दिसे घणा उपजे ॥ ४ ॥ पांचमी देवलोकथी रूगायने ८ मा देवलोक ताईना देवता सर्वथी थोडा कठीने छे महाराज ॥ हे गोतम ! पूर्व (१) पछिम (२) उत्तर (३) कानी क्यूं महाराज ॥ हे गोतम ! आवलिकाबंध विमाण छोटा जिके घणाने पुष्पावे करणी विमाण मोटा जिके थोडा ते माटे ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ते थकी दक्षिण दिसे असंख्यातगुणा क्यूं महाराज ॥ हे गोतम ! पुष्पाविकीर्णी विमाण असंख्याता योजनना मोटा छे जिणमें शुक्लपक्षी समदृष्टि तिर्यच श्रावक क्रिया करनें घणा उपजे ॥ ४ ॥ नवमा देवलोकथी पांच अणुत्तर विमानना देवता ४ दिसे सरीखा जाणवा. एकः सत्री मनुष्यहीज उपजै ते माटे ॥ ४ ॥ सिद्ध भगवंत सर्वसू थोडा कठीने महाराज ॥ हे गोतम ! उत्तर दक्षिण कानी २ ॥ १ ॥ ते थकी पूर्व दिसे विसेसाहिया (३) ते थकी पिछम दिसे विसेसाहिया ॥ ४ ॥

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे
दिग्विस्ताराख्यं सप्तदश प्रकरणम् ॥

सप्तमै सातु नारकी सर्वथी थोडा कठीने छे महाराज ॥ हे गोतम !
 पूर्व १ पश्चिम २ उत्तर ३ ए तीन दिसें क्यू महाराज ॥ हे गोतम !
 तिहां पुष्पविक्रम नरकावासा थोडा छे अने ते नरकावासा संख्याता
 भोजनना छे ते माटे थोडी छे ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ते थकी दक्षिण
 दिसे असख्यातगुणा क्यू महाराज ॥ हे गोतम ! पुष्पावेकरणी नर
 कावासा असख्याता याजनना मोटा छे ॥ तथा कृष्णपत्नी मिथ्या
 दृष्टि हिंस्यामे धर्म परुपने दक्षिणफानी नारकीमें घणा चपत्रे ॥ ४ ॥
 सातमी नारकीना नेरिया सबसू थोडा ३ दिसना ॥ ते थकी दक्षिण
 दिसना असख्यात गुणा ॥ ४ ॥ सातमी नारकीना दक्षिण दिसना
 नेरिया थकी छठी नारकीना तीन दिसना असख्यात गुणा ३
 ते थकी दक्षिण दिसना असख्यात गुणा ॥ ४ ॥ छठी नारकीना
 दक्षिण दिसना नेरिया थकी पांचमी नारकीना तीन दिसना अस
 ख्यात गुणा ॥ ते थकी दक्षिण दिसना असख्यात गुणा ॥ ४ ॥
 पांचमी नारकीना दक्षिण दिस थकी थोडीना ३ दिसना असख्यात
 गुणा ते थकी दक्षिण दिसना असख्यात गुणा इम जावत पहिली
 ताई जावता अथवा कइणा ॥ ४ ॥ भवणपत्नी देवता सर्वथी थोडा
 कठीने छे महाराज ॥ हे गोतम ! पूर्व (१) पश्चिम (२) कानी क्यू
 महाराज ॥ हे गोतम ! भवणपत्याना भवण नथी ॥ १ ॥ २ ॥ ते थकी
 उत्तर दिसे असख्यात गुणा क्यू महाराज ॥ हे गोतम ! (३) क्रोड
 [६६] लाम्भ भवणपत्याना भवण छे ते माटे ॥ ३ ॥ ते थकी दक्षिण
 दिसे विसेसाहिया क्यू महाराज ॥ हे गोतम ! [४] क्रोड ने [६]
 लाम्भ भवणपत्याना भवण छे तिहां आपणा स्थानकं घणा रहे छ
 ॥ ४ ॥ ज्योतिपी देवता सर्वथी थोडा कठीने छे महाराज ॥ हे गोतम !
 पूर्व [१] पश्चिम [२] कानी क्यू महाराज ॥ हे गोतम ! चद्रमा सूर्यना
 दीपा छ ने राजधानी नथी तिहां थोडा रहै ॥ २ ॥ ते थकी दक्षिण
 दिस विसेसाहिया क्यू महाराज ॥ हे गोतम ! चद्रमा सूर्यना दीपा

थी नें राजधानी छे ॥ तिहां ज्योतिषी देवता घणा रहे छे ॥ तथा
 कृष्णपक्षी मिथ्याहृष्टी अग्यान कष्ट करनें उपजे ॥ ३ ॥ ते थकी
 उत्तर दिसे विसेसाहिया क्युं महाराज ॥ हे गोतम ! असंख्याता दी-
 में संख्याता कौडान कोड योजननो मानसरोवर भन्थो छे ॥ जठै
 ज्योतिषी देवता नांनादिक क्रीडा करणने आवै ॥ तिहांना मच्छ,
 कच्छ, ज्योतिषी देवताना विमान देखीने जाती स्मरण उपजे ॥ श्रा-
 वकना व्रत पालै क्रिया कर नियाणो करनें ज्योतिषीमें घणा उपजे
 ॥ ४ ॥ पहला देवलोकसूं ४ देवलोक ताईं सर्वथी थोडा कठीने छे
 महाराज ॥ हे गोतम ! पूर्व (१) पछिम (२) कानी क्युं महाराज ॥ हे गोतम !
 आवलिकाबंध अल्प छे. ते माटे ॥ २ ॥ ते थकी उत्तर दिसे
 असंख्यातगुणा क्युं महाराज ॥ हे गोतम ! तिहां पुष्पाविकीर्णी विमाण
 असंख्याता योजनना मोटा छे ते माटे ॥ ३ ॥ ते थकी दक्षिण दिसे
 विसेसाहिया क्युं महाराज ॥ हे गोतम ! कृष्णपक्षी मिथ्याहृष्टी
 अग्यान कष्ट क्रिया करनें दक्षिण दिसे घणा उपजे ॥ ४ ॥ पांचमी
 देवलोकथी लगायने ८ मा देवलोक ताईंना देवता सर्वथी थोडा कठीने
 छे महाराज ॥ हे गोतम ! पूर्व (१) पछिम (२) उत्तर (३) कानी क्युं
 महाराज ॥ हे गोतम ! आवलिकाबंध विमाण छोटा जिके घणाने
 पुष्पावे करणी विमाण मोटा जिके थोडा ते माटे ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ते थकी
 दक्षिण दिसे असंख्यातगुणा क्युं महाराज ॥ हे गोतम ! पुष्पाविकीर्णी
 विमाण असंख्याता योजनना मोटा छे जिणमें शुकुपक्षी समदृष्टि
 तिर्यच श्रावक क्रिया करनें घणा उपजे ॥ ४ ॥ नवमा देवलोकथी
 पांच अणुत्तर विमानना देवता ४ दिसें सरीखा जाणवा. एक सत्री
 मनुष्यहीन उपजे ते माटे ॥ ४ ॥ सिद्ध भगवंत सर्वसूं थोडा कठीने
 महाराज ॥ हे गोतम ! उत्तर दक्षिण कानी २ ॥ १ ॥ ते थकी पूर्व दिसे विसे-
 साहिया (३) ते थकी पछिम दिसें विसेसाहिया ॥ ४ ॥

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे
 दिग्विस्ताराख्यं सप्तदश प्रकरणम्. ॥



प्रकरण अठारवा-लद्धी

गाथा ॥ जीव (१) गई (२) इवीय (३) काए (४) छुहुम (५)
 पज्जत (६) भबत्वेय (७) भवसिद्धिया (८) सली (९) लद्धी (१०)
 छपयोग (११) योगेय (१२) छेञ्जा (१३) कपाय (१४) वेदेय (१५)
 आहारे (१६) णाणगोयरे (१७) काळ (१८) अत्तर (१९) अप्पा
 बह (२०) पञ्जवाचेबदारई (२१) ॥ १ ॥

हिवे जीवद्वार कहे छे ॥ समुच्चय जीवमे ५ ग्यानकी भजना ॥
 ३ अग्यानकी भजना ॥ पहली नर्क भवणपती बाणव्यतर देव पहमे ३
 ग्यानकी नेमा, ३ अग्यानकी भजना ॥ शेष ६ नर्क ज्योतिपी विमा-
 णीक देव पहमे ३ ग्यानकी नेमा, ३ अग्यानकी नेमा ॥ पांच थाव
 रमे ग्यान नयी ॥ २ ॥ अग्यानकी नेमा ॥ तीन निरुच्छेद्रीमे २ ग्यान-
 की नेमा ॥ २ अग्यानकी नेमा ॥ त्रिर्विषपछेद्रीमे ३ ग्यानकी भजना ॥
 ३ अग्यानकी भजना ॥ मनुष्यमे ५ ग्यानकी भजना ॥ ३ अग्यानकी
 भजना ॥ सिद्ध भगवानमे केवल ग्यानकी नेमा ॥ अग्यान नयी ॥

॥ इति जीवद्वार ॥ १ ॥

हिवे (गई) गतद्वार कहे छे ॥ गति यामे घाट बहतो जीव

जाणवो ॥ नर्क गतीयामे देवगतीयामे ३ ग्यानकी नेमा ॥ ३ अग्यानकी भजनां ॥ तिर्ग्येच गतीयामे २ ग्यान २ अग्यानकी नेमा ॥ मनुष्य गतीयामे ३ ग्यानकी भजना ॥ २ अग्यानकी नेमा ॥ सिद्धगतीयामे केवलग्यानकी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥

॥ इति गतद्वार ॥ २ ॥

हिवे इंदीयद्वार कहे छे ॥ सइंदिया पंचेदियामे ४ ग्यानकी भजना ॥ ३ अग्यानकी भजना ॥ एकेदियामे ग्यान नथी ॥ अग्यानकी नेमा ॥ बेयेदिया तेयेदिया चोयेदियामें २ ग्यानकी नेमा ॥ २ अग्यानकी नेमा ॥ अणेदियामे केवलज्ञाननी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥

॥ इति इंदीयद्वार ॥ ३ ॥

हिवे कायद्वार कहे छे ॥ सकाइयामें तस काइयामें ५ ग्यानकी भजना ॥ ३ अग्यानकी भजना ॥ पृथिवी अप तेउ वाउ वनस्पतीमें ग्यान नथी ॥ २ अग्यानकी नेमा ॥ अकाइयामे केवलनी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥

॥ इति कायद्वार ॥ ४ ॥

हिवे सूक्ष्मद्वार कहे छे ॥ सूक्ष्ममे ग्यान नथी ॥ २ अग्यानकी नेमा ॥ वादरमें ५ ग्यानकी ॥ ३ अग्यानकी भजना ॥ नो सूक्ष्म नो वादरमें केवलज्ञाननी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥

॥ इति सूक्ष्मद्वार ॥ ५ ॥

हिवे प्रजासद्वार कहे छे ॥ समुच्चै प्रजासामे ५ ग्यानकी ॥ ३ अग्यानकी भजना ॥ समुच्चय अप्रजासामे ३ ग्यान ३ अग्यानकी

भजना ॥ पहली नर्क भवणपती बाणध्यतर एहना अमजातामे ३
 ग्यानकी नेमा ३ अग्यानकी भजना ॥ सातमी नर्कनी अमजातो बणी
 छेष नारकी व्योतिपी विमाणीक एहना मजाता अने अमजाता मे
 पहली नर्क भवणपती बाणध्यतर एहना मजाता ॥ य सर्वमे ३ ग्यान ३
 अग्यानकी नेमा ॥ सातमी नर्कना अमजातामे ग्यान नयी ॥ ३ अ-
 ग्यानकी नेमा ॥ पांच अणुत्तर विमानना अमजाता मजाता ए १० मे
 ३ ग्यानकी नेमा ॥ अग्यान नयी । पांच यावरना अमजाता मजाता
 तीन विकसेद्रीना मजाता असणी तिर्यच पचेद्रीना मजाता असणी
 मनुष्य एहमे ग्यान नयी २ अग्याननी नेमा ॥ तीन विकसेद्रीना
 अमजाता असणी तिर्यच पचेद्रीना अमजाता सणी तिर्यचना अमजाता
 ए ५ बोलमे २ ग्यान २ अग्यानकी नेमा ॥ सणी तिर्यचना अम-
 जातामे ३ ग्यानकी भजना ॥ ३ अग्यानकी भजना ॥ सणी मनुष्यना
 अमजातामे ३ ग्यानकी भजना ॥ २ अग्यानकी नेमा ॥ सणी मनु-
 ष्यमा मजातामे ५ ग्यानकी ॥ ३ अग्यानकी भजना ॥ सो अमजा-
 ता नो मजातामे केवलग्यानकी नेमा ॥ अग्यान नयी ॥

॥ इति मजाताद्वार ॥ ६ ॥

हिचे भवत्यद्वार कहे छे ॥ नर्क भवया वेव भवयामे ३ ग्यानकी
 नेमा ३ अग्याननी भजना ॥ तिर्यच भवयामे ३ ग्यान ३ अग्याननी
 भजना ॥ मनुष्य भवयामे ५ ग्यानकी भजना ॥ ३ अग्याननी भज-
 ना ॥ अमवयामे केवल ग्यानकी नेमा ॥ अग्यान नयी ॥ ७ ॥

॥ इति भवत्यद्वार ॥ ७ ॥

हिचे भवसियाद्वार कहे छे ॥ भवसिद्धियामे ५ ग्यानकी ३
 अग्याननी भजना ॥ अमव सिद्धियामे ग्यान नयी ॥ ३ अग्यानकी
 भजना ॥ नो भव नो अमव सिद्धियामे ७ ग्याननी नेमा ॥ अग्यान नयी ॥

॥ इति भवसियाद्वार ॥ ८ ॥

हिवे सन्नीद्वार कहे छे ॥ सन्नीमें ४ ग्यानकी भजना ॥ ३ अग्यानमी भजना ॥ असन्नीमें २ ग्यान २ अग्याननी नेमा ॥ नो सन्नी नो असन्नीमें २ ग्याननी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥

॥ इति सन्नीद्वार ॥ ९ ॥

हिवे लट्टीद्वार कहे छे ॥ कही विहाणं भंते लट्टी पनता गोयमा दश विहालट्टी पनता ॥ तंजहा ग्यान लट्टी (१) दर्शन लट्टी (२) चारित्र लट्टी (३) चरिता चरित लट्टी (४) दाण लट्टी (५) लाभ लट्टी (६) भोग लट्टी (७) उपभोग लट्टी (८) वीर्य लट्टी (९) इंद्रि लट्टी (१०) भावार्थः समुच्चै ग्यान लट्टियामें ५ ग्यानकी भजना अग्यान नथी ॥ तस अलट्टीयामे ग्यान नथी ॥ ३ अग्याननी भजना ॥ मतिग्यान श्रुतग्यानना लट्टीयामे ४ ग्याननी भजना ॥ अग्यान नथी ॥ तस अलट्टियामें [अथे गइया केवलग्यानी अथे गइया] ३ अग्याननी भजना ॥ अवधग्यानना लट्टियामें ४ ग्याननी भजना अग्यान नथी ॥ तस अलट्टियामें अवधग्यान वर्जिनें ४ ग्यान ३ अग्याननी भजना ॥ मनपर्यवग्यानना लट्टियामें ४ ग्याननी भजना ॥ अग्यान नथी ॥ तस अलट्टियामें मनपर्यव वर्जिने ४ ग्याननी ३ अग्याननी भजना ॥ केवलग्यानना लट्टियामें केवलट्टी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥ तस अलट्टियामें केवल वर्जित ४ चार ग्यानकी भजना ॥ ३ अग्यानकी भजना ॥ समुच्चय अनाण लट्टियामें अने मति अनाण श्रुत अनाण लट्टियामें ज्ञान नथी ॥ ३ अग्यानकी भजना ॥ तस अलट्टियामें ५ ग्यानकी भजना ॥ अग्यान नथी ॥ विभंग नाणना लट्टियामें ग्यान नथी ॥ ३ अग्यानकी नेमा ॥ तस अलट्टियामे ५ ग्यानकी भजना ॥ २ अग्यानकी नेमा ॥

॥ इति ज्ञान लट्टीना २० बोल ॥

हिने दर्शनसूत्री कहे छे ॥ दर्शन सूत्रीना ८ बोल ॥ समुच्चय
 दरसन सूत्रियामे ५ ग्यान ३ अग्यानकी भजना तस असूत्रिया
 भीषा नयी ॥ सम्यक् दरसन सूत्रियामे ५ ग्यानकी भजना ॥ अ-
 ग्यान नयी तस असूत्रियामे ग्यान नयी ३ अग्याननी भजना ॥ मि-
 थ्या दरसन सूत्रियामे ग्यान नयी ३ अग्याननी भजना ॥ तस अ
 सूत्रियामे ५ ग्याननी भजना ३ अग्याननी भजना ॥ समाधिप्या
 दरसन सूत्रियामे ग्यान नयी ॥ ३ अग्याननी भजना ॥ तस अस-
 सूत्रियामे ५ ग्याननी भजना ३ अग्याननी भजना ॥

॥ इति दर्शन सूत्रियाना ८ बोल ॥

समुच्चय चरित सूत्रियामे ५ ग्याननी भजना ॥ अग्यान नयी ॥
 तस असूत्रियामे मनपर्यवग्यान बसी ४ ग्याननी भजना ॥ ३ अ-
 ग्याननी भजना ॥ (१) सामाईक छेदोपस्थापनीक (२) परिहार
 विमुषी (३) सूक्ष्म समाय चारिभ (४) ना सूत्रियामे ४ ग्याननी
 भजना ॥ अग्यान नयी ॥ तस असूत्रियामे ५ ग्याननी भजना ३ अ-
 ग्याननी भजना ॥ जयासायक चारिभना सूत्रियामे ५ ग्याननी भ-
 जना ॥ अग्यान नयी ॥ तस असूत्रियामे ५ ग्याननी भजना ॥ ३
 अग्याननी भजना ॥ चरिता चरित सूत्रियामे ३ ग्याननी भजना ॥
 अग्यान नयी तस असूत्रियामे ५ ग्याननी भजना ॥
 ३ अग्याननी भजना ॥ दाण सूत्री लाभ सूत्री भोग सूत्री
 लपभोग सूत्री वीर्य सूत्री ग्यानासूत्रियामे ५ ग्याननी ३ अग्याननी
 भजना ॥ तस असूत्रियामे अचलग्याननी भेदा ॥ अग्यान नयी ॥
 बाल वीर्य सूत्रियामे ३ ग्यान ३ अग्याननी भजना ॥ तस
 असूत्रियामे ६ ग्याननी भजना ॥ अज्ञान नयी ॥ बाल विद्वठ
 वीर्य सूत्रियामे ३ ग्याननी भजना ॥ अग्यान नयी ॥ तस अ
 सूत्रियामे ग्याननी भजना ॥ ३ अग्याननी भजना ॥

पिंडत विर्य लद्धियामें ५ ग्याननी भजना ॥ अग्यान नथी ॥ तस अल-
द्धियामें मनपर्यवग्यान वरिजे ४ ग्याननी ३ अग्याननी भजना ॥
समुच्चै इंद्री लद्धियामें ४ ग्याननी भजना ॥ ३ अग्याननी भजना ॥
तस अलद्धियामें केवलनी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥ श्रुतेंद्री चक्षुरिंद्री
घ्राणेंद्रीना लद्धियामें ४ ग्याननी ३ अग्याननी भजना ॥ तस अल-
द्धियामे अथे गइया केवलग्यानी अथे गइया ॥ २ अग्याननी नेमा ॥
फरसेंद्रिया लद्धियामें ४ ग्याननी ३ अग्याननी भजना ॥ तस-
अलद्धियामे केवलग्याननी नेमा अग्यान नथी ॥ लट्टीना ७०
बोल जाणवा ॥

॥ इति लट्टीद्वार ॥ १० ॥

हिवे उपयोगद्वार कहे छे ॥ साकारवउत्तामे ५ ग्याननी भज-
ना ॥ ३ अग्याननी भजना ॥ मतिग्यान श्रुतग्यान अवधग्यान
मनपर्यवग्यान साकार वउतामे ४ ग्याननी भजना अग्यान नथी ॥
केवलग्यान साकारवउतामे केवलनी नेमा अग्यान नथी अणा-
कारवउतामे ५ ग्याननी भजना ॥ ३ अग्याननी भजना चक्षु दर-
सण अणाकारवउतामे अचक्षु दर्शण अणाकारवउतामे ४ ग्याननी
भजना ३ अग्याननी भजना अवधि दर्शण अणाकारवउतामे ४
ग्याननी भजना ३ अग्याननी नेमा ॥ केवल दर्शण अणाकारवउतामे
केवलनी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥

॥ इति उपयोगद्वार ॥ ११ ॥

हिवे योगद्वार कहे छे ॥ सजोगी मनजोगी वचनजोगी काय
जोगीमें ५ ग्याननी भजना ३ ॥ अग्याननी भजना अजोगीमें केवलनी
नेमा ॥ अग्यान नथी ॥

॥ इति योगद्वार ॥ १२ ॥

द्विवे छेष्ठाद्वार कहे छे ॥ सछेष्ठीमें शुक्र छेष्ठीमे ५ ग्याननी
३ अग्याननी भजना ॥ कृष्ण नील कापोत हेरूं पद्म छेष्ठीमें ४
ग्याननी भजना ॥ ३ अग्याननी भजना ॥ अछेष्ठीमें केवळनी देमा ॥
अग्यान नथी ॥

॥ इति छेष्ठाद्वार ॥ १३ ॥

द्विवे कृपाद्वार कहे छे ॥ सकृपाइमे क्रोध मान माया लोभा
कृपाइयामें ४ ग्याननी ३ अग्याननी भजना ॥ अकृपाइमे ५ ग्याननी
भजना ॥ अग्यान नथी ॥

॥ इति कृपाद्वार ॥ १४ ॥

द्विवे वेदद्वार कहे छे ॥ सवेदीमे स्त्रीवेदीमे पुरुषवेदीमें नपुसक
वेदीमें ४ ग्यान ३ अग्याननी भजना ॥ अवेदीमे ५ ग्याननी भजना ॥
अग्यान नथी ॥

॥ इति वेदद्वार ॥ १५ ॥

द्विवे आहारीकद्वार कहे छे ॥ आहारीकमे ५ ग्याननी भजना
३ अग्याननी भजना अणाहारीकमे मनपर्यवग्यान वर्जनी ४ ग्याननी
भजना ३ अग्याननी भजना ॥

॥ इति आहारीकद्वार ॥ १६ ॥

द्विवे नाणगोचरद्वार अन्य जगेषी जाणबो ॥ १७ ॥ द्विवे काल-
द्वार कहे छे ॥ समुधै सनाणीना २ भेद साइए अपञ्जवसीए (१)
साइए सपञ्जवसीए (२) साइए अपञ्जवसीएनी यिति नथी ॥ साइए
सपञ्जवसीएनी यिति अपन्य ता अतरसुदुर्ननी ॥ उक्छेही ६६ सागर

जाझेरी ॥ मतिग्यानी श्रुतग्यानीनी जघन्य अंतरमुहूर्तनी उत्कृष्टी ६६ सागरनी ॥ अवधिग्यानीनी जघन्य एक समानी उत्कृष्टी ६६ सागरनी ॥ मनपर्यवनी जघन्य एक समानी उत्कृष्टी देश उणा क्रोड पूर्वनी ॥ केवलग्यानीनी थिति नथी ॥ समुच्चय अनाणी मति अनाणी श्रुत अनाणीना ३ भेद ॥ अणाइए अपजवसीए (१) अणाइ सपजवसीए (२) साइए सपजवसीए ॥ ए ३ नी थिति जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्टी अनंतो काल देश उणा अर्द्धपुद्गल परावरतननी विभंग अनाणीनी जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी ३३ सागर देश उणा क्रोड पूर्वाधिक ॥

॥ इति कालद्वार ॥ १८ ॥

हिवे अंतर्द्वार कहे छे ॥ सनाणीना २ भेद ॥ साइए अपजवसीएनो आंतरो नथी ॥ साइए सपजवसीएको आंतरो जघन्य अंतर्मुहूर्तनो उत्कृष्टो अनंतो काल जाव देश ० ॥ मतग्यानी श्रुत ग्यानी अवध मनपर्यव नाणीनो आंतरो जघन्य अंतर्मुहूर्तनो उत्कृष्टो अनंतो काल देश ० ॥ केवलज्ञाननो आंतरो नथी ॥ समुच्चै अनाणी मत श्रुत अनाणीना ३ भेद ॥ साइए सपजवसीएनो आंतरो जघन्य अंतर्मुहूर्तनो उत्कृष्टो ६६ सागर जाझेरो ॥ विभंग नाणनो आंतरो जघन्य अंतर्मुहूर्तनो उत्कृष्टो अनंतो काल [जाव वन-स्सइ कालो]

॥ इति अंतर्द्वार ॥ १९ ॥

सर्वसूं थोडा मनपर्जवनाणी(१)अवधिनाणीअसंख्यातगुणा(२)मत-नाणीश्रुत नाणी विसेसाइया माहोमाही तुला (३) केवलनाणी अनंत-गुणा (४) सनाणी विसेसाहिया (५) ॥ सर्वसूं थोडा विभंग नाणी (१) मत श्रुत अनाणी तुला अनंत (२) भेली अल्पावहुत्व ॥ सर्वसूं

योडा मनपर्जवनाणी (१) अरधि असस्यातगुणा (२) मति भुती
नाणी तुणा विसेसाहिया (४) विभग अनाणी असस्यातगुणा (५)
केषल नाणी अनतगुणा (६) सनाणी विसेसाहिया (७) मव भुत
अज्ञानी तुना अनतगुणा (९)

॥ इति अत्याबहुत्वद्वार ॥ २० ॥

सर्वथी योडा मनपर्यव ग्यानरा पञ्जबा (१) अरधि ग्यानरा
पञ्जबा अनतगुणा (२) भुत ग्यानरापञ्जब अनतगुणा (३) मव
नरा पञ्जबा अनतगुणा (४) केषलग्यानरा पञ्जबा अनतगुणा [५]
सर्वथी योडा विभग अनाणना पञ्जबा (१) भुत अनाणना पञ्जबा
अनतगुणा [२] मवग्यानरा पञ्जबा अनतगुणा [३] मेस्ती अत्याबहु
त्व ॥ सर्वथी योडा मनपर्यव पञ्जबा [१] विभगना पञ्जबा अनत
गुणा [२] अरधि० पञ्जबा अनतगुणा [३] धोत्र ग्यान पञ्जबा
अनतगुणा [४] भुत नाण० पञ्जबा विसेसाहिया [५] मव अनाण
पञ्जबा अनतगुणा (६) मति नाण० पञ्जबा विसेसाहिया (७) केषल
नाण० पञ्जबा अनत [८]

॥ इति पञ्जबद्वार ॥ २१ ॥

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे
'लुद्धी' आख्य अष्टादश प्रकरणम् ॥





प्रकरण एकोणीसवां-कायस्थित.

॥ गाथा ॥

जीव (१) गई (२) इंदीय (३) काय (४) जोए (५) वेय
 (६) कषाय [७] लेस्या (८) समत्त (९) णाण (१०) दंसणे (११)
 संजय [१२] उपयोग [१३] आहारे (१४) भासक (१५) परत्त
 (१६) पञ्चत्ते (१७) सुहुम (१८) सन्नी (१९) भवत्थ (२०) चरमेय
 (२१) ए ए संतुपयाणं कायटिण होइनायव्वा ॥ १ ॥ भावार्थः
 जीवनो जीवपणे रहतो सदा काल शाश्वतो रहै जीव धुव्वे (१)
 नित्ते [२] सासए (३) अक्षय (४) अवय (५) अवटिण [६] जीवनो
 तीन कालमै कदेई अजीव हुवै नही ॥ जिणने जीव कहिये ॥

॥ इति जीवद्वार ॥ १ ॥

हिवे गतद्वार कहे छे ॥ नारकी देवतानी कायस्थित जघन्य १०
 हजार वर्षनी उत्कृष्टी ३३ सागरनी ॥ देवीनी ज० १० हजार वर्षनी
 उत्कृ० ५५ पल्यनी ॥ तिर्यचनी ज० अंतर्मुहूर्तनी उ० अनंतो काल
 अनंती अपसरपणी अनंती उत्सर्पणी ॥ अ० कालो अ० खेतो ॥
 “क्षेत्र थकी आवलिया ए असंखेजे भागे” आवलिकाकै असंख्या-

तमे भाग जितरा समां होय तितरा पुद्गल भावर्तन कायतक जीव
 तिर्यचमें रहै ॥ तिर्यचणी १ मनुष्य २ मनुष्यणी ए ३ नी का० ज०
 अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी ३ पत्य पृथक् क्रोड पूर्व अधिक ॥ सिद्धसाइय
 अपञ्चसीए नर्क तिर्यच तिर्यचणी मनुष्य मनुष्यणी देवता देवी ए
 ७ षोड अमजासकी का० ज० उ० अतर्मुहूर्तनी ॥ नारकी देवता
 मजासनी का० जपन्य १० इमार वरसनी अतर्मुहूर्तनी ऊणी ॥ उ०
 ३३ सागर अतर्मुहूर्त ऊणी ॥ देवी मजासनी का० जपन्य १० इमार
 वरसनी अतर्मुहूर्त ऊणी ॥ उत्कृष्ट ५५ पत्य अतर्मुहूर्त ऊणी ॥ तिर्यच
 तिर्यचणी मनुष्य मनुष्यणी ए ४ मजासनी का० जपन्य अतर्मुहूर्तनी ॥
 उत्कृष्टी ३ पत्य अतर्मुहूर्त ऊणी ॥

॥ इति गतिदार ॥ २ ॥

हिचे इद्रिदार फदे छे ॥ सेइदियाना दोय मेद ॥ अणाइए अप-
 ञ्चसीए अमध्य (१) अणाइए सपञ्चसीए ॥ ते मध्य [२] एके
 द्रीनी का० जपन्य अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी अनसोफाल माव असखेआ
 पुग्गळ परियहा ॥ बयेंद्री एरीद्री चोरेद्रीनी फा० जपन्य अतर्मुहूर्तनी
 उत्कृष्टी सख्याता काननी ॥ पचेद्रीनी फा० जपन्य अतर्मुहूर्तनी
 उत्कृष्टी १ इमार सागर पत्यके असख्यातये भाग अधिक ॥ अपे
 दिया साइए अपञ्चसीए सइदिया इफेंद्रिया बेरिंद्रिया तेरिंद्रिया चा
 रेद्रिया पचेद्रिया ए ७ षोड अमजासनी का० जपन्य उत्कृष्टी अत
 र्मुहूर्तनी ॥ सरेद्रिया मजासनी फा० जपन्य अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी
 प्यक सो सागर जासरी एकेद्री मजासनी का० जपन्य अतर्मुहूर्तनी
 उत्कृष्टी सख्याता इमार वरसनी ॥ बरिंद्रिनी फा० जपन्य अतर्मुहूर्
 तनी २२ ५टी मख्याता वरसनी ॥ तेरिंद्रिनी फा० जपन्य अतर्मुहूर्
 तनी २२ ५टी सख्याता वरसनी ॥ रायेद्रीयानी ॥ चोरेद्रीयानी का०

जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी संख्याता मासनी ॥ पंचेद्रीयानी का०
जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी पृथक् सो सागरपूरी ॥

॥ इति इंद्रिद्वार ॥ ३ ॥

हिवे कायद्वार कहे छे ॥ सकाइयाना २ भेद अणाइए अपज्जव-
सीए (१) अणाइए सपज्जवसीए (२) पृथिवी अप तेउ वायु ए ४
नी का० जघन्य अंतरमुहूर्तनी ॥ उत्कृष्टी असंख्यातो काल असंख्याती
अपसरपणी जाव असंख्यात लोका ॥ वनस्पतीनी का० जघन्य
अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी अनंतो काल जाव असंखेजा पुग्गल परियट्टा ॥
तसकायनी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी दोय हजार सागर सं-
ख्याता वरसाधिक ॥ अकाइया साइए अपज्जवसीए ते सिद्ध ॥
सकाइया पृथिवीकाइया अप तेउ वाउ वनस्पती त्रसकाइया ए ७
अप्रजाप्तानी का० जघन्य उत्कृष्टी अंतर्मुहूर्तनी सकाइया तसकाइया
प्रजाप्तानी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी । उत्कृष्टी पृथक् सो सागर
जाझेरी ॥ पृथिवीकाइया अपकाइया वाउकाइया वनस्पतीकाइया
प्रजाप्तानी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी संख्याता हजार वर्षनी ॥
तेउ प्रजाप्तानी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी संख्याता रायेदी-
यानी ॥ हिवै ७ बोल सूक्ष्मना कहछे ॥ समुच्चै सुक्ष्म सूक्ष्म पृथिवीकाय
सूक्ष्म अपकाय सूक्ष्म तेउ काय सूक्ष्म वाउकाय सूक्ष्म वनस्पतीकाय
सूक्ष्म निगोद ए ७ नी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी असंख्यातो
काल असंख्याती अपसरपणी असंख्याती उतसरपणी असंख्यात
कालो असंख्यात क्षेत्रो असंख्यात लोका ॥ ए ७ अप्रजाप्ता प्रजाप्ता-
नी का० जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्तनी ॥ हिवे ९ बोल वादरनां ॥
समुच्चैवादर (१) वादर पृथिवीकाय (२) वादर अपकाय (३) वादर
तेउकाय (४) वादर वाउकाय (५) वादर वनस्पतीकाय (६)

मत्पेक शरीरी वादर वनस्पती (७) वादर प्रस (८) वादर निगोद
 (९) मिणों समुचे वादर वादर वनस्पती ए २ नी का० जघन्य अत-
 र्मुहूर्तनी उत्कृष्टी असख्यातो काल असख्याती अपसरपणी असख्याती
 उत्तरपणी असख्यात कालो असख्यात क्षेत्रो ॥ क्षेत्री यकी आंगु-
 लीया ए असखेअ मागे ॥ आंगुलकाके असख्यातमे भाग नितरा
 आका प्रदेश होय तितरा कालचक्र नीच २ बोल्लये र्लै ॥ वादर
 पृथिवीकाय वादरअपकाय वादरतेवकाय वादर वावकाय मत्पेक
 शरीरी वादर वनस्पतीकाय वादर निगोद ए ६ नी का० जघन्य
 अतमुहूर्तनी उत्कृष्टी ७० कोडा कोड सागरनी ॥ वादर प्रसनी का०
 जघन्य अतर्मुहूर्तनी उत्क० होय इमार सागर सख्याता वरसाधिक
 ए नव बोन्ड अमभासानी का० ज० उ० अतमुहूर्तनी समचे वादर
 वादर प्रस काय प्रभासा जघन्य का० अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी पृथक सो
 सागर जासेरी ॥ वादर पृथिवीकाय वादर अपकाय वादर वायुकाय
 वादर वनस्पतीकाय मत्पेक शरीरी वादर वनस्पती एहनी का० जघ-
 न्य अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी सख्याता इमार वरसनी ॥ वादर तेवनी का०
 जघन्य अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी सख्याता रायेंदीपानी ॥ वादर निगोदनी
 का० जघन्य उत्कृष्टी अतमुहूर्तनी ॥ समुचे निगोदनी का० जघन्य
 अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी अनतो काल अनती अपसरपणी अनती उत्तरपणी
 अनतो काल अनतो खेतो नाच अढाई पुगल मावर्तन ॥

॥ इति कायादार ॥ ४ ॥

दिवे यागदार कह छे ॥ समोगीना २ भेद ॥ अणाए अप
 च्चपसीए ॥ अणाए सपञ्जपसीए ॥ मनमोगी बघननी का० जघन्य ?
 समानी उत्कृष्टी अतर्मुहूर्तनी ॥ कायमोगीनी का० जघन्य अतर्मुहूर्तनी

उत्कृष्टी अनंतो काल ॥ जाववणसइ कालो ॥ अजोगी साइए अप-
ज्जवसीए ॥

॥ इति जोगद्वार ॥ ५ ॥

हिवे वेदद्वार कहे छे ॥ सवेदीना ३ भेद ॥ अणाइए अपज्जव-
सीए (१) अणाइए सपज्जवसीए (२) साइए सपज्जवसीए (३) ए
३नी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी अनंतोकाल जाव देश उणा
अर्ध पुद्गल प्रावर्तन ॥ स्त्री वेदनी का० जघन्य १ समयनी उत्कृष्टा
स्त्री वेदना ५ भेद पहला भेदनी का० उत्कृष्टी ११० पल्य पृथक् कोड
पूर्वाधिक ॥ दूजा भेदनी का० उ० १०० पल्य पृथक् कोड पूर्वाधिक ॥
तीजा भेदनी का० उ० १८ पल्य पृथक् कोड पूर्वाधिक ॥
चोथा भेदनी का० उ० १४ पल्य पृथक् कोड पूर्वाधिक ॥ पांचमा
भेदनी का० उ० ९ पल्य पृथक् कोड पूर्वाधिक ॥ पुरुष वेदनी का०
जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी पृथक् सो सागर जाझेरी ॥ नपुंसक
वेदनी का० जघन्य १ समयनी उत्कृष्टी अनंतो काल जाव वणसइ
कालो ॥ अवेदीना २ भेद साइए अपज्जवसीए ॥ साइए सपज्जवसीए ॥
तेनी का० जघन्य १ समयनी उत्कृष्टी अंतर्मुहूर्तनी ॥

॥ इति वेदद्वार ॥ ६ ॥

हिवे कषायद्वार कहे छे ॥ सकषाईना ३ भेद अणाइए अपज्ज-
वसीए (१) अणाइए सपज्जवसीए (२) साइए सपज्जवसीए (३)
तेहनी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी अनंता कालनी जाव देश
उणा अर्द्ध पुद्गल प्रावर्तन ॥ क्रोध कषाई या मान कषाईया माया क-
षाईयानी का० जघन्य उत्कृष्टी अंतर्मुहूर्तनी ॥ लोभ कषाईयानी का०
जघन्य १ समयनी उत्कृष्टी अंतर्मुहूर्तनी अकषाईयाना २ भेद साइए

अपञ्जवसीए (१) साइए सपञ्जवसीए (२) तेहनी का० जघन्य १ समयनी उत्कृष्टी अतर्मुहूर्तनी ॥

॥ इति कपायदार ॥ ७ ॥

द्विवे छेसादार कहे छे ॥ सखेसीना २ भेद अणाइए अपञ्जवसीए (१) अणाइए सपञ्जवसीए (२) कृष्णखेसी शुक्लखेसीनी का० जघन्य अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी ३३ सागर अतर्मुहूर्त अधिक ॥ नील खेसीनी का० जघन्य अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी १० सागर पत्यने असख्यातमे भाग अधिक ॥ कापोव खेसीनी का० जघन्य अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी ३ सागर पत्यके असख्यातमे भाग ॥ तेजु खेसीनी का० जघन्य अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी २ सागर पत्यने असख्यातमे भाग ॥ पद्म खेसीनी का० जघन्य अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी १० सागर अतर्मुहूर्त अधिक ॥ अखेसी साइए अपञ्जवसीए ॥

॥ इति छेसादार ॥ ८ ॥

द्विवे सम्यकदार कहे छे ॥ समहृष्टीना २ भेद साइए अपञ्जवसीए (१) साइए सपञ्जवसीए (२) तेहनी का० जघन्य अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी ६६ सागर जाझेरी साश्वदान समकितनी जघन्य का० १ समयनी उत्कृष्टी ६ आपसिकानी ॥ उपसम समकितनी का० जघन्य उत्कृष्टी अतर्मुहूर्तनी ॥ बेदक समकितनी का० जघन्य उत्कृष्ट १ समयनी ॥ सयोपश्रम समकितनी का० जघन्य अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी ६६ सागर जाझेरी ॥ हायक सम्यक साइए अपञ्जवसीए ॥ मिध्याहृष्टिना ३ भेद अणाइए अपञ्जवसीए (१) अणाइए सपञ्जवसीए (२) साइए सपञ्जवसीए (३) एहनी का० जघन्य अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी अनंतो काल जाय देखोणा अर्ध पुहल भाषतन ॥ मिधहृष्टीनी का० जघन्य उत्कृष्टो अतर्मुहूर्तनी ॥

॥ इति सम्यकदार ॥ ९ ॥

हिवे ज्ञानद्वार कहे छे ॥ सनाणीना २ भेद साइए अपज्जवसीए
 (१) साइए सपज्जवसीए (२) एहनी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी
 उत्कृष्टी ६६ सागर जाझेरी ॥ मति श्रुति नाणीनी का० जघन्य अंत-
 र्मुहूर्तनी उत्कृष्टी ६६ सागर जाझेरी ॥ मन नाणी पर्यवनी का० जघन्य
 १ समयनी उत्कृष्टी देशोणा कोड पूर्वनी ॥ केवलग्याननी का० साइए
 अपज्जवसीए । मति श्रुत अनाणीना ३ भेद अणाइए अपज्जवसीए (१)
 अणाइए सपज्जवसीए (२) साइए सपज्जवसीए (३) एहनी का०
 जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी अनंतो कालनी जाव देशोणा अर्द्धपुद्गल
 प्रावर्तन ॥ विभंग अनाणीनी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी ३३
 सागर देशोणा कोड पूर्व अधिक ॥

॥ इति ज्ञानद्वार ॥ १० ॥

हिवे दर्शनद्वार कहे छे ॥ चक्षु दर्शननी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी
 उत्कृष्टी हजार सागर जाझेरी अचक्षु दर्शनना २ भेद अणाइ अप-
 ज्जवसीए [१] अणाइए सपज्जवसीए (२) अवधि दर्शननी का०
 जघन्य १ समयनी उत्कृष्टी १३२ सागर जाझेरी ॥ केवल दर्शननी
 का० साइए अपज्जवसीए ॥

॥ इति दर्शनद्वार ॥ ११ ॥

हिवे संजतीद्वार कहे छे ॥ समुचै संजती सामाइक चारित्र छेदो-
 पस्थापनीक चारित्र जथाक्षायक चारित्र ए ४ नी का० जघन्य १
 समयनी उत्कृष्टी देशोणा क्रोड पूर्वनी परिहार विश्रुद्ध, चारित्रनी का०
 जघन्य १ समयनी उत्कृष्टी २९ वर्ष उंग क्रोड पूर्वनी ॥ सूक्ष्म
 संप्रायचारित्रनी का० जघन्य १ समयनी उत्कृष्टी अंतर्मुहूर्तनी

समता समतीनी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी चत्कृष्टी देशोणा कोड
पूर्वनी असजनीना ३ मेद अणाइए अपज्जवसीए (१) अणाइए सप
ज्जवसीए (२) साइए सपज्जवसीए (३) एइनी का० जघन्य अत
मुहूर्तनी चत्कृष्टी अनतो काल जाव देशोणा अर्थ पुत्तल प्रवर्तना। नो
सजती नो असजती नो समता समतीनी का० साइए अपज्जवसीए ॥

॥ इति सयविदार ॥ १२ ॥

दिवे उपयोगदार कहे छे ॥ साकार वठचा अणाकार वठचानी
का० जघन्य चत्कृष्टी अतर्मुहूर्तनी ॥

॥ इति उपयोगदार ॥ १३ ॥

दिवे आहारिकदार कहे छे ॥ आहारीकना ० भद छद्मस्य
आहारीक केवल आहारीक छद्मस्य आहारिकनी का० जघन्य १
खोडागमव २ समय उणी चत्कृष्टी असख्यातो काल असख्याती
अपसरपणी “ जाव आंगुलीयाए असखेजइ मागे ” आंगुलके अस
ख्यातमे माग मितरा आकाश प्रदक्ष होय तिवरा काल चक्र भीव
छद्मस्य आहारीक रहै ॥ केवल आहारिकनी का० जघन्य अतर्मुहूर्तनी
चत्कृष्टी देशोणा कोड पूर्वनी ॥ अणाहारीकना २ मेद छद्म अणा-
रीक (१) केवल अणारीक (२) छद्मस्य अणारीकनी का० जघन्य
१ समयनी चत्कृष्टी २ समयनी केवल अणारीकना २ मेद सिद्ध
अणाहारीक (१) संसारी केवली अणाहारीक (२) सिद्ध केवली अ-
णारीकनी का० साइए अपज्जवसीए ॥ संसारी केवली अणाहारीकना
२ मेद सजोगी केवली अणारीक (१) अजोगी केवली अणारीक
(२) सजोगी केवली अणारिकनी का० जघन्य चत्कृष्टी १ समयनी
अजोगी केवली अणारिकनी का० जघन्य चत्कृष्टी अतर्मुहूर्तनी ॥

॥ इति आहारिकदार ॥ १४ ॥

हिवे भासकद्वार कहे छे ॥ भासकनी का० जघन्य १ समयनी उत्कृष्टी अंतर्मुहूर्तनी ॥ अभासकना २ भेद साइए अपज्जवसीए (१) साइए सपज्जवसीए (२) एहनी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी अनंतो काल “जाव वणसइ कालो” ॥

॥ इति भासकद्वार ॥ १५ ॥

हिवे परतद्वार कहे छे ॥ परतना २ भेद संसार परत (१) काय परत (२) संसार परतनी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी अनंतो काल. “जाव देशांणा अद्धपुद्गल प्रावर्त्तन काय परतनी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी असंख्यातो काल “जाव पुढवी कालो” अपरतना २ भेद संसार अपरत (१) काय अपरत (२) संसार अपरतना २ भेद अणाइए अपज्जवसीए (१) अणाइए सपज्जवसीए (२) काय अपरतनी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी अनंतो काल “ जाव वणसइ कालो ” नो परत्त नो अपरत्तनी का० साइए अपज्जवसीए ॥

॥ इति परतद्वार ॥ १६ ॥

हिवे प्रजाप्तद्वार कहे छे ॥ प्रजाप्तनी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी पृथक् सो सागर जाझेरी ॥ अप्रजाप्तनी का० जघन्य उत्कृष्टी अंतर्मुहूर्तनी ॥ नो अप्रजाप्तानो प्रजाप्तानी का० साइए अपज्जवसीए ॥

॥ इति प्रजाप्तद्वार ॥ १७ ॥

हिवे स्रग्द्वार कहे छे ॥ स्रग्नी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी असंख्यातो काल “ जाव असंख्यात लोगा ” दादरनी का०

जघन्य अतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी असख्यातो काञ्च “जाय आंसुसियाए
असखेअइ मारो” नो मूम नो वादरनी का० साइए अपञ्जवसीए ॥

॥ इति सूत्रद्वार ॥ १८ ॥

द्विषे सन्धीद्वार कहे छे ॥ सन्धीनी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उ-
त्कृष्टी पूयक् सो सामर जाझेरी ॥ असन्धीनी का० जघन्य अंतर्मुहूर्त-
नी उत्कृष्टी अनतो काञ्च “जाय देखो बवसइ काळा” नो सन्धी
नो असन्धी का० साइए अपञ्जवसीए ॥

॥ इति सन्धीद्वार ॥ १९ ॥

द्विषे भवद्वार कहे छे ॥ भवते अणाइए सपञ्जवसीए (१)
अभव अणाइए अपञ्जवसीए (२) नो भव नो अभव साइए अपञ्ज-
वसीए ॥

॥ इति भवद्वार ॥ २० ॥

द्विषे चर्मद्वार कहे छे ॥ चर्मते अणाइए अपञ्जवसीए ॥ अच-
मन्त २ इव ॥ अणाइए अपञ्जवसीए ते अचमन्त ॥ साइए अपञ्ज-
वसीए ते सिद्ध भगवान् ॥

॥ इति चर्मद्वार ॥ २१ ॥

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे
काय स्थित्याख्यं एकोनविंशति प्रकरणम् ॥



પ્રકરણ વીસવા-ગતાગત.

		આગતિ-સે-આવિવૌ	ગતીતે જાયઘી તેહના ઘોલ.		
૧	પ્રથમ નારકીની	૨૫	કર્મ ભૂમિ ૧૫ પર્યા- સા પાંચ સજીસસજી તિર્યંચકા પર્યાસા ૧૦	૪૦	૧૫ કર્મ ભૂમિના મ- નુપ્ય અને ૫ સર્ગી તિર્યંચ ૫ ૨૦ ના પર્યાસા અપર્યાસા
૨	દ્વિજી નારકીની	૨૦	પૂર્વે ૫ અસજી ટલ્યા	૪૦	૧૫ કર્મભૂમિના અ- પર્યાસાપર્યાસા અને સજી તિર્યંચના પ- ર્યાસા ને અપર્યાસા ૫૩ ૪૦
૩	ત્રીજી નારકીની	૧૯	પૂર્વે ૨૦ કહ્યા જગમેસુ એક ધુજપર ટલ્યો	૪૦	૪૦ પૂર્વેવત
૪	ચોથી નારકીની	૧૯	પૂર્વે ૧૯ કહ્યા જિગ- મેસુ છેવર ૧ ટલ્યો	૪૦	૪૦ પૂર્વેવત
૫	પાંચમી નારકીની	૧૦	પૂર્વે ૧૮ કહ્યા જિ- ગમેસુ એક સ્યલ- ચર ટલ્યો	૪૦	૪૦ પૂર્વેવત

जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उत्कृष्टी असस्यातो काण्ड "जाव आंगुलियाए
असखेअइ भारो" नो मुह्य नो वादरनी का० साइए अपञ्जवसीए ॥

॥ इति धूमद्वार ॥ १८ ॥

दिवे सभ्नीद्वार कहे छे ॥ सभ्नीनी का० जघन्य अंतर्मुहूर्तनी उ-
त्कृष्टी पृथक् सो सभ्मर जाझेरी ॥ असभ्नीनी का० जघन्य अंतर्मुहूर्त-
नी उत्कृष्टी अनसो काण्ड "जाव देसो बवसइ काण्डा" नो सभ्नी
नो असभ्नी का० साइए अपञ्जवसीए ॥

॥ इति सभ्नीद्वार ॥ १९ ॥

दिवे भषद्वार कहे छे ॥ भषते अणाइए सपञ्जवसीए (१)
अभव अणाइए अपञ्जवसीए (२) नो भष नो अभव साइए अपञ्ज-
वसीए ॥

॥ इति भषद्वार ॥ २० ॥

दिवे चर्मद्वार कहे छे ॥ चर्मते अणाइए अपञ्जवसीए ॥ अच-
मना २ रुद ॥ अणाइए अपञ्जवसीए ते अपच्य ॥ साइए अपञ्ज-
वसीए ते सिद्ध मगवान ॥

॥ इति चर्मद्वार ॥ २१ ॥

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणी द्वितीय खण्डे
काय स्थित्याख्यं एकोनविंशति प्रकरणम् ॥

आगत.

गत.

११	दूजा देवलोकने	४०	१५ कर्मभूमी ५ सत्री ति० ५ देव कु० ५ उत्त० ५ हर.वास० ५ र- म्यग्न० ए सर्व प०	४६	४६ पूर्ववत्
१२	श्रीजा देवलोकधि लेई ८ मा लगेनी	२०	१५ कर्मभूमीना ५ सत्री तिर्यचका प्रजासा	४०	१५ कर्मभूमी ५ सत्री तिर्यच ए २० का अप्रजा सा प्रजासा एवं ४०
१३	नोग्रीवेकथी लई पांच अणुत्तर वि- मान लगेनी	१५	१५ कर्मभूमीना प्रयासा	३०	१५ कर्मभूमीना प्रजासा अप्रजासा एव ३०
१४	पृथ्वी अप वन- स्पती ए ३ नी	२४३	१०१ मनु.य अ- संस्थानी० १५ कर्मभूमीना अप्रजाप्ता प्रजाप्ता ४८ तिर्यच ६४ देव	१७१	६४ देवता परानी
१५	तेज (१) वाकनी (२)	१७९	लड पूर्ववत्	४८	तिर्यच सर्व.
१६	३ विकलेन्द्रियनी	१७९	लड पूर्ववत्	१७९	लड पूर्ववत्

आगत

गत

९	१-कृती नारकीनी	११	पूर्वे १० कथा त्रिभ्रमेसु उपर दत्तो-	४०	४ पूर्ववत्
१०	सातमी नारकीनी	१६	इहां की कृती	१	५ सत्री तिर्बिका अपवासा पूर्व १
८	१ भववपती १५ पर्माधामी ११ प्वंतर १ तिर्बिगु अमकानी	१११	१ १ गवेज मनु प्वना पवासा अवे ५ सत्री ५ असत्री तिर्बिबना पवासा पूर्व १११	४६	१५ कम पूमिना मनुप्व ५ सत्री तिर्बिब ५ २ अवे पूप्वी १ अप २ अम १ ५ २१ अ पवासा अपवासा पूर्व ४६
५	१ क्योठिचीनी	५	१५ कर्मपुमी १ अकर्म ५ सत्री प्वना पवासा	४६	४६ पूर्ववत्
१	प्रथम ईबलोकनी	५	१ पूवपट	४६	४६ पूर्ववत्

आगत.

गत.

२२	हरीवास २४ रम्यकवासनी	२०	पूर्ववत्	१२६	दुजा देवलोक ताई ६३- आतना देव- ताना अप्रजाप्ता प्र- जाप्ता एवं १२६.
२३	हेमवय- पेरणक्यनी	२०	पूर्ववत्	१२४	भवनपतीसे लेकर पहिला देवलोक ताई ६२ जातका देवताना अप्रजा- प्ता प्रजाप्ता० एवं १२४
२४	५६ अतर्हीपान्ती	२५	१५ कर्मभूमीना प्र- जाप्ता ५ सक्ती ५ असक्ती तियेच एवं २५	१०२	१० भुवनपती १६ बाणव्यंतर १५ पर माधामी-१० तिथि चका एना अप्रजा- प्ता प्रजाप्ता एव १०२
२५	तीर्थकरनी	३८	१२ देवलोक ९ लोकां तीक ९ नवप्रीवेक ३ नारकीएना प्रजाप्ता एवं ३८	मोक्ष	मोक्षनी
२६	चक्रवतीनी	८२	८१ जातका देवता १ नारकी एना प्रजाप्ता एवं ८२	१४	सात नारकीना प्र- जाप्ता अप्रजाप्ता एवं १४
२७	वासुदेवनी	३२	१२ देवलोक ९ नव- प्रीवेक ९ लोकांतिक २ नारकी एवं ३२	१४	पूर्ववत्

आगत

गत


१०	सखी तिर्थिचरी	२६०	१०९ की छट ८१ देवता ८ मा देवकोक की ० नारकी	५२०	८ मा देवकोक सू ऊपरका देवता बर्षी
११	असखि तिर्थिचरी	१०९	छट	३९५	१०९की छट ५१ देवता ५१ अंत- र्हीया। प्रथम वर्ष पूर्व ३९५ ते ५६३ माहिवा बचमा देवकोक केका सवाभक्ति १८ मा प्रजापति अप्रजापति ५३१ प्रजापति ५२०
१८	सखी तिर्थिचरी	२६०	८१ आतमा दे वता १०९ की छट धोर सात नारकीमा प्रजापति	५२०	
१९	सखी मनुष्यनी	२०१	१०१ की छट तेज-बाउना बर्षी ९९ देवता १ मा रकीमा प्रजापति	५६३	बीचमा सब जे
२०	असखी मनुष्यनी	१०१	१०९ छटमाहि की तेज बाउना ८ जेद टाकीये ॥	१०९	१३१ मनुष्यमा अने १८ जेद तिर्थिचरी पूर्व १०९
२१	देवकुव अतर कुइनी	९	१५ कर्मभूमी ५ मखी तिर्थिच पूर्व ९	१२८	प्रथम १६ आतमा देवकोक अतमा पति प्रजापति पूर्व १२८

आगत.

गत.

३४	सिध्यादृष्टिनी	३७१	९९ जातका देवता ८६ युगुलिया ७ ना- रकी प्रजाप्ता १७१ कि लठ	५६३	५ अणुत्तरविमानवर्जो
३५	स्त्री वेदनी	३७१	पूर्ववत्	५६१	सातमी नारकीवर्जो.
३६	पुरुष वेदनी	३७१	पूर्ववत्	५६३	सर्वे
३७	नपुंसक वेदनी	२८५	पूर्व ३७१ कक्षा जिग- मेसू ८६ युगुलिया टळया	५६३	सर्व
३८	सिद्ध भगवान्नी	१५	१५ कर्मभूमीना प्र- जाप्ता	०	०

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे गताग-
त्याख्यं विंशति तम प्रकरणम्. ॥



आगत

गत


		आगत		गत	
१८	बकदेवकी	८३	३ त्रिकविती १५५ रमावामी बरबीव से- क देवता और २ ना- रकी एवं ८३	७० तथा मोक्ष	१२ ईशकोक १५ बमीवेक ९ कोर्क- तिक ५ अनुपर वि- मान प्रहना अमजा- जा प्रजाता
१९	केवकीवी	१८	८१ आतका देवता १५ कर्मभूमी ५ सभी सि- धिका प्रजाता पूरि- पानी-बमस्वती ३ ना- रकी एवं १८		सिद्धगति
२०	साधुजीवी	२७५	मगुप्यवर ५ बारकी की	७०	बकदेववर
२१	आवकीवी	२०६	मनु-बवर ६ बारकी की.	४२	१२ ईशकोक ९ को- कतिक बना प्रजा- ता अमजाता एवं ३९
२२	समच्छोवी	२६३	२९ आतका देवताका प्रजाता ८९ पु मिवा गाल नारकी अमजाता- ता बरवा ८ टका एवं ५६३ मंत्र	२२२	८१ देवता १५ कर्म भूमी ५ समीतिरिष ६ बारकी ७ १०३ प्रजाता-अमजाता (२१७) इतिद्वय ५ असभी विरिष
२३	मिअरकीवी	२६३	२२२	०	गती वकी

आगत.

गत.

३४	मिथ्यादृष्टिनी	३७१	९९ जातका देवता ८६ युगुलिया ७ ना- रकी प्रजाप्ता १७१ कि लड	५६३	५ अणुत्तरविमानवर्जी
३५	स्त्री वेदनी	३७१	पूर्ववत्	५६१	सातमी नारकीवर्जी
३६	पुरुष वेदनी	३७१	पूर्ववत्	५६३	सर्व
३७	नपुंसक वेदनी	२८५	पूर्व ३७१ कहा जिण- मेसू ८६ युगुलिया टळ्या	५६३	सर्व
३८	सिद्ध भगवान्नी	१५	१५ कर्मभूमीना प्र- जाप्ता	०	०

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे गताग-
त्याख्यं विंशति तम प्रकरणम्. ॥





प्रकरण एकवीसवां-संजया.



॥ गाथा ॥

पण्णवण (१) वेय (२) रागे (३) कप्प (४) चरित्त (५) पट्टि
 सेवणा (६) नाणे (७) तित्थे (८) किंग (९) सरीरे (१०) तित्थे
 (११) काळे (१२) गर्ई (१३) सज्जम [१४] निफासे (१५) ॥ १ ॥
 षोय (१६) बओगे (१७) कसाए (१८) छेस्या (१९) परिणाम
 (२०) बघ (२१) वेदेय (२२) ॥ कम्मोदी रण (२३) उषत्त ॥ पन्न-
 हण (२४) सज्जाम (२५) आहारे (२६) ॥ २ ॥ मव (२७) आग-
 रिसे (२८) काळ [२९] तरेय [३०] ॥ समुग्घाय (३१) खेत्त (३२)
 फुसणाय (३३) ॥ यावे (३४) परिमाणेय (३५) खल्लु ॥ अप्पा बहु
 यसज्जयाण (३६) ॥ ३ ॥

द्विष मयम पन्नवणद्वार कहे छे ॥ पन्नवण कइती परुप्पा सज्ज-
 याना मद्द ॥ सामाइक चारिअ (१) छेदोपस्थापनीय चारिअ (२)
 परिहार बिघुपि चारिअ [३] सुत्थ संपराय चारिअ (४) जयात्वापिअ
 चारिअ (५) द्विषे उत्तरमद्द कहे छे सामाइक चारिअना (२) भेद ।
 इत्तरीपय (१) आक्कहिण्य (२) इत्तरियते योदा फाल्लनो ॥ प्रथम
 घरम तीर्थकरने चारै होय । ते किम सामाइक छेदीन छेदोपस्थापनीय
 दवै ॥ साजम जिने तथा चौये मासे तथा छठे मासे से भणी (१)
 आक्कने जाव भीव म्मगे ग्हे त मय २२ तीर्थकराने चारै । तथा महा

विदेहका साधुओके होय ॥ ते किम वढी दिक्ष्या नहि देवै ॥ ते भणी (२) ॥ १ ॥ छेदोपस्थापनीय चारित्रना (२) भेद । साइयारे (१) निरइयारे (२) साइयारे तो अतिचार लांगां देवै (१) निरइयारे ते । अतिचार लागा विनां देवै । ते किम छोटी दिक्षा थकी वढी दिक्षा छेवै तथा पार्श्वनाथजीना साधु महावीरजीका सासणमें आवै जद छेदोपस्थापनीय लेवै ते भणी (२) ॥ २ ॥ परिहार विमुधि चारित्रना (२) भेद । निविसमाणे (१) निविठकाइय (२) निविसमाणे तो परिहार विमुधी तप करे ॥ ते किम नव (९) साधु गच्छ वारै नीकलीनै तप करवा मांडयो. १८ मासकौ प्रमाण बांध्यो जिणमें प्रथम छ मासमें चार साधु तप करे, चार साधु वैयावृव्य करै गुरु व्याख्यान करे ॥ बीजा छ मासमे वैयावृव्यका करणेवाला तप करे तपका करणेवाला वैयावृव्य करे ॥ त्रीजा छ मासमें गुरु तप करे शेष ८ जणा वैयावृव्य करै ॥ अव तपनो प्रमाण कहे छेः-प्रथम छ मासमें सीत कालमै तो चौथ भक्त करे उष्णकालमे छठं भक्त करै वर्षाकालमें अष्टं भक्त करे बीजा छ मासमें तीनूही ऋतुमें एकेक उपवास वधावें ॥ २ । ३ । ४ । त्रीजा छ मासमे पुनः तीनूही रिठुमें पुनः एकेकौपवास वधावे । ३ । ४ । ५ । अग नवेंही साधु सदाही आंवल करे इम अठरा मासताई तप करै जिणनै निविसमाणे कहिये (१) निविठमाणे ते परिहार तप करी निवर्ते जिस्को कहिये (२) ॥ ३ ॥ सूक्ष्म संपराय चारित्रना (२) भेद ॥ संक्ले समाणेष (१) विमुधमाणे (२) संक्ले समाणे ते उपश्रम श्रेणीथी पडतां १० मे गुणठाणे आवै जद होवे (१) विमुधिमाणे ते दोनूही श्रेणी बढतां यकां आवे (२) ॥ ४ ॥ जथास्वायिक चारित्रना [२] भेद । छद्मस्य [१] केवली (२) छद्मस्य ते ११ में । १२ में गुणठाणे होवे [१] केवली ते । १३ में १४ में गुणठाणे होवै (२) ॥ ५ ॥

॥ इति प्रथमद्वार ॥ १ ॥

द्विवे वेदद्वार कहे छे ॥ प्रथम २ सजया सवेदीमी होय ॥ तथा अवेदीमी होय ॥ सवेदी होय तो । तीनुई वेद होय । अने अवेदी होय ते उपश्रमवेदी तथा क्षीणवेदी होय ॥ परिहार विद्युषि सवेदी-हीन होय ॥ पुरुषवेदी तथा पुरुष ऋषुसकवेदी होय । पिण की वेदी नही होय । अने अवेदी पिण न होय ॥ घृष्म सपराय अने जयास्वायिक । सवेदी नही होय । अवेदीहीन होय तथा उपश्रम वेदी तथा क्षीण वेदी होय ॥ ५ ॥

॥ इति वेदद्वार ॥ २ ॥

द्विवे रागद्वार कहे छे ॥ प्रथम चार सजया तो सरागी होय ॥ जयास्वायिक चारिअ उपश्रम रागी होय ॥ तथा क्षीण रागी होय ॥

॥ इति रागद्वार ॥ ३ ॥

द्विवे कल्पद्वार कहे छे ॥ सामाईक सूक्ष्म सपराय जयास्वायिक । ए ३ पित कल्पी होय ॥ अयित कल्पी पिण होय । छेदोपस्थापनी । परिहार निशुद्धी । ए २ पित कल्पी तो होय । पिण अयित कल्पी न होय ॥

द्विवे पित कल्पी अयित कल्पी नो अर्थ कहे छे ॥

पित कल्पी तो दस बोल पाछे ॥ त प्रथम चरम तीर्थकरने चार होय ॥ अने अयित कल्पी ते ४ बोल तो निश्चयही पाछे । अने छे बोलकी मजना पाछे तथा न पाछे ॥ ते दस बोसना नाम कहे छे ॥ सेज्यातर पिंड (१) महावत ४ (२) पुरुष ज्यष्ठ ते साखी साधुने बंदना करे (३) कीर्ति कर्म ते लघु साधु बडा साधुने बंदना करे ॥ ४ ॥ ए चार तो अयित कल्प कहीजे । अनेस ते बदनो ममाण करे ॥ बर्ण यही अने मान्य थरी ॥ ५ ॥ उदेसिक त काइ साधुने

काजै आहारादिक निपजायौ ते आहारादिक ओर साधु ल्यावे ॥६॥
 पडिक्रमणा कल्प ते सांज प्रभातनौ पडिक्रमणौ करे ॥७॥ राज्य-
 पिंड ॥ ८ ॥ मास कल्प ॥ ९ ॥ पजुसणा कल्प । १० । ए १०
 जाणवा ॥ हिवे कल्प (३) आश्री कह छे ॥ सामायिक तो जिण
 कल्पी होय ॥ धिवर कल्पी होय ॥ कल्पातीत होय (१) छेदोपस्था-
 पनीय ॥ परिहार विशुद्धि ॥ ए २ कल्पातीत न होय शेष दोय कल्प
 होय । सूक्ष्म संपराय जथाक्षायक । ए २, कल्पातीतहीज होय ॥
 शेष २ न होय ॥ ५ ॥

॥ इति कल्पद्वार ॥ ४ ॥

हिवे चारित्रद्वार कहे छे ॥ सामाइक छेदोपस्थापनीकमांही नि-
 यंटा पावे ४ पुलक (१) बुकस (२) पडिसेवणा (३) कपाय कु-
 सील (४) परिहार विमृधिमै सुक्ष्म सपरायमे नियंटो पावे १ कपाय
 कुसील ॥ जथाक्षायकमें नियंटा पावे २ नियंटो (१)

॥ इति चारित्रद्वार ॥ ५ ॥

स्नातक (२) हिवे पडिसेवणाद्वार कहे छे ॥ प्रथम २ संजया ।
 पडि सेवी अपडि सेवी दोनूंही होवे । पडि सेवी होवे तो मूल गुण
 उत्तर गुण दोन्यांको होवै । मूल गुण पडि सेवी तो पांच महात्रतामे
 दोष लगावे । उत्तर गुण पडिसेवी ते । दस पच्चखाणमै दोष लगावे
 [अनागयं (१) अइकंतं (२) कोटि सहियं (३) निपंढीयं (४) सागारं
 (५) अणागारं (६) परिमाण कंडं [७] निविसेसं (८) संकिय (९)
 अद्धा (१०) यां मे दोष लगावे शेष ३ संजया अपडिसेवी होय
 ॥ ६ ॥ इति ॥

हिवे ७ मौनाणद्वार कहे छे । प्रथम ४ संजयामे तौ ॥ ग्यान २

हिवे वेदद्वार कहे छे ॥ प्रथम २ सजया सवेदीभी होय ॥ तथा अवेदीभी होय ॥ सवेदी होय तौ । तीनुई वेद होय । अर्न अवेदी होय ते उपस्रमवेदी तथा क्षीणवेदी होय ॥ परिहार विष्णुभि सवेदी-हीम होवै ॥ पुरुषवेदी तथा पुरुष नशुसकवेदी होय । पिण क्री वेदी नही होय । अने अवेदी पिण न होय ॥ सूत्रम सपराय अने जयास्त्रायिक । सवेदी नही होय । अवेदीहीम होय तथा उपस्रम वेदी तथा क्षीण वेदी होय ॥ ५ ॥

॥ इति वेदद्वार ॥ २ ॥

हिवे रागद्वार कहे छे ॥ प्रथम चार सजया तौ सरागी होय ॥ जयास्त्रायिक चारिअ उपस्रम रागी होय ॥ तथा क्षीण रागी होय ॥

॥ इति रागद्वार ॥ ३ ॥

हिवे कल्पद्वार कहे छे ॥ सामाईक सूत्रम सपराय जयास्त्रायिक । ए ३ यित कल्पी होय ॥ अयित कल्पी पिण होय । छेदोपस्यापनी । परिहार विष्णुद्धी । ए २ यित कल्पी तो होय । पिण अयित कल्पी न होय ॥

हिवे यित कल्पी अयित कल्पी नो अर्थ कहे छे ॥

यित कल्पी तो दस घोस पाछे ॥ ए प्रथम अरम तीर्यकरने बार होय ॥ अने अयित कल्पी ते ४ घोस तो निअयही पाछे । अने छे बालकी भजना पाछे तथा म पाछे ॥ ते दस घोसना नाम कहे छे ॥ सेव्यातर विट (१) महाव्रत ४ (२) पुरुष ज्यष्ठ ते साध्वी साधुने बदना करे (३) कीर्ति कम त लघु साधु बढा साधुने बदना करे ॥ ४ ॥ ए चार तो अयित कल्प कहीजे । अवेस ते बहानो प्रमाण करे ॥ वर्ण पत्नी अने मास यती ॥ ५ ॥ उदेसिकु ए काइ साधुन

काजै आहारादिक निपजायौ ते आहारादिक ओर साधु ल्यावे ॥६॥
 पडिकमणा कल्प ते सांज प्रभातनौ पडिकमणौ करे ॥ ७ ॥ राज्य-
 पिंड ॥ ८ ॥ मास कल्प ॥ ९ ॥ पजुसणा कल्प । १० । ए १०
 जाणवा ॥ हिवे कल्प (३) आश्री कह छे ॥ सामायिक तो जिण
 कल्पी होय ॥ थिवर कल्पी होय ॥ कल्पातीत होय (१) छेदोपस्था-
 पनीय ॥ परिहार विशुद्धि ॥ ए २ कल्पातीत न होय शेष दोय कल्प
 होय । सूक्ष्म संपराय जथाक्षायक । ए २, कल्पातीतहीज होय ॥
 शेष २ न होय ॥ ५ ॥

॥ इति कल्पद्वार ॥ ४ ॥

हिवे चारित्रद्वार कहे छे ॥ सामाइक छेदोपस्थापनीकमांही नि-
 यंठा पावे ४ पुलक (१) बुकस (२) पडिसेवणा (३) कषाय कु-
 सील (४) परिहार विमुधिमै सुक्ष्म संपरायमे नियंठो पावे १ कषाय
 कुसील ॥ जथाक्षायकमे नियंठा पावे २ नियंठो (१)

॥ इति चारित्रद्वार ॥ ५ ॥

स्नातक (२) हिवे पडिसेवणाद्वार कहे छे ॥ प्रथम २ संजया ।
 पडि सेवी अपडि सेवी दोनूंही होवे । पडि सेवी होवे तो मूल गुण
 उत्तर गुण दोन्यांको होवै । मूल गुण पडि सेवी तो पांच महात्रतामे
 दोष लगावे । उत्तर गुण पडिसेवी ते । दस पञ्चखाणमै दोष लगावें
 [अनागयं (१) अइकंत (२) कोटि सहियं (३) निपंढीयं (४) सागारं
 (५) अणागारं (६) परिमाण कंडं [७] निविसेसं (८) संक्रियं (९)
 अद्धा (१०) यां मे दोष लगावे शेष ३ संजया अपडिसेवी होय
 ॥ ६ ॥ इति ॥

हिवे ७ मौनाणद्वार कहे छे । प्रथम ४ संजयांमे तौ ॥ ग्यान २

तथा ३ तथा ४ होवै । दाइ होवै तो । मति भुक्ति ॥ तीन होवै तो ।
 मती भुक्ति अषधि ॥ तथा मति भुक्ति मनपयस ॥ जया-
 सायकमे । न्यान २ तथा ३ तथा ४ तथा १ पिण होय ॥ १ ॥ १
 होय तो केवळ होय ॥ ५ ॥ हिचे । सामायिक (१) छेदोपस्थापनीय
 (२) सूक्ष्म सपराय (३) ए ३ सजया भणे तो अघन्य ८ प्रवचन
 माता ठक भणे । उत्कृष्टो १४ पूर्व भणे । परिहार विगुद्धि । अघन्य
 ८ पूर्व अने नभमा पूर्वनी श्रीजी आचार बस्यु सगे भणे ॥ उत्कृष्टो
 १० ऊणा पूर्व भणे ॥ जयासायक अघन्य ८ प्रवचन माता ठक
 भणे । उत्कृष्टी १४ पूर्व तथा सुप्रथी व्यतिरिक्त भणे (५)
 ॥ ७ ॥ इति

हिचे ८ मो तीर्थदार कहे छे ॥ सामायिक (१) म सपराय (२)
 जयासायक (३) ॥ ए ३ सजया । तीर्थेचि तथा आतीर्थेचि होय ॥ तीर्थे करिजे
 ४ तीर्थ प्रवर्तमान विपै होवै । अतीर्थे करिजे ४ तीर्थ बिना होय ॥ ते
 छद्मस्य तीर्थेकर हाय । तथा मस्यक बुद्धी होय ॥ छेदोपस्थापनीय ।
 परिहार विगुद्धी । ए २ सजया । तीर्थ होवे । पिण अतीर्थ न होय
 ॥ ८ ॥ इति

हिचे ९ मो लिंगदार कहे छे ॥ लिंगका २ चेद । द्रव्य लिंग
 तो साधुना भेष ॥ भावलिंग ते साधुना परिणाम ॥ परिहार विगुद्धी
 टापी शय ४ सजया । द्रव्ये तीन लिंगी होवे । सलिंगी [१] अन्य
 लिंगी (२) गृहलिंगी (३) ॥ भाव आभी नियमा सलिंगी होय । ए
 रिहार विगुद्धी द्रव्य अने भावे सलिंगी हाच । शय २ नथी ॥ ९ ॥ इति ॥

हिचे १० मो शरीरदार कहे छे ॥ सामायिक छेदोपस्थापनीय ए
 २ मे शरीर ५ पांश ॥ शय ३ मे शरीर ३ पांशे । उद्धारिक (१) त
 जस (२) कामण [३] ॥ १० ॥ इति ॥

हिचे ११ मो शेषदार कहे छे ॥ पांगुली सजया १५ कर्म ५-

मिने विषे होय अकर्मभूमिने विषे न होय ॥ विज्ञेयः-छेदोपस्थापनीय (१) परिहार विशुद्धि ए २ संजया महाविदेह क्षेत्रमे न होय अने १० क्षेत्रामे होवे साहारण आश्री ४ संजया अढाईद्वीपमें सघलो होवे परिहार विशुद्धिको साहारण नथी ॥ ११ ॥ इति ॥

हिवे १२ मो कालद्वार कहछे । अवसर्पणी काल आश्री सामायिक (१) छेदोपस्थापनीय (२) ए २ संजया । जन्म आश्री प्रवर्तन आश्री तीजे चौथे पांचमे आरै होय । परिहार विशुद्धी (१) सूक्ष्म संपराय (२) जथाक्षायक (३) ए ३ संजया जन्म आश्री ३-४ आरै होय ॥ अने प्रवर्तन आश्री । ३ । ४ । ५ । मै आरै होय । हिवे उत्सर्पणी काल आश्री कहे छे पांचूही संजया । जन्म आश्री । २ । ३ । ४ । आरै होय अने प्रवर्तन आश्री ३ । ४ । आरै होय ॥ हिवे चार पलि भाग आश्री कहछे ॥ सामायिक [१] सूक्ष्म संपराय (२) जथा क्षायक ए ३ संजया चोथो पलि भाग महाविदेहमे होवै । तीन पलि भागमे न होय ॥ अने छेदोपस्थापनीय (१) परिहार विशुद्धि (२) ए दोनू चारूही पली भागमे नथी ॥ हिवे साहारण आश्री कहे छे सामायिक (१) सूक्ष्म संपराय (२) जथाक्षायक (३) ए ३ संजयोता बारे आरामे अने चार पलिभागमै सघलेही होवे ॥ छेदोपस्थापनी पांच आरामे होय । ३।४।५ ए तीन अपसर्पणीका ॥ ३ । ४ । ए दोई उत्सर्पणीका । एवं (५) परिहार विशुद्धिको साहारण नथी ॥ १२ ॥

॥ इति ॥

हिवै १३ मौ गतिद्वार कहे छे ॥ सामायिक (१) छेदोपस्थापनीय (२) ए २ संजया जघन्य तो प्रथम देवलोक ऊपजे उत्कृष्टा सर्वार्थ सिद्ध विमाणताई ऊपजे ॥ आउखो ॥ जघन्य दोइ पल्योपमको उत्कृष्टो ३३ सागरोपमको । पदवी पावे ५ इंद्रकी (१) सामानिककी

(२) प्रायश्चित्तकृती (३) लोकपालकी (४) अहमिद्रकी (५) परिहार विमुघी जघन्य प्रथम स्वर्गे ॥ उत्कृष्टो । आठम स्वर्गे ऊपजे ॥ आठखो जघन्य दो पत्न्योपमको । उत्कृष्टौ । १८ सागरको ॥ पद्मी पावै ८ पूर्व ५ कही निणमेम् अहमिद्रकी टली ॥ सूक्ष्म सपराय (१) जयाज्ञायक (२) ए २ सजया जघन्य उत्कृष्टी पांच अणुत्तर विमाग्मै हिन उपजे ॥ आठखौ अनघन्य अने उत्कृष्टौ ३३ सागरकोहीम पावै ॥ पद्मी १ पावै अहमिद्रकी ॥५॥ ए पांचूही आराधक आग्नी भांगवा । विराधक हाय तो भवण पत्यादिकमै उपजे ॥ १३ ॥ इति ॥

हिचे १४ मो सममद्दार कहे छे ॥ प्रथम ४ समयोका । सममका स्थानक असम्प्राता छे । जयाज्ञायकको सजमको स्थानक एक छे ॥ हिचे अत्याबहुत्व कहे छे ॥ सर्वयी थोडा जयाज्ञायकको स्थानक ॥ १ ॥ तेयी सूक्ष्म सपरायका स्थानक असम्प्रातगुणा ॥२॥ परिहार विशुद्धिका स्थानक असम्प्रातगुणा ॥ ३ ॥ तेयी । सामा-इक छेदोपस्थापनीकका स्थानक मांहोमांही ॥ तुळा असम्प्रात गुणा ॥ ५ ॥ १४ ॥ इति ॥

हिचे १५ मो निक्कासद्दार कहे छे ॥ प्रथम तो पद्मगुणी ह्यपि ह्यपिका नाम कहे छे ॥ अनंत भागहीन (१) असम्प्रात भागहीन (२) सख्यात भागहीन (३) सख्यात गुणहीन (४) असंख्यात गुणहीन [५] अनंत गुणहीन (६) एही नाम ह्यपिका भांगवा । सामायिक (१) छेदोपस्थापनीक (२) परिहार विशुद्धि (३) यां तीनां यकी छहाण बहिया ॥ सूक्ष्म सपराय जयाज्ञायक यकी अनंत गुणहीन (१) एब छेदोपस्थापनी ॥ प्रथम तीनां यकी छहाण बहिया ॥ वरम २

थकी अनंत गुणहीन (२) एवं परिहार विशुद्धी ॥ प्रथम तीनां थकी छद्वाण वडिया ॥ शेष २ थकी अनंत गुणहीन [३] सूक्ष्म संपरायी । प्रथम तीन संजया थकी अनंतगुण अधिक ॥ आपणा स्थान थकी । अनंत गुणहीन होय ॥ अनंतगुण अधिक होय ॥ तुळा पिण होय ॥ जथाक्षायक थकी अनंत गुणहीन होय (४) जथाक्षायकी । प्रथम चार संजया थकी अनंतगुण अधिक होय ॥ आपशमे तुळा होय (५) हिवे चारित्रना पज्जवांकी अल्पावहुत्व कहे छे ॥ सर्वथी थोडा ॥ सामाइक १ छेदोपस्थापनीय चारित्रना जघन्य पज्जवा ॥ तेथी परिहार विशुद्धी जघन्य चारित्रना पज्जवा अनंतगुणा ॥ तेथी सामाइक छेदोपस्थापनीक उत्कृष्ट चारित्रना पज्जवा अनंतगुणा ॥ तेथी सूक्ष्म संपराय जघन्य चारित्रना पज्जवा अनंतगुणा ॥ तेथी सूक्ष्म संपरायना उत्कृष्ट चारित्रना पज्जवा अनंतगुणा ॥ तेथी जथाक्षायक अजघन्य अनुत्कृष्ट चारित्रना पज्जवा अनंतगुणा (५) ॥ १५ ॥ ॥ ईति ॥

हिवै सोलयो जोगद्वार कहे छे ॥ पांचूही संजयामें जोग पावै ३ मन वचन काया जोग । जथाक्षायक अजोगी पिण होवै ॥ १६ ॥ ईति ॥

हिवे १७ मो उपयोगद्वार कहे छे ॥ चार संजया तौ दोई उपयोगी होई ॥ साकार वज्जता अने अनाकार वज्जता ॥ सूक्ष्म संपरायी सागार वज्जता होय । अनाकारोपयोग न होय ॥ १७ ॥ ॥ ईति ॥

हिवे १८ मो कषायद्वार कहे छे ॥ सामायिक (१) छेदोपस्थापनीक (२) ए २ संजयामै । सजलकी ४ कषाय होय । तथा ३ होय । क्रोध टल्यो ॥ तथा २ होय ॥ क्रोध मान टल्यो ॥ तथा १ होय लोभ ॥ परिहार विसुधीमे ४ कषाय होय ॥ सूक्ष्म संपरायीमे १ लोभ होय ॥ जथाक्षायकमे अकषाईहिज होय अथवा ॥ उपद्रम कषाई तथा क्षीण कषाई होय ॥ १८ ॥ ईति ॥

दिवे १९ मो छेद्याद्वार कहें छे ॥ प्रथम २ सजयामे ६ छेद्या पाव ॥ परिहार विशुद्धीमे ३ छेद्या उपरली पाव ॥ सूत्रम सपरायमे तथा जयासायकमे छेद्या १ शुरु पावै ॥ जयासायक अछेडी पिण होय ॥ १९ ॥ इति ॥

दिवे २० मो परिणामद्वार कहें छे । प्रथम ३ सजयामे परिणाम ३ पावे । हायमान (१) वर्द्धमान (२) अमठिया (३) ग्यामे हायमान वर्द्धमानकी यिती जघन्य १ समयनी । उत्कृष्टी अतर्मुहरतनी ॥ अमठियाकी जघन्य १ समयनी उत्कृष्टी ७ समयनी सूत्रम सपरायम परिणाम होय पावे ॥ अमठिया नथी । होय परिणामकी यिति । जघन्य १ समयनी ॥ उत्कृष्टी अतर्मुहरतनी ॥ जयासायकमे परिणाम २ पावे ॥ हायमान नथी ॥ वर्द्धमानकी यिति ॥ जघन्य उत्कृष्टी अतर्मुहरतकी ॥ अमठियाकी जघन्य १ समयनी । उत्कृष्टी देस उणा पूर्व कोडकी ॥ २० ॥ इति ॥

दिवे २१ मो बंधद्वार कहें छे । प्रथम ३ सजया ८ कर्म तथा ७ कर्म बांधे ॥ आठखो वर्जीने ॥ सूत्रम सपरायी ६ कर्म बांधे आठखो मोहनी वर्जीने । जयासायकी १ वेदनी कर्म बांधे ते साता रूप ॥ तथा अथक पिण हावे ॥ २१ ॥ इति ॥

दिवे २२ मो पदद्वार कहें छे ॥ प्रथम ४ सजया आठूनी कर्म वेदै जयासायकी मोहनी वर्जी ७ कर्म वेदै ॥ तथा ४ अपातिया कर्म पद ॥ आठखो (१) पदनी (२) नांम (३) गोप (४) ॥ २२ ॥ इति ॥

दिवे २३ मो उनीरणाद्वार कहें छे ॥ प्रथम ३ सजया ८ तथा ७ (आठखो वर्जीने) तथा ६ कर्म उनीरै (आठखो वेदनी वर्जीने)

सूक्ष्म संपरायी है तथा ५ उदीरै (छै ते आज वेदनी टालीने) पांच ते आज वेदनी मोहनी टालीने) जथाक्षायकी ५ तथा २ उदीरै । (पांच ते आजखो वेदनी मोहनी टालीने) (दोइ ते नाम गोत्र) तथा नही उदीरे ॥ २३ ॥ इति ॥

हिवै २४ मो उवसंपज्जहणद्वार कहे छे ॥ सामाइक चारित्र छांडीनें ४ ठिकाणां जावै ॥ छेदोपस्थापनीकमे (१) सूक्ष्म संपरायमे (२) असंजममे (३) संजमा संजमीमे (४) ॥ १ ॥ छेदोपस्थापनी चारित्र छांडीनें ५ ठिकाणां जाय ॥ सामाइकमे [१] परिहार विसुद्धिमे (२) सूक्ष्म संपरायमे (३) असंजममे (४) संजमा संजमीमे (५) ॥ २ ॥ परिहार विसुद्धि चारित्र छांडीनें दोई ठिकाणे जाय ॥ छेदोपस्थापनीकमे (१) असंजममे (२) सूक्ष्म संपराय ॥ ३ ॥ चारित्र छांडीनें चार ठिकाणां जाय ॥ सामाइकमे [१] ॥ छेदोपस्थापनीकमे [२] जथाक्षायकमे (३) असंजममे (४) ॥ ४ ॥ जथाक्षायक चारित्र छांडीने दोई ठिकाणे जाय ॥ सूक्ष्म संपरायीमे [१] असंजममे (२) ॥ ५ ॥ २४ ॥ ईति ॥

हिवे २५ मो संज्ञाद्वार कहे छे ॥ प्रथम तीन संजया तो सन्ना वउत्तावीहोवै नो सन्ना वउत्तावी होय ॥ शेष २ संजया नो सन्ना वउत्ताहिज होवे ॥ २५ ॥ ईति ॥

हिवे २६ मो आहारद्वार कहे छे । पांचूही संजया आहारीक होय । जथाक्षायक अणाहारिक पिण होय ॥ २६ ॥ ईति ॥

हिवे २७ मो भवद्वार कहे छे ॥ सामाइक छेदोपस्थापनीक ॥ १ ॥ २ संजया जघन्य १ भव करे । उत्कृष्टा ८ भव करे । शेष ३ संजया ॥ जघन्य १ भव करे । उत्कृष्टा ३ भव करे ॥ २७ ॥ ईति ॥

दिवे २८ मो आगरिसेदार कहे छे ॥ सामाईक चारित्र एक भव आभी । जघन्य १ वार आवै ॥ उत्कृष्टो पृथक् सय [९००] वार आवै ॥ घणा भव आभी ॥ जघन्य २ वार आवै ॥ उत्कृष्टो पृथक् हजार वार आवै ॥ १ ॥ छेदोपस्थापनीक चारित्र । एक भव आभी । जघन्य १ वार आवै ॥ उत्कृष्टो १२० वार आवै । घणा भव आभी ॥ जघन्य २ वार आवै ॥ उत्कृष्टो ०६० वार आवै ॥ २ ॥ परिहार विधुद्धी चारित्र एक भव आभी जघन्य १ वार आवै । उत्कृष्टो ३ वार आवै । घणा भव आभी । जघन्य २ वार आवै । उत्कृष्टो ७ वार आवै ॥ ३ ॥ सूय्य सपराय चारित्र । एक भव आभी । जघन्य १ वार । उत्कृष्टो ४ वार आवै । घणा भव आभी । जघन्य २ वार । उत्कृष्टो ९ वार आवै ॥ ४ ॥ जयास्यात चारित्र एक भव आभी । जघन्य १ वार । उत्कृष्टो २ वार आवै । घणा भव आभी । जघन्य २ वार । उत्कृष्टो ५ वार आवै ॥ ५ ॥ २८ ॥ इति ॥

दिवे २९ मो काळट्टार कहे छे ॥ सामाईक चारित्र जयासायक चारित्रनी यिती । एक जीव आभी तो । जघन्य १ समयनी । उत्कृष्टी देस उणी पूव कोडनी ॥ अनै घणा जीवां आभी सदाही पावे ॥ छेदोपस्थापनीक चारित्रनी स्थिती । एक जीव आभी जघन्य १ समयनी उत्कृष्टी देस उणा पूव कोडनी ॥ घणा जीवां आभी । जघन्य अहा ईसे परसकी उत्कृष्टी ५० सान्न कोड सागरनी ॥ परिहार विधुद्धी चारित्रकी स्थिती । एक जीव आभी जघन्य १ समयनी । उत्कृष्टी २९ परस उणी पूव कोडकी । घणा जीवां आभी । जघन्य १४० परसकी उत्कृष्टी ५८ परस उणी दोय पूव कोडकी ॥ सूय्य सपराय चारित्रकी यिती एक जीव आभी तथा घणा जीवां आभी । जघन्य १ समयनी ॥ उत्कृष्टी अतर्द्धहरवनी ॥ २९ ॥ इति ॥

दिवे ३० मो अतरदार कहे छे । पांचूरीं सजमीको आंतरो एक

जीव आश्री जघन्य अतर्मुहूर्तको । उत्कृष्टो देस उणी अर्द्ध पुद्गलको ॥
 हिवे घणां जीवां आश्री आंतरो कहे छे । सामाइक चारित्र जथा-
 क्षायक चारित्रनो आंतरो नथी । छेदोपस्थापनीक चा० नो । जघन्य
 ६३ हजार वर्षनौ ॥ उत्कृष्टो १८ कोडाकोडी सागरनो । परिहार
 विस्मृती चा० को । जघन्य ८४ हजार वर्षनौ ॥ उत्कृष्टो १८ कोडा-
 कोडि सागरनौ । सूय्य संपराय चा० नो । जघन्य १ समयनो ।
 उत्कृष्टो ६ मासको ॥ ३० ॥ ईति ॥

हिवे ३१ मो समुद्रघातद्वार कहे छे । सामाइक चा० । छेदोप-
 स्थापनीक चा० मे समुद्रघात ६ पावे ॥ केवल समुद्रघात टली ॥
 परिहार विस्मृति चा० मे ३ पावे ॥ वेदना (१) कसाय (२) मारणांतिक
 (३) ॥ सूक्ष्म संपराय चा० मै समुद्रघात नथी ॥ जथाक्षायक चा० मे
 १ पावै केवल समुद्रघात ॥ ३१ ॥ ईति ॥

हिवे ३२ मो क्षेत्रद्वार कहे छे ॥ प्रथम ४ संजयातौ लोकनै
 असंख्यातमे भाग होवे ॥ जथाक्षायक चा० लोकने १ असंख्यातमे ॥
 भागे होय तथा घणा असंख्यातमे भागे होय ॥ तथा सर्व लोक
 व्यापी होय समुद्रघात आश्री ॥ ३२ ॥ ईति ॥

हिवे ३३ मो फर्शणाद्वार कहे छे ॥ प्रथम ४ संजया लोकनो
 १ असंख्यातमो भाग फर्शे । जथाक्षायक चारित्री १ असंख्यातमो
 भाग फर्शे ॥ तथा घणा असंख्यातमे भाग फर्शे । तथा सर्व लोक
 फर्शे ॥ ३३ ॥ ईति ॥

हिवे ३४ मो भावद्वार कहे छे ॥ प्रथम ४ संजयातो क्षयोपशम
 भावे होय । जथाक्षायकी दोय भावे होय ॥ उपशम भावे तथा
 क्षायक भावे ॥ ३४ ॥ ईति ॥

हिवे ३५ मो परिमाणद्वार कहे छे ॥ सामाइक संजमी वर्तमान
 पडिवज्या आश्री तो भजना पावै ॥ तथा न पावे ॥ जे पावै तो ज-
 घन्य १ । २ । ३ । होवै उत्कृष्टा पृथक् हजार होवे ॥ पूर्व पडिवज्या

आधी नियमा ॥ पृथक् हजार कोट होवे ॥ १ ॥ छेदोपस्थापनीक
सममी वर्तमान पट्टिवज्या आधी ठो मजना । पावे वा न पावे ॥
जे पावे तो जघन्य १ । २ । ३ । हावे ॥ उत्कृष्टा पृथक् सय दावे ॥
पूर्व पट्टिवज्या आधी मजना पावे वा न पावे । जे पावे तो जघन्य
उत्कृष्ट पृथक् सयकोटी होवे ॥ २ ॥ परिहार विद्युद्धी सममी । व
र्तमान पट्टिवज्या आधी तो मजना । पावे वा न पावे । जे पावे तो
जघन्य १ । २ । ३ होवे । उत्कृष्टा पृथक् सय होवे ॥ पूर्व पट्टिवज्या
आधी मजना ॥ जे पावे तो जघन्य १ । २ । ३ होवे । उत्कृष्टा
पृथक् हजार होवे ॥ ३ ॥ सूक्ष्म सपराय चारित्री जयासायक ।
वा० वर्तमान पट्टिवज्या आधी मजना जे होवे तो जघन्य १ । २ ।
३ होवे ॥ उत्कृष्टी १६२ होवे । ज्यामे ५४ तो उपश्रम भेगिका घणी
होय ॥ १०८ सपक भेगिका होय ॥ अने पूर्व पट्टिवज्या आधी
सूक्ष्म सपरायीकी मजना पावे वा न पावे जे पावे तो जघन्य १-
२-३ होवे ॥ उत्कृष्टा पृथक् सय होवे ॥ ४ ॥ जयासायकी पूर्व
पट्टिवज्या आधी नियमा पृथक् कोटी होवे ॥ ५ ॥ १५ ॥ इति ॥

दिवे ३६ मो अल्पवहुत्वद्वार करे छे ॥ सर्वथी घोटा ॥ सूक्ष्म
सपराय चारिभक्ता घणी ॥ १ ॥ तेह यकी परिहार विद्युद्धी संजमी
संखेज गुणा ॥ २ ॥ तेह यकी जयासायक संजमी संखेज गुणा ॥ ३ ॥
तेह यकी छेदोपस्थापनीक सममी संखेजगुणा ॥ ४ ॥ तेह यकी
सामाहक सममी संखेजगुणा ॥ ५ ॥ ३६ ॥ इति ॥


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे
संजयाऽख्यं एकविंशतितम प्रकरणम् ॥

* सामाधिक चारित्र (१) छेदोपस्थापनीय चारित्र (२) परिहार
विद्युद्धि चारित्र (३) सूक्ष्म सपराय चारित्र (४) जयासायक चारित्र
(५) यह पाठोमे सामाधिक (१) ओर जयासायक (२) व होय चारित्र
साखता छे, चारित्रीके ३ चारित्र जसाखता छे



प्रकरण बावीसवा-नियंठा.

॥ गाथा ॥



पन्नवणा (१) वेय (२) रागे (३) कप्प (४) चरित्त [५] पडि
सेवणा (६) नाणे [७] तित्थेय (८) लिंगे [९] सरीरे (१०) खेत्त
[११] काले (१२) गड (१३) संजम (१४) निकासे [१५]
॥ १ ॥ जोगु (१६) उपयोग (१७) कसाय (१८) लेशा
(१९) परिणाम (२०) वंध (२१) वेदेय (२२) कम्मोदीरणा
[२३] उवसंपजहणा (२४) सन्नाय (२५) आहारे (२६)
॥ २ ॥ भव (२७) आगरिसे [२८] कालं (२९) अंतरेय (३०)
समुग्घाय (३१) खेत्त (३२) फुसणाय (३३) भावेय (३४)
परिमाणे (३५) खल्ल ॥ अया बहुच्च नियंठाणं (३६) ॥ ३ ॥

हिचे पन्नवणाद्वार कहे छे ॥ पुलक (१) बुकस (२) पडिसेवणा
कुसील (३) कपायकुशील (क) नियंठो [५] सनातक (६)

हिचे पुलकना पांच भेद ॥ नाणं पुलाय (१) दरसण पुलाय

(२) चरित पुलाय (३) लिंग पुलाय (४) आहामुहम पुलाय (५) द्विवे शुक्सना पांच भेद ॥ आभोग शुक्स [१] अणाभोग शुक्स (२) सवट शुक्स [३] असवट शुक्स [४] आहामुहम शुक्स (५) कुसी-
 मका दोय भेद ॥ पडिसेवणा कुसील (१) कपाय कुसील (२) पडि-
 सेवणा कुसीलका पांच भेद ॥ नाण पडिसेवणा कुसील (१) दरसन
 पडिसेवणा कुसील (२) चरितपटी० (३) लिंगपडि० (४) आहामुहम
 पडिसेवणा कुसील (५) कपाय कुसीलका पांच भेद । नाण कपाय
 कुसील (१) दरसन कपायकुसील (२) चरित कपाय कु० (३) लिंग
 कपाय कु० (४) आहामुहम कपाय कुसील (५) ॥ नियठाना पांच
 भेद ॥ पढम समय नियठो (१) अपडिम समय नियठो (२) चरम
 समय नियठो (३) अचरम समय नियठो (४) आहामुहम नियठो (५)
 सनातकना पांच भेद ॥ अठवी (१) असयछे [२] अकमसे (३)
 समुद्रे नाण दर्शन चरे अरहाजीण फेषसी (४) अपडिसापी
 (५) इति ॥ १ ॥

द्विवे वेदद्वार कहे छे ॥ पुलाग सवेदी होय । पुरुष वेदी हाय
 (१) पुरुष नपुसक वेदी होय (२) स्त्रीवेदी नही होय ॥ शुक्स (१)
 पडिसेवणा कुसील (२) मांही । वेद तीन पाये । स्त्री भेद ॥ पुरुष भेद
 होय २ ॥ कृत नपुसक वेद होय [३] कपाय कुसील सवेदी होय ।
 अवेदी होय । सवेदी होय सो तीजुही भेद होय । अवेदी होय तो
 सवसमवेदी होय तथा क्षीणवेदी होय ॥ नियंठा अवेदी होय । जपसम
 वेदी होय । तथा क्षीणवेदी होय ॥ सम्रातक अवेदी होय तथा क्षीण
 वेदी होय ॥ इति ॥ २ ॥

द्विवे राग कहे छे चार नियठा सरागी होय ॥ पुलाक (१)
 शुक्स (२) पडिसेवणा कुसील (३) कपाय कुसील (४) ए ४

सरागी ॥ नियंटा उवसम तथा वीतरागी होय । तथा क्षीण वीतरागी होय । सन्नातक क्षीण वीतरागी होय ॥ इति ॥ ३ ॥

हिवे कल्प कहे छै ॥ छे नियंटा-ठि-(स्थीति) कल्पी होय । अठि (अस्थीति) कल्पी होय ॥ (स्थिति) टि-कल्पी तो पहिला तीर्थकर अने चोविसमां तीर्थकरने वारै होय ॥ टि-कल्पी दस बोल पालै । अचेल (१) उदेसिक (२) सेज्यातरपिंड (३) राजपिंड [४] किर्तीकर्म [५] पुरुष ज्येष्ठ (६) महाव्रत (७) पञ्जसणा कल्प [८] मासकल्प [९] पढकमणा कल्प (१०) ॥ अठि कल्पी चार बोल तो पालै । सेज्यातर पिंड [१] किर्तीकर्म (२) पुरुष ज्येष्ठ (३) महाव्रत (४) ए चार बोल ॥ छै बोलकी भजना पाले या नहि पाले । हिवे पुलाग थिवर कल्पी होय ॥ बुकस अने पडिसेवणा कुसिल जिन कल्पी होय थिवर कल्पीय पिण कल्पातीत नहि होय ॥ कषाय हुसील जिण कल्पी होय थिवर कल्पी होय ॥ कल्पातीत होय ॥ नियंटा अने सनातक कल्पातीत होय ॥ इति ॥ ४ ॥

हिवे चारित्रद्वार कहे छै ॥ चारित्र पांच । सामायिक चारित्र (१) छेदोपस्थापनीक चारित्र [२] परिहार विशुद्धी चारित्र [३] सुक्ष्म संपराय चारित्र ॥ ४ ॥ जथाक्षायक चारित्र (५) पुलाग (१) बुकस (२) पडिसेवणा हुसील (३) ये तिहुंमांही चारित्र पावे दोय-सामा-इक (१) छेदोपस्थापनी (२) कषाय हुसीलमांही । चारित्र पावे चार सामायिक (१) छेदोपस्थापनी (२) परिहार विशुद्धी (३) सुक्ष्म संपराय (४) हिवे नियंटा तथा सन्नातकमे जथाक्षायक चारित्र पावे ॥ ॥ इति ॥ ५ ॥

हिवे पडिसेवणा द्वार कहे छै ॥ पुलाग मूल गुण पडि सेवि

होय ॥ उत्तर गुण पढि सेवी होय ॥ मूल गुण तो । पांच महात्रयमे
दोष सगावे ॥ उत्तर गुण दस विष पक्षखाणमे दोष सगावे ॥ बुद्धस
मूल गुण पढिसेवी होय । उत्तर गुण पढिसेवी होय । पढिसेवना
हुसील पुसागनी परै जाणसो ॥ कपाय हुसील (१) नियठो (२) स
नातक (३) ए तीन अपढिसेवी होय ॥ इति ॥ ६ ॥

द्विनेनाणद्वार कहै छै ॥ पुसाग (१) बुद्धस (२) पढिरुपणा हुसील (३)
ये तीनोमाहै ग्यान दोष होय तथा तीन होय । दोष होय तो मति (१) भुत्
(२) तीन होय तो । मति (१) भुत्ति (२) अबधि [३] तथा । मति १
भुत्ति २ मनपर्यब (३) चार होय तो ॥ मति (१) भुत्ति (२) अबधि
(३) मनपर्यब [४] इमदिज कपाय हुसील तथा । नियठो जाणसो ॥
सनातकमाहै । एक केवलज्ञान जाणसो । द्विने मणे तो । पुसाग ।
जपन्य आठ पूर्व नषमा पूर्वनी तिथी आचार बस्यु ॥ सगे उत्कृष्टो
मष पूर्व पुरा मणे ॥ बुद्धस (१) पढिसेवणा हुसील (२) ए दोष ॥
जपन्य आठ पर पचम माता सगे । उत्कृष्टो मणे तो दस पूर्व ॥
कपाय हुसील (१) नियठो [२] ए दोष । जपन्य मणे तो आठ
मषचन माता । उत्कृष्टो चबदै पूर्व मणे । सनातक श्रतपी अधिक
छे सर्वइ छे ॥ इति ॥ ७ ॥

द्विने तिर्यद्वार कह छे ॥ पुसाग (१) बुद्धस (२) पढिसेवणा हुसील
(३) ए तीन तो तिर्यमै होय ॥ साधु—साध्वी भावक—भाविकामादि ।
कपाय हुसील [१] नियठो (२) सनातक (३) ए तीन तीर्यमाही
होय । अतिर्यमादि होय । तिर्यमै होय तो । साधु—साध्वी भावक
भाविकामाही होय अतिर्यमाही होय तो स्वय पुढी होय मय्येक
पुद्दि होय तथा उद्मस्य तीर्यर होय ॥ इति ॥ ८ ॥

द्विने त्रिगद्वार कह छ ॥ बहु नियठो । द्रप्ये तो । सात्तिगी होय ।

अन्यलिङ्गी होय । गृहलिङ्गी होय । भावै नियमासे सलिङ्गी होय ॥ इति ॥ ९ ॥

हिवे शरीरद्वार कहे छे ॥ शरीर पांच ॥ उदारिक (१) वैक्रेय [२] आहारिक (३) तेजस (४) कारमण [५] ॥ हिवे पुलाग (१) नियंठे (२) सनातक (३) ए तीनमांहे शरीर पावे ३ उदारिक (१) तेजस (२) कारमण (३) बुक्स (४) पडिसेवणा कुसील (५) मे शरीर तीन तथा चार पावे तीन पावै तो । उदारिक (१) तेजस (२) कारमण [३] अने चार पावे तो । उदारिक वैक्रे तेजस कारमण ॥ ४ ॥ हिवे कषाय कुसीलमे शरीर । तीन तथा । चार तथा । पांच पावे । तीन पावे तो । उदारिक (१) तेजस (२) कारमण (३) चार पावे तो उदारिक (१) वैक्रेय (२) तेजस (३) कारमण (४) पांच पावे तो । उदारिक (१) वैक्रेय (२) आहारीक (३) तेजस (४) कारमण (५) ईति ॥ १० ॥

हिवे क्षेत्रद्वार कहे छे ॥ बहु नियंठा जन्म आश्री । प्रवरतण आश्री । पनरे कर्म भूमीमाहि होय । साहारण आश्री । पुलाग वर-जीने । पांच नियंठा अनेरा क्षेत्रमेंभी होय ॥ इति ॥ ११ ॥

हिवे कालद्वार कहे छे ॥ दस कोडा कोडी सागरनो अवसर-पणी काल । दस कोडा कोडी सागरनो उत्सरपणी काल । नो सर्प-णीनो उत्सरपणी कालना चार पली भाग ॥ हिवे अवसरपणी काल आश्री । पुलाग जन्म आश्री । तीजे चाये आरे होय ॥ प्रवरतण आश्री । ३ । ४ । ५ । आरै होय ॥ बुक्स (१) पडिसेवणा कुसील (२) कषाय कुसील (३) ए तीन नियंठा अपसर्पणी काल आश्री । जन्म आश्री ॥ ३४५५ आरे होय ॥ प्रवरतण आश्री ॥ ३४५५ आरे होय ॥ सहारण आश्री ६ आरै माहें होय । पुलागने साहारण नथी नियंठे

(१) सप्तातक (२) अपसरपणी जन्म आधी । ३ । ६ । आरे होय ॥
 परवरतण आधी । ३ । ४ । ५ । आरे होय ॥ साहारण आधी ।
 ६ । आरे होय उत्सर्पणी काल आधी ॥ पुलाग जन्म प्रवरतम आ-
 धी ॥ २ । ३ । ४ । साहारण नयी । नियहो सनातक । पुलाग नी
 परै ॥ पण साहारण आधी ६ आरामाहै होय ॥ उत्सर्पणी काळ
 आधी शुषस (१) पट्टिसेवमा कुसीळ [२] कपाय कुसीळ (३) ए
 हीन नियहो । जन्म आधी । २ । ३ । ४ । आरे ओर प्रवरतन आ-
 धी । ३ । ४ । आरे होय ॥ साहारण आधी ६ आरामाहै होय ॥
 नी सगप्पणी नो उत्सगप्पणी हालना चार पल्ली भाग ॥ पहिला सु
 पम सुपम पलि भाग ॥ पांच देवकुट्ट । पांच उधरकुट्टमें होय । प
 हिला आरा सरीखो जाणवो । १ । दुजे सुपम पलि भाग । दुजा
 आरा सरीखो पांच हरिवास । पांच रमगवासमें होय ॥ तीजो सु-
 पम दुपम पलि भाग ॥ तीना आरा सरीखो । पांच हमबय पांच
 इरणवैम होय । चोयो सुपम दुपम पलिभाग ॥ चोया आरा सरीखो
 पांच महाविदेहमें होय ॥ यहु नियहो । जन्म प्रवरतन आधी । चोयो
 पलि भागमें होय । पांच महाविदेह क्षेत्रमाहै होया साहारण आधी
 पुलाग वर्णी । अने (दुसरा) काल माहै होय ॥ इति ॥ १२ ॥

दिवे गतिद्वार कहे छे ॥ पुलाग जयन्य जायतो पहिले देवलोक
 पूषक पलके आवल्ले उक्कट्टो जाय तो आठमे देवलोक १८ सागरने
 आवल्ले जाय ॥ आरापक आधी जाणवो ॥ दिवे विरापक आधी
 चार जातना ॥ देवतामाहे जाय ॥ शुक्स (१) अने पट्टिसेवमा कु-
 सीळ (२) जयन्य जाय तो । पहिले देवलोक पूषक पलके आवल्ले ।
 उक्कट्टो १२ देवलोक जाय २० सागरने आवल्ले ॥ पह आरापक
 आधी जाणवो ॥ दिवे विरापक आधी चार जातना देवतामाहे
 जाय ॥ कपाय कुसीळ आरापक आधी जयन्य पहिले देवलोक जाय ।

उत्कृष्टो जाय तो पांच अणुत्तर विमाण ३३ सागरने आउखे जाय ।
 विराधक आश्री ४ जातना माहे जाय ॥ नियंठो आराधक आश्री जघन्य
 उत्कृष्टो पांच अणुत्तर विमाणमे जाय । विराधक आश्री ४ जातना
 देवता माहे जाय ॥ सन्नातक मोक्ष जाय । हिवै पदवी पावे पांच ॥
 इंद्रनी (१) सामानिकनी (२) तावतसनी (३) लोगपालनी (४)
 अहर्मिंद्रनी (५) पुलाग (१) बुकस (२) पडिसेवणा कुसील (३)
 ए तीन नियंठा पदवी चार पावे । इंद्रनी (१) सामानिकनी (२)
 तावतसनी (३) लोगपालनी (४) ये चार पदवीमाहीलि एकैक
 पदवी पावे ॥ कषाय कुसील । पांच पदवी मांहीली एक पदवी पावे ।
 नियंठो (१) अहर्मिंद्रकी पदवी पावे । ए पांच पदवी आरा-
 धक आश्री जाणवी । विराध अनेरी (दूशरी) गतमे जाय ॥
 सन्नातक मोक्ष जाय ॥ इति ॥ १३ ॥

हिवे संजम स्थानद्वार कहे छै ॥ पुलाग (१) बुकस (२) पडि-
 सेवणा कुसील [३] कषायकुसील (४) ए चार नियंठाना संजमका
 स्थानक असंख्याता असंख्याता ॥ नियंठो तथा सन्नातकना संजमना
 स्थानक एक एक ॥ सर्वसूं थोडा । नियंठं (निर्ग्रथ) सन्नातकना
 (संजमना) थानक ॥ तेह थकी पुलागना थानक असंख्यात-
 गुणा ॥ तेह थकी बुकसना थानक असंख्यातगुणा ॥ तेहथी पडिसे-
 वणा कुसीलका थानक असंख्यातगुणा ॥ तेहथी कषाय कुसीलका
 थानक असंख्यातगुणा ॥ इति ॥ १४ ॥

हिवे निकासद्वार कहे छै । छे नियंठाना चारित्रना पज्ज्वा अनंता
 अनंता ॥ सीयहीणे, सीयतुले, सीमभीय, जे हीण तो । अनंत भाग
 हिणेवा । असंखेज भाग हिणेवा । संखेज भाग हीणेवा । संखेज गुणहीणेवा ।
 असंखेज गुणहिणेवा । अनंत गुणहिणेवा । जेमभीये तो । अनंत भाग

मभियथा । असस्त्रेज भाग मभियथा । सस्त्रेज भाग मभियथा । सस्त्रेज गुण
मभियथा । असस्त्रेज गुण मभियथा । अनंतगुण मभियथा । पुलाग पुलागभी
छठाण वटिया । पुकसयी अनंतगुणहिण । पडिसेवणा कुसीलभी
अनंतगुणहिण । कपाय कुसीलभी छठाण वटिया । नियठा संभातकसू
अनंतगुणहीण ॥ हिवे पुकस पुलागयी अनंतगुण अधिक ॥
पोतारा यानकसू छठाण वटिया । पडिसेवणा कुसीलभी छठाण
वटिया ॥ कपाय कुसीलभी छठाण वटिया ॥ नियठा संभातकसू
अनंत गुणहीण । पडिसेवणा कुसील पुलागयी अनंत गुण अधिक ॥
पुकसयी छठाण वटिया पोतारा यानकसू छठाण वटिया । कपाय
कुसीलभी छठाण वटिया । नियठा संभातकयी अनंतगुणहीण ॥ हिवे
कपायकुसील पुलागयी छठाण वटिया । पुकसयी छठाण वटिया
पडिसेवणा कुसीलभी छठाण वटिया ॥ पोतारा यानकसू छठाण
वटिया । नियठा सन्नातकयी । अनंतगुणहिण ॥ हिवे नियठो पाणसा
चार नियठयी । अनंतगुण अधिक । पोतारा यानकयी वृद्धा हिवे संभा-
तकयी वृद्धा । हिवे सनातक चार नियठयी अनंतगुण अधिक । निर्धेवभी
वृद्धा पोतारा यानकयी वृद्धा । हिवे पुलागना अने कपाय कुसीलना ।
अपन्य तो माहोमाही वृद्धा सर्वयी थोडा । चारिप्रना प्रजवा । तेहकी
पुलागना उत्कृष्ट चारिप्रना पजवा अनंतगुणा ॥ तेह यकी पुकस
अने पडिसेवणा कुसीलना ॥ अपन्य । उत्कृष्ट चारिप्रना पजवा ।
अनंतगुणा तेहयकी पुकसना उत्कृष्ट चारिप्रना पजवा अनंतगुणा
तेहयकी पडिसेवणा कुसीलना उत्कृष्ट चारिप्रना पजवा अनंतगुणा ॥
तेहयकी कपाय कुसीलना उत्कृष्ट चारिप्रना पजवा अनंतगुणा ॥
तेहयकी नियठा । अने सन्नातक दोनाका माहोमाही वृद्धा अपन्य
उत्कृष्ट चारिप्रना पजवा अनंतगुणा ॥ इति ॥ १५ ॥

हिवे जोमाद्वार करे छे । पुलाग (१) पुकस (२) पडिसेवणा

कुसील (३) कषाय कुसील (४) नियंठो (५) ए पांच नियंठा तो सजोगी होय ॥ अजोगी नथी ॥ सन्नातक सजोगी होय अजोगी होय ॥ सजोगी होय तो १३ गुणठाणै अजोगी होय तो १४ गुणठाणै । अजोगी होय ॥ इति ॥ १६ ॥

हिवे उपयोगद्वार कहे छे ॥ छै नियंठा साकारवउता होय ॥ अणाकारवउता होय । साकारवउता ज्ञानको उपयोग ॥ अणाकार वउता दरसणको उपयोग ॥ इति ॥ १७ ॥

हिवे कषायद्वार कहे छे ॥ पुलाग (१) बुकस (२) पडिसेवणा कुसील (३) ये तीन नियंठामाही । कषाय एक संजलनी चोकडी होय ॥ हिवै कषाय कुसील । माहे संजलनो क्रोध (१) मान (२) माया (३) लोभ (४) ये चार पावे तथा तीन तथा दोय तथा एक पावै । चार पावै ते । संजलकी चोकडी पावे । तीन पावे तो संजलको मान (१) माया (२) लोभ (३) दोय पावे तो माया (१) लोभ (२) । एक पावे तो संजलको लोभ पावै । नियंठोअकपाई होय । उवसंत कषाई होय ॥ तथा क्षीण कषाई होय ॥ सन्नातक अकपाइ होय ॥ पण क्षीण कषाइ होय ॥ इति ॥ १८ ॥

हिवे लेश्याद्वार कहे छे । पुलाग (१) बुकस (२) पडिसेवणा कुसील (३) ये तीना माहै लेश्या । तीन पावे । तेजू (१) पदम (२) सूळ (३) हिवे कषाय कुसीलमाही लेश्या ६ छैठी लेश्याना भाव लाघे ॥ नियंठामे १ सूळ लेश्या पावै ॥ सन्नातक संलेसी होय ॥ अलेसी होय ॥ सलेशी होय तो परम शुक्ल लेश्या होय । अलेशी होय तो १४ मे गुणठाणै अलेसी होय ॥ इति ॥ १९ ॥

हिवे परिणामद्वार कहे छे ॥ परिणाम ३ हायमान (१) वृध मान

(२) उबठिया (३) ॥ पुलाग (१) बुकस (२) पडिसेबणा कुसीळ (१) कपाय कुसीळ (४) ए चारा माहे तीन परिणाम सामे हायमान (१) वृषमान (२) उबठिया (३) हायमान (१) वृषमाननी यिती जपन्य एक समयनी उत्कृष्टी अतर्मुहूर्तनी ॥ उबठियानी यिती जपन्य एक समयनी उत्कृष्टी सात समयनी ॥ द्विवे नियठामाहे परिणाम दोय सामे । वृषमान (१) उबठिया (२) वृषमानकी यिती जपन्य उत्कृष्टी अतर्मुहूर्तनी ॥ उबठियानी यिती जपन्य एक समयनी उत्कृष्टी अतर्मुहूर्तनी द्विवे सभातक माहे परिमाण दोय सामे ॥ वृषमान (१) उबठिया (२) वृषमानकी यिती । जपन्य उत्कृष्टी । अतर्मुहूर्तनी उबठिया यिती । जपन्य अतर्मुहूर्तनी । उत्कृष्टी देस उनी पूर्ण कोटनी ॥ इति ॥ २० ॥

द्विवे बपदार कहे छे ॥ पुलाग । आठसो कर्म बरजीने सात कर्म बावे ॥ बुकस (१) पडिसेबणा कुसीळ (२) सात कर्म बावे तथा आठ कर्म बावे ॥ ७ बावे तो ॥ आठसो बरजीने बावे ॥ कपाय कुसीळ ६ बावे तथा ७ बावे तथा ८ बावे ॥ छे बावे तो । मोहनी । आठसो बरजीने ॥ ७ बावे तो आठसो बरजीने ॥ ८ बावे तो पुरा बावे ॥ नियठो एक सातावेदनी बावे ॥ सभातक बावे तो एक सातावेदनी बावे । तथा अवध ॥ इति ॥ २१ ॥

द्विवे वेददार कहे छे ॥ पुलाग (१) बुकस (२) पडिसेबणा कुसीळ (३) कपाय कुसीळ (४) ए चार तो ८ कर्मवेदे ॥ नियठो मोहनी बरजी ७ कर्म देदे ॥ सभातक वेदनी (१) आठसो (२) नाम (३) गोष (४) ए चार अपातिया कर्म ददे ॥ इति ॥ २२ ॥

द्विवे उदीरणादार कहे छे ॥ पुलाग ६ कर्म उदीरै । आठसो (१) वेदनी (२) बजीने ॥ बुकस (१) पडिसेबणा कुसीळ (२) छे

उदीरे तथा ७ उदीरे ॥ आठ उदीरे ॥ ६ उदीरै तो आउखो वेदनी-
वरजीने ॥ ७ उदीरे तो आउखो वरजीने ॥ ८ उदीरे तो पुरा उदीरे ।
कषाय कुसील । ५ उदीरे तथा ६ उदीरे तथा सात (७) उदीरे ।
तथा ८ उदीरे ॥ हिवे ५ उदीरे तो वेदनी (१) मोहनी (२) आउखो
(३) वरजीने ॥ ६ उदीरे तो वेदनी (१) आउखो (२) वरजी ॥ ७
उदीरे तो आउखो वरजीने ॥ ८ उदीरे तो पुरा उदीरे ॥ नियंठो
२ उदीरै । तथा ५ उदीरै । २ उदीरै तो नाम (१) गोत्र (२) ॥
पांच उदीरै तो वेदनी (१) मोहनी (२) आउखो (३)
ए तीन कर्म वरजीने ॥ सन्नातक उदीरे तो २ उदीरे । नामा (१)
गोत्र (२) तथा नथी उदीरे ॥ इति ॥ २३ ॥

हिवे उवसंपजहणाद्वार कहे छे ॥ पुलाग । पुलागपणो छांडीने ।
२ ठिकाणें जाय कषाय कुसीलमै आवै १ । असंजमपडवजे २ ॥
बुकस बुकसपणो छांडीने चार ठिकाणे जाय ॥ पडिसेवणा कुसील
माहे जाय (१) कषाय कुसीलमाहे जाय (२) असंजम पडवजे (३)
संजमा संजम पडवजे (४) ॥ पडिसेवणा कुसील पडिसेवणा कुसील-
पणो छांडीने । चार ठिकाणे जाय । बुकसमे आवै (१) कषाय
कुसीलमे जाय (२) असंजम पडवजे (३) संजमा संजम पडवजे
(४) ॥ हिवे कषायकुसील । कषाय कुसीलपणो छांडीने ६ ठिकाणें
जाय ॥ पुलागमे आवे (१) बुकसमे आवे (२) पडिसेवणा कुसीलमे
आवे (३) नियंठामें जाय (४) असंजम पडवजे (५) संजमासंजम
पडवजे (६) हिवे नियंठो नियंठापणो छांडीने ३ तीन ठिकाणै जाय
कषायकुसीलमे आवै (१) सन्नातकमे जाय (२) असंजमपडवजे
(३) ॥ सन्नातक सन्नातकपणो छांडीने मोक्ष जाय ॥ इति ॥ २४ ॥

हिवे संज्ञाद्वार कहे छे ॥ पुलाग (१) नियंठो २ सन्नातक ३ ए

(२) उषठिया (३) ॥ पुलाग (१) बुकस (२) पडिसेवणा कुसील
 (३) कपाय कुसील (४) ए चारा माहे तीन परिणाम लाभे हायमान
 (१) वृषमान (२) उषठिया (३) हायमान (१) वृषमाननी यिति
 जपन्य एक समयनी उत्कृष्टी अतर्मुहूर्तनी ॥ उषठियानी यिती जप-
 न्य एक समयनी उत्कृष्टी सात समयनी ॥ द्विजे नियतामाहे परिणाम
 दोष लाभे । वृषमान (१) उषठिया (२) वृषमानकी यिती जपन्य
 उत्कृष्टी अतर्मुहूर्तनी ॥ उषठियानी यिती जपन्य एक समयनी उ-
 त्कृष्टी अतर्मुहूर्तनी द्विजे सभातक माहे परिमाण दोष लाभे ॥ वृष-
 मान (१) उषठिया (२) वृषमानकी यिति । जपन्य उत्कृष्टी । अंत-
 र्मुहूर्तनी उषठिया यिति । जपन्य अतर्मुहूर्तनी । उत्कृष्टी देस वणी
 पूर्ण कोवनी ॥ इति ॥ २० ॥

द्विजे वषट्कार कहे छे ॥ पुलाग । आठखो कर्म घरजीने सात
 कर्म वांचे ॥ बुकस (१) पडिसेवणा कुसील (२) सात कर्म वांचे
 तथा आठ कर्म वांचे ॥ ७ वांचे तो ॥ आठखो घरजीने वांचे ॥ क-
 पाय कुसील ६ वांचे तथा ७ वांचे तथा ८ वांचे ॥ छे वांचे तो ।
 मोहनी । आठखो घरजीने ॥ ७ वांचे तो आठखा घरजीने ॥ ८
 वांचे तो पुरा वांचे ॥ नियतो एक सातावेदनी वांचे ॥ सभातक
 वांचे तो एक सातावेदनी वांचे । तथा अवध ॥ इति ॥ २१ ॥

द्विजे वेदद्वार कहे छे ॥ पुलाग (१) पुफस (२) पडिसेवणा
 कुसील (३) कपाय कुसील (४) ए चार तो ८ कर्मवेदे ॥ नियता
 मोहनी घरजी ७ कर्म देते ॥ सभातक वेदनी (१) आठखो (२)
 नाम (३) गोत्र (४) ए चार अघातिया कर्म वेदे ॥ इति ॥ २२ ॥

द्विजे वदीरणाद्वार कहे छे ॥ पुलाग ६ कर्म वदीर । आठखा
 (१) वेदनी (२) वजीने ॥ बुकस (१) पडिसेवणा कुसील (२) छे

उदीरे तथा ७ उदीरे ॥ आठ उदीरे ॥ ६ उदीरै तो आउखो वेदनी-
वरजीने ॥ ७ उदीरे तो आउखो वरजीने ॥ ८ उदीरे तो पुरा उदीरे ।
कषाय कुसील । ५ उदीरे तथा ६ उदीरे तथा सात (७) उदीरे ।
तथा ८ उदीरे ॥ हिवे ५ उदीरे तो वेदनी (१) मोहनी (२) आउखो
(३) वरजीने ॥ ६ उदीरे तो वेदनी (१) आउखो (२) वरजी ॥ ७
उदीरे तो आउखो वरजीने ॥ ८ उदीरे तो पुरा उदीरे ॥ नियंठो
२ उदीरै । तथा ५ उदीरै । २ उदीरै तो नाम (१) गोत्र (२) ॥
पांच उदीरै तो वेदनी (१) मोहनी (२) आउखो (३)
ए तीन कर्म वरजीने ॥ सन्नातक उदीरे तो २ उदीरे । नामा (१)
गोत्र (२) तथा नथी उदीरे ॥ इति ॥ २३ ॥

हिवे उवसंपजहणाद्वार कहे छे ॥ पुलाग । पुलागपणो छांडीने ।
२ ठिकाणें जाय कषाय कुसीलमै आवै १ । असंजमपडवजे २ ॥
बुकस बुकसपणो छांडीने चार ठिकाणे जाय ॥ पडिसेवणा कुसील
माहे जाय (१) कषाय कुसीलमाहे जाय (२) असंजम पडवजे (३)
संजमा संजम पडवजे (४) ॥ पडिसेवणा कुसील पडिसेवणा कुसील-
पणो छांडीने । चार ठिकाणे जाय । बुकसमे आवै (१) कषाय
कुसीलमे जाय (२) असंजम पडवजे (३) संजमा संजम पडवजे
(४) ॥ हिवे कषायकुसील । कषाय कुसीलपणो छांडीने ६ ठिकाणें
जाय ॥ पुलागमे आवे (१) बुकसमे आवे (२) पडिसेवणा कुसीलमे
आवे (३) नियंठामें जाय (४) असंजम पडवजे (५) संजमासंजम
पडवजे (६) हिवे नियंठो नियंठापणो छांडीने ३ तीन ठिकाणें जाय
कषायकुसीलमे आवै (१) सन्नातकमे जाय (२) असंजमपडवजे
(३) ॥ सन्नातक सन्नातकपणो छांडीने मोक्ष जाय ॥ इति ॥ २४ ॥

हिवे संज्ञाद्वार कहे छे ॥ पुलाग (१) नियंठो २ सन्नातक ३ ए

(२) उषठिया (३) ॥ पुन्नाग (१) बुकस (२) पट्टिसेवणा कुसीळ
 (३) कपाय कुसीळ (४) ए चारा माहे तीन परिणाम लागे हायमान
 (१) वृषमान (२) उषठिया (३) हायमान (१) वृषमाननी चिति
 जघन्य एक समयनी उत्कृष्टी अर्धहूरतनी ॥ उषठियानी चिती जघ-
 न्य एक समयनी उत्कृष्टी सात समयनी ॥ द्विजे नियठांमाहे परिणाम
 दोय लागे । वृषमान (१) उषठिया (२) वृषमानकी चिती जघन्य
 उत्कृष्टी अर्धहूरतनी ॥ उषठियानी चिती जघन्य एक समयनी उ-
 त्कृष्टी अर्धहूरतनी द्विजे सभातक माहे परिमाण दोय लागे ॥ वृष-
 मान (१) उषठिया (२) वृषमानकी चिति । जघन्य उत्कृष्टी । अर्-
 धहूरतनी उषठिया चिति । जघन्य अर्धहूरतनी । उत्कृष्टी देस जमी
 पूर्ण कोवनी ॥ इति ॥ २० ॥

द्विजे वषट्कार कहे छे ॥ पुन्नाग । आठखो कर्म घरजीने सात
 कर्म बांधे ॥ बुकस (१) पट्टिसेवणा कुसीळ (२) सात कर्म बांधे
 तथा आठ कर्म बांधे ॥ ७ बांधे तो ॥ आठखो घरजीने पांचे ॥ क-
 पाय कुसीळ ६ बांधे तथा ७ बांधे तथा ८ बांधे ॥ छे बांधे तो ।
 मोहनी । आठखो घरजीने ॥ ७ बांधे तो आठखो घरजीने ॥ ८
 बांधे तो पुरा बांधे ॥ नियठो एक सातावेदनी बांधे ॥ सभातक
 बांधे तो एक सातावेदनी बांधे । तथा अक्षय ॥ इति ॥ २१ ॥

द्विजे वेदद्वार कहे छे ॥ पुन्नाग (१) बुकस (२) पट्टिसेवणा
 कुसीळ (३) कपाय कुसीळ (४) ए चार तो ८ कर्मवेदे ॥ नियठा
 मोहनी घरजी ७ कर्म देवे ॥ सभातक वेदनी (१) आठखो (२)
 नाय (३) गोत्र (४) ए चार अपातिपा कर्म वेदे ॥ इति ॥ २२ ॥

द्विजे वरीरणाद्वार कहे छे ॥ पुन्नाग ६ कर्म वरीरे । आठखा
 (१) वेदनी (२) घरजीने ॥ बुकस (१) पट्टिसेवणा कुसीळ (२) ए

उत्कृष्टी अंतर्मुहूरतनी हिवे बुकस (१) पडिसेवणा कुसील (२) कषाय कुसील (३) ये तिनेांकी थिति जघन्य १ समयनी उत्कृष्टी देस उणी पूर्व कोडनी ॥ ए तीनूं घणा जीव आश्री सदाकाल ॥ हिवे नियंठाकी थिति । एक जीव आश्री तथा घणा जीव आश्री । जघन्य १ समयनी उत्कृष्टी अंतर्मुहूरतनी । सन्नातकनी थिती एक जीव आश्री । जघन्य अंतर्मुहूरतनी । उत्कृष्टी देस उंणी पूर्व कोडनी ॥ घणा जीव आश्री सदाकालनी ॥ इति ॥ २९ ॥

हिवे अंतरद्वार कहे छे ॥ एक जीव आश्री । पुलाग (१) बुकस (२) पडिसेवणा कुसील (३) कषाय कुसील (४) ये चारोंको अंतरो जघन्य । अंतर्मुहूरतनो उत्कृष्टो । अनंतो कालनो अनंती सरप्पणी । अनंती उत्सरप्पणी काल लगे । हिवे क्षेत्रथी ॥ आंतरो देस उंणो अर्द्ध पुद्गल ५० ॥ हिवे नियंठानो । एक जीव आश्री आंतरो पडे तो । जघन्य अंतर्मुहूरतनो उत्कृष्टो । अनंतो काल लगे ॥ “ अनंती सरप्पणी । उत्सरप्पणी । कालनो आंतरो काल थकी पडे ” ॥ अने क्षेत्र थकी देस उंणो अर्द्ध पुद्गल ५० ॥ हिवे सन्नातकनो एक जीव आश्री । आंतरो नथी । हिवे घणा जीव आश्री ॥ पुलागनो जघन्य । एक समयनो उत्कृष्टो संख्याता वरसनो आंतरो पडे ॥ हिवे बुकस (१) पडिसेवणा कुसील (२) कषाय कुसील (३) ये तीनेांको घणा जीव । आश्री आंतरो नथी ॥ सदाकाल होय ॥ हिवे नियंठानो । घणा जीव आश्री आंतरो जघन्य १ समयनो ॥ उत्कृष्टो ६ मासनो । हिवे सन्नातकनो घणा जीव आश्री आंतरो नथी सदाकाल पावे ॥ इति ॥ ३० ॥

हिवे समुद्घातद्वार कहे छे ॥ पुलागमाहेँ समुद्घात तीन पावे ॥ वेदना (१) कषाय (२) मारणांतिक (३) हिवे बुकस (१) अने

तीन नो सववता होय ॥ बुकस (१) पडिसेवणा कुसील (२) कपाय कुसील (३) प तीन सन्नाववता होय ॥ नो सन्नाववता होय ॥ ॥ इति ॥ २५ ॥

हिवे आहारद्वार कडे छे ॥ मयम ५ निपठा तो आहारीक होय ॥ सन्नावक आहारीक होय । अणारीक होय ॥ इति ॥ २६ ॥

हिवे भवद्वार कडे छे ॥ पुसाग (१) अने नियठो । (२) जघन्य एक भव करे । उत्कृष्टा ३ भव करै । बुकस (१) पडिसेवणा कुसील (२) कपाय कुसील (३) प तीनुं जघन्य १ भव करै उत्कृष्टा ८ भव करै । सभातक घणाश्रीभ भव मोस घाय ॥ इति ॥ २७ ॥

हिवे आगरिसे [आकर्ष] द्वार कडे छे ॥ पुसाग (१) एक भव आभी । जघन्य १ बार आवै ॥ उत्कृष्टो ३ बार आवै ॥ पुसाग घणा भव आभी । जघन्य २ बार आवै । उत्कृष्टा ७ बार आवै ॥ बुकस एक भव आश्री पडिसेवणा कुसील एक भव आभी । जघन्य १ बार आवै । उत्कृष्टो मक्क सोबार आवै ॥ बुकस (१) पडिसेवणा कुसील (२) घणा भव आभी । जघन्य २ बार आवै । उत्कृष्टो मस्येक हजारबार आवै ॥ कपाय कुसील १ भव आभी जघन्य १ बार आवै उत्कृष्टो मक्क सो बार आवै ॥ कपाय कुसील घणा भव आभी जघन्य २ बार आवै । उत्कृष्टो मक्क हजारबार आवै । हिवे नियठो एक भव आभी । जघन्य १ बार आवै । उत्कृष्टो २ बार आवै ॥ घणा भव आभी । जघन्य २ बार आवै ॥ उत्कृष्टो ५ बार आवै ॥ सभातक एकबारही आवै ॥ इति ॥ २८ ॥

हिवे कासद्वार कडे छे ॥ पुसाग (१) निव आभीयिति । जघन्य उत्कृष्टी । अतर्षहरवनी ॥ घणा श्रीभ आभी । जघन्य १ समयनी

उत्कृष्टी अंतर्मुहूरतनी हिवे बुकस (१) पडिसेवणा कुसील (२) क-
षाय कुसील (३) ये तिनेांकी थिति जघन्य १ समयनी उत्कृष्टी देस
उणी पूर्व कोडनी ॥ ए तीनू घणा जीव आश्री सदाकाल ॥ हिवे
नियंठाकी थिति । एक जीव आश्री तथा घणा जीव आश्री । जघ-
न्य १ समयनी उत्कृष्टी अंतर्मुहूरतनी । सन्नातकनी थिती एक जीव
आश्री । जघन्य अंतर्मुहूरतनी । उत्कृष्टी देस उंणी पूर्व कोडनी ॥
घणा जीव आश्री सदाकालनी ॥ इति ॥ २९ ॥

हिवे अंतरद्वार कहे छे ॥ एक जीव आश्री । पुलाग (१)
बुकस (२) पडिसेवणा कुसील (३) कषाय कुसील (४) ये चारोंको
अंतरो जघन्य । अंतर्मुहूरतनो उत्कृष्टो । अनंतो कालनो अनंती
सरप्पणी । अनंती उत्सरप्पणी काल लगे । हिवे क्षेत्रथी ॥ आंतरो
देस उंणो अर्द्ध पुद्गल ५० ॥ हिवे नियंठानो । एक जीव
आश्री आंतरो पडै तो । जघन्य अंतर्मुहूरतनो उत्कृष्टो । अनंतो काल
लगे ॥ “ अनंती सरप्पणी । उत्सरप्पणी । कालनो आंतरो काल
थकी पडे ” ॥ अने क्षेत्र थकी देस उंणो अर्द्ध पुद्गल ५० । हिवे सन्ना-
तकनो एक जीव आश्री । आंतरो नथी । हिवे घणा जीव आश्री ॥
पुलागनो जघन्य । एक समयनो उत्कृष्टो, संख्याता वरसनो आंतरो पडे ॥
हिवे बुकस (१) पडिसेवणा कुसील (२) कषाय कुसील (३)
ये तीनेांको घणा जीव । आश्री आंतरो नथी ॥ सदाकाल होय ॥
हिवे नियंठानो । घणा जीव आश्री आंतरो जघन्य १ समयनो ॥
उत्कृष्टो ६ मासनो । हिवे सन्नातकनो, घणा जीव आश्री आंतरो नथी-
सदाकाल पावै ॥ इति ॥ ३० ॥

हिवे समुद्घातद्वार कहे छे ॥ पुलागमाहें समुद्घात तीन पावे ॥
वेदना (१) कषाय (२) मारणांतिक (३) हिवे बुकस (१) अने

पडिसेषणा कुसील (२) ये दोनोंमांही समुद्रघात ५ पावै ॥ बेदना (१) कपाय (२) मारणांतिक (३) वैक्रय (४) तेजस (५) हिवे कपाय कुसीलमांहे । ६ समुद्रघात पावै । बेदना (१) कपाय (२) मारणांतिक (३) वैक्रय (४) तेजस [५] आहारीक (६) केवल समुद्रघात टली ॥ नियठामाहे समुद्रघात नथी ॥ सन्नातकये एक केवल समुद्रघात पावे ॥ इति ॥ ३१ ॥

हिवे क्षेत्रद्वार कहे छे । छ नियठ-तो-छोकने असस्यातमे माग होय । असस्यातमे माग होय ॥ घणे असस्यातमे मागे होय । तथा सर्व छोकमे होय ॥ इति ॥ ३२ ॥

हिवे फरसणाद्वार कहे छे ॥ ५ नियठ-तो-छोकनो असस्यातमे माग फरसे ॥ सनातक । साकनो । असस्यातमे माग फरसे । पणो असस्यातमे माग फरसे । तथा सर्व छेक फरसे ॥ इति ॥ ३३ ॥

हिवे मापद्वार कहे छे ॥ मयम चार नियठ-तो-स्वयोपसमभावे होय ॥ नियठो चबधम भावे होय ॥ तथा सायक भावे होय । सन्नातक सायक भावे होय ॥ इति ॥ ३४ ॥

हिवे परिमाणद्वार कहे छे ॥ पुसाग (१) बुकस (२) पडि सेषणा कुसील (३) ए तीन वर्तमान पडवण्या आभी ॥ सीय अत्थी सीय नत्थी होवई न होवई ॥ हाय तो जघन्य १ । २ । ३ । उत्कृष्टा प्रत्येक सो होय ॥ हिवे नियठो । वर्तमान पडवण्या आभी ॥ सीय अत्थी सीय नत्थी होवई न होवई । जे होय तो १ । २ । ३ । उत्कृष्टा (१६२) एकसो वासठ होय सेमा ५४ चबसम भेणीक घणी । (१०८) एकसो आठ सपक भेणीका घणी होय ॥ हिवे सनातक सीय अत्थी । सीय नत्थी । होवई न होवई जे होय तो । जघन्य १ । २ । ३ । उत्कृष्टा १०८ एकमा आठ सपक भेणीका घणी होय ॥ हिवे पूर्व

पढवज्या आश्री कहे छे ॥ हिवे पुलाग पूर्वे पढवज्या आश्री । सीय अत्थि सीय नत्थी । होवइ न होवई । जे होय तो जघन्य १ । २ । ३ । उत्कृष्टा प्रत्येक हजार होय ॥ बुकस अने पडिसेवणा कुसील । जघन्य उत्कृष्टो । प्रत्येक सो कोडी होय ॥ हिवे कषाय कुसील । पूर्वे पढवज्या आश्री । जघन्य उत्कृष्टा प्रत्येक हजार कोडि होय ॥ हिवे नियंठो पुर्वे पढवज्या आश्री जघन्य १ । २ । ३ । उत्कृष्टा प्रत्येक सो पावै ॥ हिवे सन्नातक पुर्वे पढवज्या आश्री । जघन्य उत्कृष्टा प्रत्येक कोडि होय ॥ इति ॥ ३५ ॥

हिवे अल्पावहुत्वद्वार कहे छे ॥ सर्वथी थोडा । नियंठाना धणी तेह थकी पुलागना धणी संख्यात गुणा ॥ तेह थकी सन्नातकना धणी संख्यातगुणा ॥ ते थकी बुकसना धणी । संख्यात गुणा ॥ ते थकी पडिसेवणा कुसीलका धणी संख्यात गुणा ते थकी कषाय कुसीलका धणी संख्यात गुणा** ॥ इति ॥ ३६ ॥

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे
नियंठाऽख्यं द्वाविंशति प्रकरणम् ॥



* ए पाचे नियंठामे पुलाग (१) ओर निग्रंथ (२) ए दोय असाश्वता छे अने दोप च्यार (४) साश्वता छे

* ए छे नियंठानो विस्तार भगवति शतक २५ मे उद्देशे व छे छे.



प्रकरण तेवीसवा-पंच सुमति तीन गुप्तीना स्वरूप



हिचे पंच सुमतीना नाम कहे छे । हरियासुमति (१) मापा सुमति (२) एपणा सुमति (३) आयाण भंड मळ निखेवणा सुमति (४) उचारपासमण जळ खेळ परिठावणपा सुमति [५]

हिचे हरियासुमतीका प्यार भेदा-द्रव्य थकी देख कर चाळे (१) छेप थकी झूसरा (साठ तीन हाप) प्रमाण (२) काळ थकी दिनका देख कर चाळे रातका पूनकर चाळे [३] माप थकी इप-योम सहित " वापणा (१) पुन्यणा [२] पर्युष्णा (३) अशुष्णा (४) मम्मकाहा (५) शब्द [६] रुच (७) रस (८) गंध (९) स्पर्श [१०] ए दस बोळ वजीने " बोळे ॥ (४) ॥

हिचे मापा सुमतीना चार भेदा-द्रव्य थकी आठ बोळ वजीने बोळे (ते कहे छे) "अस्त्रिय बचन कर्ता किसीकी आस (कर्ता) देखे नही (१) हेस्त्रिय बचन कर्ता किसीकी निदा करे नही (२) स्त्रिसीय बचन कर्ता किसीके ऊपर क्रोध करे नही (३) फस्त बचन कर्ता कठोर भाषा बोळे नही (४) गारवीय कर्ता सुहृत्स्पर्धी

परेभाषा बोले नहीं (५) कलहकारी भाषा बोले नहीं ॥ (६) मर्म-
कारी भाषा बोले नहीं (७) छेदकारी भाषा बोले नहीं (८) ” ए
८ आठ बोल. ॥ १ ॥ क्षेत्र थकी मार्ग चालता बोले नहीं ॥ २ ॥
काल थकी पेहेर रात गया पले उतावळो बोले नहीं. ॥ ३ ॥ भाव
थकी उपयोग सहित अल्प वचन बोले. मिष्ट वचन बोले. चतुराईसे
बोले. काम पडे तव बोले. निरवग्र वचन बोले. (४)

हिचे एपणा सुमतीना चार भेदः-द्रव्य थकी ४२ दोपटाल आ-
हार वस्त्र पात्र स्थानक लेवे. [१] क्षेत्र थकी दोयकोश उपरांत आ-
हार पाणी लेजावे नहीं. (२) काल थकी पेहला पेहरको चौथा
पेहरमे भोगवे नहीं. (३) भाव थकी ५ पांच मांडलियाका दोष रहित
भोगवे. (४)

हिचे आयाण भंड मत्त निखेवणा सुमतीका चार भेदः-द्रव्य,
थकी चार उपगर्ण राखे पडिहार ॥ पीढ (१) फलग (२) सेज्या
(३) संधारो (४) ॥ १ ॥ क्षेत्र थकी जठे धरे तहां पूंज कर धरे.
[२] काल थकी दोनो वख्त पडिलेहणा करे [३] भाव थकी उपयोग
सहित २५ प्रकारकी पडिलेहणा करे [४]

हिचे उच्चारपासवण जळ खेल परिठावणया सुमतीका चार
भेदः-द्रव्य थकी वढी नीती लघु नीति जयणासूं परठे (१) क्षेत्र थकी
कोई गृहस्थ आवे नहीं (१) देखे नहि जेठे परठे (२) संजमकी आ-
त्माकी घात नहीं हुवे जठे परठे [३] ऊंची नीची धरती (जमीन)
नहीं हुवे जहां परठे (४) पोली भूमी नहीं हुवे जहां परठे (५) थोडे
कालसूं भूमी अचित्त हुई होय जहां नहीं परठे (६) जघन्य एक हाथ
छे आंगुल लंबी चौडी होय चार अंगुल तक नीचे अचित्त होय जहां
परठे (७) वृणादिकना दिगला नहीं होय जहां परठे. (८) समूर्तिम

जीव रहित होय जहां परठे (९) बिल रहित भरती होय अहां परठे (१०) ॥ २ ॥ काल यकी परठे जहां सगे (३) मान यकी उपयोग स्थित (४) ॥ इति ॥

हिबे ३ गुप्तीना नाम कहे छे । मनगुप्ती (१) वचनगुप्ती (२) कायगुप्ती (३)

मनगुप्तीका ३ भेद सारभ (१) समारभ (२) आरभ (३) सारभ से मन करी किसीका मरणादि चिंतवे नही ॥ चिंतवे मिजने सारभ कहिये (१) समारभ से मन करी पीडा (वेदना) उपनासे नही ॥ उपजावे मिजने समारभ कहिये (२) आरभ से मन करी मरणादिक गुणी किसी जीवने हणे नही ॥ हणे मिजने आरभ कहिये (३)

हिबे वचनगुप्तीके ३ भेद—सारभ (१) समारभ (२) आरभ [३] पूर्ववत् यहां वचन यकी करना

हिबे कायगुप्तीका ३ भेद—बैठते, ऊठते, हस्तते, चलते सारभ [१] समारभ (२) आरभ [३] होय, इन ३ तीनोंमें काया प्रयत्नवे नही (३)

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणी द्वितीय खण्डे
पच सुमति त्रिगुप्ती स्वरूपाऽख्यं
त्रयोविंशति प्रकरणम् ॥

प्रकरण चौवीसवा-दस श्रावक यंत्र.

प्रकरण चौवीसवा-दस श्रावक यंत्र.

४३६

४

३

२

१

१	श्रावक नाम	आणद	कामदेव	चुहगी पीया	सुरादेव.
२	नगर नाम	वाणिया	चंपा	वगारसी	वगारसी
३	राजा नाम	जितशत्रु	जितशत्रु	जितशत्रु	जितशत्रु
४	गुरु नाम	महावीर स्वामी	महावीर स्वामी	महावीर स्वामी	महावीर स्वामी
५	जात नाम	गाथापति	गाथापति	गाथापति	गाथापति
६	स्त्री नाम	शिवनंदा	भद्रा	शामा	धन्ना
७	वर्गज धन प्रमाण	४०००००००	६०००००००	६०००००००	६०००००००
८	दृष्टयो धन प्रमाण	४००००००००	६००००००००	६००००००००	६००००००००
९	घर विखेरो	४००००००००	६००००००००	६००००००००	६००००००००

1	गात्र संख्या	४०	१	१००	१००
11	भाषाकृती	२० वर्ष	१ वर्ष	२ वर्ष	१ वर्ष
12	उपसर्ग	०	एकको	मातामारजनी	११ लोका रोजनी
13	संघारो	एक मात्र	एक मात्र	एक मात्र	एक मात्र
14	द्वैतलोक	परेको	परेको	परेको	परेको
15	विनाद वास	अज्ञान	अज्ञान	अज्ञान	अज्ञान
16	स्थिति प्रमाण	चार पक्ष	चार पक्ष	चार पक्ष	चार पक्ष
17	अज्ञ प्रमाण	१	१	१	१
18	मोक्षप्रेष	मोक्षमहाविशेषार्थे	महाविशेष	महाविशेष	महाविशेष
19	सुर	उपासकपक्षा	उपासकपक्षा	उपासकपक्षा	उपासकपक्षा
२	अज्ञपण	१	१	१	१

अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम
११	इपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम
१२	संघातो	१ मास	१ मास	१ मास	१ मास	१ मास	१ मास
१३	इपसर्ग नाम	१ मास	१ मास	१ मास	१ मास	१ मास	१ मास
१४	विमान नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम
१५	विमान नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम
१६	विमान नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम
१७	विमान नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम
१८	विमान नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम
१९	विमान नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम
२०	विमान नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम	अपसर्ग नाम

इति श्री सिद्धान्त शिरोमणी द्वितीयखण्डे दश श्रावक यंत्रादिस्यं चतुर्विंशति प्रकरणम् ॥

प्रकरण पंचीसमा-इंद्रियद्वार.

प्रकरण पंचीसमा-इंद्रियद्वार

२५९

५

४

३

२

१

नाम	श्रोत्रेन्द्रिय	चक्षुरिन्द्रिय	घोशेन्द्रिय	रसेन्द्रिय	स्पर्शेन्द्रिय
संज्ञा	कम्ब वृक्षने फूलने आकार	चंद्रमसूरने आकार	धमगनी आकार	छूर्पलानो आकार	नानाप्रकारनो आकार
लाभपगो जाडपगो.	अंगुलके असंख्यातसे भाग	अंगुलके असं	अंगुलके असं	जघन्य अंगुल असं उत्कृ० नवअं०	जघन्य आ के असंख्यात से भाग उत्कृ० ही हजार योजन
इंद्रियना प्रदेश.	अनंतप्रदेशी	अनंतप्रदेशी	अनंतप्रदेशी	अनंतप्रदेशी	अनंतप्रदेशी
इंद्रिय प्रदेश. केतला अवगाहे	असंख्यात प्रदेश अवगाहे.	असंख्यात प्र अव	असंख्यात प्र० अव	असंख्यात प्र० अव०	असंख्यात प्रदेश अवगाहे
प्रदेशानी अल्पाबहुत.	सलेजगुणा. २	सर्वसूयोडा १	सलेजगुणा ३	असंख्यात गुणा ४	संख्यात गुणा ५.

०	ईदि अक्षयइत्तानो अस्या चतुस्र	संख्यात गुणा ३	सर्वसूयोडा १	संख्यात गुणा ३	संख्यात गुणा ५
१	अक्षयइत्तानो अदे प्रदेत्तानो मत्ती अस्या चतुस्र	संख्यात गुणा २ अक्षय प्र	सर्वसू योडा १ अक्षय प्र	अक्षय संख्यात गुणा ३	अक्षयइत्तानो अदे प्रदेत्तानो त गुणा ५
२	कर्मस प्रकृतायुज केतका	अक्षयत गुणा	अक्षयत गुणा	अक्षयत गुणा	अक्षयत गुणा
३	चतु कबुना गुज केतका	अक्षयत गुणा	अक्षयत गुणा	अक्षयत गुणा	अक्षयत गुणा
४	कर्मस गुरुनो अस्याचतुस्र	अक्षयत गुणा २	सर्वसू योडा १	अक्षयत गुणा ३	अक्षयत गुणा ५
५	चतु कबुनो अस्याचतुस्र	अक्षयत गुणा ४	अक्षयत गुणा ५	अक्षयत गुणा ३	सर्वसू योडा १
६	ककटा चतु अने गुज चतु- नो अस्या	अक्षय प्र अक्षय प्र २ अक्षयत गुणा	अक्षय प्र सर्वसू योडा १	अक्षयत गुणा ३	अक्षयत गुणा ५ चतुस्र
७	चतुस्र इत्तीनो सिक्क	१२ अक्षयत गुणा	१ अक्षयत गुणा	१ अक्षयत गुणा	१ अक्षयत गुणा

१५	जघन्य उपयोगनो काल	विसेसाहिया २	सर्वथी थोडा १	विसेसाहिया ३	विसेसाहि० ४	विसेसाहिया ५.
१६	उत्कृष्ट उपयोगनो काल	विसेसा० २	सर्वथी थो० १	विसेसा० ३	विसेसाहि० ४	विसेसाहिया ५
१७	जघन्य उत्कृष्ट उपयोग- ना कालनी अल्पा	ज० उ० विसेसाहि० २	सर्व० ज उ विसेसाहि० १	ज उ विसे- सा० ४	ज० उ० विसे- सा० ४	जघन्य-उत्कृष्ट-विसेसाहि- या ५
१८	फरशाअणफरशानो प्रमाण	ज० अंजु० अ- सं० उत्कृष्ट १२ योजन	ज० अंजु० अ- सं० उत्कृष्ट ला- ख योजन.	ज अंजु० अंसं- उत्कृ० ९ यो- जन	ज अंजु० असं० उत्कृ० ९ यो- जन	जघन्य अं लनो असं- ख्यातमे भाग उत्कृष्ट ९ योजन

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे इन्द्रियद्वारास्थं पंचविंशति प्रकरणम्. ॥





प्रकरण छत्तीसवा सम्यक्त्व स्वरूप



हिचे सम्यक्त्वना पांच रुद -सांवादान सम्यक्त्व (१) उपश्रम सम्यक्त्व (२) वेदक सम्यक्त्व [३] क्षयोपश्रम सम्यक्त्व (४) क्षायक सम्यक्त्व (५)

हिचे पांच सम्यक्त्वनी स्थिती कहे छे। सांवादान सम्यक्त्वनी स्थिति जघन्य एक समयनी च्त्कृष्टी ६ छे आबिलफानी ॥ १ ॥ उपश्रम सम्यक्त्वनी स्थिती जघन्य च्त्कृष्ट अतर्गुहर्तनी ॥ २ ॥ वेदक सम्यक्त्वनी स्थिती जघन्य च्त्कृष्ट एक समयनी ॥ ३ ॥ क्षयोपश्रम सम्यक्त्वनी स्थिति जघन्य एक समयनी च्त्कृष्टी ६६ सागर जाझेरी ॥ ४ ॥ क्षायक सम्यक्त्वनी स्थिती नयी ॥ ५ ॥

हिचे सांवादान सम्यक्त्व अने उपश्रम सम्यक्त्व एक मनाभी जघन्य एकवार आवे च्त्कृष्टी ५ वार आवे ॥ वेदक सम्यक्त्व जघन्य च्त्कृष्ट एक वार आवे ॥ क्षयोपश्रम सम्यक्त्व जघन्य एक वार च्त्कृष्टी असख्यातीवार आवे ॥ क्षायक सम्यक्त्व आया पीठ जाय नही ॥

हिचे उपश्रम सम्यक्त्वना सात भेद -मणतानुषधी क्रोध (१) मान (२) माया (३) आभ (४) विष्यात्व मोहनी [५] विभ्रमोहनी

(६) सम्यक्त्व मोहनी (७) ए सातूं प्रकृति उपशमावे जिणनें उपशम सम्यक्त्व कहिये ॥ तथा ए सातूं प्रकृति माहिली कोई क्षय करे, कोई उपसमावे जिणनें क्षयोपशम सम्यक्त्व कहिये ॥

हिवे क्षयोपशम सम्यक्त्वना चार भेदः-चार प्रकृती क्षय करे तेनें उपशमावे जिणनें क्षयोपशम सम्यक्त्व कहिये ॥ १ ॥ तथा ५ प्रकृति क्षय करे दोय प्रकृती उपशमावे जिणनें क्षयोपशम सम्यक्त्व कहिये ॥ २ ॥ तथा ६ प्रकृती क्षय करे एक उपशमावे जिणनें क्षयोपशम स० क० ॥ ३ ॥ तथा ४ प्रकृती क्षय करे २ उपशमावे एक वेदे जिणनें क्षयोपशम वेदक सम्यक्त्व कहिये ॥ ४ ॥

हिवे क्षयवेदकना ३ भेदः-चार प्रकृति क्षय करे अने ३ वेदे तेने क्षयवेदक सम्यक्त्व कहिये ॥ ५ ॥ तथा ५ प्रकृती क्षय करे दोय वेदे तेने क्षयवेदक स० क० ॥ ६ ॥ तथा ६ प्रकृती क्षय करे एक वेदे तेने क्षय वेदक स० क० ॥ ७ ॥ तथा ७ सातूही प्रकृती क्षय करे तेने क्षायक स० क० ॥ ८ ॥ ए नव भेद जाणवा. ॥

हिवे नव प्रकारनी सम्यक्त्व कहे छे । द्रव्य सम्यक्त्व [१] भाव सम्यक्त्व (२) निश्चय सम्यक्त्व (३) व्यवहार सम्यक्त्व (४) निसर्ग सम्यक्त्व (५) उपशम सम्यक्त्व (६) कारक सम्यक्त्व (७) रुचक सम्यक्त्व [८] दीपक सम्यक्त्व (९).

हिवे द्रव्य सम्यक्त्व किणनें कहिये । श्री तीर्थकर जिन वचन सत्य सरदे पिण परमार्थ नहि जाणे भेदानु भेद नहि जाणे गुरुनो दियो सम्यक्त्व गृहो इण ऊपर भेदनो दृष्टांत ॥ १ ॥

हिवे भाव सम्यक्त्व किणनें कहिये । भाव सम्यक्त्वनो धणी परमार्थ जाणे भेदानुभेद जाणे तिण ऊपर आरिशाको (काच)

दृष्टान्त जिम आरसामांही जेसो स्वरूप देखे तैसो दीसे तेने भाव सम्यक्त्व कहिये ॥ २ ॥

हिचे निश्चय सम्यक्त्व किणने कहिये ज्ञान दर्शन चारिणने निसे शुभ भाव भवते तेने निश्चय सम्यक्त्व कहिय ॥ ३ ॥

हिचे व्यवहार सम्यक्त्व किणने कहिये ॥ ससण करि जाणे साधूनी समाचारीमे भवते तथा श्रावक व्रत पाछे सामाईक पोषक प्रतिक्रमण करे त्याग पक्षताण छेवे जिणने व्यवहार सम्यक्त्व कहिय (४)

हिचे निसर्ग सम्यक्त्व किणने कहिय ॥ ते गुरुना उपदेशिना जिन धर्म सत्य सरदे, जातिस्मरण ज्ञान करी जाणे मुक्ताणुमनी परे ॥ जिणने निसर्ग सम्यक्त्व क० ॥ ५ ॥

हिचे उपदेश सम्यक्त्व किणने कहिये । गुरुना उपदेशधी देव गुरु धर्म ए रे तत्व सत्य सरदे तेने उपदेश सम्यक्त्व कहिय ॥ ६ ॥

हिचे कारक सम्यक्त्व किणने कहिय । त शुद्ध क्रिया पाछे शुद्ध आचार पाछे जिम सिद्धान्तमांही फळो टिम भवते तने कारक सम्यक्त्व कहिये ॥ ७ ॥

हिचे रुचक सम्यक्त्व किणने कहिये । गुरुना वचन ऊपर रुची राखे क्रिया करणधी रुची राखे पिण फरी सक नहीं जिणने रुचक सम्यक्त्व कहिय ॥ ८ ॥

दिग् दीपक सम्यक्त्व किणने कहिय ॥ दीपकनी परे जिम दीपक आय जग जातना पर पिण आपण नीचे अपागे ग्द तिग अन्य

लोगोंको प्रतिबोधे पिण पोते सम्यक्त्व पावे नही जिणने दीपक सम्यक्त्व कहीये ॥ ९ ॥

हिवे विस्तारथी व्यवहार सम्यक्त्वेना ६७ भेद कहे छे ॥ सम्यक्त्वनी चार ४ सरदणा ॥ जीवादिक ९ पदार्थनी ओलखण (पहछान) करे ॥ १ ॥ तत्वना जाण आचार्य बहु श्रुतीनी सेना करे ॥ कुगुरु कुदेव कुधर्मनो परिचय टाले ॥ ३ ॥ कुगुरु कुदेव कुधर्म पर प्रेम न राखे ॥ ४ ॥

हिवे ३ लिंगः- स्त्री लिंग पुरुषलिंग नपुंसकलिंग* एवं ॥ ७ ॥

हिवे ढस प्रकारनो विनय कहे छे । अरिहंतणो विनय करे (१) सिद्धनो विनय (गुणग्राम) करे (२) ज्ञानी पुरुषनो विनय करे (३) सूत्र सिद्धान्तनो विनय करे (४) धर्मी पुरुषनो विनय करे (५) साधुजीनो विनय करे (६) धर्माचार्यनो विनय करे (७) उपाध्यायजिनो विनय करे (८) प्रवचननो विनय करे (९) सम्यक्दृष्टीनो विनय करे (१०) एवं ॥ १७ ॥

हिवे सम्यक्त्वनी ३ शुद्धता ॥ मनशुद्धता (१) वचन शुद्धता (२) कायशुद्धता (३) एवं ॥ २० ॥

हिवे सम्यक्त्वेना ५ लक्षण-सम (१) संवेग [२] निरवेग (३) अणुकंपा (४) आसता । [५] एवं २५

* पुरुषलिंग ते जिम तरुण पुरुष रंग राग उपर राचे तिम श्री वीतरागनी वाणी उपर राचे. (१) स्त्री लिंग ते जिम २-३ दिननो भूखो पुरुष क्षीर सक्कराना भोजनने आदर देवे तिम श्री वीतरागनी वाणीने आदर देवे (२) नपुंसकलिंग ते वित मनी वाणी सुगी हर्षवंतहुवे (३)

हिचे सम्यक्त्वनी आठ भावना—सूत्र सिद्धान्तनो जाण होव तो जिण मार्ग दीपावे (१) धर्म कवानो कहनहार (बक्क) होय तो जिण मार्ग दीपावे [२] म्यापनो जाणकार होय तो जिणमार्ग दीपावे (३) अबसरनो जाण होय तो जिण मार्ग दीपावे (४) तपस्वी होय तो जिण मार्ग दीपावे (५) विद्वान् होय तो जिणमार्ग दीपावे (६) मिष्ट बक्की होय तो जिण मार्ग दीपावे (७) कवी होय तो जिण मार्ग दीपावे (८) एवं ॥ ३३ ॥

सम्यक्त्वना ५ आमरण-धर्मने विचे चतुर होय (१) चतुर्विध संघनी सेवा करे (२) गुणवतनी मक्ति करे (३) धर्मने विचे स्थिर चिच राखे [४] अन्यमतीने हेतू दृष्टांत करी समजावा समर्थ होव (५) एवं ॥ ३८ ॥

हिचे सम्यक्त्वना ५ लक्षण—सुख दुःख भाया बीरता (वैर्य) राखे । १ । वैराग्यवत होय । २ । दिनदिन मत्स्य आरंभसू निवर्ते । ३ । अनुकम्पावंत होय । ४ । जिण धर्म ऊपरे विश्वासवन्त होव ॥ ५ ॥ एवं ॥ ४३ ॥

हिचे सम्यक्त्वना छे दोय टाछे ॥ पर पास्वटीने बंधना नही करे (१) पर पास्वटीसूं पारंपार बोळे नहीं (२) पर पास्वटीको घणो परिचय करे नहीं (३) पारवंटीने मोसनो कारण जाण दान देवे नहीं (४) पास्वटीसूं घणो बाद् करे नहीं (५) पास्वटीसे विना बोलावा बोळे नहीं (६) एवं ४९ ॥

हिचे सम्यक्त्वनीने छे प्रकारनो आगार ॥ राजा मिध्यात्वी कोई कार्य कराव तो आगार (१) न्यातनो आगार (२) मोरावरनो आगार (३) देवतानो आगार (४) माता पिताको आगार ॥ (५) कारणसू अन्यमतीने दान देणाको आगार (६) एवं ५५ ॥

हिवे सम्यक्त्वनी छे भावना ॥ हे जीव सम्यक्त्व सदा निर्मल छे । ते रागद्वेष करी मलीन करी छे तांहारो निजगुण निर्मलही राख-रो ॥ ए पहिली भावना ॥ १ ॥

हिवे दुजी भावना-जिम नगरने कोट दरवाजा करीने दोपद चोपद सर्व जीवने आधारभूत छे । जिम सम्यक्त्व रूपया नगरने विषे ज्ञानदर्शन चारित्र, संयम व्रत पचखाण विनय व्यावच सम्यक्त्व रूप राजाने आधारभूत छे ॥ २ ॥ हिवे तीजी भावना ॥ सर्व धर्मनो उपाय सम्यक्त्व छे ॥ ३ ॥ हिवे चौथी भावना जिम सर्व जीवने पृथ्वी आधारभूत छे तिम जीव धर्मने विषे सम्यक्त्व आधार-भूत छे ॥ ४ ॥

हिवे पांचमी भावना जिम दूधनो भाजन शंख-शंख माही दूध विणसे नही खाटो थाय नही तिम सर्व ज्ञान धर्मरूप दूधनो भाजन सम्य-क्त्व छे ॥ ५ ॥

हिवे छठी भावना जिम चक्रवर्तिने रत्ननो भाजन निधान छे तिम सर्वदृत्ती देशदृत्ती रत्ननो भाजन सम्यक्त्व छे ॥ ६ ॥
॥ एवं ६१ ॥

हिवे सम्यक्त्वना छे स्थानक ॥ जीवादिक हेय-गेय-उपादेयनो स्वरूप चिंतवे (१) जीवसदा शाश्वतो छे (२) शुभ अशुभनो कर्ता जीव छे (३) कीधा कर्मनो भोगवणहार जीव छे (४) किणही ऊपर रागद्वेष करे नहीं (५) जीवने मोहनी आदि अष्ट कर्म क्षयकर्या पछे मोक्ष छे (६) एवं ६७ ॥

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे

सम्यक्त्व स्वरूपाख्यं षड्विंशति

प्रकरणम् ॥ २६ ॥



प्रकरण सत्तावीसवा-प्रमाणबोध ॥

द्विवे मध्य जीवना मुख पोषने अर्थे ३ प्रकारना अगुल तथा
 ३ प्रकारना पल्पोपमनु मान सप्त अनुयोग द्वारिणी कह छ ॥ तेमा
 मयम ३ प्रकारना अगुलेना नाम ॥ आत्मा अगुल ॥ १ ॥ उत्स
 पांगुल ॥ २ ॥ प्रमाणांगुल ॥ ३ ॥

द्विवे आत्म अगुलनु मान कहे छे ॥ भरतावि १५ क्षेप छे ॥
 तिहा जे काछे जे आरे जे मनुष्य होय ॥ ते मनुष्यनु ते काछे ते
 आराने विषे पोतापोताने १२ अगुले १ मुख थाय ॥ अने ९ मुखे
 एक पुरुषनु कषणानु मान थाय ॥ एन्छे १२ नवा अठोत्तरसो
 १०८ आत्म अगुलनो पुरुष उचो होय ॥ ते पुरुषने प्रमाणोपेव
 कहिये ॥ १ ॥

द्विवे मान युक्त पुरुष ते येइने कहिये ॥ पुरुष प्रमाणे उंदि
 जलनि कुटी हाय ॥ तेने जछे करि परिपूर्ण भरिये ॥ ते माही पुरुष
 बेछे ॥ तिवारे एक द्राण प्रमाणे जखुंदि माहीपी पाहिर निच्छे ॥
 तथा एक द्राण प्रमाणे जछे करि कुटि उंजी होय त कुटी
 मांदि त पुण्य बग तिवारे परिपूर्ण जख भगय ॥ तिवारे ते मानो

पेत पुरुष कहिये ॥ हिवे द्रोण ते केवडो होय ते कहे छे ॥ वे असलीये १ पसली थाय ॥ वे पसलीये १ सइ थाय ॥ चार सइये १ कुडव थाय । चार कुडवे १ पाथो थाय ॥ चार पाथे १ आढो थाय ॥ चार आढे एक द्रोण थाय ॥ ए द्रोणनूं मान कहूं ॥ ए रीते मानो पेत पुरुष कहिये ॥ २ ॥ हिवे उन्मान युक्त पुरुष केहने कहिये ॥ जे पुरुष तोल्यो थको अर्द्ध भार थाय तेने उन्मान युक्त पुरुष कहिये ॥ अर्द्धभारनूं मान कहे छे ॥ एक हजारने पचाश पले अर्द्ध भार थाय ॥ ए अर्द्ध भारनूं मान कहूं ॥ ३ ॥ हिवे ए ३ ॥ प्रमाण मान उन्मान युक्त लक्षण सायियादिक ॥ व्यजन मस तिलादिक ॥ गुण ते क्षमा दानादिक सहित जे पुरुष होय ते उत्तम पुरुष जाणवो ॥ हिवे उत्तम पुरुष १०८ आत्म अंगुलनो उंचो होय ॥ १ ॥ मध्यम पुरुष १०४ आत्म अंगुलनो उंचो होय ॥ २ ॥ अधम पुरुष ९६ आत्म अंगुलनो उंचो होय ॥ ३ ॥ हिवे जे पुरुष १०८ आत्म अंगुलथि न्युनाधिक होय ॥ स्वर आदेय वचन ॥ १ ॥ सत्व धीर्य ॥ २ ॥ सारतेरूपादि ॥ ए ३ गुणे वर्जित होय ते परनो दास किंकर थाय ॥ एहवा ६ आत्म अंगुले १ पगना मध्य भागनुं पहोलपणुं थाय ॥ वे पगे १ विहथि वेंत थाय । वे विहथि वेंते ए १ हाथ थाय ॥ वे हाथे एक कुक्षि थाय । वे कुक्षिये अथवा ४ हाथे १ धनुष थाय ॥ वे हजार धनुषे १ गाउ थाय । चार गाउए १ जोजन थाय ॥ जे काले जे आरे जे मनुष्यनुं आत्म अंगुल होय ते आत्म अंगुले ते ते वखतना ॥ नगर ॥ गाम ॥ वन ॥ कुवा ॥ तलाव ॥ वावडी ॥ गढ ॥ पोला ॥ कोठा ॥ यान ॥ ॥ रथ ॥ गाडादिक ७३ बोलना मान मळदा छे ॥ १ ॥ हिवे उत्सेधांगुलनुं मान कहे छे ॥ अनंता सूक्ष्म परमाणु आ भेला करिये ॥ तिवारे १ व्यवहारि परमाणुं थाय ॥ तथा जालीने विषे रहा सूर्यना किरण तेमां रहिजे रज उडती देखाय छे ॥ ते रज्जो

अनंतयो भाग तेमे व्यवहारि परमाणु कहिये ॥ अन्यमति रजना ते
 त्रिभुजा भागने परमाणु कहे छे ॥ ते व्यवहारि परमाणु ॥ श्ले करि
 तरवारनी तथा छर पत्थानि धाराये करि पण छेदाय भ्रदाय नही ॥
 अभिमाही सोसरो निकली जाय पण बले नही ॥ दाजे नही ॥ तथा
 पुष्कर सबर्त महां मेहमाहीं चाल्यो जाय पण पसळे भिजाय नही ॥ तथा
 गगा महा नदीनो प्रवाह ऊचो शुभ हिमवत पर्वतयी पडे छे ते प्रवाह
 साहमो चाल्यो जाय पण स्वलाय नही ॥ घात पाये नही ॥ तथा पात्रिना
 आबर्तन तथा बिंदु धा माही रहे पण तिहां सहीगलीने पाणि न बइ
 जाय ॥ ते भति तिले श्ले करिमे देवतानी शक्तिये छेदता भेदता
 एक खण्डनो बिजो खड न याय ॥ तेने तत्त्वज्ञाता परमाणु कहे छे ॥
 एहवा अनंता व्यवहारि परमाणु एकठा मिछे तिवारे ? उष्ण सभियो
 याय ॥ आठ उष्ण सभिये ? सण सभियो याय ॥ आठ सप्तसभिये
 ? उर्द्धरेणु याय ॥ आठ उर्द्धरेणुये ? प्रश्न रेणु ते बेंद्रीयादिक प्रश्न
 भीषने बालता रज उडे ते याय ॥ आठ प्रश्नरेणुये ? रयरेणु ते रवा-
 दिक हिंदा रज उड ते याय ॥ आठ रयरेणुए ? देवकुरु उचर
 कुक्ना जुगलिया मनुष्यना बालाग्रनु जाडपणु याय ॥ आठ देवकुरु
 उचरकुक्ना बालाग्रे ? हरिषास रमकपास क्षेपना जुगलियाना बाला-
 ग्रनु जाडपणु याय ॥ आठ हरिषास रमकपासमा बालाग्रे ? हेमवव
 परणवय क्षेपना जुगलियाना बालाग्रनु जाडपणु याय ॥ आठ हेमवव
 परणवयना बालाग्रे ? पूर्ब पश्चिम महाविदेहना मनुष्यना बालाग्रनु
 जाडपणु याय ॥ आठ पूर्ब पश्चिम महाविदेहना बालाग्रे ? भरत
 श्रवतमा मनुष्यना बालाग्रनु जाडपणु याय ॥ एहवा ८ बालाग्रे ?
 सिल्ल याय ॥ आठ सिल्ले ? जु याय ॥ आठ जुये ? जवमध्य
 याय ॥ आठ जव मये ? अगुल याय ॥ छ अगुल ? पग बाब ॥
 १२ अगुले ? बेंत याय ॥ २४ अगुले ? हाय याय ॥ ४८ अगुले
 ? कृत्ति याय ॥ ९६ अगुले ? पनुप याय ॥ २ हजार पनुये ? गाठ

थाय ॥ चार गाउए १ योजन थाय ॥ ए उत्सेधांगुले २४ दंडकनी
अववेणामवी छे ॥

हिचे प्रमाणांगुलनुं मान कहे छे भरतादिक चक्रवर्तीनुं कांगणि
रत्न होय ॥ ते ८ सोनइया भारने तोले छे ॥ सोनइयानुं तोल कहे
छे ॥ ४ मधुर त्रिफले ॥ १ श्वेत सरसव थाय ॥ १६ सरसवे १
अडद थाय ॥ २ अडदे १ गुंजा थाय ॥ ६ गुंजाये १ मासो थाय ॥
१६ मासे १ सोनइयो थाय ॥ एहवा ८ सोनइया भारनुं कांगणि
रत्न होय ॥ तेने छे तला ॥ ८ खुणा ॥ १२ हांश छे ॥ सोनीनी अहिरणनें
संठाणे छे ॥ ते कांगणि रत्ननी एकेकी हांश उत्सेधांगुलनि पहोलि छे ॥
अने जे उत्सेधांगुल ते समण भगवंत महावीरनुं अर्द्ध अंगुल थाय ॥
तेने हजारगुणुं करिये ॥ तिवारे १ प्रमाणांगुल थाय ॥ एटले महावीर
स्वामीना पांचसे आत्म अंगुले १ प्रमाणांगुल थाय ॥ एहवा ६ प्रमा-
णांगुले १ पग थाय ॥ १२ अंगुले १ वेंत थाय ॥ २४ अंगुले १
हाथ थाय ॥ ४८ अंगुले १ कुक्षि थाय ॥ १६ अंगुले एक धनुष
थाय ॥ २ हजार धनुषे १ गाउ थाय ॥ ४ गाउये एक योजन थाय ॥
ए प्रमाणांगुले ॥ पृथ्वी पर्वत विमान नरकवासा द्वीप समुद्र नरक
देवलोक लोक अलोक शाश्वती जमीन रत्न प्रभादिक २८ वोलनुं
तथा द्वीप समुद्रादि २८ वोलनुं ॥ लांवपणु ॥ पहोलपणु ॥ उंच-
पणु उंडपणु ॥ परिधि प्रमुखना मान मळ्या छे ॥ ३ ॥ ए ३ प्रकारना
अंगुल कहा ते प्रत्येक २ ना प्रण मेद ॥ श्रेणि अंगुल ॥ १ ॥ प्रत-
रांगुल ॥ २ ॥ धनांगुल ॥ ३ ॥ तीहां असत्कल्पनयि श्रेणि ते अ-
संख्यातां जोजन कोडाकोडि प्रमाणे लांवी ॥ अने एक आकाश प्र-
देगनी पहोली ॥ जाडपणे लोकांत सुधि तेने श्रेणि कहिये ॥ १ ॥
ते श्रेणिनें श्रेणि गुणो करिये तेने प्रतर कहिये ॥ २ ॥ ते प्रतरने
श्रेणि गुणो करिये तेने घन कहिये ॥ ३ ॥ ते घनकृत लोकने स-

ख्यातगुणो करिये ॥ तिवारे सख्याता लोक असोकर्मां घाय ॥ ते सख्याता लोकने असख्यात गुणा करिये त्यारे असख्याता लोक असोकर्मां घाय ॥ ते असख्याता लोकने अनंतगुणा करिये ॥ तिवारे अनता लोक असोकर्मां घाय ॥ अने ते अनता लोकना जेटला आकाश प्रवेश छे ॥ जेटला निगोदना एक शरीरमाही निगोदिया भीष छे ॥ असख्याता सूक्ष्म निगोदे १ बादर निगोद घाय ॥ एक निगोदमां अनता भीष आंगवा । अन्य तीर्थकर देवजु ज्ञान ॥ ए ३ प्रकारना अंगुल कथा ॥

हिचे ३ प्रकारना पत्योपमनु मान कहे छे ॥ तेमां पत्योपमना ३ भेद ॥ उद्धार पत्योपम ॥ १ ॥ अद्या पत्योपम ॥ २ ॥ क्षेत्रपत्योपम ॥ ३ ॥ एक एकना बेबे भेद ॥ सूक्ष्म ॥ १ ॥ बादर ॥ २ ॥

हिचे प्रथम बादर उद्धार पत्योपमनु स्वरूप कहे छे ॥ एक यो अनतो उस्तेधांगुले लांबो पहोलीने उडो पडो १ पाळो कल्पिये ॥ तेनि त्रिगुणी जाझेरी परिधि होय ॥ ते पाळो देव कुद उत्तरकुर्ना लुगळीपाना मस्तकना केश ते एक दिनधि माहिने ७ दिनना उम्वा बालाग्रे करि भरिये ॥ त पडो ठांसि भरिये के ॥ अग्निमाहि बले नहि ॥ बायरे करी तेमांघि १ रज उडे नहि ॥ सडे नहि पोखरना अभापयि ॥ बिध्वशे नहि ॥ दुर्गप घाय नहि ॥ चक्रबतीनु सैन्य उपर चाले तो पण नमे टोळे नहि ॥ गगा न्नीनो म्वाह उपर चाले तो पण पाणिमाहि म्दाय नहि ॥ पडो ठांसीने पाळा भरिये ॥ पछि ते पाळामांघि समयं समये एक एक बालाग्र काडिये ॥ इम क्खता जेटछे कासे पाळो ठालो घाय ॥ वाकी एक रज रहे नही ॥ तट्या कासमे बादर उद्धार पत्योपम क्खिये ते पत्योपम सख्याता सपयनो प्राणयो ॥ एखा दक्ष काटा काही पत्योपमे ?

बादर उद्धार सागरोपम थाय ॥ ए सागरोपमनुं कांड प्रयोजन नथि ॥
 केवल प्ररूपणा मात्र छे ॥ ए बादर उद्धार पल्योपम ॥ १ ॥ हवे
 सूक्ष्म उद्धार पल्योपमनुं मानं कहे छे ॥ जिम एक योजननो पालो
 कल्पिये ते पूर्ववत् ॥ ते पालामांही देवकुरु उत्तरकुरुना जुगलियाना
 माथाना केश ते एक दीनना जाव सात दीनना उग्या घालाग्र ले-
 इये ते एकेका वालाग्रना असंख्याता खंड करिये ॥ ते खंड केवडा-
 नाहना थाय ॥ चक्षु इंद्रियनि अवघेणाथि असंख्यातमे भागे अने
 नाहना सूक्ष्म वनस्पतीना जीवना शरीरनी अवघेणाथी असंख्यातगुणा
 महोटा ॥ अने जेवहुं एक बादर पृथ्वीकायना जीवनुं शरीर तेवडा
 ते वालाग्रना खंड नाहना थाय ॥ ते वालाग्रना खंड अग्रिये घले
 नहि ॥ वायरे उढे नहि पूर्ववत् ॥ पछि ते वालाग्रने खंडे करिने ते
 पालो ठांसी भरिये पूर्ववत् ॥ पछी ते पाला माहिथी ॥ समये समये
 एकेको वालाग्रनो खंड काढिये ॥ इम काढता जेटले धले ते पालो
 खाली थाय ॥ तेटला कालने सूक्ष्म उद्धार पल्योपम कहिये ॥ ए
 पल्योपम असंख्याता समयनो थाय एहवा दश कोडा कोडि पल्यो-
 पमे १ सूक्ष्म उद्धार सागरोपम थाय ॥ ए सागरोपमे द्विप
 समुद्रनुं मान मळ्युं छे ॥ अदि उद्धार सागरोपमना जेटला
 समय थाय तेटला द्विप समुद्र त्रिछालोकमां छे ॥ जंबुद्वीप १
 एक लाख योजननो लांबो ने पहोलो ॥ इम ठाम वमणो लवण
 समुद्र वे लाख योजननो ॥ धातकि खंड ४ लाख योजननो ॥ इम-
 ठाम वमणा असंख्याता द्विप समुद्र जाणवा ॥ ए सूक्ष्म उद्धार पल्यो-
 पम ॥ २ ॥ १ ॥

हिचे अद्दा पल्योपमनुं स्वरूप कहे छे तेना २ भेद ॥ बादर
 ॥ १ ॥ सूक्ष्म ॥ २ ॥ तेमा बादर अद्दा पल्योपम केहने कहिये ॥
 एक योजननो लांबो पहोलो ने उंडो चारे हांशे सरिखो पूर्ववत् पालो

कल्पीये पञ्ची पूर्ववत् देवद्वरु उचरद्वरुना जुगलिया मनुष्यना बा-
लाग्रे करी पालो ठांसी मरिये ॥ पञ्ची सो सो वर्षे एकेको बालम
काडिये ॥ इम काडता जेटछे काळो ते पालो ठालो थाय ॥ तेटला
काळने बादर अद्धा पत्योपम कहिये ॥ ए पत्य सख्याता कोडि वर्षे
थाय ॥ एहवा दश कोटाकोडी बादर अद्धा पत्योपमे १ बादर अद्धा
सागरोपम थाय ॥ ए सागरोपमनु कांइ प्रयोजन नथी ॥ केवल प्र-
पणा माप्र छे ॥ २ ॥ १ ॥

हिये सूक्ष्म अद्धा पत्योपमनु स्वरूप कहे छे ॥ एक योजननो
छांरो पदोसो ने उढो पालो पूर्ववत् कल्पिये ॥ तेहमा पूर्ववत् देव
द्वरु उचरद्वरु क्षेप्रना जुगलियाना बालाग्रना असख्याता सब करि
मरिये ॥ पञ्ची ते पालामायि सोसो वर्षे एकेकि रज काडिये ॥ जेटछे
काछे ते पालो स्वाछि थाय ॥ तेटला काळने सूक्ष्म अद्धा पत्योपम
कहिये ॥ एहवा दश कोटाकोडी पत्योपमे १ सूक्ष्म अद्धा सागरोपम
थाय ए सागरोपमे ॥ नारकी ॥ त्रिर्वष ॥ मनुष्य ॥ देवता ॥ ए ४
गतिना आयुष मव्या छे ॥ २ ॥ २ ॥

हिये क्षेप्रपत्योपम कहे छे ॥ क्षेप्रपत्योपमना २ भेद ॥ बादर ॥
१ ॥ सूक्ष्म ॥ २ ॥ तेहमा बादर क्षेप्रपत्योपम केहने कहिये ॥ एक
योजननो छांरो पदोसोने उढो पूर्ववत् पालो कल्पिय ॥ तेहमा पूर्ववत्
देवद्वरु उचरद्वरु क्षेप्रना जुगलियाना मायाना बालाग्रे मरिये ॥ पञ्ची
ते पाला माहिला याग्राग्रने फरस्या आकाश प्रदेशने समये समये
अपहरता जेटछे काळ वं पाला स्वाछि थाय ॥ तेटला काळने बादर
क्षेप्रपत्यापम कहिये ॥ ए पालो स्वाछि थाता असख्याति अवसर्पिणी
वत्सर्पिणी बहि जाय ॥ एहवा दश कोटाकोडि पत्योपमे १ बादर क्षेप्र
सागरोपम थाय ॥ ए सागरोपमनो कांइ प्रयोजन नथी ॥ केवल

प्ररूपणा मात्र छे ॥ तथा मतांतरे जीव द्रव्यना परिणाम मन्या छे
॥ ३ ॥१॥

हिवे सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपमनुं स्वरूप कहे छे ॥ एक योजननो लांबो
पहोलो ने उंडो पूर्ववत् पालो कल्पिये ॥ ते मांही पूर्ववत् देवकुरु
उत्तरकुरु क्षेत्रना जुगलियाना वालाग्रना असंख्याता खंड करि भरिये ॥
पछि ते पाला मांढिला वालाग्रने फरस्या आकाश प्रदेश तथा अण-
फरस्या आकाश प्रदेश छे ते फरस्या ॥ अणफरस्या आकाश प्रदेशने
समये समये अपहरिये ॥ जेटले काले पालो खालि थाय ॥ तेटला
कालने १ सूक्ष्म क्षेत्रपल्योपम कहिये ॥ एहवा दश कोडाकोडि सूक्ष्म
क्षेत्रपल्योपमे १ सूक्ष्मक्षेत्र सागरोपम थाय ॥ ए सागरोपमे द्रष्टिवाद
सूत्रना भाव मन्या छे ॥ ३ ॥ २ ॥

ए ३ प्रकारना अंगुल तथा ३ प्रकारना पल्योपमनुं मान कहुं ॥

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे
प्रमाण बोधाऽख्यं सप्तविंशति प्रकरणम्. ॥



प्रकरण अष्टावीसवा-चौदा बोलनी लड

श्रीकथा	श्रीकथा	गुण	योग	उप-योग	किसा	ईशक	उपक	उपक	उपक	उपक	परिभा-		उपक	उपक	
											सिधा	भा			
श्रीदे बोकनी कथा	१४३४	१	२१५	४१	२/६	५११२१३२	१	६१	६१०२३	६१	१	१	१	१	१
श्रीपा मेदोका श्रीच पादेकिका	१४३४	१	२१५	४१	२/६	५११२१३२	१	६१	६१०२३	६१	१	१	१	१	१
१४ गुणदाकाका श्रीच १४ किका.	१४३४	१	२१५	४१	२/६	५११२१३२	१	६१	६१०२३	६१	१	१	१	१	१
१५ योगका श्रीच १५ किका	१४३४	१	२१५	४१	२/६	५११२१३२	१	६१	६१०२३	६१	१	१	१	१	१
१६ उपयोगका श्रीच १६ किका.	१४३४	१	२१५	४१	२/६	५११२१३२	१	६१	६१०२३	६१	१	१	१	१	१

१२	श्यामल व जीव क्षिपा	१	७	१	७	१	१५	३११	२	७	७२३२९	१	८	१	२१६२९	८३०	७	१	२	९	८
१३	द्वैपायका के जीव क्षिपा	२	२	१	२	१५	३	९	४	७	६२४३	१	८	१	२१३२५	८३०	१	२	९	८	८
१४	८ श्यामाका जीव क्षिपा	१	८	१	८	१५	३१२	१	७	१	८११३३	१	८	१	३१५३२	९१	१	७	१	९	८

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे चतुर्दश संज्ञास्य अष्टाविंशति
प्रकरणम् ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय



प्रकरण २१ वा १२ चक्रवर्ति यंत्र.

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२		
१२ चक्रवर्ती के नाम	भारत सागर मवन सनतकुमार.	पिता नाम	कृपम सुमति विजय समुद्र विजय विहसेन शूरसेन सुदर्शन पौकुत्त कर्तवीर्य म्हाहरिविजय	माता नाम	सुमंगला यशोवती भद्रा सहदेवी अदला श्री देवी उवाला ता.। मेपराणी वपाराणी सुलगी	श्री नाम	सुमद्रा भद्रा सुनंदा जया विजया कन्यश्री शूरश्री पौमश्री वसुंधरा देवी लक्ष्मीवती कुरुमती	आयुष प्रमाण	८४ लाल वर्ष ७२ ला० व० ५ ला० व० ३ ला० व० १ ला० व० १५ हजार व० ८४ हजा व० ६० हजा व० ३० हजा व० १० हजा व० ३०० वर्ष ७०० वर्ष	द्वेष्ट प्रमाण	५०० धनु ४५० धनु ४२ धनु ४१ धनु ४० धनु ३५ धनु ३० धनु २८ धनु २० धनु १५ धनु १२ धनु ७ धनु	नगरी नाम	वनिता अयोध्या सावथी हत्तगापुर हत्तगापुर हत्तगापुर हत्तगापुर बगारसी बगारसी कपिलपुर राजगृही कपिलपुर

३५	सन्नीवेशमान	२१०००	२१०००	२१०००	२१०००	२१०००	२१०००	२१०००	२१०००	२१०००	२१०००	२१०००	२१०००	२१०००
३६	संवाहन मान	१४०००	१४०००	१४०००	१४०००	१४०००	१४०००	१४०००	१४०००	१४०००	१४०००	१४०००	१४०००	१४०००
३७	भ्लेछना सामा- निक देश	१००००	१००००	१००००	१००००	१००००	१००००	१००००	१००००	१००००	१००००	१००००	१००००	१००००
३८	उद्यान वन खड	४९ हजार	४९ हजार	४९ हजार	४९ हजार	४९ हजार	४९ हजार	४९ हजार	४९ हजार	४९ हजार	४९ हजार	४९ हजार	४९ हजार	४९ हजार
३९	जातिवंत तुरंग	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख
४०	हस्ती	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख
४१	संग्रामीक रथ	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख	८४ लाख
४२	सामान्य सर्व तुरंग	१८ कोड	१८ कोड	१८ कोड	१८ कोड	१८ कोड	१८ कोड	१८ कोड	१८ कोड	१८ कोड	१८ कोड	१८ कोड	१८ कोड	१८ कोड
४३	सह दाना	८४ ला०	८४ ला	८४ ला	८४ ला	८४ ला.	८४ ला	८४ ला	८४ ला	८४ ला	८४ ला	८४ ला.	८४ ला.	८४ ला

८९	कुमरपण	७० लाख पूर्व	५०००० पूर्व	२५००० वर्ष	५००० व	२५००० व	२३७५० व.	२१००० व	५००० व	५००० व	३२५ व	३०० व	५६ व
९०	मांडलिकपण	१००० वर्ष	५००० पूर्व	२५००० वर्ष	५००० व	२५००० व	२३७५० व.	२१००० व	५००० व	५०० व	३२५ व	३०० व	५६ व
९१	खंड साध्या	६०००० वर्षमे	७० लाख पूर्व	२८०० व	१००० व	८०० व	६०० व	५०० व	४०० व.	३०० व	१५० व	१०० व	१६ व
९२	राजपदवी भोगवी	६ लाख पूर्व उगा १ ला.	७० ला. पूर्व	३९००० वरस	९९००० व	२४००० व	२३१५० व	२०६०० व	४९५०० व	१८७०० व	१८७० व	१९०० व	६०० व
९३	दीक्षा प्राली.	१००००० पूर्व	१००००० पूर्व	५०००० पूर्व	१००००० व	२५००० व.	२३७५० व.	२१००० व	०	१००० व.	७३३० व	४० व	०

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे द्वादश चक्रवर्ती यंत्राख्यं एकोनत्रिंश प्रकरणम् ॥





प्रकरण तीसवा—बद्धे लगा मुक्के लगाना वोल.



॥ श्री अनुयोगद्वार मूत्रपी कहे छे ॥ बर्तमान काले भीषे जे शरीर बाँच्या छे ते बद्धे लगा ॥ १ ॥ पूर्वे जे शरीर बाँच्या इत्ता ते मृक्का, दूजामा मल्या नयी छूटा रखा छे, तेनो एक पण अन्न शेष रणो छे—त मुक्के लगा ॥ २ ॥

दिवे देहन्तो समुषयनो दटक कहे छे ॥ उदारिक शरीरना दोष भद्र ॥ बद्धे लगा (१) अने मुक्के लगा (२) बद्ध उदारिक अस रण्यता छ ॥ त काळपी असस्याती उत्सर्पणी अबसर्पणीना समय जेट्ला ॥ १ प्री असस्यात लोफाकाशना मदेश जेटला (१) मुक्त उन्मत्ति म अनता ॥ ते कानपी अनत उत्सर्पणी अबसर्पणीना समय ॥ १ प्री अनता साजाकाशना मदेश जेटला ॥ द्रव्य प्रमाणे १ प्री नतगुणा अधिक ॥ अने सिद्धने अनतमे भागे (१)

दिवे बैक्रेयना दोष भद्र ॥ बद्धे लगा (१) मुक्के लगा (२) ॥ त काळपी असस्याता छे ॥ त काळपी असस्याती उत्सर्पणी अब सना समय जेट्ला ॥ क्षप्रपी मतरने असस्यातमे भागे जेटपी १ ॥ ना आकाश मदेश जेटला ॥ १ ॥ मुक्त बैक्रेय मुक्त उदारिकनी पठ जात्ता ॥ २ ॥ आहारिक शरीरना दोष भद्र ॥

वद्धे लगा (१) मुक्के लगा (२) ॥ वद्ध आहारिक होय तो जघन्य ॥ १ । २ । ३ । उत्कृष्ट पृथक् हजार ॥ २ ॥ मुक्त्यौदारिक-वत् ॥ २ ॥ ३ ॥ तैजस कर्मण प्रत्येकना २ भेद ॥ वद्ध (१) मुक्त (२) तैजस कर्मण अनंत छे ॥ कालथि अनंति उत्सर्पिणी अवसर्पिणीना समय जेटला ॥ क्षेत्रथि अनंता लोकाकाशना प्रदेश जेटला ॥ द्रव्य प्रमाणे सिद्धथी अनंत गुण अधिक अने सर्व जीवने अनंतमे भागे उणा सिद्ध वर्ज्या माटे ॥ १ ॥ मुक्त तैजस कर्मण अनंता कालथि अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणीना समय जेटला क्षेत्रथी अनंता लोकाकाशना प्रदेश जेटला ॥ द्रव्य प्रमाणे सर्व जीवथी अनंत गुण अधिक ॥ सर्व जीवोनो वर्ग करिये ॥ तेना अनंता भाग माहिला एक भाग जेटला ॥ २ । ४ । ५ ॥

॥ इति प्रथम समुचयनो दंडक समाप्त ॥

हिवे दूजो नारकीनो दंडक कहे छे ॥ उदारिकना २ भेद ॥ वद्धेलगा (१) मुक्केलगा (२) तेमां वद्ध नथी [१] मुक्त अनंता छे ॥ पूर्वे मुक्केला शरीरनी अपेक्षाये ॥ २ ॥ १ ॥ वैक्रेयना दोय भेद ॥ तेमां वद्ध असंख्याता ॥ ते कालथि असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणीना समय जेटला ॥ क्षेत्रथी प्रतरने असंख्यातमे भागे जेटली श्रेणियो तेना आकाश प्रदेश जेटला ॥ प्रतरनो असंख्यातमो भाग केटलो तेनु पहोलपणुं कहे छे ॥ अंगुल प्रमाणे ॥ आकाश प्रदेशनी राशीनो वर्ग मूलक वेविली तेनो वर्ग मूल कर्वे । प्रथम वर्गमूल । विजावर्ग मूल ॥ साथे गुणता जे राशी थाय तेटला प्रदेश प्रमाणे पहोलपणुं जाणवुं ॥ अथवा दुजा वर्गमूलनो घन करतां ॥ जे आवे तेटला प्रदेश प्रमाणे पहोलपणुं जाणवुं । जिम असत्कल्पनाये २५६ नो प्रथम वर्ग मूल, १६ दुजोवर्ग मूल ॥ ४ ॥ शोलने चारे गुणता ॥ ६४ ॥

याय ने ४ नो घन पण ३४ याय ॥ १ ॥ मुखत वैक्रेय अनता उधिक-
वत् ॥ ९ ॥ ३ ॥ तैजस कार्मणना पे मेद ॥ बद्ध १ मुक्त २ ते
वैक्रेयवत् ८ ॥ ५ ॥ इति ॥

द्विजे दश भवनपत्नीना दश दृढक कहे छे ॥ उदारिकना दो मेद ॥
तेमा बद्ध नयि ॥ १ ॥ मुक्त अनता पूर्ववत् ॥ २ ॥ १ ॥ वैक्रेयना बे मेद
बद्ध (१) मुक्त (२) तेमा बद्ध असख्याता ते कालधि असख्याती उत्स-
र्पिणी ॥ अवसर्पिणीना समय जेटला ॥ क्षेप्रयि मतरने असख्यातमे भागे
जेटली भेणियो ॥ तेना आकाश मदेश जेटला ॥ श्रणियोनि विष्कंभ
शुचि कहे छे । अगुल प्रमाणे आकाश मदेशरासीनो जे प्रथम बर्ग
मुक्त ॥ तेमे असख्यातमे भागे ॥ जे राशी याय जेटली भेणियो ना
णवी १ ॥ मुखके लगवधिकवत् २ ॥ २ ॥ आहारिक नारत्रिवत् २ ॥ ३ ॥
तैजस कार्मणना बद्ध मुक्त वैक्रेयवत् ॥ २ ॥ ४ ॥ ५ ॥ इति ॥

द्विजे पांच धाररना पांच दृढक कहे छे ॥ उदारिकना दोय मेद ॥
॥ बद्ध (१) मुक्त (२) उधिक उदारिकवत् २ ॥ १ ॥ वैक्रेयना दो
मेद ॥ बद्ध [१] मुक्त (२) तेमा पृथ्वी पाणी तेठ वनस्पती ए ४
मा बद्ध नयी ॥ वायुकायना बद्ध असख्याता छे ॥ कालधि क्षेप्र प
स्योपमने असंग्यातमे भागे जेटलो समय राशी जेटला ॥ १ ॥ पांचे
धाररना मुखत अनता पूर्ववत् ॥ २ ॥ २ ॥ आहारिकना २ मेद ॥
बद्ध (१) मुखत (२) तेमा बद्ध नयी ॥ १ ॥ मुखत पूर्ववत् २ ॥ १ ॥
तैजस कार्मणना दोय मेद बद्ध (१) मुक्त (२) उधिकवत् ॥ २ ॥ ४ ॥
॥ ५ ॥ एष १६ दृढक ॥ इति ॥

द्विजे षण विगमेत्रिपना षण दृढक कहे छे ॥ उदारिकना दोय
मेद ॥ बद्ध (१) मुक्त (२) बद्ध असख्याता फाल्गुनी असंग्यात उ
त्सर्पिणी अवसर्पिणीना समय जेटला ॥ क्षेप्रयि मतरने असख्यातमे

भागै । जेटलि श्रेणियो तेना प्रदेश जेटला ॥ प्रतरनो असंख्यातमो
भाग ॥ ते असंख्यात योजननी क्रोडा क्रोडी प्रमाणे जाणवो ॥ वि-
शेषे करि विष्कंभ शुचि कहे छे ॥ एक श्रेणीनां आकाश प्रदेशनी
राशीना वर्गमुल करिए ॥ ते असंख्याता वर्गमुल थाय ॥ ते सर्व
वर्गमुलनो सर्वा लोकरताजे आवे ॥ तेटली श्रेणिओनि विष्कंभ
शुची जाणवी ॥ १ ॥ अथवा प्रकारान्तरे ॥ कालथी ॥ क्षेत्रथी ।
बद्ध उदारिकनुं मान कहे छे ॥ अंगुलना असंख्यात भाग क्षेत्र प्रमाणे
वेइंद्रीयादिकनुं एवेक शरीर मुक्ता ॥ आखो प्रतर भराय ॥ तेटला
क्षेत्रथी बद्ध उदारिक छे ॥ कालथि आवलिकाना असंख्यातमें २
भागै ॥ एकोको वेइंद्रीयादिकनुं उदारीक गरीर अपहरिये तो असंख्यात
उत्सर्पिणी अवसर्पिणीना प्रतर खाली थाय ॥ एटछे असंख्यात उत्सर्पिणी
अवसर्पिणी आवलिकाना असंख्यात भाग प्रमाणे ॥ जेटला कटका थाय
तेटला बद्ध उदारिक छे ॥ १ ॥ मुक्त अनंता पूर्ववत् ॥ २ ॥ १ ॥ वैक्रेयना बद्ध
नथी ॥ १ ॥ मुक्त अनंता पूर्ववत् ॥ २ ॥ २ ॥ आहारिकना बद्ध
नथी ॥ १ ॥ मुक्त अनंता पूर्ववत् ॥ २ ॥ ३ ॥ तैजस कार्मणना बद्ध मुक्त
उदारिकवत् ॥ २ ॥ ४ ॥ ५ ॥ एवं १९ दंडक ॥ इति ॥

हिवे वीसमो तिर्यच पंचेद्रीनो दंडक कहे छे ॥ उदारिकना बद्ध
(१) मुक्त (२) त्रण विगलेंद्रियवत् २ ॥ १ ॥ वैक्रेयना २ भेद तेमां
बद्ध ॥ असंख्याता ते कालथी असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणीना
समय जेटला क्षेत्रथी प्रतरनें असंख्यातमें भागै ॥ जेटली श्रेणियो
तेना आकाश प्रदेश जेटला तेनुं विशेषमान कहे छे ॥ अंगुल प्रमाणे ॥
आकाश प्रदेश राशिनो जे प्रथम वर्गमुल तेने असंख्यातमें
भागै जे राशी आवे । तेटली श्रेणियोनी विष्कंभ शुचि जाणवि ॥ १ ॥
मुक्त अनंता छे ॥ २ ॥ २ ॥ आहारिकना २ भेद ॥ तेमां बद्ध नथी ॥
मुक्त अनंता छे २ ॥ ३ ॥ तैजस कार्मणना बद्ध मुक्त उदारिकवत्
॥ २ ॥ ४ ॥ ५ ॥ एवं २० दंडक ॥ इति ॥

याय ने ४ नो घन पण ६४ याय ॥ १ ॥ मुक्त वैक्रेय अनता चषिक-
वत् ॥ १ ॥ ३ ॥ तैजस कार्मणना पे भेद ॥ षड् १ मुक्त २ ते
वैक्रेयवत् ४ ॥ ५ ॥ इति ॥

द्विवे दश भवनपत्नीना दश दशक कहे छे ॥ उदारिकना दो भेद ॥
तेमा षड् नयि ॥ १ ॥ मुक्त अनता पूर्ववत् ॥ २ ॥ १ ॥ वैक्रेयना बे भेद
षड् (१) मुक्त (२) तेमा षड् असख्याता ते कालयि असख्याती उत्स-
र्विणी ॥ अबसर्विणीना समय जेटला ॥ क्षत्रिय मतरने असख्यातमे भागे
जेटली भेणियो ॥ तेना आकाश प्रदेश जेटला ॥ त्रेणियोनि विष्कंभ
शुचि कहे छे । अगुल प्रमाणे आकाश प्रदेशरासीनो जे प्रथम बर्ग
मुक्त ॥ तेमे असख्यातमे भागे ॥ जे राक्षी याय जेटली भेणियो जा
णबी १ ॥ मुक्के रूगठषिकवत् २ ॥ २ ॥ आहारिक नारकिवत् २ ॥ ३ ॥
तैजस कार्मणना षड् मुक्त वैक्रेयवत् ॥ २ ॥ ४ ॥ ५ ॥ इति ॥

द्विवे पांच याबरना पांच दशक कहे छे ॥ उदारिकना दोय भेदा ॥
॥ षड् (१) मुक्त (२) चषिक उदारिकवत् २ ॥ १ ॥ वैक्रेयना दो
भेद ॥ षड् [१] मुक्त (२) तेमां पृष्ठी पाणी तेउ वनस्पती ए ४
मां षड् नयी ॥ वायुकायना षड् असख्याता छे ॥ कालयि क्षेम प-
स्योपमने असख्यातमे भागे जेटलो समय राक्षी जेटला ॥ १ ॥ पांचे
याबरना मुक्त अनता पूर्ववत् ॥ २ ॥ २ ॥ आहारिकना २ भेद ॥
षड् (१) मुक्त (२) तेमां षड् नयी ॥ १ ॥ मुक्त पूर्ववत् २ ॥ ३ ॥
तैजस कार्मणना दोय भेद षड् (१) मुक्त (२) चषिकवत् ॥ २ ॥ ४ ॥
॥ ५ ॥ एव १६ दशक ॥ इति ॥

द्विवे प्रथम भिगलेद्विपना प्रथम दशक कहे छे ॥ उदारिकना दोय
भेद ॥ षड् (१) मुक्त (२) षड् असख्याता कालयि असख्यात उ-
त्सर्विणी अबसर्विणीना समय जेटला ॥ क्षेत्री मतरने असख्यातमे

भागे । जेटलि श्रेणियो तेना प्रदेश जेटला ॥ प्रतरनो असंख्यातमो भाग ॥ ते असंख्यात योजननी क्रोडा क्रोडी प्रमाणे जाणवो ॥ विशेषे करि विष्कंभ शुचि कहे छे ॥ एक श्रेणीनां आकाश प्रदेशनी राशीना वर्गमूल करिए ॥ ते असंख्याता वर्गमूल थाय ॥ ते सर्व वर्गमूलनो सर्वा लोकरताजे आवे ॥ तेटली श्रेणिओनि विष्कंभ शुची जाणवी ॥ १ ॥ अथवा प्रकारान्तरे ॥ कालथी ॥ क्षेत्रथी । बद्ध उदारिकनुं मान कहे छे ॥ अंगुलना असंख्यात भाग क्षेत्र प्रमाणे बेइंद्रीयादिकनुं एकेक शरीर मुक्ता ॥ आखो प्रतर भराय ॥ तेटला क्षेत्रथी बद्ध उदारिक छे ॥ कालथि आवलिकाना असंख्यातमें २ भागे ॥ एकोको बेइंद्रियादिकनुं उदारीक शरीर अपहरिये तो असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणीना प्रतर खाली थाय ॥ एटले असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आवलिकाना असंख्यात भाग प्रमाणे ॥ जेटला कटका थाय तेटला बद्ध उदारिक छे ॥ १ ॥ मुक्त अनंता पूर्ववत् ॥ २ ॥ १ ॥ वैक्रेयना बद्ध नथी ॥ १ ॥ मुक्त अनंता पूर्ववत् ॥ २ ॥ २ ॥ आहारिकना बद्ध नथी ॥ १ ॥ मुक्त अनंता पूर्ववत् ॥ २ ॥ ३ ॥ तैजस कार्मणना बद्ध मुक्त उदारिकवत् ॥ २ ॥ ४ ॥ ५ ॥ एवं १९ दंडक ॥ इति ॥

हिवे वीसमो तिर्यच पंचेद्रीनो दंडक कहे छे ॥ उदारिकना बद्ध (१) मुक्त (२) त्रण विगलेंद्रियवत् २ ॥ १ ॥ वैक्रेयना २ भेद तेमां बद्ध ॥ असंख्याता ते कालथी असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणीना समय जेटला क्षेत्रथी प्रतरनें असंख्यातमें भागे ॥ जेटली श्रेणियो तेना आकाश प्रदेश जेटला तेनुं विगोपमान कहे छे ॥ अंगुल प्रमाणे ॥ आकाश प्रदेश राशिनो जे प्रथम वर्गमूल तेने असंख्यातमे भागे जे राशी आवे । तेटली श्रेणियोनी विष्कंभ शुचि जाणवि ॥ १ ॥ मुक्त अनंता छे ॥ २ ॥ २ ॥ आहारिकना २ भेद ॥ तेमां बद्ध नथी ॥ मुक्त अनंता छे २ ॥ ३ ॥ तैजस कार्मणना बद्ध मुक्त उदारिकवत् ॥ २ ॥ ४ ॥ ५ ॥ एवं २० दंडक ॥ इति ॥

हिवे एकवीसमो मनुष्यनो दृढक कहे छे ॥ उदारिकना दोय
 भेद ॥ षड् (१) मुक्त (२) हेमां बद्ध सं ॥ कदाचित् मनुष्य सख्याता
 होय ॥ समुर्धिमनो विरह पद छे संधि कदाचित् असख्याता हाय ।
 जपन्य पदे ॥ श्रीगजमलपद् (२४) निउपरने (५) जमलपद् (३२)
 निहेठे ॥ अर्थात् २९ आंकनी सख्या प्रमाणे ॥ अथवा पांचमो वर्ग ।
 छद्वा वर्ग साये । गुणता जे राक्षी घाय ॥ अथवा ९६ बार ययोत्तर
 घमणा करिये ॥ अथवा ९६ बार अर्द्धा अर्द्धा करवा क्षय एक रहे ॥
 पटला अक प्रमाणे मनुष्य जाणवा ॥ तेनो आंक मा प्रमाणे ॥ ७९ ।
 २२ । ८१ । ६२ । ५१ । ४२ । ३४ । ३३ । ७५ । ९३ । ५४ ।
 ३९ । ५० । ३३६ ॥ १ ॥ उक्त पदे असख्याता होय ॥ समु
 र्धिम गर्भेज मेलता कालधी असख्यात उत्सर्पणी अबसर्पणीना समय
 जेटला क्षेमयी अगुरु प्रमाणे आफान्न प्रवेशनो प्रथम वर्गमूल श्रीवा
 वर्गमूल साये गुणता जे राक्षी घाय जेटला भागमां मनुष्यनु एकेक
 शरीर मुक्ता ॥ एक भेणी स्वामी घाय उक्त शरीरमां एकेक शरीर
 बद्धारे नासिये तो ॥ १ ॥ मुक्त अनता से पूर्ववत् ॥ २ ॥ १ ॥ वै
 क्रयेना दोय भेद ॥ षड् (१) मुक्त (२) हेमां बद्ध सख्याता कालधि
 सख्याता कालना समय जेटला १ मुक्त अनता उभिकवत् ॥ २ ॥
 ॥ २ ॥ आहारिकनां दोय भेद उभिकवत् ॥ २ ॥ ३ ॥ तैमस कार्म-
 णना दोय भेद उदारिकवत् २ । ४ । ५ ॥ ए एकविश दृढक । इति ॥

हिवे बाबीसमो बाणव्यतरनो दृढक कहे छे ॥ उदारिकना दोय
 भेद ॥ बद्ध नयी ॥ १ ॥ मुक्त अनता से पूर्ववत् २ ॥ १ ॥ वैक्रयेना
 २ भेद ॥ षड् (१) मुक्त (२) हेमां बद्ध असख्याता कालधी अस-
 ख्यात उत्सर्पणी अबसर्पणीना समय जेटला क्षेमयी प्रतरने अस
 ख्यातमे भागे जेटली भेणियो तेना प्रवेश जेटला अथवा सख्यात

योजन शतना वर्ग कर्ता जे आवे । तेटला २ भागमां ॥
 वाणव्यतरनु शरीर मुक्ता प्रतर भराय तेटला वद्ध वैक्रेय छे
 ॥ १ ॥ मुक्त उधीकवत् ॥ २ ॥ २ ॥ आहारिकना वध नथी १
 मुक्त पूर्ववत् ॥ २ ॥ ३ ॥ तैजस कार्मणना वध मुक्त वैक्रेयवत् ॥
 ॥ २ ॥ ४ ॥ ५ ॥

॥ इति घाविसमो दंडक ॥

हिवे तेवीशमो ज्योतिषीनो दंडक कहे छे ॥ आहारिकना २ भेद ॥
 वध नथी (१) मुक्त अनंता पूर्ववत् २ ॥ १ ॥ वैक्रेयना बे भेद ॥
 वध [१] मुक्त [२] ॥ तेमां वध असंख्याता कालथि असंख्यात उत्स-
 र्पिणी अवसर्पिणीना समय जेटला क्षेत्रथी प्रतरने असंख्यातमे भागे ।
 जेटली श्रेणियो तेनां आकाश प्रदेश जेटला ॥ अथवा २५६ अंगुलनो जे
 वर्ग तेटला प्रदेश प्रमाणे ॥ एक खंड उपरे ॥ एकेकुं ज्योतिषीनुं श-
 रीर मुक्त प्रतर भराय ॥ १ ॥ मुक्त अनंता पूर्ववत् २ ॥ २ ॥ आ-
 हारिकना वध नथी ॥ १ ॥ मुक्त अनंता ॥ २ ॥ ३ ॥ तैजस का-
 र्मणना वध मुक्त वैक्रेयवत् ॥ इति ॥ २३ मो दंडक ॥

हिवे २४ मो वैमानिकनो दंडक कहे छे ॥ उदारिकना वध
 नथी ॥ १ ॥ मुक्त अनंता ॥ २ ॥ १ ॥ वैक्रेयना दोय भेद ॥ वध
 ॥ १ ॥ मुक्त ॥ २ ॥ तेमां वध असंख्याता छे ते कालथी असंख्यात
 उत्सर्पिणी अवसर्पिणीना समय जेटला । क्षेत्रथी प्रतरने असंख्यातमे
 भागे जेटली श्रेणियो तेना आकाश प्रदेश जेटला ॥ तेनी विष्कंम
 शुची अंगुल प्रमाणे आकाश प्रदेशनी राशीनो वीजो वर्गमूल ॥
 त्रीजा वर्गमूल साये गुणता जे आवे तेटली श्रेणियो जाणवी ॥ अ-
 थवा अंगुल आकाश प्रदेश राशीनो । त्रीजो वर्गमूल तेनो घन क-

हिचे एकवीसमो मनुष्यनो दडक फहे छे ॥ उदारिकना दोय
 मेद ॥ बड (१) मुक्त (२) हेमां बडूते ॥ कदाचित् मनुष्य सख्याता
 होय ॥ समूर्धिमनो बिरह पड छे सेयि कदाचित् असख्यातो होय ।
 जघन्य पदे ॥ श्रीजमलपद् (२४) निउपरने (५) जमलपद् (३२)
 निहेटे ॥ अर्थात् २० आंकनी सख्या प्रमाणे ॥ अथवा पांचमो बर्ग ।
 छद्वा बर्ग साय । गुणता जे राशी घाय ॥ अथवा ९६ वार ययोघर
 बमणा करिये ॥ अथवा ९६ वार अर्धां अर्धां करता शेप एक रहे ॥
 षट्ठा अफ प्रमाणे मनुष्य जाणवा ॥ तेनो आंफ आ प्रमाणे ॥ ७९ ।
 २२ । ८१ । ६२ । ५१ । ४० । ३४ । ३३ । ७५ । ९३ । ५४ ।
 ३९ । ५० । ३३६ ॥ १ ॥ उत्कृष्ट पदे असख्याता होय ॥ सद्य
 किंम गर्भेज भस्त्रा कालधी असख्यात उत्सर्पणी भवसर्पणीना समय
 जेटला क्षेपणी अगुल प्रमाणे आकाश प्रदेशनो प्रथम बर्गमूख श्रीता
 बर्गमूख साये गुणता जे राशी घाय तेठला भागमां मनुष्यनु एकेक
 शरीर मुक्ता ॥ एक भेषी स्वामी घाय उत्कृष्ट शरीरमां एकेक करि
 बडारे नाखिये तो ॥ १ ॥ मुक्त अनता ते पूर्ववत् ॥ २ ॥ १ ॥ वै
 क्षेयना दोय मेद ॥ बड (१) मुक्त (२) हेमां बडू सख्याता कालधि
 सख्याता कालना समय जेटला १ मुक्त अनता उधिकवत् ॥ २ ॥
 ॥ २ ॥ आहारिकनां दोय मंड उधिकवत् ॥ २ ॥ ३ ॥ तैजस कार्म-
 णना दोय मेद उदारिकवत् २ । ४ । ५ ॥ ए एकनिश्च दडक । इति ॥

हिचे बावीसमो पाणव्यंतरनो दडक फहे छे ॥ उदारिकना दोय
 मेद ॥ बडू नयी ॥ १ ॥ मुक्त अनता ते पूर्ववत् २ ॥ १ ॥ वैक्षेयना
 २ मेद ॥ बड (१) मुक्त (२) हेमां बडूते असख्याता कालधी अस-
 ख्यात उत्सर्पिणी भवसर्पिणीना समय जेटला क्षेपणी पतरने असं-
 ख्यातमं भागे जेटली भेषियो तना मदेभ जेटला अथवा सख्यात



प्रकरण एकतीसवा-५६३ जीवके भेदनी चर्चा ॥

हिवे जीवना ५६३ भेद ते मांही १४ भेद नारकीना ४८ भेद
तिर्यचना ३०३ भेद मनुष्यना १९८ भेद देवताना ॥ ए सर्व मलीने
पांचसे त्रेसट भेद थाए ॥ ते माहिलाः—

(१) स्त्री वेदमे जीवका भेद ३४० पावे ते ५ सत्री तिर्यचना
अप्रजाप्ता ने प्रजाप्ता एवं दस १० ॥ अने १०१ गर्भेज मनुष्यना
अप्रजाप्ता ने प्रजाप्ता एवं २१२ ॥ अने ६४ जातका देवताना (दूजा
देवलोक तक) अप्रजाप्ता ने प्रजाप्ता एवं सर्व मिली ३४० ॥

(२) पुरुष वेदमे जीवका भेद ४१० ॥ ५ सत्री तिर्यचना प्रजाप्ता
अप्रजाप्ता एवं १० ॥ अने २०२ गर्भेज मनुष्यना १९८ देवताना
एवं सर्व ४१० ॥

(३) नपुंसक वेदमे जीवका भेद १९३ ॥ १४ नारकीना ४८
जातना तिर्यचना १३१ मनुष्यना शुगुलिया वर्जिने एवं सर्व १९३ ॥

रिये ॥ तेदली भेणियो जाणवि ॥ १ ॥ मुक्त पूर्ववत् ॥ २ ॥ २ ॥

आहारिचना बध्म नधि ॥ २ ॥ मुक्त अनता पूर्ववत् ॥ २ ॥ ३ ॥

सैमस फार्मणना बद्ध (१) मुक्त (२) वैक्रेयवत् २ । ४ । ५ ॥

॥ इति २४ मो विमानिफनो वंङ्क ॥

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय खण्डे कद्ध
मुक्त संज्ञाऽख्यं त्रिंशत्प्रकरण ॥



(९) २ दृष्टी ते समदृष्टी (१) अने मिथ्यात्वदृष्टी (२) ए दोयमे जीवका भेद १२९ ॥ पहिली ६ नरकना अप्रजाप्ता, ५ सन्नी, ५ असन्नी ३ विगलेंद्री, ए १३ ना अप्रजाप्ता ॥ मनुष्यमां १५ कर्मभूमिना अप्रजाप्ता ॥ देवकुरु उत्तरकुरुना (१०) प्रजाप्ता एवं २५ मनुष्यना ॥ देवतामां भवनपती। १० वाणव्यंतर १६ जंभडा १०, ज्योतिषी १०, देवलोक १२, लोकांतिक ९, एवं ६७ ना अप्रजाप्ता । अने ९ ग्रीवेयकना प्रजाप्ता ने अप्रजाप्ता एवं ८५ देवताना सर्व मिली १२९ ॥

(१०) ३ दृष्टीमे जीवका भेद ९४ ॥ ते समा मिथ्यातदृष्टीनी परे जाणवुं ॥

(११) प्रजाप्तामे जीवका भेद २३१ ॥ ७ नारकीना २४ तिर्यचना १०१ सन्नी मनुष्यना ९९ देवताना एवं २३१ ॥

(१२) अप्रजाप्तामे ३३२ जीवके भेद ते २३१ तो पूर्ववत् अने १०१ समुच्छिम मनुष्य अप्रजाप्ता छे ॥ एवं सर्व ३३२ ॥

(१३) सास्त्रता २५० जीवके भेद ॥ ७ नारकीना प्रजाप्ता तिर्यचमा ५ संनीना अप्रजाप्ता वर्जिनै ॥ ४३ भेद मनुष्यना १०१ सन्नीना ॥ प्रजाप्ता ९९ जातीना देवता प्रजाप्ता एवं सर्व मिली २५० ॥

(१४) अशाश्वतामां ३१३ जीवका भेद ॥ ७ नरकना अप्रजाप्ता ५ सन्नी तिर्यचना अप्रजाप्ता १०१ समुच्छिम मनुष्यना १०१ सन्नी मनुष्यना अप्रजाप्ता एवं २०२ मनुष्यना, ९९ जातिना देवताना अप्रजाप्ता एवं सर्व मिली ३१३ ॥

(१५) संनीमांही जीवका भेद ४२४ ॥ ते १४ नारकीना ५

(૪) સમુચ્ચય ૩ મેદમાં જીવકા ૪૦ મેદ લાભે ॥ તે દસ સમ્પી તિર્યંચના અને ૧૫ કર્મશૂનીના અપ્રજાપ્તા ને પ્રજાપ્તા એવ સર્વ ૬૦ મેદ માઠી ૩ વેદ લાભે ॥

(૫) ક્ષેત્ર સમક્રિતિમે જીવકા મેદ દસ ૧૦ ॥ ૫ અણુત્તર વિમાનકા અપ્રજાપ્તા ને પ્રજાપ્તા એવ ૧૦ ॥

(૬) સમુચ્ચય સમક્રિતમાઠી જીવકા મેદ ૨૩૩ નારકીના ૧૩ મેદ સાતમી નારકીનો અપ્રજાપ્તો ષર્જી તિર્યંચ સમ્પીના ૧૦ ॥ અને અસમ્પીના ૫ અપ્રજાપ્તા ॥ વિગલેન્દ્રીના ૩ અપ્રજાપ્તા ॥ એવ ૧૮ તિર્યંચના ॥ મનુષ્ય કર્મશૂનીના ૩૦ ને પાંચ વૃષકુલ પાંચ ઉત્તર કુલના પ્રજાપ્તા એવ ૪૦ ॥ મનુષ્યના અને દેવતામાઠી પરમાધામીને શ્રીળ ક્ષિત્તિપી એ અઠરા જાતીના દેવતા ષર્જીને ॥ એક્યાસી જાતીના દેવતાકા અપ્રજાપ્તા ને પ્રજાપ્તા ૧૬૨ મેદ એવ સર્વ ૨૩૩ ॥

(૭) મિષ્પાદટ્ટીમે જીવકા ૩૩૦ મદ ॥ તે ૧ સાતમી નારકીનો અપ્રજાપ્તો ને પ્રજાપ્તો ને તિર્યંચના ૩૦ ॥ તે એકેન્દ્રીના ૨૨ અસમ્પી પદેન્દ્રી ૫ ના પ્રજાપ્તા ૩ વિગલેન્દ્રીના પ્રજાપ્તા એવ ૩૦ ॥ અને મનુષ્યના ૨૬૩ તે ૧૦૧ સમુષ્ઠિમ મનુષ્યને અને ૫૬ અંતરૂપાના અપ્રજાપ્તા અને પ્રજાપ્તા અકર્મશૂનીના ૩૦ અપ્રજાપ્તા ને દેવકુલ ઉત્તર કુલના ષર્જીને ૨૦ ॥ ના પ્રજાપ્તા એ ૨૬૩ અને દેવતાના ૩૬ તે ૧૮ ॥ અપ્રજાપ્તા ને પ્રજાપ્તા ॥ એવ સર્વ મિલી ૩૩૦ ॥

(૮) ત્તમા મિષ્પાદટ્ટીમે ૯૪ મદ ॥ નારકીના ૭ ॥ સમ્પી તિર્યંચના ૫ મનુષ્ય ૧૫ ॥ કર્મશૂનીના સમ્પીના ॥ દેવતામાઠી પરમાધામી મિષ્પિપી નવશ્રીધેયક અણુત્તર વિમાનના એ ૩૨ ॥ ષર્જીને ષાઠી ૬૭ માતિના દેવતા એવ સર્વ મિલી ૯૪ ॥

पांचमो देवलोक ए ४, नें नव लोकांतिक ए १३ ना अप्रजाप्ता ने प्रजाप्ता मिली २६, ए सर्व ६६ ॥

(२२) शुक्ल लेशामांही ८४ जीवका भेद ॥ ते सन्नी तिर्यचना १०, सन्नी मनुष्यना ३०, ते कर्मभूमीना, देवतामांही एक त्रीजो किलमिषी १ छठेथी वारमा देवलोक सुथी ७ देवलोक ९ ग्रीवेयक, ५ अणुत्तर विमान, एवं २२ ना अप्रजाप्ता ने प्रजाप्ता ॥ ए ४४ ए सर्व मिली ८४ ॥

(२३) लै लेशामांही ४० जीवका भेद ॥ ते १० सन्नी तिर्यचना, अने ३० सन्नी मनुष्यना कर्मभूमीना, एवं सर्व मिली ४० ॥

(२४) आगली ४ लेशामांही २७७ जीवका भेद ॥ प्रथम ५१ जातिना देवताना अप्रजाप्ता ने प्रजाप्ता एवं १०२, जुगलिया ८६ जातिना अप्रजाप्ता ने प्रजाप्ता ए १७२, अने वादर पृथिवी १ वादर वाणी २ वणसई ३ ए ३ ना अप्रजाप्ता एवं सर्व मिली २७७ ॥

(२५) उदारिक कायजोगमां ३५१ जीवका भेद ॥ ३०३ मनुष्यना, ४८ तिर्यचना, एवं ३५१ ॥

(२६) उदारिकना मिश्रमां २४७ जीवका भेद ॥ १०१ समुर्द्धिम मनुष्य, १०१ सन्नीना अप्रजाप्ता, अने १५ कर्मभूमिना प्रजाप्ता, तिर्यचना २४ अप्रजाप्ता १ वादर वायुकायनो प्रजाप्तो, ५ सन्नी तिर्यचना प्रजाप्ता ॥ एवं सर्व मिली २४७ ॥

(२७) वैक्रेय काययोगमां २३३ जीवका भेद ॥ १०८ देवताना, १४ नारकीना, ५ सन्नी तिर्यचना प्रजाप्ता, वादर वायुकायनो प्रजाप्तो, १५ कर्मभूमीना सन्नी मनुष्यना प्रजाप्ता ॥ एवं सर्व मिली २३३ ॥

સની તિર્યચના અમજાપ્તા ને પ્રજાપ્તા ૯ ૧૦, સન્ની મનુષ્યના ૧૦૧
અમજાપ્તા ને પ્રજાપ્તા ૯૪ ૨૦૨ મેદ, ૯૯ જાતીના દેવતાના અ-
મજાપ્તા ને પ્રજાપ્તા । ૯ । ૧૨૮, ૯૪ સર્વમિલી ૪૨૪ મેદ જાણવા ॥

(૧૬) અસક્ષીમે બીજકે મેદ ૧૩૯ ॥ તે ૧૦૧ સમુર્થિમ મનુ-
ષ્ય ૩૮ મેદ તિર્યચના સક્ષીના ૧૦ સર્જીને । ૯૪ ૧૩૯ મેદ, અસ-
ક્ષીમે સર્જી ॥

(૧૭) ૬૬૩ બીજકે મેદમાંથી ૩૭૧ મેદ મરે, તે ૭ નારક્ષીના
મજાપ્તા ૯૯ જાતના દેવતાના પ્રજાપ્તા ૪૮ તિર્યચના ૮૬ જાતના
યુગલિયાના પ્રજાપ્તા । ૧૩૧ મનુષ્યના ૯૪ સર્વ ૩૭૧ મેદ ॥

(૧૮) ૬૬૩ બીજકા મેદમાંથી ૧૯૨ મેદ અમર ॥ ૭ નારક્ષી-
ના અમજાપ્તા । ૯૦ જાતકા દેવતાના અમજાપ્તા ॥ ૯૪ ૧૦૬ અને
૮૬ જાતના યુગલિયાના અમજાપ્તા ૯૪ ૧૨૨ ॥

(૧૯) કૃષ્ણછેત્રી નીલ છેત્રી કપોત છેત્રી ૯ ૩ મેં બીજકા મેદ
૪૬૯ । તે ૬ નારક્ષીના ૪૮ તિર્યચના ૯૪ ૫૪, અને ૩૦૩ મનુ-
ષ્યના, ૬૧ જાતના દેવતાના અમજાપ્તા ને પ્રજાપ્તા ૯૪ સર્વ મિલી
૪૬૯ ॥

(૨૦) તેજૂલેશ્વામાંથી બીજકા મેદ ૩૪૩ ॥ તે ષાદ્ર પૃથિવી
ષાદ્ર પાળી ષાદ્ર ષણસદ્ ૯ ૩ ના અમજાપ્તા, સક્ષી તિર્યચના ૧૦,
સક્ષી મનુષ્યના ૨૦૨, ૬૪ જાતના દેવતાના અમજાપ્તા ને પ્રજાપ્તા ।
૧૨૮ । ૯૪ સર્વ મિલી ૩૪૩ ।

(૨૧) પદ્મપેશામાં ૬૬ બીજકા મેદ ॥ તે પાંચ સક્ષી તિર્ય-
ચના અમજાપ્તા ને પ્રજાપ્તા ૯ ૧૦, અને ૧૬ ફર્માપિના અમજાપ્તા
પ્રજાપ્તા ૯ ૩૦ ॥ દેવતામ રૂમા કિમ્મિવી ૧ પ્રીતો ૨ સ્ત્રોયા ૩

(३८) मन गृहितमे ३५१ जीवके भेद ॥ ते ७ नरकना अप्रजाप्ता ॥ ४३ तिर्यचना ते ५ सन्नीना प्रजाप्ता वर्जिने शेष ४३ भेद अने १०१ समुच्छिम मनुष्य, ने १०१ सन्नी मनुष्यना अप्रजाप्ता । ए २०१, अने ९९ जातीना देवताना अप्रजाप्ता एवं सर्व ३५१ भेद ॥

(३९) नजरे आवे ते २२५ जीवके भेद ॥ ते ७ नारकी ९९ जातीना देवता १०१ गर्भेज मनुष्य । ५ सन्नी तिर्यच, ५ असन्नी तिर्यच, ३ विगलेंद्री । ५ एकेंद्री वादर, ए सर्वेना प्रजाप्ता एवं २२५ भेद ॥

(४०) नजरे न आवे ते ३३८ जीवके भेद ॥ ३३२ भेद तो अप्रजाप्ताना अने ५ सुक्ष्म एकेंद्री अने १ साधारण ए ६ ना प्रजाप्ता एवं सर्व मिली ३३८ भेद ॥

(४१) गर्भेजमां । २१२ जीवका भेद ॥ २०२ सन्नी मनुष्यना, १० संनी तिर्यचना ए २१२ ॥

(४२) विना गर्भेजमांही ३५१ जीवके भेद ते १४ नारकीना १९८ देवताना ३८ समुच्छिम तिर्यचना १०१ समुच्छिम मनुष्यना एवं सर्व ३५१ ॥

(४३) :त्रस नाडीमांही ५६३ जीवका भेद ॥

(४४) थावर नाडीमांही १५० :जीवके भेद ॥ ते १०१ समुच्छिम मनुष्य १५ कर्मभूमिना अप्रजाप्ता एवं ११६ अने ३४ तिर्यचना ते २२ एकेंद्रीमांहीथी एक वादर तेउनो प्रजाप्तो वर्जिने २१ एकेंद्रीना, ३ विगलेंद्रीना अप्रजाप्ता, ५ । सन्नी तिर्यचना अप्रजाप्ता, ५ असन्नी तिर्यचना अप्रजाप्ता ॥ एवं १५० ॥

(૨૮) વૈક્રેય મિશ્રમાં ૨૧૨ જીવકે મેદ ॥ તે ૯ ગ્રીવેક, ૦ અણુચર ચિમાન, એવ ૧૪ ॥ પ્રજાત્તા યર્જીને શ્લેષ ૨૧૦ મેદ ॥

(૨૯) આહારિક મિશ્રમાં જીવકા મેદ ૧૦ કર્મશૂનીના પ્રજાપ્તા ॥

(૩૦) કાર્મણ કાપયોગમાહી ૩૬૭ જીવકા મેદ ॥ તે ૩૩૨ અપ્રજાપ્તાના મેદ પૂર્વે કથા તે અને ૧૫ કર્મશૂનીના પ્રજાપ્તા એવ સર્વ ૩૬૭ ॥

(૩૧) સત્યમનાદિક ૬ ને સત્યવચનાદિક ૩, એ ૭ જોગમે જીવકા મેદ ૨૧૩ ॥ તે ૯૯ ખાતીના દેવતા અને ૭ નારકી અને ૧૦૧ સમી મનુષ્ય, ૫ સન્ની તિર્યક એવ સર્વ મિલી ૨૧૨ ના પ્રજાપ્તા ॥

(૩૨) વ્યવહાર વચનમાહી ૨૨૦ જીવકા મેદ ૨૧૦ તે સત્યમનાદિક ૭ નાગમાં કથા છેહીજ અને ૫ અસન્ની તિર્યકના ॥ અને ત્રિણ શિગલેતી એ ૮ ના પ્રજાપ્તા એવ સર્વ ૨૨૦ ॥

(૩૩) આહારક શરીરમાં ૧૦ કર્મશૂનીના પ્રજાપ્તા ॥

(૩૪) તેજસ કાર્મણ શરીરમાંહી ૫૬૩ મેદ ॥

(૩૫) અનાહારિકમે ૩૬૭ જીવકે મેદ । તે કાર્મણ જાગની પર જાગયા ॥

(૩૬) આહારકમે ૫૬૩ જીવક મેદ ॥

(૩૭) મન સહિતમ ૨૧૦ જીવક મેદ । તે સત્ય મન જાગની પર જાગયા ॥

(५६) तेजस समुद्रघातमांही १०५ जीवके भेद ॥ ते ८५ देवताना प्रजाप्ता ने १५ कर्मभूमीना प्रजाप्ता ५ सत्रीना प्रजाप्ता एवं सर्व १०५ ॥

(५७) आहारीक समुद्रघातमांही १५ कर्मभूमीना प्रजाप्ता लाभे ॥

(५८) केवल समुद्रघातमांही १५ कर्मभूमीना प्रजाप्ता लाभे ॥

(५९) (६०) (६१) आगली ३ पर्यामांही ५६३ जीवके भेद ॥

(६२) श्वासोश्वास पर्यामांही ५६२ जीवके भेद ॥ एकेंद्रीना ११ अप्रजाप्ता वर्ज्या ॥

(६३) भाषापर्यामांही ३२६ जीवके भेद ॥ ते ७ नारकीनां, अने सत्री तिर्यचना प्रजाप्ता अप्रजाप्ता १०, असन्नी तिर्यचर्णा ५, अने ३ विगलेंद्रीना, एवं ८ ना प्रजाप्ता, अने सन्नी मनुष्यना २०२, अने ९९ जातिना देवता प्रजाप्ता एवं ३२६ ॥

(६४) मनपर्यामांही २१२ जीवके भेद ॥ ७ नारकी ५ सन्नी तिर्यच, १०१ सन्नी मनुष्य, ९९ जातीना देवता, ए सर्वना प्रजाप्ता एवं २१२ भेद ॥

(६५) अजीवना ५६० भेद ॥ तेमांहीथी लोकमां ५६७ भेद ते धर्मास्तिकाय १ अधर्मास्तिकाय २ ए २ देश आकाशास्ति कायनो स्कंध ए ३ वरजी शेष ५६७ लाभे ॥

(६६) अलोकमांहे अजीवना भेद ६ लाभे ॥ ते आकाशास्तिकायनो देश १ प्रदेश २ आकाशास्तिकायना द्रव्यादिक ४ बोल, एवं ६ लाभे ॥

(६७) विभंग अज्ञानमांही २२२ जीवना भेद ॥ ५ अणुत्तर विमानना प्रजाप्ता ने अप्रजाप्ता ए १०, वर्ज्या, बाकी १८८ देवताना

(४५) नाण आत्मायां २३३ जीवके भेद ॥ सातमी नरकनो
अमजाप्तो भरजी १३ नारकीना, ५ सखी तिर्यचना अमजाप्ता ने प्र-
जाप्ता ए १०, अने ५ असखी तिर्यचना अमजाप्ता, अने ३ विगल्ले-
द्रीना अमजाप्ता ए १८ तिर्यचना, अने १५ कर्मभूमिना अमजा-
प्ता ने प्रजाप्ता ए ३०, अने ५ देवदुरु ५ अक्षरदुरु ए १० ना
प्रजाप्ता एयं ४० मनुष्यना अने १५ परमापामी ३ किलमिपी, ए १८
ना प्रजाप्ता ने अमजाप्ता ए ३६ भेद भरजीने शेष १६२ ५६ देव
ताना एव सर्व यईने २३३ भेद ॥

(४६) चारित्र आत्मायांही जीवके ५६ १५, कर्मभूमिना
प्रजाप्ता ॥

(४७) शेष ६ आत्मायांही ८६३ जीवका भेद ॥

(४८) अमजाप्तो मरीने १७९ भेदमां जाय ॥ त १०१ समु-
र्धिम मनुष्य, ४८ तिर्यच, १५ कर्मभूमिना प्रजाप्ता, अमजाप्ता
३०, एव १७९ ॥

(४९) स्त्री मरीने ५६१ भेदमां जाय ॥ सातमी नारकीका
२ भेद भरमीने शेष ५६१ मां जाय ॥

(५०) पुरुष मरीने ५६३ मांही जाय छे ॥

(५१) नपुसक मरीने ५६३ जीवके भेदमांही जाय ॥

(५२) वेदनी समुद्घातमे ५६३ जीवके भेद ॥

(५३) कृपाय समुद्घातमे ५६३ जीवके भेद ॥

(५४) मारणांतिक समुद्घातमे ३७१ जीवके भेद ॥

(५५) वैक्रेय समुद्घातमे ११० जीवके भेद ॥ त पूरं वैक्रेय
मिध जोगमांही कया छे ते जाणयां ॥

(५६) तेजस समुद्रघातमांही १०५ जीवके भेद ॥ ते ८५ देवताना प्रजाप्ता ने १५ कर्मभूमीना प्रजाप्ता ५ सन्नीना प्रजाप्ता एवं सर्व १०५ ॥

(५७) आहारीक समुद्रघातमांही १५ कर्मभूमीना प्रजाप्ता लाभे ॥

(५८) केवल समुद्रघातमांही १५ कर्मभूमीना प्रजाप्ता लाभे ॥

(५९) (६०) (६१) आगली ३ पर्यामांही ५६३ जीवके भेद ॥

(६२) श्वासोश्वास पर्यामांही ५२२ जीवके भेद ॥ एकेंद्रीना ११ अमजाप्ता वज्या ॥

(६३) भाषापर्यामांही ३२६ जीवके भेद ॥ ते ७ नारकीना, अने सन्नी तिर्यचना प्रजाप्ता अमजाप्ता १०, असन्नी तिर्यचना ५, अने ३ विगलेंद्रीना, एवं ८ ना प्रजाप्ता, अने सन्नी मनुष्यना २०२, अने ९९ जातीना देवता प्रजाप्ता एवं ३२६ ॥

(६४) मनपर्यामांही २१२ जीवके भेद ॥ ७ नारकी ५ सन्नी तिर्यच, १०१ सन्नी मनुष्य, ९९ जातीना देवता, ए सर्वना प्रजाप्ता एवं २१२ भेद ॥

(६५) अजीवना ५६० भेद ॥ तेमांहीथी लोकमां ५५७ भेद ते धर्मास्तिकाय १ अधर्मास्तिकाय २ ए २ देश आकाशास्ति कायनो स्कंध ए ३ वरजी शेष ५५७ लाभे ॥

(६६) अलोकमांहे अजीवना भेद ६ लाभे ॥ ते आकाशास्तिकायनो देश १ प्रदेश २ आकाशास्तिकायना द्रव्यादिक ४ बोल, एवं ६ लाभे ॥

(६७) विभंग अज्ञानमांही २२२ जीवना भेद ॥ ५ अणुत्तर विमानना प्रजाप्ता ने अमजाप्ता ए १०, वज्या, वाकी १८८ देवताना

अप्रजाप्ता ने प्रजाप्ता, अने १४ नारकी ने १५ कर्मभूमि मनुष्य प्रजाप्ता ने ५ सखी तिर्यचना प्रजाप्ता एवं सर्व २२२ ॥

(६८) अश्विज्ञानमें २१ भेद ॥ ते १५ परमाशामी, ३ क्रि-
लमिपी ए १८ कर्मिने, १६२ जातीनां देवता अप्रजाप्ता ने प्रजाप्ता,
ने १३ नारकीना सातमी नरकनो १ अप्रजाप्तो बग्ग्यो, १५ कर्म
भूमिना मनुष्यना अप्रजाप्ता ने प्रजाप्ताना ३०, ने ५ सखी तिर्य-
चन प्रजाप्ता । एवं सर्व २१० ॥

(६९) अश्वि कर्मणांही २४७ जीवका भेद ॥ १९ देवताना
अप्रजाप्ता ने प्रजाप्ता, १४ नारकीना अप्रजाप्ता ने प्रजाप्ता, ने १५
कर्मभूमि मनुष्यना अप्रजाप्ता ने प्रजाप्ता, ने ५ सखी तिर्यचना
प्रजाप्ता ॥ ए २४७ ॥

(७०) परशर्माही जीवना भेद ५६३ सामे ॥

(७१) अपरशर्माही जीवना भेद ॥ ५५३ सामे ॥ ५ अणुत्तर
विमानना १० भेद कर्मिने शेष ५५३ सामे ॥

(७२) समतीमांही जीवका भेद १५, कर्मभूमिना गर्भेज प्रजा
प्ता सामे ॥

(७३) समता सनतीमांही जीवका २० भेद ॥ १५ कर्म
भूमिना मनुष्य गर्भेज प्रजाप्ता अने ५ सखी तिर्यचना प्रजाप्ता ।
एवं २० ॥

(७४) असमतिमांही ५५३ जीवना भेद ॥

(७५) परिष्ठा गुणठानामांही ५५३ भेद ॥ ते अणुत्तर विमान-
ना १०१ कर्मिने ॥

(७६) सास्त्रादान गुणठानामांही २१३ जीवना भेद ॥ त १३
नारकीना १८ तिर्यचना । कर्मभूमि मनुष्यना ३०, दवनामांही १५

परमाधामी ३ किलमिपना ५ अणुत्तर विमानना ए २३ जातिना वरजीने वाकी ॥ १५२ देवताना । एवं सर्व मिली ॥ २१३ भेद ॥

(७७) मिश्र गुणठाणांमांही ९४ भेद ॥ ७ नारकी प्रजाप्ता, ५ सन्नी तिर्यचना प्रजाप्ता ॥ १५ कर्मभूमीना प्रजाप्ता एवं २७, १५ परमाधामी, ३ किलविपी, ९ नवग्रीवक, । ५ अणुत्तर विमान, । एवं ३२ वजीने ६७ देवताना प्रजाप्ता एवं ९४ ॥

(७८) चोया गुणठाणांमांही जीवका भेद २२५ । पूर्वे सम्यक्त्वमांही २३३ भेद कथा छे ते माहीथी ५ असन्नी तिर्यच ने ३ विकलेद्री ए ८ टळया ॥ शेष २२५ ॥

(७९) पांचमा गुणठाणांमांही जीवके भेद २० ॥ १५ कर्मभूमी ५ सन्नी तिर्यचना प्रजाप्ता ॥ एवं २० ॥

(८०) छटा गुणठाणासुं लेने १४ मां गुणठाणा तांही जीवका भेद १५ ॥ ते कर्मभूमीना प्रजाप्ता ॥

(८१) धर्मास्तिकायना खंडमांही अजीवना भेद ११ ॥ धर्मास्तिकायनो खंड प्रदेश २ अधर्मास्तिकायनो खंड ३ प्रदेश ४ आकाशस्तिकायनो देश ५ प्रदेश ६ काल ७ पुद्गलास्तिकायना ४ भेद । एवं सर्व ११ ॥

(८२) अठार्डद्वीप वारे अजीवना भेद १० ॥ पूर्वे कथा ते माहीथी एक काल टळयो ॥

(८३) धर्मास्तिकायना देशमे अजीवका भेद ११ ॥ धर्मास्तिकायनो देश १ प्रदेश २ आकाशस्तिकायनो प्रदेश ३ प्रदेश ४ अधर्मास्तिकायनो देश ५ प्रदेश ६ काल ७ अने पुद्गलास्तिकायना ४ भेद ए ११ ॥

(८४) धर्मास्तिकायना प्रदेशमे अजीवका भेद ८ ॥ ते धर्मा-

स्तिकायनो प्रदक्ष १ अघर्मास्तिकायनो प्रदक्ष २ आकास्तिकायनो
प्रदक्ष ३ काल ४ शुद्गलास्तिकायना ४ मेद ॥ एव, ८, ॥

(८८) अघर्मास्तिकायना स्तमे अजीवके मेद ११ ॥ घर्मा
स्तिकायनी परे जाणवा ॥

(८९) आकास्तिकायना स्वर्मा अजीवका मेद ११ ॥ अजी
वना १४ मेदमाहीषी घर्मास्तिकायनो देक्ष १ अघर्मास्तिकायनो
देक्ष २ आकास्तिकायनो, देक्ष ३ । ए ३ टब्ब्या ॥ शेप ११ ॥

(९०) आकास्तिकायना देक्षना दोय २ मेद लोकाकाश (१)
अलोकाकाश (२) वे लोकाकाशना २ मेद । सपूर्ण (१) ने अघूरो
(२) सपूर्णमां अजीवका इग्यारा ११ मेद लाये ॥ पूर्ववत् ॥

(९१) अघूराणां अजीवका ११ मेद ॥ घर्मास्तिकायनो स्तद
अघर्मास्तिकायनो स्तद आकास्तिकायनो स्तय ए ३ मेद टब्ब्या
शेप ११ ॥

(९२) अलोकाकाश देक्षमां अजीवका मेद २ ॥ आकास्ति
कायनो देक्ष १ ने प्रदक्ष २ ॥

(९३) आकास्तिकायना प्रदक्षमां अजीवका मेद ८ । पूर्ववत् ॥

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणी द्वितीय खण्डे ५६३
जीव मेद चर्वाऽस्त्य एकत्रिंशत्प्रकरणम् ॥ ३१ ॥

श्रीमद्ब्रह्मवर्षः सुता भृत्सकल गुण गणो देव वीरो वरेशः ।
 तत्पादाम्बुवस्य प्रचुर मधु रसं लेहु काभेष्वलीपु ॥
 पूज्यश्री स्वामि दासः प्रवरपद धरः तस्य शिष्या प्रशिष्यात्
 पारंपर्येण भूतो भरत भुवि वृहत्कीर्तिमा त्रेखराजः ॥ १ ॥

येनेयं वसुधा सुधांशुशुभया कीर्त्या कृताऽलंकृता ।
 भूपाला मणि मस्तका अपि कृताः पादागता वंदितुं ॥
 तस्माच्छ्री नथमल्ल आदर धरः श्रीवृंद नाख्यो मुनिः ।
 जातोऽस्यां भुवि धर्मपालन परस्तस्माद्गुरुर्ज्ञानधीः ॥ २ ॥

तत्पादाब्ज पराग सेवन परोऽहं रामचंद्रो मुनिः
 तस्यैव कृपया कृतिं च रचयां चक्रे भवान्योचने
 सच्छिष्यो मुनि हर्षचंद्र इतिमां कर्तुं मुहुः प्रार्थयत्
 तस्य प्रार्थनयाऽनया जन शिवे ग्रंथः क्षमोनिर्मितः ॥ ३ ॥

कृतोऽयं रामचंद्रेण जिनवीर प्रसादतः
 पाठक श्रावकानां वै विदधातु सुमहलं ॥ ४ ॥

॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ धर्म ग्रंथे मुनि राम-
 चंद्र कृतौ द्वितीय खण्डः समाप्तिमगमत् ॥

॥ शुभं सर्वं ॥




॥ मुनिवरेष्वभ्यर्थना ॥

भो पूज्य षट् मुनिवरा । ग्रन्थान्ते भवत प्रसादार्य अभ्यर्षितु
मिच्छामि । मया पूज्य श्री रत्नराजते वासि परंपरानुगत तुल्य भी
हृन्वनमल्लास्यस्वपदान्मपदपठेन रामचद्रेणाय सिद्धान्त शिरोमणि
इत्यभिधानदो ग्रयो विनिर्दिष्ट । सच्च पदगुरु जन इस्त मिलित
पुस्तकेषु यथा च लिखित अनुसृत्याश्च प्रिश्नस्वरणात्मकः कृत
स्यात् । कार्यकारणार्थं मनेक ग्रंथाबलोकनमपि विधाय क्रमण शोभ
नानि प्रकरणानि न्यस्ताग्नि । तस्मिन् द्वितीये खण्टे षेषुचित् स्वर-
णेषु अदश्च ममादा दृश्यन्ते । ते तु माया सप्तचिन षड्विचिना स-
र्वाचिनश्च । निरसन देवां क्रम पर तेषु स्वरणेषु मेदादेव विधाय
तान्दूरी कर्तुं नाह मसुरस्यस्यावकाशस्मात् ।

तन्मन्ये समर्षा व्याख्यातारः पाठकाश्च विवेके न आत्म समा-
धानं समन्ततो विनिश्चय विधाय अथक सप्तदाये व्याख्या पयिष्यन्ति ।
मर्यपनुग्रहेण अथर्षति सम दीपान्विहाय गुणानुरक्त तथा समयेव गुणवति
इति बलवती आज्ञा मम मनसि वर्तते । इति कर्तुं अपवसितानां क्रिसार
बहूपकृति मास्तानितिष्ठ सर्वम्

श्रेय मणेता,
मुनि रामचद्र
रिंगणपाठ,




(अथ शुद्धि पत्रम्)

सामायिक प्रतिक्रमणादि नित्य स्मरणम्.

पृष्ठ.	पंक्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध.
२	७	(व)	(६)
२	८	ठाणाउ	ठाणाओ
"	"	जीवियाउ	जीवियाओ
३	५	[मभिणं	मभिणंदणं
७	११	सुण	सुय
९	१	अतिच्चार	अतिचार
"	३	फल संदेह	फल प्रते संदेह
"	५	लागो	लागी
१०	९	विरमणा	विरमण
"	१२	भेल समेल	भेल समेल कीधी होय
११	२	विखराको	विखेराको
"	७	विखराको	विखेराको
१२	५	औषधि	औषधिनी
"	११	दग्गिदावणया	दवग्गिदावणया
१३	१४	वारयी	वारथी
"	१८	वग	वन्नग
१४	६	परठी होय	परठियो होय
"	१७	निमंत्रणा	आमंत्रणा
१५	२०	चारे	चारुं

१६	६	संसप्यत्रगे	संसप्यत्रगे
"	"	"	"
१७	४	छोगुचमो	छोगुचमा
१८	४	ये,	मे,
"	५	स्वामि	स्वामेमि
१९	७	दोषा	दोष
"	१५	संस्कारेमि	संस्कारेमि
२४	४	जून	योनि
"	१७	साहा	साह
३१	४	छाप्याणे	छाप्याणे
३२	१३	भियासण	भियासण पञ्चस्वामि
"	१५	टाणेण	टाणेण
३३	२०	पारिहाविषया	पारिहाविषया
"	१४	"	"
३४	९	घरे	०
"	११	पारिहाविषया	पारिहाविषया
३५	१३	होवेगो !	होवेगा !
३६	१	दश यति धर्म	दशविध यति धर्म
३७	६	चौपठ	चौसठ
"	१३	होणा !	होण्यो !
३८	५	"	"
"	१०	"	"
३९	११	वय	वत्य
४०	५	खेसर	केशर
"	७	मीरजादा	परयादा

६१	४	धारवा	धारणा
६३	२२	जार	जुवार
"	"	घउं	गउं
६४	१	खोडण	खोदन
"	७	वींछी	विद्यु
"	६	मुल	मूलमें
६७	१६	पहिछांण	पहिचांन
६९	२	संश	संशय
		श्लोकमें रामचंद्रांधि	रामचंद्रांधि



सिद्धांत शिरोमणि प्रथम खंड.

प्रकरण १ ला-स्तोत्र.


१	५	सादूल	शादूल
"	९	शेर्वेशं	सर्वेशं
"	१०	सीतलं	शीतलं
२	१	सिधं	संघं
"	"	साक्षादरंवैष्णवं	साक्षाद्द्वरिं वैष्णवं
"	२	मेतत्संगत	एतत्संगत
"	"	एव	मेव
"	३	पार्श्वैः	पार्श्वैः
"	"	शुभैः	शुभैः
"	४	मदो	मदोः
"	"	नरस्तदतरे	नरस्तदितरे

११	६	पार्श्वे	पार्श्वे
११	६	बष्यार्थे	बष्यार्थे
११	१२	नांसघत्पटलघनाय	नांसघत्पटलघनाय
११	१५	त्कृत्वा	कृत्वा
११	१६	घ्यत्नाघेन	घत्नाघेन
३	९	स्वप्नति	स्वप्नति
११	१२	दृष्ट्वा	दृष्ट्वा
११	१३	द्वस्त	ध्वस्त
५	१	नत्वा	नत्वा
६	३	सृजित	सृजित
११	१३	पुत्रस्या पुत्रघञ्	पुत्रस्यातुषञ्
११	१५	विक रोपि	विकारोपि
७	१	विधेयै	विधेयैः
११	२	घर	स्वर
११	१५	सुप्ता	सुप्ता
११	२१	सिद्ध	सिद्ध
११	२२	भ्राता	भ्राता
८	५	मसम	मसम
११	८	नम	नमो नमः
११	११	नम	नमो नम
११	१७	इय	वि
९	६	भृषा	भृष्या
११	१५	फिमिते	फिमिति
११	८	रत्युम	रत्युम
११	३	अन्मातरस्य	अन्मातरस्य

०	०	अनुष्टुभ्	अनुष्टुप्
११	१६	वहत्यद्वासुक्ते	वहत्यद्वासुक्ते
१२	९	स्पृशति	स्पृशति
"	१०	जगत्साक्षि	जगत्साक्षी
"	"	भानुखियो	भानुरिवयो
"	२१	श्न	स्न
१४	१	शीता	सिता
"	७	जिनाग्रमः	जिनाग्रिमः
"	१२	निःश्वेदो	निःस्वेदो
१५	७	चित्यात्मा	श्चित्यात्मा
"	६	विश्वस्टइ	विश्वस्टड्ड
"	८	महालासो	महोलासो
"	१४	स्याद्रलगर्भोः	स्याद्रलगर्भः
"	२१	शूची	सूची
"	२२	क्षुब्ध	क्षुब्ध
१६	२१	दिग्मार्ग	दिङ्मार्ग
२३	७	घतुर्ष्वेष	चतुर्ष्वेषु
"	११	भेदेपि	भेदोपि
२४	१२	जिनायैच	परेशाय
२५	१६	यमकै	यमकैः
"	"	सुपरिः	सुपदौ
२६	१	ग्रहि	ग्रहे
"	६	भवते	भवती
"	७	सेवकः	सेवके
"	१५	शायिनी	शायिनी

॥	॥	आयुष	आयुषं
॥	१६	शुभे	शुभे
२७	२	महोदेव	महादेव
॥	४	कद्र्प्य	कद्र्प्य
॥	६	अरनाथ	अर्हनाथ
॥	११	मेन	मेतत्
२८	३	अस्स पभावेणस्येया	अस्स पभावेणसया
॥	२	बिनास	भिणास
॥	५	दुस्स	दुस्स
॥	६	नपिध्य	नत्पिस्व
॥	८	तस्स	तस्स
॥	१०	पास	पास
॥	११	ह्मी	०
॥	१२	मूळ	मूल
२९	१५	शीघ्री	शीघ्र
३०	५	समञ्चरण	समनञ्चरण
॥	२३	व्यापिः	व्यापीः
३१	१२	भिपि २	भिपि २
॥	१५	एहि २	०
॥	॥	प्रहाण	प्रहाण
॥	१८	पूरमय	पूरीमध्ये
॥	१७	दोपाय	दोपा
॥	१६	ह्क २	ह्क २
३४	४	मणुभो	मणुभो
॥	१२	इय	इय

३४	१३	हियेण	हियएण
३५	२	जिना दिश जाता	जिना देश जाता
"	३	शंकराणी	शंकराणि
"	१७	वागेश्वरि	वागीश्वरि
३६	१३	सचेतन	सचेतः




प्रकरण २ रा-छन्द.




३७	३	वाणि	वांग
"	१०	करुणासिंधु	करुणा २ सिंधु
"	१३	अवै	अछे
"	१४	शुर	सुर
"	१५	मन्मय	मन्मथ
"	१६	नवनिधि तुज नामे	नवनिधि सिद्धी तुज नामे
३८	१	वकुला	बहुला
"	"	वकुल	बहुल
"	"	विषहारी	विषहारी
"	१७	यंखी	पंखी
३९	२	अहियाइं	अहिथावे
"	३	घोटिक	घोटिक
"	"	छेटे	छूटे
"	४	इस	इण
"	८	नहुक्कए	नहुक्कए
"	१७	सूरिज	सूरज

११	११	आयुष	
११	१६	सुभे	
२७	२	महोदेषं	
११	४	कद्रर्ष्य	
११	६	अरनाथ	
११	११	मेन	
२८	३	जज्ञश्च पभावेणस्येषा	
११	२	विनाश	
११	५	दुस्क	
११	६	नयिष्य	
११	८	सप्तश्च	
११	१०	पाश	
११	११	ह्री	४
११	१०	सूक्त	६३
२९	१५	शीर्षि	६७
३०	५	४	
११	२३		
३१	१		
११			
११			
११	१६	४	
३६	४	मणुषो	
११	१२	हय	

		वाशितिर	चारी तीर
५५	३	सुवंगं	सुवंगं
"	१९	कोऊ	कोह
५८	७	मूर्ति	सूर्ति
"	१९	गुडो	गोडो
५९	१५	देना	देवा
६०	७	चक्र	चक्र
६१	६	भंडे	मंडे
"	१२	मयंग	मंगल
"	१६	सभय	समय
६२	८	विनाय	छिनाय
"	१९	नामा	वामा
६४	७	ठाण	थान



प्रकरण ३ रा-पद.



६७	२	भागतही	भागतहें
६८	४	बुले	खुले
"	१२	उस सिखे ठण	उस सिरखे ठण
"	१५	होयगारिं	होय गया
६९	७	श्वधांत	श्वधांत
"	१८	हटे न क्निनसूं नहि तूसना मूररटे निरंजन.	हटे न क्निनसूं रटे नि- रंजन नही तृष्णा मूर.
"	१९	रह	रहे

४०	९	प्रतपेष्ट	प्रतापष्ट
"	२१	खसरवाण	खसरवाण
४१	८	पुञ्जे	पुञ्ज्या
"	"	रिद्धया	रिद्ध्या
४२	९	घट्टे	ओट्टे
"	१८	दर्शण	दर्श
४३	९	शुणयो	शुण्यो
४४	४	कृष्णे ते	कृष्णे
"	९	पचागन	पचामि
"	१३	अगळ	भागळ
४५	१	मुणही	मुणहो
४६	४	छमछरी	छमछर
"	८	वादळ	बावळ
४७	१६	इसढो	इसढो
"	१७	इसढो	इसढो
४८	२१	अरूप	वरूप
५०	१४	नित्यसु	नित तसु
"	१५	कणी	फणी
५१	८	अभ्याने	अभ्याने
"	११	अव	अवुळ
"	१८	मास्या	माखे
"	२१	नव रेणु	नव रेणु
५३	८	देवा	देव
५४	५	आनिदहिकदनि	आनदहिकदन
"	२०	मसु शुण सागर पार न	मसु शुण पारन सागर

८९	१८	त्रम	ब्रह्म
९०	१४	जाइ	जाय
"	१८	चंदा विन सूरज निश- दिन	विन चंदा विन सूर- ज निशदिन
९३	४	सुर वसे	सुखसे
"	१२	लेजावे	लेजासी
"	"	चलेरारे	चलेलारे
९४	४	रे चेतन पोते तूं परना	रे चेतन पोते तूं पापी परना
"	७	क्यूं लूटे	किम लूटे

प्रकरण चौथा--स्तवन.

९६	६	देव	देह
"	१०	पांपां	पाया
"	१८	नेसीसर	नेमि सर
९७	३	विण	पिण
"	५	राषी	राखी
"	१०	दुषणी-	दुःखणी
"	"	चीव पडयो	जीव पडयो
"	१६	सुषे	सुखे
९८	१	घारो	खारो
"	३	रंग	संग
"	१६	मारथ छारे	मार पछारे

६९	११	कसूर	करूर
"	२०	मोर	मोह
"	२२	कचन	कचन
७०	७	मिलहे	मिछे
७१	७	पठि	पदि
"	२०	सटाप	ओटाप
"	२१	पिपे	पिपे
७२	३	पुरखा	पुरुपा
"	७	सष्टा	शब्दा
७३	९	नाथ तेरी	नाथ जगमें
"	"	पुलाया	भुलाया
७५	४	भान	भानत
"	५	सूली	भूमि
७७	४	हडग	हंग
७८	२	मानते मेरा	मानछे मेरा
७९	"	रूपहे	रूपहे
८०	९	फकर छोट	फकर छोट
"	११	जाने न	जामे जो
८१	८	दिय	दिव्य
८१	१३	इस्त नमे	इस्त तनमें
८२	१६	देह पाई	देह पार्ई
"	१७	निस्थ्या	निरया
८४	१९	खान रही	खान रही
८५	९	दिल्लमेई समाई	दिल्लमे समाई
८६	१	छेब	नष

८९	१८	ब्रम	ब्रह्म
९०	१४	जाइ	जाय
"	१८	चंदा विन सूरज निश- दिन	} विन चंदा विन सूर- ज निशदिन
९३	४	सुर वसे	
"	१२	लेजावे	लेजासी
"	"	चलेरारे	चलेलारे
९४	४	रे चेतन पोते तूं परना	} रे चेतन पोते तूं पापी परना
"	७	क्यूं छूटे	


प्रकरण चौथा--स्तवन.

९६	६	देव	देह
"	१०	पांपां	पाया
"	१८	नेसीसर	नेमि सर
९७	३	विण	पिण
"	५	राषी	राखी
"	१०	दुषणी-	दुःखणी
"	"	चीव पढयो	जीव पढयो
"	१६	सुषे	सुखे
९८	१	षारो	खारो
"	३	रंग	संग
"	१६	मारथ छारे	मार पछारे

९८	१८	तपोघनी	तपोघनी
९९	२	अपरारे	अपरारे
१००	२	बेछाई	छेछाई
"	४	सुह नाई	सुह माई
"	५	सुटफकै	सुटफकै
"	१४	करन	देखन
"	१८	दयो	दियो
"	२१	जोसरोरे,	जोसरोरे,
१०१	८	घारे	घाने
१०२	१३	सुवाता	सुवाता
"	२३	मकर	मकरजो
१०५	१०	हृदय चरब	हृदय चरब
"	११	के	छे
१०६	१	जूल	झुळे
"	८	॥ श्र० ॥ १ ॥	॥ स० ॥ १ ॥
"	९	भूम मठी	भूम मठी
"	१	मिस	मिस
१०७	१	हक कमी	हक कमी
"	१७	लिप्योसु	लिप्यो सो
"	१४	मरे	बरे
१०८	१६	इसमो	इसमो
"	२२	दिनीयो	दिजो
१०९	१	घारो	घारो
"	"	माणो	भाजो
"	२	मितरा	नितरा

१०९	१४	एक	एह
"	१९	फल	०
११०	४	सिरघणी	शिर धणी
"	१३	श्रीफलवद्धी	श्री जगपति
"	१७	वात	रात
१११	२	मानी	मांनो
"	१४	काड	पाड
"	१७	छेल	ठेल
"	२०	फलक	पलक
११२	४	अव	०
"	१५	किन	किम
"	१९	कै	कहे
११३	४	हुलसी	हुलसी
"	६	कहोम	क दौड
"	१५	पांणी	आंणी
"	२५	भेल	भिन्न
११५	१	वलिघन	वलिधन
"	५	द्वार जरे देत	द्वार जरे न देत
"	१५	मोचे	मोचे
"	१६	घल	विन
११६	११	जस वांण	जसमांन
"	१४	पुन्हा	पुनः
"	१६	जीशे	जीरो
"	१९	उपजे	उपज्यो
"	२२	विगज	विगय

११७	१२	मोढे	मांढे
११८	१	जान	जात
"	३	ढर	ढरके
"	४	फिर	०
११९	४	वेठा	घेठा
"	३	वेम	वैम
"	"	"	"
१२०	७	बहु	बहु
१२२	१०	भातु	भातू
११४	३	निंदा कर पराई	निंदा म कर पराई




प्रकरण ५ वा-लावणी




१२४	११	कबा	बबा
"	१५	सरमे	रसीये
१२५	५	मब विकार	सब विकार
१२६	१२	परया	पच्या
१३०	१०	मरण	मरण
"	२१	ध्यास्मानो	ध्यास्मानो
१३१	८	ऊपमयाबे	ओपम पाबे
१३३	६	हे	पह
१३४	४	मिलाना	मिलाना
"	१३	दोब	दो
१३५	४	बिषामा ना	बिषाना
"	८	पर पर पद	पर पद

१३६	१	मायाके	मायामे
१३९	१७	गोध	गोद
"	१९	विचू	विछु
१४१	१०	टूटी	टूटी
१४२	१४	फुरमाते	कहते
१४३	८	जग	जब




प्रकरण छठा-होरी.



१४६	१५	कुटिल	कुटिरका
१४७	११	भक्षीया	भखीया
१४८	२	वीतरागवा	वीतरागका
"	२०	अब निंदारी एह जगतमे	कर निंदा एह जगतमे
१४९	१५	नाई	दाई
१५०	१२	क्रिम तमो	०
१५१	१	सयलेशी	अलेशी
"	"	परव	पख
"	८	राग	वैराग
"	१९	हरव	हर्व.
१५२	१२	कुवला	कुब्जा
"	१५	रंसगभर	रंगभर
१५३	१९	मकर	कर
"	"	जुगति	जुगतिसे
१५४	३	मारग चूक गयोरी २	} यह दो वार छपा है परंतु } एक वार होना !



प्रकरण ७ वां—व्याख्यांन



१५६	६	घृज	ध्वजा
"	९	रत्नी	रत्ननी
१५८	५	स्यू	स्यू
१६२	१०	मछे	मछे
"	१४	नूकामी	यूकामी
१६४	७	इमारहि	इमारहि
१६५	२	छोर घो	छोट घो
१६६	१	घर २	घर २
"	१०	सुज	सुज
"	१९	सुछराती	सुभराती
१७०	९	सुनादो	सुनाषो
१७१	१७	कुम २	कुमर
"	१९	नजे अति जणकार	नजे अति जणकार
१७४	८	पडि पधोपर पास	इन्द्र आई पास
"	९	सघ	सांघ
१७५	७	पांति	पक्ति
"	१६	पूजे	पूगे
"	१७	पूजे	पूरो
१७८	६	वाडा हिमपत पाणी	} उडा हेमपत सति- रा पाणी
"	७	काडा	

१७८	२४	वस	वस
१८०	२६	ग्यांत	वन
"	२८	शक्रेद्रजे	शक्रेद्रने
"	३०	साव	पाप
१८१	३४	पारव	पाख
"	६	गाताथापति	गाथापति
"	४८	कैलामे	कैलाशमे
"	१३	घर	धर
१८२	१६	उशध्येन	उत्तराध्येन
१८३	९	लही केवल निज रूप रत-	लहो केवल गौतम
		न निज	तत्क्षिणही.
१८४	११	सारवी	सारवी
"	१९	भांयोए	भांयोए
१८६	१५	भोया	भोपा
"	१६	साहे	साह्य
१९०	६	धवराई	धवराई
"	१७	भेली	लीजे
१९३	१३	काय	काप
१९४	२०	यतः	०
१९७	२३	गीरवाना	गरवाना
१९८	७	लाहा	लावा
२०२	१७	सिधश्री	सिधश्री
२०३	१०	वल	वदल
"	११	बहु चमू	सव सैन्य
२०५	१	भविषण	०
"	७	सही	गही

२०५	१२	श्रीष	सीष
२०६	९	किष्पू षरी है	मानूषरिहे
"	१५	भ्यासो	व्यासो
"	२१	विससूनी	विसससूनी
२०८	९	मुवागल	मुवागल
"	१०	दाजे	बाजे
२१०	९	करीजेमी	करीजे राज
२११	४	मानेकू	आनेको
"	८	नये	नवये
"	१	शृगारकी	शृगार करी
२१२	१	जलिके	अलिके
२१४	०	घारू घारू	घारू घारू

अथ द्वितीय खंड

२१९	नारकी यप्रमे ६	९९९९५	एक सात (१०००००)
२२२	१३	चुचर	चचर
"	५	चुचर	चचर
२२५	१६	रिठा	अरिठा
"	२०	"	अच्युत देवलोक (१२)
२२७	५	अगधे	अगधे
२३०	१६	निद्रा	निद्रा
"	"	निद्रा निद्रा	निद्रा निद्रा

२३०	१७	निद्रा	निद्रा
२३१	४	क्रोध	क्रोध
२३३	१७	इर्षा	इर्षा
२३४	२३	ऊज	ऊजलो
"	५	जाचवा	जाचना
२३७	१	अरस	सरस
२३९	९	गुणग्रान	गुणग्राम
"	१७	(अर्थः)	०
२४०	८	सधरमी	स्वधरमी
२४२	२१	सभाव	स्वभाव
२४३	१०	खडा	खद्ग
२४८	११	नै	नय
२४९	२	सिद्धां श्री	सिद्धांआश्री
"	७	कहवेछे	कहेछे
२५०	१४	संसे	संशय
२५५	२२	भाषादिकके	भाषादिक
२५६	२०	ठिई	ठिई
२५८	१६	षष्ठीमे	छष्ठीमे
२५९	१०	५-६-	६
"	८	पहली	पहली ॥ ९ ॥
२६०	८	स्थितीमें	स्थिती
२६१	१३	नही	वर्नी
२६२	२३	तेउ	तेउनी
२६३	११	सुझा	सुझ

२६४	५१	तेजनीर्त्तनी	तेजनी
२६५	३	षेरिंद्री	षेरिंद्री
"	१३	तेइद्रिने	तेइद्रिने
२७०	४	पांच माविदेह	पांच महाविदेह
२७१	११	"	"
२७४	२१	सुमति	सुमति
३०७	१८	पाषो	पाषे
"	१०	षय	षय
३५४	९	फसभी	असभी
३५५	१२	पदणे	पदने
"	४	मनुष्यनी	मनुष्यणी
"	५	अयापना	अपयाप्ता
"	१२	समूर्द्धम्	समूर्द्धिम्
३६२	७	सच	सत्य
"	१०	विहार	व्यवहार
३६३	१२	षीरी	षिर्य
३६४	४	अभोग	शुभ योग
३७७	५	नानादिक	स्नानादिक
"	१४	पांचमी	पांचमे
३८०	२०	भवसिया	भवसिद्धिया
३८५	२२	अनत	अनतगुणा
३८६	१	अवधि	अवधि नाणी
"	१२	भोग	भुग
३८७	६	पउणे	पउण

३९८	२	५ सत्री तिर्यचका अपर्याप्ता	} ५ सत्री तिर्यचका पर्याप्ता अपर्याप्ता
"	३	वन	
"	५	१०	०
३९९	४	१०१ मनुष्य असंख्यानी०	} १०१ समुच्चिम म- नुष्य
३९९	"	१७१	
४००	५	देवलोक	देवताना
४०४	३	तित्ये	तित्ये
४१८	२३	राग	राग द्वार
४१९	३	कल्प	कल्प द्वार

अन्तिम पृष्ठ श्लोक	अशुद्ध	शुद्ध
०	१ श्रीमद्द	श्रीमद्
"	१ शिष्या	शिष्य
	४ सुमहलं	सुमंगलं
मुनिवरेण्वभ्य- र्थना	४ पढाब्ज	पदाब्ज

(१) "सिद्धांत शिरोमणि" की अन्त 'णि' ह्रस्व रहना चाहीये.

(२) जहां ' प्रकरण पहिला अकलंक स्तोत्र ' हे, वहां " प्रकरण पहिला स्तोत्र " एसा होना.

(३) जहां ' प्रकरण द्वितीय छन्द. ' हे, वहां ' प्रकरण दूसरा छन्द ' यह होना.

(जाहिर खबर)

वाचक वर्ग !

इसके सिवाय और भी कहीं जगह बहुत अशुद्धियों (इस्का
दीर्घ मुत्त स्वल्पविराम अर्द्धविराम पूर्णविराम पदच्छेद इत्यादि)
रह गई हैं जिस्को सर्व स्वधरमी बहु सुधारके परोंगे एसी आज्ञा है-

(नोट) इस्मे ग्रय कर्त्ताछा ओर देस मालिकका कोई दोष
नहीं है.

आपका हितैषी

मगनमल गणेशमल कसवा-

मु० हिंजणघाट

जि० बर्षा (सी पी)



